

सिंदूर में

क्या छिपाऊ?

साँदर्य या सुवर्ण?

सुर्ण व सिंदूर

अन्य दाय्य कहे हि ??

समय तो इन दोनों का रहना है।

अप स्वयं सिंदूर है।

कने इने सुर्ण की जाड इम दे दे।

करी गरी का उन्ना कम्म।

शिरात का एक उन्ना तर।

पा ही

शिरात के लय उन्ना व ल

उन्ना वना सही कारा

स्वादेशिका गुफुटवाणी



रतनलाल सी याफना
ज्वेलर्स

ज्वेलर्स गुजराट रोड बल्लारु २०१

फोन ३०३ ५६३ ४३३२

॥ ॐ हं श्री अर्हं नमः ॥

समग्र जैन चातुर्मास सूची

वर्ष 1

1993

अंक 1



स्थानकवासी



मूर्तिपूजक



तेरापंथी



दिगम्बर

अ भा. समग्र जैन सम्प्रदायों (श्वे मूर्तिपूजक, स्थानकवासी, तेरापंथी एवं दिगम्बर सम्प्रदाय) के लगभग दस हजार सभी पूज्य जैन आचार्यों, मुनिराजों एवं साध्वियाँजी म. सा. के सन् 1993 वर्ष के चातुर्मास का पूर्ण एवं प्रमाणिक बृहद् सूची ग्रंथ

संप्रेरक :

अनुयोग प्रवर्तक, पं. रत्न श्री कन्हैयालालजी म. सा. 'कमल'

दिशा निर्देशक :

प्रवर्तक श्री रूपचन्दजी म. सा. 'रजत'

उप-प्रवर्तक, सलाहकार, श्री सुकनमुनिजी म. सा.

सम्पादक-संयोजक

श्री बाबूलाल जैन 'उज्ज्वल'

बम्बई

अ.भा समग्र जैन चातुर्मास सूची प्रकाशन परिषद

105, तिरुपति अपार्टमेंट्स, आबुली क्रॉस रोड न 1,
रेलवे स्टेशन के पास, वादिवनी (पूर्व), बम्बई-400 101
फोन 8881278

परिषद द्वारा प्रकाशित साहित्य 1993

- 1 समग्र जैन चातुर्मास सूची 1993पृ 500 मूल्य 25/-
- 2 स्यानकवासी जैन चातुर्मास सूची चार्ट (भाग प्रथम) (हिन्दी आवृत्ति) नि:शुल्क
- 3 स्यानकवासी जैन चातुर्मास सूची चार्ट (भाग द्वितीय) (गुजराती आवृत्ति) नि शुल्क
- 4 बम्बई महानगर म्या जैन चातुर्मास चार्ट (गुजराती आवृत्ति) नि शुल्क
- 5 बम्बई महानगर म्या जैन चातुर्मास चार्ट (हिन्दी आवृत्ति) नि शुल्क
- 6 जैन समाज विश्व रिवाडं डायरेक्ट्री पृ 40 मूल्य 10/-
- 7 समग्र जैन पत्र पत्रिका डायरेक्ट्री पृष्ठ 24 मूल्य 5/-
- 8 जैन एकता सन्देश (मासिक) वार्षिक शुल्क मूल्य 25/-

इच्छुन महानुभाव अपनी प्रति शीघ्र मगा लें।

पेज फोटो सम्पोजिंग

- 1 श्री राजू भाई, त्रियेडिव पेज सेटर, फोर्ट, बम्बई
फोन-225784
- 2 श्री प्रवीण भाई, श्री टोनिक् टाइप सेटर, दादर, बम्बई
फोन-4228777
- 3 मूख पृष्ठ आवरण छायाकार श्री मोरारजी भाई छेडा,
बम्बई

सहयोग राशि सागत मूल्य 50/- प्रचारार्थ अल्प मूल्य 25/-
वि सवत् 2050 (गुजराती 2049)

वीर सवत 2519

ईस्वी सन 1993

सूद्र क नईदुनिया प्रिंटरी,

60/1, वानू लाभचद छजलानी भाग,

इन्दार-452009 (म प्र)

फोन न 61400-62061-62-63 (कोड 0731)

प्राप्ति स्थान

1 श्री बाबूलाल जैन 'उज्जवल' (संपादक)
प्रकाशक वा पता

2 श्री बाबूलाल जैन घोरवाल

C/O जैन विराणा भण्डार, 70, रामगज (जिन्सी)
मेन रोड, इन्दौर-452002 (म प्र)

3 नूतन राजुमणी ट्रांसपोर्ट प्रा लि

दोबले भवन, 14, बर्नाक रोड, 'नोकमाय तिलक' मार्ग
बम्बई-400003 (महा)

फोन-3428969—3447709 3434172

4 श्री शांतिलाल गाँधी

महावीर भवन, इमली बाजार, इन्दौर

5 श्री डो.टी नीसर (मन्त्री)

क्वालिटी गारमेंट्स, गिरगाँव चक्के के पास,
मेजेस्टिक सिनेमा के सामने, बम्बई-400004
फोन-3857755

★ विज्ञापन शुल्क की दरें

★ समग्र जैन चातुर्मास सूची 1994

★ जैन एकता सन्देश

| (सन् 1994 के लिए नंबर पृष्ठ चतुर्थ नंबर पृष्ठ द्वितीय-तृतीय खंड विभाग सम्पूर्ण पृष्ठ सम्पूर्ण पृष्ठ अध पृष्ठ शुभवाचनार्थ) | ऑफसेट प्रिंटिंग (आर्ट पेपर चार रंगों में) (आर्ट पेपर चार रंगों में) (रगिन पेपर) (साधारण पेपर) (साधारण पेपर) (साधारण पेपर) | रुपये 7500/- 5000/- 2000/- 1000/- 500/- 300/- | रुपये (साधारण पृष्ठ) 1000/- 750/- — 500/- 300/- 150/- |
|---|---|---|---|
|---|---|---|---|

नोट —श्वे स्यानकवासी जैन चातुर्मास सूची का हिन्दी एवं गुजराती आवृत्ति चार्ट एवं बम्बई महानगर म्या जैन सूची चार्ट (हिन्दी एवं गुजराती आवृत्ति) उक्त सभी स्थानों से नि शुल्क प्राप्त करें। चार्ट को स्थानक भवन में अवश्य लगावें।

सादर समर्पण

श्वे. स्थानकवासी श्रमण संघ के तृतीय पट्टधर, संघ नायक, आचार्य प्रवर
श्री देवेन्द्रमुनिजी म.सा. के पवित्र पावन चरण कमलों में सादर समर्पित—

पूज्य पिता श्री जीवन सिंहजी, तीजा वाईजी है माता ।
सात नवम्बर सन् इकतीसा, धन तेरस जन्मे दाता ॥ 1 ॥

जन्म उदयपुर 'ओसवाल' कुल, गौत्र मिला 'बरड़िया' महान ।
खण्ड्य में पाई है दीक्षा, गुरु "पुष्कर मुनि" गुणवान ॥ 2 ॥

बहिना माता आदि ने भी, दीक्षा कुल में धारी है ।
गुरु आपके पुष्कर मुनिधर, जिनकी शान निराली है ॥ 3 ॥

दावन वर्ष करीब आपका, संयम काल सुहाना है ।
श्रमण संघ के तृतीय पट्टधर, जैन जगत् ने जाना है ॥ 4 ॥

आनन्द गुरु के जो हैं पट्टधर, श्रमण संघ के नायक है ।
साहित्य मनीषी आगम ज्ञाता, शुद्ध संघम के पालक है ॥ 5 ॥

संत-सती हजार से ऊपर, संघ में आज्ञाकारी हैं ।
श्रमण संघ समुदाय आपका, गुण रत्नों के धारी हैं ॥ 6 ॥

अट्टाईस मार्च तिराणमें ईस्वी, नगरी उदयपुर प्यारी है ।
आचारज की चादर ओढ़ी, महिमा बहुत ही भारी है ॥ 7 ॥

नवप्रभात की नई किरण से, स्वर्णिम हुआ उजाला है ।
देवेन्द्र गुरु के चरण पड़े, अब चमके भाग्य सितारा है ॥ 8 ॥

श्रमण संघ के नायक तेरी, महिमा अपरम्पार है ।
साहित्य सृजनाकर गुण रत्नाकर, बन्दन वारम्बार है ॥ 9 ॥

बढ़ता रहे यह संघ आपका, मंगल भावना अपित है ।
तिराणमें की चौमासा सूची, चरणों में सादर समर्पित है ॥ 10 ॥

—विनीत—

अ.भा. समग्र जैन चातुर्मास सूची प्रकाशन परिषद, बम्बई के सदस्यगण

समग्र जैन चातुर्मास सूची ग्रुप 1993 के प्रकाशन कार्य पर

हादिक आभार

❧ उन सभी पूज्य आचार्यों मुनिराजों एवं साध्वीवांजियों का जो जिन्होंने हमें हर तरह का महयोग प्रदान किया है।

❧ उन सभी महानुभावों, श्री मधों का, जिन्होंने चातुर्मास की सूचियाँ, सबलन सामग्री, सुझाव अभिमत आदि भेजकर हमें महयोग प्रदान किया है।

❧ बम्बई, इन्दौर, दिल्ली, अहमदाबाद, जलगाव, सुधियाना, राजनादगाव, गाजियाबाद, रायपुर, रजलाम, बंगलोर, आगरा, दुर्ग, सुरेन्द्रनगर, उदयपुर, आदि शहरों के महानुभावों का जिन्होंने परिषद् के प्रमुख स्तम्भ, सरक्षण, आजीवन सदस्य बनने की महर्ष स्वीकृति प्रदान कर परिषद् की आर्थिक नींव सुदृढ़ बनाने में पूरा-पूरा हादिक सहयोग प्रदान किया है। जिनके आर्थिक सहयोग से यह कार्य सफल हो पाया है।

❧ उन सभी दानवीर विभापनदाताओं का जिनके अथ सहयोग से ही यह कार्य सफल हो पाया है।

❧ उन सभी पुस्तक भेंट योजना में भाग लेने वालों एवं स्थानवासी हिन्दी एवं गुजराती चाट एवं बम्बई महानगर चाट, हिन्दी गुजराती आवांशियों के सौजन्य दाताओं का जिन्होंने हमें पूरा महयोग प्रदान किया है। भेंट योजना से इस वर्ष भी हमें काफी राहत मिली है।

❧ परिषद् के सभी शाखा प्रतिनिधियों का जिन्होंने हमें पूरा सहयोग प्रदान किया है।

❧ परिषद् के उन सभी पदाधिकारियों, सदस्यों मागदर्शक सलाहकारों प्रतिनिधियों एवं सहयोगी कार्यकर्ताओं का, जिन्होंने तन, मन, धन का हर तरह का महयोग परिषद् को सहज प्रदान किया है जिनके हादिक सहयोग से ही यह कार्य इतना सफल हो पाया है।

❧ उन सभी पत्र-पत्रिकाओं के सम्पादकों का जिन्होंने इस कार्य के लिये हर तरह का पूरा सहयोग हमें प्रदान किया है।

❧ नईदुनिया प्रिन्टरी, इन्दौर के व्यवस्थापकों एवं प्रिन्टरी बम्बई, क्रियेटिव पज मेकर बम्बई, श्री टोपि बम्बई आदि उनके सहयोगियों का जिन्होंने यह कार्य निरंतर गत 11 वर्षों की भांति इस वर्ष भी समय में पूरा करके हमें दिया है।

❧ अतः आप सभी का हमें हृदय से बहुत आभार व्यक्त करते हैं एवं आशा करते हैं कि भविष्य में भी आप हर तरह का हादिक सहयोग प्रदान करते रहेंगे। आशा के साथ—

—आपके आभारी

—परिषद् के सभी

(3) यह सूची पुस्तक समग्र जैन समाज के हर वर्ग तक पहुँचती है और फिर जब किसी समुदाय की पुस्तक में प्रकाशित नहीं होती तो वह उस समुदाय के लिए एक चुनौती बन जाती है सभी का ध्यान उस दिख जाता है अतः समुदाय के पदाधिकारियों को यही नम्र निवेदन है कि आप अपने समुदाय के समग्र जैन समाज के लिए अपनी पूरी सूची यहाँ भेजें ऐसा मेरा एक सुझाव, नम्र विनती है, यह पुस्तक सम्पूर्ण विषय के जैन समुदाय के हर वर्ग के पास पहुँचती है।

—११५

किसी भी सामयिक शुभ पर परिषद् को सहयोग

अवश्य प्रदान करें

अनुक्रमिका

क्र.स विवरण / संप्रदाय का नाम पृष्ठ संख्या

भाग पथम

| | |
|------------------------------------|----|
| सादर समर्पण | 3 |
| चातुर्मास सूची भेट योजना सूची | 7 |
| संत-सती परिचय एव सदस्य परिचय फोटों | 9 |
| प्रकाशकीय | 81 |
| सम्पादकीय | 85 |
| कार्यकारिणी सदस्य सूची | 89 |
| आय-व्यय का लेखा | 94 |
| शाखा कार्यालय सूची | 91 |
| समग्र जैन तालिका एवं सारिणिया | |
| विज्ञापनदाताओं की अनुक्रमिका | |
| गाँवों/शहरों की अनुक्रमिका | |

भाग द्वितीय

(1) श्वे. स्थानकवासी श्रमण संघ सम्प्रदाय

आचार्य श्री देवेन्द्र मुनिजी म.सा. के आज्ञानुवर्ती संत सतियाँजी के चातुर्मास स्थल प्रान्तः—

| | |
|--------------------------|----|
| प्रान्त | |
| (1) राजस्थान | 3 |
| (2) तमिलनाडू | 9 |
| (4) कर्नाटक | 10 |
| (4) आन्ध्रप्रदेश | 11 |
| (5) महाराष्ट्र | 12 |
| (6) उत्तर भारतीय प्रान्त | 16 |
| (7) गुजरात | 23 |
| (8) मध्यप्रदेश | 24 |
| अन्य संत सतियाँ | 27 |

क्र सं विवरण/सम्प्रदाय का नाम पृष्ठ संख्या

(2) स्वतंत्र सम्प्रदाय

| | |
|--|----|
| समता विभूति आचार्य श्री नानालालजी म सा. | 31 |
| ज्ञान गच्छाधिपति तपस्वीराज श्री चम्पालालजी म.सा. | 39 |
| आचार्य श्री हीराचन्द्रजी म सा. | 47 |
| आचार्य कल्प श्री शुभचन्द्रजी म.सा. | 51 |
| आचार्य श्री सोहनलालजी म.सा. | 53 |
| प्रसिद्ध वक्ता श्री सुदर्शनलालजी म सा. | 55 |
| तपस्वी प.र. श्री मान मुनिजी म.सा. | 57 |
| स्व. उपाध्याय श्री अमर मुनिजी म.सा. | 59 |
| वर्धमान वीतराग सघ | 61 |
| अन्य संत सतियाँजी | 61 |

(3) वृहद गुजरात सम्प्रदाय

| | |
|------------------------------------|-----|
| गोंडल मोटा पक्ष सम्प्रदाय | 65 |
| छ कोटी लिम्बड़ी मोटा पक्ष संप्रदाय | 71 |
| दरियापुरी आठ कोटि सम्प्रदाय | 79 |
| लिम्बड़ी गोपाल संघवी सम्प्रदाय | 83 |
| आठकोटि कच्छ मोटा पक्ष सम्प्रदाय | 87 |
| आठ कोटि कच्छ छोटा पक्ष सम्प्रदाय | 91 |
| खंभात सम्प्रदाय | 93 |
| बोटाद सम्प्रदाय | 95 |
| गोंडल संघाणी सम्प्रदाय | 97 |
| वरवाला सम्प्रदाय | 99 |
| सायला सम्प्रदाय | 101 |
| हालारी सम्प्रदाय | 103 |
| वर्धमान सम्प्रदाय | 105 |
| अन्य संत सतियाँ | 105 |

भाग तृतीय

श्वे तेरापथी सम्प्रदाय

श्री श्वेताम्बर तेरापथी समुदाय

| क्र.सं. | विवरण/सम्प्रदाय का नाम | पृष्ठ संख्या |
|---------|------------------------|--------------|
|---------|------------------------|--------------|

भाग चतुर्थ

श्वे मूर्तिपूजक सम्प्रदाय

| | |
|---|-----|
| आचार्य श्री विजय प्रेम सूरेश्वरजी म सा का समुदाय (भाग "प्रथम") | 129 |
| आचार्य श्री विजयप्रेम सूरेश्वरजी म सा का समुदाय (भाग "द्वितीय") | 145 |
| आचार्य श्री नेमी सूरेश्वरजी म सा का समुदाय | 153 |
| आचार्य श्री सागरानन्द सूरेश्वरजी म सा का समुदाय | 157 |
| पन्दास श्रीधर विजयजी म सा डेहलावाला का समुदाय | 169 |
| आचार्य श्री विजय वल्लभ सूरेश्वरजी म सा का समुदाय | 175 |
| आचार्य श्री विजय बुद्धिसागर सूरेश्वरजी म सा समुदाय | 181 |
| आचार्य श्री विजय नीतिगुरुसूरेश्वरजी म सा का समुदाय | 187 |
| आचार्य श्री विजय लखि सूरेश्वरजी म सा का समुदाय | 195 |
| श्री मोहनलालजी म सा का समुदाय | 199 |
| आचार्य श्री विजय मोहन सूरेश्वरजी म सा का समुदाय | 203 |
| आचार्य श्री विजय भक्ति सूरेश्वरजी म सा का समुदाय | 209 |
| आचार्य श्री विजय कनक सूरेश्वरजी म सा (वागडवाला) का समुदाय | 215 |
| आचार्य श्री विजय सिद्धि सूरेश्वरजी म सा का (बापजी म) समुदाय | 223 |

| क्र.सं. | विवरण/सम्प्रदाय का नाम | पृष्ठ संख्या |
|---------|------------------------|--------------|
|---------|------------------------|--------------|

| | |
|---|-----|
| आचार्य श्री विजय केशर सूरेश्वरजी म सा का समुदाय | 227 |
| आचार्य श्री विजय हिमाचल सूरेश्वरजी म सा समुदाय | 233 |
| आचार्य श्री विजय शोतीचंद्र सूरेश्वरजी म सा समुदाय | 237 |
| अचलगच्छ (विधि पदा) समुदाय | 239 |
| छरतराच्छ समुदाय | 247 |
| त्रिस्तुति समुदाय (भाग प्रथम) | 257 |
| त्रिस्तुति समुदाय (भाग द्वितीय) | 259 |
| त्रिस्तुति समुदाय (भाग तृतीय) | 263 |
| पाशवचंद्र गच्छ समुदाय | 265 |
| विमल गच्छ समुदाय | 269 |
| अन्य समुदाय के साधु माध्वीयों | 270 |
| प्रगतिशील समुदाय | 271 |

भाग पंचम

दिगम्बर समुदाय

| | |
|----------------|-----|
| दिगम्बर समुदाय | 273 |
|----------------|-----|

भाग षष्ठम

अन्य जानकारियाँ

| | |
|----------------------------------|----|
| नई दीक्षा सूची एवं तालिका | 1 |
| समग्र जैन नई पदवी प्रदान सूची | 13 |
| बाल धर्म सूची एवं तालिका | 16 |
| उच्च शिक्षा प्राप्त सनसती सूची | 20 |
| राष्ट्रीय सच अध्यक्ष सूची | 26 |
| जैन माहित्य पुरस्कार सूची | 24 |
| गच्छाधिपति आचार्य सूची | 28 |
| शाकाहार प्रचार सस्थाए सूची | 33 |
| आचार्य (पठवर्षीय) पद प्रदान सूची | 35 |

भाग सप्तम


विज्ञापन

चातुर्मास सूची भेंट योजना-1993

समग्र जैन चातुर्मास सूची 1993 पुस्तकें साधु-साध्वियों, श्री संघों
संस्थाओं को भेंट करनेवाले भेंटकर्ताओं की नामावली

| भेंट पुस्तकों की संख्या- | भेंटकर्ता का नाम एवं विवरण |
|--------------------------|--|
| 200 | जीवन प्रकाश योजना की अध्यक्ष श्रीमती सुलोचना देवी पुखराज लुकड़, वम्बई की ओर से श्वेताम्बर स्थानकवासी जैन साधु-साध्वियों को सप्रेम भेंट। |
| 200 | अ. भा. श्वे. मूर्ति. जैन कान्फेन्स एव परिषद् के अध्यक्ष एवं सुप्रसिद्ध दानवीर श्रेष्ठीवर्य श्री दीपचन्द भाई गार्डी, वम्बई की ओर से श्वेताम्बर मूर्तिपूजक साधु-साध्वियों को सप्रेम भेंट। |
| 135 | भारत जैन महामण्डल के अध्यक्ष एव परिषद् के मंत्री श्री रमेशचन्दजी जैन, दिल्ली की ओर से दिगम्बर समुदाय एवं श्वेताम्बर तेरापथी समुदाय के साधु-साध्वियों को सप्रेम भेंट। |
| 100 | अ भा. श्वे. स्था. जैन कान्फेन्स के उपाध्यक्ष एवं परिषद् के सहमंत्री श्री नृपराजजी जैन, वम्बई की ओर से श्रमण संघ के साधु-साध्वियों को सप्रेम भेंट। |
| 100 | अ. भा. श्वे. स्था. जैन कान्फेन्स के अध्यक्ष श्री वंकटलालजी कोठारी, पूना की ओर से श्रमण संघ के साधु-साध्वियों को सप्रेम भेंट। |
| 100 | अ. भा. श्वे. स्था. जैन कान्फेन्स के उपाध्यक्ष, मध्यप्रदेश शाखा के अध्यक्ष एवं परिषद् के मंत्री श्री नेमनाथ जी जैन, (प्रेस्टीज) इन्दौर की ओर से श्वेताम्बर स्थानकवासी साधु-साध्वियों को सप्रेम भेंट। |
| 75 | अ भा. ज्ञान गच्छ श्रावक संघ के अध्यक्ष एवं परिषद् के सदस्य श्री जसवंत भाई सी. शाह (वायोकेम) फार्मा.), वम्बई की ओर से ज्ञान गच्छ समुदाय के चातुर्मासिक क्षेत्रों के श्री संघों एवं वृहद् गुजरात सम्प्रदायों के साधु-साध्वियों को सप्रेम भेंट। |
| 60 | राजकोट श्वे. स्था. जैन श्री संघ के अध्यक्ष एव परिषद् के उपाध्यक्ष श्री नगीनभाई विराणी, राजकोट की ओर से गोंडल मोटा पक्ष एवं गोंडल संघाणी समुदाय के साधु-साध्वियों को सप्रेम भेंट। |
| 75 | अ. भा. अचलगच्छ जैन संघ के अध्यक्ष एवं परिषद् के उपाध्यक्ष श्री वशनजीभाई लखमशीभाई शाह, वम्बई की ओर से अचलगच्छ समुदाय के साधु-साध्वियों को सप्रेम भेंट। |
| 60 | अ. भा. जैन श्वेताम्बर खरतरगच्छ महासंघ के अध्यक्ष श्री हरकंचदजी नाहटा, दिल्ली की ओर से खरतर-गच्छ समुदाय के साधु-साध्वियों को सप्रेम भेंट। |
| 60 | श्री अजरामर जैन युवा संघ, वम्बई की ओर से लिम्बड़ी स्थानकवासी छः कोटी मोटा पक्ष समुदाय के साधु-साध्वियों को सप्रेम भेंट। |
| 40 | युवा जागृति आचार्य प्रवर श्री विजय गुणरत्न सूरीश्वरजी म. सा. की सद्प्रेरणा से संघवी भेरुधलजी हकमा-जी वाफना, मालगाँव वालों की ओर से आचार्य प्रवर श्री भुवन भानु सूरीश्वरजी म. सा. के चातुर्मासस्थ मुनिराजो को सादर सप्रेम भेंट। |
| 35 | श्री सागरानन्दसूरीजी म. सा. समुदाय के गच्छाधिपति आचार्य श्री दर्शन सागर सूरीश्वरजी म. सा. की प्रेरणा से श्री सागर समुदाय के मुनिराजो को सप्रेम भेंट। |

- 30 परिषद के अध्यक्ष श्री जयन्तीभाई धर्मशीभाई तृयी, विचपागनी, घम्टई की आर म दग्यापुरी ममुदाय के माधु-नाधिव्या का सप्रेम भेंट।
- 30 अ मा माधुमार्गी जैन भगता युवा सघ के अध्यक्ष एव परिषद् के सदस्य श्री उमरावामिहजी आन्तवान, भायदर, बम्बई की आर म माधुमार्गी ममुदाय क चातुर्मासिक क्षेत्रों के जैन श्रीमठा का सप्रेम भेंट।
- 25 त्रिभुक्तिक गच्छ ममुदाय के गच्छाधिपति आचाय श्री जयन्त मन सूरेश्वरजी म मा की मद्प्रेरणा मे श्री श्वे जैन सघ, नैनीत की आर म त्रिस्तुतिक सघ ममुदाय के माधु-नाधिव्या का सप्रेम भेंट।
- 25 श्री जैन विश्व भारती लाडन (राज) की आर म श्वेताम्बर तेलपयी ममुदाय के श्रमण-श्रमणिमा का सप्रेम भेंट।
- 26 श्रीमती अरुणा अविदभाई धर्मशीभाई तृयी, विचपावली, बम्बई की आर मे म्यानवासी, लिम्बई गोपाल ममुदाय के माधु-नाधिव्या का सप्रेम भेंट।
- 25 श्री धीमूलालजी बालचंदजी पारख, दुग (भद्र) की आर म माधु-नाधिव्या एव स्नेहीजना का सप्रेम भेंट।
- 25 परिषद के अध्यक्ष श्री जयन्तीभाई ग्गनाथभाई दाशी (गुजरात मविग वाले), बम्बई की आर म म्यानव-वामी बहद ग्गनाथ ममुदाय के माधु-नाधिव्या का सप्रेम भेंट।
- 25 आचाय श्री केशरसूरेश्वरजी म की ममुदाय के आचाय श्री विजय हमचद्र सूरेश्वरजी म मा की मद्-प्रेरणा म श्वे जैन श्री सघ, देगवीर की आर म श्री केशरसूरेश्वरजी ममुदाय के माधु-नाधिव्या का सप्रेम भेंट।
- 25 भारत जैन महामण्डल के कोषाध्यक्ष एव परिषद् के सदस्य श्री शान्तिप्रसाद जैन (भाण्डवी-चैव) की ओर मे श्वेताम्बर मूर्ति ममुदाय के माधु-नाधिव्या का सप्रेम भेंट।
- 25 श्वे त्पागच्छीय श्री नागरानन्द सूरेश्वरजी म मा के ममुदाय के आचाय श्री सूर्योदय सागर सूरेश्वरजी म मा की मद्प्रेरणा स जैन श्वेताम्बर मूर्तिपूजक सघ, बासवाडा की आर म इनके ममुदाय के माधु-साधिव्या का सप्रेम भेंट।
- 25 श्री व स्या जन श्रावण सघ (मेवाड) बम्बई के सम्पादन, ट्रस्टी, पूव अध्यक्ष एव परिषद् के सदस्य श्री मीठालालजी मिश्री (एम के टेक्सटाइल्स) बम्बई की आर मे पूज्य माधु साधिव्या का सप्रेम भेंट।
- 20 श्री साधुमार्गी जन सघ बम्बई के सदस्य एव परिषद् के सदस्य श्री गहरीनानजी जैन (उदयपुर वाले) बम्बई (मंसन के मी मेटन) की आर स श्री साधुमार्गी ममुदाय के चातुर्मासिक श्री सघों को सादर भेंट।
- 10 भारत जैन महामण्डल के उपाध्यक्ष एव परिषद के सहमत्री श्री विशोरचन्द्रजी शर्मा बम्बई की ओर मे श्री त्रिस्तुतिक सघ ममुदाय के साधु-नाधिव्या का सादर भेंट।
- 20 आचाय श्री विजय रामचन्द्रसूरेश्वरजी म मा के ममुदाय के पयाम श्री हमभूषण विजयजी म मा की मद्प्रेरणा मे श्री मूलचन्द्रजी भाणेशलालजी परिवार कादिवली-बम्बई की आर म इनके ममुदाय के आचार्यों का सप्रेम भेंट।
- 10 श्री बजरपतानजी महावीरप्रसादजी जैन मरफ, मवाईसाधापुर (राज) की आर मे रत्नवहा ममुदाय के माधु साधिव्या क हा रहे चातुर्मास म्यलो के श्रा सघा का सप्रेम भेंट।
- 20 आचाय श्री लक्ष्मिसूरेश्वरजी म के ममुदाय के आचाय प्रवर्ग श्री विजय अगोवरतन सूरेश्वरजी म मा की मद्प्रेरणा मे श्री दीपचन्द्रजी भीकाजी गाधी (वी के गाधी), दावणगिरी (कर्नाटक) की आर मे इनके ममुदाय के माधु-नाधिव्या का सप्रेम भेंट।



भाग-प्रथम

जीवन-परिचय एवं फोटो
सारणियां एवं तालिकाएँ
अनुक्रमणिकाएँ
अन्य जानकारीयाँ

भक्तामर स्तोत्र का परमार्थ बोध : रोचक अनुभूति प्रधान शैली में

भक्तामर स्तोत्र : एक दिव्य दृष्टि

□ भक्ति साहित्य के अद्भुत/अमर स्तोत्र काव्य पर विदुषी विचारक साधनाशील साध्वी डॉ दिव्य प्रभाजी द्वारा तार्किक एवं वैज्ञानिक दृष्टि युक्त भक्ति और बुद्धि समन्वित विवेचन तथा साधना के अनुभूत प्रयोग । □

जैन जगत् में एक अभिनव प्रकाशन भक्ति साहित्य की वेजोड कृति मूर्धन्य मनीषियों के चिन्तन की कसौटी पर—

○ श्री दिव्य प्रभाजी ने प्रतिभा का श्लाघनीय उपयोग करके भक्तामर स्तोत्र के श्लोकों में अन्तर्निहित आध्यात्मिक भावना को प्रस्फुटित किया है ।

—राष्ट्रसन्त कवि श्री अमरमुनि (वीरायतन)

○ प्रत्येक श्लोक का सूक्ष्म एवं सरल विवेचन प्रशंसनीय है ।

—आचार्य श्री विजय इन्द्रदित्र सूरी जी महाराज

○ साध्वी श्री (दिव्य प्रभा) जी द्वारा किये गये भक्तामर-प्रवचन श्रद्धालुजनों की आस्था को पुष्ट आलम्बन देंगे ।

—आचार्य श्री तुलसी

○ महासती जी सरल सुलझे विचारों की विदुषी साध्वीरत्न हैं । इनकी वाणी में जादू का असर है ।

—स्व आचार्य श्री आनन्द ऋषि जी

○ भक्ति प्रिया साध्वी दिव्या ने भक्तामर स्तोत्र की साधना करके जो कुछ आध्यात्मिक अनुभूति प्राप्त की है उस परमार्थ को सहज बुद्धिगम्य शब्दों में प्रकट कर जनता पर असीम उपकार किया है ।

—डॉ साध्वी मुक्तिप्रभा

सुन्दर सुरुचिपूर्ण मुद्रण और भावयुक्त कलापूर्ण आवरण के साथ ।
मूल्य सिर्फ 51/- रुपया । शीघ्र आदेश भेजें ।

प्राप्ति स्थान

जैन पुस्तक मन्दिर
भारती भवन चौड़ा रास्ता
जयपुर

प्राकृत भारती अकादमी
यति श्यामलाल जी का उपाश्रय
भोतीसिंह भूमिओं का रास्ता
जाँहरी बाजार जयपुर



भगवान महावीर ने एक बार कहा—“कुछ लोग विद्या में श्रेष्ठ होते हैं और कुछ आचरण में, किन्तु विद्या और आचरण—श्रुति एवं शील दोनों में ही जो श्रेष्ठ होते हैं, वे ही वास्तव में श्रेष्ठ हैं, विशिष्ठ हैं।”

ज्ञान योग के साधकः—

विशिष्ट व्यक्तियों की इस श्रेणी में आचार्य श्री देवेन्द्र-मुनि जी म का नाम बड़े गौरव के साथ लिया जा सकता है। उनकी गहन विद्याभिलाषी, सतत अध्ययनशीलता और उनकी निरन्तर ज्ञानगंगा में डुबकिया लगाते देखकर मन “ज्ञान-योगी” के रूप में उनकी वन्दना करना चाहता है, जो उनकी सहज सरलता, विनम्रता, साधु-जनोचित आचार-निष्ठा और संयम-साधना में निरन्तर जागरूकता निहार कर उनका “कर्मयोगी” रूप मन के चित्रपट पर अंकित हो जाता है।

ज्ञान एवं कर्मयोगी के साथ ही वे भक्ति में भी पीछे नहीं हैं। जीवन की सरसता और संवेदनशीलता का स्रोत तो भक्तियोग के शिखरों से ही प्रस्फुटित होता है। वस्तुतः आचार्य सम्राट श्री देवेन्द्र मुनि जैसे स्नेहशील, गुणज्ञ, मधुर-भाषी और सबके साथ दूध-मित्री की तरह धुल-मिलकर रहनेवाले सन्त का जीवन ज्ञान-कर्म-भक्ति का प्रतिभा, परिश्रम एवं प्रेम का एक अक्षय निक्षर है, जिसके सान्निध्य में प्रसन्नता भी मिलती है, विचारों की ताजगी और भावना की पवित्रता भी प्राप्त होती है।

बहु आयामी प्रतिभाः—


जैन तत्त्वविद्या के विविध क्षेत्रों में मुनिश्री की गहरी पैठ है, विचारों की पकड़ है और हर विषय पर आधिकारिक रूप में लिख सकते हैं, लिखते हैं—चाहे इतिहास हो या कथा साहित्य हो, दर्शन तथा कर्म-सिद्धान्त हो, या आचार एवं संस्कृति हो, चाहे चिन्तन हो या आगम हो। उनकी लेखनी का क्षेत्र बहुत व्यापक है, उनके चिन्तन का क्षेत्र और भी विशाल है।

लेखन परिणाम की दृष्टि में भी आचार्यश्री ने जितना लिखा है, सम्पादन किया है, सम्भवतः अन्य जैन श्रमण ने आज तक इतना नहीं लिखा होगा। छोटे बड़े ग्रन्थों का संख्या 350 से ऊपर आती है। आचार्यश्री की प्रजा त्रिवेचना-प्रधान है और दृष्टि-अनुसंधान परक-ममन्वय प्रेरित है। आइए, इन प्रतिभा-पुरुष सन्त का संक्षिप्त जीवन दर्शन करके उनके महत्वपूर्ण स्वरूप को समझे।


जीवन परिचयः—

जन्म दिनांक 7 जुलाई, 1931 शनिवार कार्तिक कृष्णा त्रयोदशी (धनतेरस) को उदयपुर के प्रसिद्ध एवं सम्पन्न जैन वरडिया परिवार में हुआ। आपके पिता श्री जीवनसिंहजी वरडिया एक प्रतिष्ठित व्यवसायी थे। वचपन में ही पिता का साया सिर पर में उठ जाने के बाद माता ने आपके जीवन को संसार एवं शिक्षा से अनुप्राणित किया। आपकी माताश्री तीजावाई भी एक प्रबुद्ध-हृदया वैराग्यशीला थी, उनकी बुद्धि एवं चतुरता की सर्वत्र धाक

श्रमणसंघ के प्रथम पट्टधर आचार्य
सम्राट श्री आत्मारामजी म. सा.



श्रमण संघ के द्वितीय पट्टधर आचार्य
सम्राट श्री आनन्दऋषिजी म. सा.



पिताजी : सेठ श्री मनसारासजी चौपड़ा
माताजी : श्रीमती परमेश्वरी देवी
जन्म तिथि : भाद्रपद शुक्ला 12, वि. सं. 1939
जन्म स्थान : राहो (जालन्धर-पंजाब)
दीक्षा तिथि, स्थान : आषाढ शुक्ला 5 वि. सं. 1951
छत्तवनूड (पंजाब)
दीक्षा गुरु : श्री सालीगरामजी म सा
आचार्य पद : अक्षय तृतीया वि सं. 2009 सादडी सम्मेलन
श्रमण सघ पद : श्रमण सघ के प्रथम पट्टधर
विहार क्षेत्र : पंजाब, हरियाणा, हिमाचलप्रदेश, दिल्ली,
उत्तरप्रदेश, राजस्थान आदि ।
भाषा ज्ञान : हिन्दी, पजाबी, उर्दू, अंग्रेजी, पाली, सस्कृत,
प्राकृत, अपभ्रंश ।
महाप्रयाण : 31 जनवरी 1962, बाग नोहरियामल
विशेष : आगमज्ञ, जैनधर्म दिवाकर, साहित्य रत्न,
आगामों के प्रज्ञा प्रतीक, ज्ञान साधक,
तपोमूर्ति ।

पिताजी : श्री देवीचंदजी गूगलिया
माताजी : श्रीमती हुलसाबाई
जन्म तिथि : श्रावण शुक्ला 1 वि. सं. 1957
(26-7-1900)
जन्म स्थान : चिचोड़ी ग्राम (सहाराष्ट्र)
दीक्षा तिथि, स्थान : मार्ग शुक्ला 9 वि. सं. 1970
मिरी (सहाराष्ट्र)
दीक्षा गुरु : श्री रत्नऋषिजी म. सा.
आचार्य पद : माघ कृष्णा 9 वि. स. 2019 (30-1-63)
श्रमण संघ पद : श्रमण संघ के द्वितीय पट्टधर
विहार क्षेत्र : महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्यप्रदेश, गुजरात,
उत्तरप्रदेश, आंध्रप्रदेश, कर्नाटक, दिल्ली,
हरियाणा, पंजाब, हिमाचलप्रदेश आदि ।
भाषा ज्ञान : लगभग 16 भाषाएँ
महाप्रयाण : 28-3-1992, अहमदनगर (महाराष्ट्र)
विशेष : श्रमण सघ के आचार्य सम्राट, जैन दिवाकर,
राष्ट्रसंत, सघ नायक, आगमज्ञ, साहित्यिक,
अनेक विशेषताएँ ।

खरतर गच्छाधिपति आचार्य प्रवर
श्री जिन उदयसागर सूरीश्वरजी म सा


आचार्य श्री चिदानन्द सूरीश्वरजी
म सा.




बचपन नाम श्री देवराजजी भण्डारी
पिताजी श्री मुनतानमलजी भण्डारी
माताजी श्रीमती जतनबाई भण्डारी
जन्म तिथि फाल्गुन वदी 30 वि स 1958
जन्म भूमि मोजत (राजस्थान)
दीक्षा तिथि वि म 1988 बीकानेर (राजस्थान)
दीक्षा गुरु वीर युग आचार्य श्री जिन आनन्दसागर
सूरीजी म सा
आचार्य पद वि म 2038, जयपुर (राजस्थान)
भाषा ज्ञान हिंदी, संस्कृत, प्राकृत, राजस्थानी,
गुजराती, उर्दू आदि।
विहार क्षेत्र राजस्थान, मध्यप्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र,
उत्तरप्रदेश, त्रिहार, आंध्रप्रदेश, दिल्ली,
हरियाणा, कर्नाटक आदि।
शिष्य परिवार लगभग 200 आज्ञाकारी माधु-माधियाँ
विशेष सम्पूर्ण जैन समाज में एक मात्र वय में
सत्रमें वर्षोवृद्ध आचार्य 91 वय की वय,
खरतरगच्छ समुदाय के सभ भायक गच्छा-
धिपति। प्रभावशाली सुदीप समय के पालक
मधुर वक्ता, प रत।

पिताजी श्री हीराचंद आशाजी शाह
माताजी श्रीमती दिवाली वहिन
समारी नाम श्री चिमनलाल
जन्म तिथि वैशाख वद 9 वि स 1969 मन् 1913
जन्म स्थान सूरत (गुजरात)
पत्नी का नाम श्रीमती गजरा वहिन
वहिन का नाम सूरज वहिन
पुत्र का नाम श्री महेंद्र भाई
दीक्षा तिथि, वैशाख वद 11, वि स 2003
स्थान सन् 1957, सूरत
दीक्षा मन्थ्या स्वयं, पत्नी एवं पुत्र तीनों एक साथ
दीक्षा गुरु आचार्य श्री निपुणप्रभसूरीश्वरजी म सा
आचार्य पद 'वैश्वेद' प्रथम प्रवेशक मुनि श्री माहनलालजी
म सा के समुदाय के वर्तमान आचार्य हैं।
भाषा ज्ञान हिंदी, गुजराती, अंग्रेजी, संस्कृत, पाली
आदि
विहार क्षेत्र गुजरात, राजस्थान, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र
आदि
विशेष धार्मिक प्रवृत्तियां में मुनि जीवन के 45
वर्षों में कई सिद्धियाँ प्राप्त की, वर्तमान में
ज्ञान तप की विविध आराधनाएँ कर रहे हैं।
वैश्वेद के उपनगर वीरीवली, जामली गली
में आप चातुर्मास्य विराजमान हैं।

अ. भा. श्वेताम्बर वर्धमान स्थानकवासी श्रमण संघ समुदाय के
युवाचार्य डॉ. शिवमुनिजी म.सा. (M.A.P.H.D)



| | | | |
|---------------|---|---------------|---|
| बचपन नाम | : श्री शिवकुमार | युवाचार्य पद | : श्रमण संघ के द्वितीय पट्टधर आचार्य सम्राट श्री आनन्दऋषिजी म सा द्वारा प्रदान 13-5-1987 पूना साधु-सम्मेलन, पूना मे। |
| पिताजी | . श्री चिरजीलालजी जैन (ओसवाल जैन) | विहार क्षेत्र | : पजाब, दिल्ली, उत्तरप्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र-प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडू आदि प्रात। |
| माताजी | . धर्मशीला सौ विधादेवी | सुशिष्य | : श्री जितेन्द्रमुनिजी म. सा, श्री शैलेश-मुनिजी म. सा, श्री शिरिषमुनिजी म सा.। |
| वंश गीत्र | : ओसवाल जैन | विशेष | : श्रमण संघ के युवाचार्य, सम्पूर्ण जैन समाज में एक मात्र ऐसे युवाचार्य है जो डॉ., एम ए.पी एचडी उपाधि प्राप्त किये हुए है। प्रभावशाली युवाचार्य, प्रखर वक्ता, योगसाधक आदि। |
| जन्म तिथि | . 18 सितम्बर, 1942 | | |
| जन्म स्थान | मालोट मंडी जिला फरीदकोट (पंजाब) | | |
| दीक्षा भूमि | . जन्म स्थान में | | |
| दीक्षा तिथि | . 17-5-1972 | | |
| दीक्षा संख्या | : जन्म स्थान में तीन सगी बहिनों के साथ। | | |
| दीक्षा गुरु | . श्रमण संघ के प्रथमाचार्य श्री आत्मरामजी म. सा. के सुशिष्य बहुश्रुत श्रमण संघीय मलाहकार श्री ज्ञानमुनिजी म. सा | | |
| अध्ययन | : जैन आगम, संस्कृत, प्राकृत, हिन्दी, अंग्रेजी, पजाबी, अन्य भाषाओं के ज्ञाता। | | |



युवाचार्य डॉ. शिवमुनिजी म.सा., अपने सुशिष्यों के साथ श्री जितेन्द्रमुनिजी म.सा., श्री शैलेशमुनिजी म.सा., एवं श्री शिरिषमुनिजी म.सा. चित्र में खड़े दिखाई दे रहे हैं

इवे मूर्ति, तपा गच्छीय सागर समुदाय के सघ नायक गच्छाधिपति,
जिन शासन ज्योतिर्धर, प्रशान्त सयम मूर्ति

आचार्य प्रवर श्री दर्शन सागर सूरीश्वर जी म. सा.



सक्षिप्त जीवन परिचय

गच्छाधिपति आचार्य श्री दर्शन सागर सूरीश्वरजी म सा
गरवी गुजरात नु ऐ भालावाद धाम।
ध्रागध्रा जिल्लानु ऐ धोली नामनु गामा।
पिताम्बर बास ऐ पिता नु नाम।
अने हरख बहिन ऐ माता नु नाम।
पिताजी का नाम—श्री पिताम्बर बास बीसा श्रीमाली

ओसवाल

माताजी का नाम श्रीमती हरख बहिन
मूल नाम श्री वेवचन्द भाई
जन्म तिथि बैशाख बदी 7 वि स 1964
जन्म स्थिति धोली गाँव जिला ध्रागध्रा (सौराष्ट्र)
बोला तिथि जेष्ठ बदी 14 वि स 1986
बोला स्थिति खभात (गुजरात)
बोला पद आचार्य श्री सागरानन्द सूरीश्वरजी
म सा
शिष्य श्री महोदय सागर म सा
नूतन नाम श्री मुनि श्री दर्शन सागर जो म सा
समुदाय का नाम इवे मूर्ति तपागच्छीय सागर समुदाय
गण पद कार्तिक बदी 3 वि स 2008 पानीताणा
उपाध्याय पद माघ शुक्ला 11 वि स 2022

उपाध्याय पद प्रदाता आचार्य श्री माणिक्य सागर
सूरीश्वरजी म सा
आचार्य पद बम्बई विनाक 4 2 1987 गोडीजी पापधुन
आचार्य पद प्रदाता पन्नास श्री रेवत सागरजी म सा
भाषा ज्ञान हिन्दी, गुजराती, प्राकृत, सस्कृत, पार
आदि
विहार क्षेत्र राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र आदि
पदयात्रा लगभग 1 लाख किमी का पैदल बिहा
यात्रा
प्रतिष्ठा उपधान अनेकों जगह अनेको बार
गच्छाधिपति पद विनाक 3-3-1991 प्रार्थना समाज, बम्बई
समुदाय परिवार , लगभग 125, साधु 675, साध्वीयां कु
800 साधु साध्वीयों का परिवार
विशेष लगभग 85 वर्ष की वय मे भी शा
भगमो का अध्ययन अपने आप कर
सागर समुदाय का वडील सघ ना
(प्रमुख) गच्छाधिपति, मधुर वर
आदि।



आचार्य
श्री नित्योदय सागर सूरी जी म



पन्नास
श्री चन्द्रानन सागर जी म


गच्छाधिपति, न्याय विशारद, वर्धमान
तपोनिधि स्व. आचार्य श्री विजय भुवन-
भानु सूरीश्वरजी म. सा.



श्री विजय भुवन भानु सूरीश्वरजी म. सा.

गृहस्थ नाम : श्री कातिलाल
पिताजी : श्री चिमनभाई
माताजी : श्रीमति भूरी बहिन
जन्म तिथि : चैत्र वदी 6 वि स. 1967 तारीख
अहमदाबाद 19-4-1911
शिक्षा : सी. ए समकक्ष जी. डी. ए. (I.T.B.)
दीक्षा : 16-1-1935 चाणस्मा (गुजरात)
दीक्षा गुरु : आचार्य श्री प्रेमसूरीजी म. सा.
अध्ययन : संस्कृत, प्राकृत,, 45 आगम, तर्क शास्त्र
गणि पद : कार्तिक शुक्ला 11 वि. स 2012
पन्यास पद : वैशाख शुक्ला 6 वि.स. 2015
आचार्य पद : 7-12-1972 अहमदाबाद (2029)
भाषा ज्ञान : हिन्दी, संस्कृत, गुजराती, अंग्रेजी, प्राकृत,
राजस्थानी, पाली आदि
विहार क्षेत्र : गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, बंगाल,
विहार, दक्षिण भारत
तपोसाधना : वर्धमान तप की 108 ओली
चातुर्माससंपन्न : कुल 58 (प्रथम पाटन, अन्तिम सूरत)
शिष्य प्रशिष्य : लगभग 200
पर्याय वर्ष : दीक्षा पर्याय 58 वर्ष, सूरी पद पर्याय
21 वर्ष
महाप्रयाण : चैत्र वद 13 वि.सं 2049 तारीख
अहमदाबाद 19-4-1993
विशेष : अद्भुत त्याग, तप, संयमी जीवन अलगारी
व्यक्तित्व 19 अप्रैल को जन्म-मृत्यु
पट्टघर : आचार्य श्री विजय जयघोष सूरीजी म. सा.

गच्छाधिपति न्याय विशारद, वर्धमान
तपोनिधि स्व. आचार्य प्रवर श्री विजय भुवन
भानु सूरीश्वरजी म. सा. के प्रशिष्य रत्न
तपस्वी मुनि श्री संयम शेखर विजयजी म.सा.



श्री संयम शेखर विजयजी म. सा.

ससारी नाम : श्री सेवन्तीलाल मणीलाल शाह
पिताजी : श्री माणीलाल उम्मेदचद धामी
माताजी : श्रीमती चंदन बहिन
जन्म तिथि : चैत्र शुक्ला 2 वि. सं 1982
जन्म भूमि : वायड (महेसाणा) (गुजरात)
दीक्षा तिथि : वैशाख शुक्ला 3 वि सं 2042
दीक्षा भूमि : वायड (उत्तर गुजरात)
बड़ी दीक्षा : जेष्ठ वद 6 वि सं 2042 शखेश्वर
दीक्षा दाता : आचार्य श्री धर्मजित सूरीजी म
दीक्षा गुरु : आचार्य श्री जय शेखर सूरीजी म
संसार पुत्र साधु. श्री अरिजित शेखर विजयजी म.
संसार पुत्री : श्री राज प्रजा श्रीजी म.
साध्वी
विहार क्षेत्र : गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान
आदि
विशेष : गृहस्थ जीवन मे तप-3 उपधान, 4 अट्टाई,
2 वर्षीतप, छट्ट करके 3 यात्रा पालीताणा,
सम्मेत शिखरजी, जैसलमेर, भद्रेश्वर,
आदि तीर्थों की यात्राएँ ।
साधु जीवन मे तप -2 सिद्धि तप, आयविल
ओली 22, 10 उपवास, धर्म चक्र तप 1,
अट्टाई 1 इस वर्ष 31 उपवास की तपस्या
पूर्ण की है ।

श्रमण सघीय मंत्री प रत्न
श्री कुन्दनऋषीजी म सा



श्रमण सघीय सलाहकार, अनुयोग
प्रवर्तक, प रत्न श्री कन्हैयालालजी
म सा "कमल"



जम नाम
श्रिताजी
माताजी
जम स्थान
दीक्षा तिथि
दीक्षा भूमि
दीक्षा गुह
वैराग्य भाव

श्री मनसुखलाल
श्री चदनमलजी भेहेरे
श्रीमती केशरवाई
मिरी (अहमदनगर) (महाराष्ट्र)
9 मई 1962
मिरी ग्राम अहमदनगर (महाराष्ट्र)
आचार्य सम्राट श्री आनन्दऋषीजी म सा
आचार्य सम्राट श्री आनन्दऋषीजी म
सा अपनी दीक्षा भूमि में पधारे सर्वोपन
मुनकर वैराग्य भाव उत्पन्न 3 वष साध
में रहकर पूज्य चरण शरण में।

विहार क्षेत्र

आचार्य सम्राट श्री आनन्दऋषीजी म
सा के ससग सम्पूर्ण महाराष्ट्र, आंध्र-
प्रदेश, कर्नाटक, मध्यप्रदेश राजस्थान,
गुजरात, हरियाणा, उत्तरप्रदेश दिल्ली,
पंजाब हिमाचलप्रदेश जम्मू काश्मिर
आदि प्रांत।

भाषा ज्ञान

हिन्दी, मराठी, गुजराती, राजस्थानी,
संस्कृत, प्राकृत, अंग्रेजी आदि।

मंत्री पद

आचार्य सम्राट श्री जानन्दऋषीजी म
सा के द्वारा प्रदान पूना साधु-सम्मेलन
13 5-1987 पूना।

विशेष

श्रमण सघ के मंत्री दीक्षा ग्रहण करन से
गत वष जब तक आचार्य सम्राट रहे उनके
साथ ही विचरण करना, प रत्न, ओजस्वी
व्रत, आचार्य सम्राट के प्रधान अतेवाशी
सुशिक्ष्य, सम्पन्न परिवार के दीक्षित धर्म
के प्रति अनुराग, सुदीय सयम के पालन,
आचार्य सम्राट की दीक्षा भूमि एवं आपकी
दीक्षा भूमि मिरी गांव एक ही है। श्रमण
सघ में प्रभाव शाली, सत रत्न।

पिताजी

श्री गोविन्दसिंहजी राजपुरोहित

माताजी

श्रीमती यमुनादेवी

जम तिथि

चैत्र शुक्ला 9 वि म 1970 (रामनवमी)

जम स्थान

जयपुर (केरल) (राजस्थान)

दीक्षा तिथि

वैशाख शुक्ला 6 वि स 1988

दीक्षा स्थल

साडेराव (राजस्थान)

दीक्षा दाता

श्री फ़ेहेवदजी म, श्री प्रतापमलजी म

भाषा ज्ञान

हिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृत, अपभ्रंश प्राकृत,
पाली, गुजराती, राजस्थानी आदि।

विहार क्षेत्र

राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक,
आंध्रप्रदेश, दिल्ली, उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश
आदि।

अनुयोग कार्य

आगम अनुयोग का विगत 25 वर्षों से काय
चारो आगमों का विश्लेषण।

विशेष

आगम के प्रकाण्ड विद्वान मधुर व्याख्याती,
लेखक, अनुयोग प्रवर्तक, साहित्य सिद्ध,
आगम रत्नाकर आदि।

सम्पूर्ण जैन समाज में आप एक मात्र ऐस सत है जिहने
चारो अनुयोगो का अनुवाद करने में 25 वर्ष लगाये। श्रमण
सघ के सलाहकार। सम्पूर्ण भारत में प्रभाव शाली मुनिराज।
अनेक प्रेरक काय पूर्ण। सूर्योदय से सूर्यास्त तक लेखन काय में
रत। कमल मुनि के नाम से प्रसिद्ध।

श्रमण संघीय प्रवर्तक पं. रत्न
श्री रमेशमुनिजी म.सा. 'शास्त्री'



श्रमण संघीय पं. रत्न श्री सुरेश
मुनिजी म. सा. 'शास्त्री'



आपका जन्म मजल (वाड़मेर) निवासी श्रीमान् वस्तीमलजी कोठारी की धर्मपत्नी सौ. आशाबाई की कुक्षि से हुआ। यौवन की पहली देहरी पर घवा निवासी श्रीमान् जसराजजी भूरट ने अपनी कन्या 'वीरादेवी' से आपका विवाह किया। विवाह के पश्चात् व्यापारिक क्षेत्र में उतरे। उन्ही दिनों उज्जैन आये अपने कार्यवश। यहाँ सति शिरोमणि पंडिता श्री बालकृष्णजी म., तपस्विनी श्री मानकृष्णजी म. की अध्यात्म प्रेरणा ने आपके अन्तर्मन को जगाया।

दीक्षा की भावना लेकर आप कलकत्ता पहुँचे। पूज्य गुरुदेव श्री प्रतापमलजी म., पं श्री हीरालालजी म की सेवा में। अन्त में झरिया (विहार) में ता 9-5-54 को पं. रत्न श्री जयन्तीलालजी म की उपस्थिति में आपने दीक्षा ली। आप पूज्य गुरुदेव श्री प्रतापमलजी म के शिष्य बने। दीक्षा के पश्चात् जैन सिद्धान्ताचार्य प्रथम खण्ड पर्यंत व संस्कृत विशारद हिन्दी साहित्यरत्न आदि परीक्षाएँ उत्तीर्ण की। अध्ययन-अध्यापन के साथ ही वक्ता व लेखक के रूप में उभरे। आप कथाकार, उपन्यासकार, एकाकी लेखक के साथ विचारक-चिन्तक तत्त्वदर्शी हैं। संसमरण, जीवन दर्शन व अनेको चरित्र भजनों की भी आपने रचना की। उपाध्याय पूज्य गुरुदेव श्रीकस्तूरचंदजी म के जन्म शताब्दी पर जन्म शताब्दी ग्रन्थ के आप प्रधान सम्पादक हैं। आपकी सहनशीलता-संयम-अनुशासन निष्ठा व गुरु-भक्ति से प्रभावित होकर ही जोधपुर व. स्या. जैन श्रावकसंघ ने आपको मरुधरा भूषण व साहित्य क्षेत्र में बढ़ती प्रगति को देखते हुए चित्तौड़गढ़ वर्ध.स्था जैन श्रावक संघ ने "साहित्य मनीषी" आदि पद दिये।

जब आपश्री का चातुर्मास पूना था सं. 2040 में तब आचार्य सम्राट पूज्य श्री आनन्दऋषिजी म. एवं युवा-चार्य ज्ञानयोगी श्री मधुकरमुनिजी म. आदि का संयुक्त नासिक वर्षावास था तब आचार्य श्रीजी ने श्रावण शुक्ला 1 को आपको "प्रवर्तक पद" से विभूषित किया। आप अपने संयम साधना काल में अब तक लगभग 50-55 पुस्तकें लिख चुके हैं। आप ने समाज को काफी आशा है। आप राजस्थान, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तरप्रदेश, दिल्ली, गुजरात आदि प्रदेशों में विचरण कर चुके हैं।

आपका जन्म कानपुर निवासी श्रीमान् गयाप्रसादजी जैन जयसवाल दिगम्बर जैन की धर्मपत्नी सौ ज्ञानदेवी की कुक्षि से हुआ। अल्प आयु में ही आप व्यवसाय हेतु बम्बई आ गये। यही आप पीपागंज निवासी स्नेही सेवानिष्ठ श्रीमान् त्रिलोकचंदजी के साथ विलेपारले में पूज्य गुरुदेव श्री के दर्शनार्थ आये। गुरुदेव के व्यवहार से प्रभावित हो आपने दीक्षा लेने का दृढ निश्चय कर लिया। उसी चातुर्मास में आपने आवश्यक ज्ञान सीखा।

गुरुदेव की सेवा में सलग्न हो गये। सं. 2016 माघ शुक्ला 13 की मंगलवेला में घोटी संघ के आगम में दीक्षा स्वीकार की पूज्य गुरुदेव श्री प्रतापमलजी म. द्वारा। आपकी प्रवर्तक श्री रमेशमुनिजी म के प्रथम शिष्य होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। दीक्षा के पश्चात् हिन्दी-संस्कृत प्राकृत भाषा का अच्छा अध्ययन किया। आपकी प्रवचन शैली ओजस्वी भावभरी व श्रोताओं को आकर्षित करने वाली है। आपका अधिक लक्ष्य स्वाध्याय तथा ध्यान प्रक्रिया की ओर रहता है। धीरता गंभीरता आदि अनेकों गुणों से आप शोभित हैं। आप राजस्थान, गुजरात, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, दिल्ली, उत्तरप्रदेश आदि प्रांतों में विचरण भी कर चुके हैं। आपके प्रभावशाली प्रवचनों की छटा निरगली होती है। बम्बई महानगर में आप चार चातुर्मास पूर्ण कर चुके हैं। जैन दिवाकर शताब्दि समारोह को सफल बनाने में आपका पूर्ण योगदान रहा है। बम्बई अधेरी जैसे गुजराती भाषी क्षेत्रों में भी आपने सफल चातुर्मास पूर्ण किये। आपका प्रभाव न केवल बम्बई महानगर में बल्कि सम्पूर्ण देश के स्थानकवासी समाज में फैल चुका है। अगर कोई व्यक्ति एका वार सम्पर्क में आ जाता है तो आपकी मधुर वाणी से वह आपके प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता।

—सौजन्य—

श्री व.स्था. जैन श्रावक संघ (मेवाड़)

भायंदर (पूर्व) बम्बई

सन्त शिरोमणि आचार्य प्रवर श्री विद्यासागरजी म.सा जीवन परिचय



| | |
|-------------|--|
| जन्म नामकरण | विश्राघर |
| जन्म तिथि | आश्विन शुक्ला पूर्णिमा वि म 2003 दिनांक 10-10-1946 |
| जन्म स्थल | श्याम मदनगा (जि बलगाव) कनाटक |
| पितृ नाम | श्री मन्त्रगानी (मुनिश्री मन्त्रिमागजी) |
| मातृ नाम | श्री श्रीमतीजी (आयिका ममयमनिजी) |
| मातृभाषा | कन्नड |
| मुनि दीक्षा | आषाढ शुक्ला पंचमी वि म 2025 दिनांक 30 जून 1968 अजमर म |
| आचार्य पद | मगनिर कृष्ण द्वितीया वि म 2029 दिनांक 21 नवम्बर 1972 नमीगवा (राजस्थान) म |

शिक्षा-बोला गुरु आचार्य श्री जानमागजी महाराज
विशेष — चण्डि चक्रवर्ती आ श्री शान्तिमागर महाराज के
उपदेशामृत ने वचनन म विरक्ति के बीज बोये और आश्रितन
ब्रह्मचर्यव्रत आ श्री दशभूषणजी मे ग्रहण किया। आ श्री
जानमागजी ने शिक्षा और मुनि-दीक्षा प्राप्त की।

आ श्री विद्यासागरजी को जहाँ प्राकृत मन्वृत अप
मगटी हिन्दी अयेजी बगला कन्नड आदि अनेक भाषाएं
प्रकाण्ड पांडित्य प्राप्त है वही दर्शन, इतिहास मस्कृति :
व्याकरण भाहित्य, मनोविज्ञान और योग विद्याओं म अ
वैदुष्य भी उपलब्ध है। आपमें आशुक्रपितृत्व
प्रयुक्तमस्तिव अत्यन्त प्रशस्त्य गुण है।

आचार्य श्री स्वमाधना के साथ निरन्तर जानाभ्या
प्रवत रहते हैं। आपने मध्य जीवों के आमस्कृत्याण हतु :
प्रयो का प्रणयन किया है और माँ भारती के भण्डारो का
है। आपके द्वारा लिखित एव अनुवादित रचनाओं की म
करीब 55 है। आपसे दीक्षित करीब 73 माधु-माध्वीजी एव
के करीब बालब्रह्मचारी भाई-बहन हैं।

आप सम्पूर्ण दश मे काफी प्रभावशाली आचार्य हैं। अ
पूज्य पिताजी एव माताजी ने भी दिगम्बर ममुदाय म हा :
व्रत जगीकार किया है। सम्पूर्ण दिगम्बर जैन समाज म अ
ममुदाय के बराबर अन्य किसी भी ममुदाय मे इतनी वि
मन्या मे शिष्य-शिष्याएँ अद्यत कही भी नहीं हैं। एम
आपके मानिष्य मे (25) नई दीक्षाएँ भी सम्पन्न हुईं
आपका इस वर्ष सयम जीवन दीक्षा का रजत महोत्सव
आयोजन भी विशाल कार्यक्रम के साथ सम्पन्न हुआ।

सम्पर्क सूत्र

आचार्य श्री विद्या सागर सूर्यस्वर जी म मा की सेवा मे,
C/o श्री शांतिनाथ दिगम्बर जैन अतिशय क्षेत्र रामटेक
जिला- नागपुर (महाराष्ट्र) 441 106
फोन न (0712) 855117

प्रसिद्ध साहित्यकार, ज्ञानज्योति
श्री गणेश मुनिजी म.सा. "शास्त्री"




खादी का श्वेत-शुभ्र परिधान। चेहरे पर साधना की तपित निश्छलता। अपने नक्श में निराली नामिका। दीप्त प्रदीप्त भाल। चश्मे के भीतर स्वप्निल यथार्थ लिये आत्म सुख देती भव्य भेदी आंखें। साधु जीवन की समग्र चेतना को धन्य किये धवल केश-राशि। मुख पर मनोरम वस्त्रिका। नंगे पैरों पर अपनी कमनीय कद काठी में सुदर्शनीय कचन काया। सयम और वैराग्य का, सहजता और सरलता का, ममता और समन्वय का मणि-काचन योग ही मुनिश्री का प्रभावी व्यक्तित्व है।

साहित्य की सभी विधाओं में मुनिश्री ने अपनी ओजस्वी ओलखाण दी है। काव्य, नाटक, कहानी, उपन्यास, समीक्षा आदि से सम्बन्धित आपने जो सर्जना की है उसकी जैन समाज में ही नहीं इतर जनो में भी लोकप्रियता बढ़ी है और सामाजिक-पारिवारिक लोकशिक्षण के दायरे विस्तृत हुए हैं। इससे धर्म, अध्यात्म, दर्शन और मानवीय मूल्यों को नया आयाम मिला है साथ ही नई-पुरानी पीढ़ी की जीवनी-शक्ति की प्रभावता पुष्ट हुई है।

इस प्रकार मुनिश्री का व्यक्तित्व ही सदावहार का धनी नहीं है उनका कृतित्व भी उतना ही सर्वदा बहार की बहारे लिये है।

श्रमण मंघ के आचार्य श्री देवेन्द्र मुनिजी म. सा. के आप गुरु भ्राता हैं। स्व. उपाध्याय श्री पुष्कर मुनिजी म. सा. आपके गुरु थे। साहित्य के क्षेत्र में आप मफलता के मर्वोच्च न्यान तक पहुँचने में मफल हुए हैं। आपका सभी साहित्य मन की गहराईयों को छूने वाला सरल एवं ज्ञान वर्धक है।

कच्छ आठ कोटी मोटी पक्ष के
स्व. आचार्य प्रवर
श्री छोटालालजी म. सा.



तृतीय वार्षिक पुण्यतिथि के अवसर पर

भावभरी वन्दना-श्रद्धांजलि

जन्म : सं. 1973 प्र. भाद्रपद वद 4, भोजाय (कच्छ)
पिता : श्री वरजागभाई पुजाभाई गडा
माता : पुण्यशाली श्रीमती खेतवाई
गुरुदेव : पू आचार्य श्री नागचद्रजी म सा
दीक्षा : वि.स 1988 फागण शुद 10, लूणी (कच्छ)
आचार्य पद : वि.स. 2040 वैशाख शुद 13, माडवी (कच्छ)
कालधर्म : वि.स 2046 श्रावण वद 12, वाकी (कच्छ)

परमोपकारी, ओ पू गुरुदेव !

आपनी प्रेरणा अमारुं पाथेय बने...!

आपना आशिष अमने अरिहंत बनावे !!

आपनी भक्ति अमने मुक्ति आपे. !!!

अेवी शुभभावना साथे आप श्रीनी त्रिवार्षिक पुण्यतिथिअे आनश्रीना शिष्यो-शिष्याओ अेव गुरु भक्तोनी भावभरी वन्दना सह हार्दिक श्रद्धाजलि !!!

वाकी (कच्छ) गामे चातुर्मास विराजित लघुगुरु शिष्यो, पू. रमेशमुनिजी तथा पू नवीनमुनिजी 'लघुशिषु' नी शुभ प्रेरणाथी

श्री वाकी आठ कोटी मोटी पक्ष स्या जैन सघ,

वाकी-कच्छ गुजरात

पू. आचार्य श्री कर्मसिंहजी स्वामी जैन ज्ञान भंडार ट्रस्ट ना कोटि कोटि वदन !!!

श्रमण सघीय सलाहकार श्री रतनमुनिजी म सा



आचार्य श्री विजय जयतसेन सूरीश्वरजी म सा 'मधुकर'



पिताजी
माताजी
जन्म तिथि
जन्म भूमि
दीक्षा तिथि
दीक्षा गुरु
विशेष

श्री खिलूरामजी खन्ना
श्रीमती लीलादेवी
चैत्र शुक्ला 9 वि स 1993 रामनवमी
मुलतान शहर (पाकिस्तान)
आषाढ वद 10 वि स 2007
तपस्वी श्री मंगलचंदजी म सा
श्रमण सघ के वरिष्ठ सलाहकार श्री
रतनमुनिजी महाराज एक ऐसे ही यशस्वी
संत हैं, जिन्होंने जीवन के उपायाकाल में ही
साधना के पथ पर दृढ़ कदम बढ़ाये।
तपस्वी गुरुदेव श्री मंगलचंदजी महाराज
के चरणों में दीक्षित हुए और फिर आनंद-
मूर्ति आचार्य श्री आनन्दश्रियजी महाराज
के सांख्यिक में शिक्षित स्वगारित होकर
सफलता की पगडंडिया पकड़ कर अकेले
ही अपने भरासे अपने विश्वास पर चल
पड़े, चलते रहे। अनेक विज्ञ-ब्राह्मणों को
पार करते हुए मुनि श्री ने स्वयं की सूक्ष्म-
बुद्ध तथा अथक श्रम-साधना के बल पर
स्वयं का विकास किया, अस्मिता का
विस्तार किया और जन-मन को प्रभावित
किया अपनी धीरगभीर शांत-परोपकारी
प्रवृत्तियों से।
जीवन के 55 बसंत पार करते-करते आज
मुनि श्री सफलता की ऊँचाइयों पर पहुँच
रहे हैं। प्रवचन, लेखन, काव्य रचना,
ध्यान-साधना, जन-मंगलकारी बहुमुखी
प्रवृत्तियों का विस्तार देते हुए आज आप
श्रमण सघ में ही नहीं, बल्कि अखिल
जैन जगत में एक प्रभावशाली यशस्वी और
सफल जीवन के जीवन्त प्रतीक बन गये हैं।

पिताजी
माताजी
जन्म तिथि
जन्म भूमि
दीक्षा तिथि
दीक्षा भूमि
उपाचार्य पद

आचार्य पद

विहार क्षेत्र

भाषा ज्ञान

प्रेरक काय

विशेष

श्री स्वरूपचंदजी घरू (ओसवाल जैन)
श्रीमती पावती बहिन घरू
कार्तिक कृष्णा 13, वि स 1993
पेपराल ग्राम (धराद-गुजरात)
माघ कृष्णा 4 वि स 2010
सिधाणा (राजस्थान)
कार्तिक शुक्ला 15 वि स 2017,
मोहनखेडा तीर्थ
माघ शुक्ला 13 वि स 2040 भाण्डवपुर
तीर्थ, (15-2-1984)
राजस्थान, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक,
आंध्रप्रदेश, तमिलनाडू, गुजरात, उड़ीसा,
पाण्डिचेरी, बंगाल, उत्तरप्रदेश, दिल्ली
आदि।
हिंदी, गुजराती, राजस्थानी, संस्कृत,
प्रकृत, अंग्रेजी आदि।
कई तीर्थों का उद्धार, कई सघ निकाले,
अभिधान राजेंद्र कोष का पुनः प्रकाशन
काय राजेंद्र जैन नवयुवक परिषद् की
स्थापना।
राष्ट्रसंत, लेखक, कवि, वास्तव्य मूर्ति,
विद्वत्ता पर पूण अधिकार, विशाल सुगच्छा
धिपति, सम्पूर्ण भारत में प्रभाव व्याप्त,
साधु के सभी गुणों के भण्डार, सरल
हृदय, मधुर वक्ता आदि।

श्रमण धर्म के मुकुट पूज्य गुरुदेव योगीराज



भारत संतों, योगियों, ऋषि-मुनियों व तपस्वियों का देश है। संत यहाँ का सदैव आराध्य है। उसका आशीर्वाद और पदार्पण भारतवासियों के लिये सदैव गौरवपूर्ण रहा है क्योंकि वह आसक्ति के बीच अनासक्ति का नियामक नाविक है। भोगवाद से हटकर वह अध्यात्म का नाद गुंजित कर जन मन को सत्य के स्वरूप का प्रतिबोध प्रदान करता है। परम श्रद्धेय प्रातः स्मरणीय गुरुदेव योगीराज श्री रामजीलालजी महाराज भारत की उमी संत परम्परा के महान् संत-रत्न थे।

परम श्रद्धेय गुरुदेव योगीराज का जन्म हरियाणा प्रांत के बड़ौदा (निकट जिन्द) गाँव में सन् 1890 में क्षत्रिय (जाट) परिवार में हुआ था। इनके पिता चौ. सुखदयालजी तीन भाई थे। तीनों घरों में एकमात्र सन्तान रामजीलाल थे। इनका वचन बहुत ही लाड़-प्यार में बीता।

युवा होने पर इन्होंने अपने शरीर सौष्ठव एवं शक्तिशाली होने के कारण पूरे इलाके में प्रसिद्धि प्राप्त की थी। जैनधर्म का सर्वप्रथम प्रतिबोध युवक रामजीलाल को चारित्र्य चूड़ामणि महाप्राण मुनि श्री माथारामजी महाराज से प्राप्त हुआ था। उनके उपदेशों ने इनके जीवन में संयम, सदाचार, ध्यान, योग, परोपकार की ज्योति जगाई। इनका मन उनके पावन दर्शन और उपदेश से विरक्त हो गया था। अन्ततः युवक रामजीलाल जी, परम श्रद्धेय श्री माथारामजी म. के ही शिष्य श्री सुखी-रामजी म. के शिष्य बने। उन्होंने अपने जीवन को गुरुसेवा, तप-त्याग, योग, ध्यान, साधना तथा परोपकार में लगा दिया था।

वर्षों की योग-साधना से मुनि रामजीलाल को जैन संघ ने 'योगीराज' सम्बोधन दिया। भारत के विभिन्न प्रांत प्रदेशों में इन्होंने भ्रमण किया। अपने तप-त्याग, ध्यान-योगमय जीवन से और उद्बोधनों से लोगो को जगाया। भारत में व्याप्त सम्प्रदायवाद, जातिवाद को मिटाने के लिए न केवल इन्होंने उपदेश दिया, बल्कि अपनी धर्म सभाओं में

अछूतो को प्रमुखता देकर उन्हें आगे बैठाया। उपासना करने की विविधियाँ/मन्त्र सब उन्हें प्रदान किये।

इसीलिये उनके धर्म सभाओं में सम्भ्रान्त कुलो व धनी-मानी लोगों के साथ गरीब, अछूत व पिछड़े वर्गों के लोग एक साथ बैठते थे। गुरुदेव योगीराज श्री रामजीलालजी ने अपने जीवन काल में संयम की अभिवृद्धि के लिये तथा आडम्बरो-प्रदर्शनों को मिटाने के लिए प्रभूत संघर्ष किया। वे व्यापारिक क्षेत्र में इमानदारी-नैतिकता रखने हेतु सदैव उत्प्रेरित करते थे।

गुरुदेव योगीराज को संयम प्रिय था। उनके जीवन का कण-कण संयम के रंग में रंगा था। वे संयममय होकर जीते थे। उनका संयम कहने एव दिखाने को नहीं था। इनकी महान्-साधना से ही प्रभावित होकर श्री माथारामजी महाराज के मुनियों ने इन्हें अपना संघ-शास्ता बनाया था।

गुरुदेव योगीराज श्री रामजीलाल म. की शिक्षाओं से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों द्वारा आज अनेक जनोपकार मूलक कार्य किये जा रहे हैं। राजधानी में एवं ग्रामीण आंचलों में अनेक स्कूल, अस्पताल एवं लाइब्रेरियाँ गुरुदेव योगीराज श्री रामजीलाल महाराज के नाम से चल रही हैं।

इन सहामना योगीराज मुनि श्री रामजीलालजी महाराज का देहावासान उत्तरप्रदेश के मेरठ जिलान्तर्गत अमीनगर सराय में सन् 1967 में हुआ। उस अवसर पर भारत के अनेक प्रदेशों के विभिन्न जातियों एवं धर्मों के लोगो ने सामूहिक रूप से उपस्थित होकर श्रद्धांजली अर्पित की थी।

पूज्य गुरुदेव, योगीराजजी महाराज के प्रधान शिष्य संघशास्ता शासन-सूर्य विद्वरत्न गुरुदेव मुनिश्री श्री राम-कृष्णजी महाराज हैं। पूज्य गुरुदेव श्री जी का आदर्श व्यक्तित्व अज्ञान-तिमिस्रा में अहिंसा, अनेकांत, अपरिग्रह एव सत्यशील, सदाचार व ब्रह्मचर्य का ज्योति-प्रकाश सूर्य की भांति जन-जन को आलोकित कर रहा है।

—प्रस्तोता : सुभद्र मुनि

श्रमण सघीय

विदुषी साध्वी श्रुताचार्य डॉ मुक्तिप्रभाजी म सा एव डॉ दिव्यप्रभाजी म सा



श्री आनन्द मुक्ति शिशु संघ अमृतसर

डॉ मुक्तिप्रभाजी म सा

डॉ दिव्यप्रभाजी म सा

श्री आत्म आनन्द जागृति केन्द्र-जम्मू


श्रमण सघीय आचार्य मन्नाट पूज्य गुरुदेव श्री आनन्द-
श्रुतिजी म सा के स्वर्णारोहण के परचात् प्रथम सत्या श्री
आत्म आनन्द जागृति केन्द्र जम्मू में 16-8-1992 को श्रमण
सघीय विदुषी साध्वी डॉ मुक्तिप्रभाजी म सा एव डॉ
दिव्यप्रभाजी म सा की सद्प्रेरणा से स्थापित की गयी।

साध्वीजी का पत्राचार में पदार्पण और शांति की लहर

जब पत्राचार में हिंसा का ताण्डव व्याप्त था पूरा पत्राचार
अज्ञात था उस समय कई महानुभावों के द्वारा पत्राचार में प्रवेश
मना करने, समझाने के बावजूद भी साध्वी मण्डल उस अज्ञात
समय में पत्राचार में पधारी। जब से साध्वी मण्डल ने पत्राचार की

भूमि में अपने बरत बढ़ाये, तब से पत्राचार की भूमि शीतलता
का अनुभव करने लगी है। साध्वी मण्डल पत्राचार, हरियाणा,
हिमाचल प्रदेश, जम्मू काश्मीर आदि प्रदेशों की यात्राएँ
करके वापिस पत्राचार में पधारे हैं। पत्राचार में जान की गया
वहाँ रह है। आपकी आज्ञाकारी वाणी में ऐसा जादू है कि भक्त-
गण धर्म के रंग में भाव विभोर हो जाते हैं। आपका प्रभाव
सबसे फैला हुआ है। आपके साध्वी मण्डल में तीन माध्विनी
डॉ एम ए पी एच डी उत्तीर्ण हैं। आपका इस वर्ष का
चातुर्मास लुधियाना-सिविल लाइन जैन स्थानव में है।
आपके पत्राचार पदार्पण से पत्राचार अब शांत हो चुका है।

श्रमण संघीय विदुषी साध्वी श्री चंदनाजी म.सा. एवं साध्वी वृन्द.



श्रमण संघीया विदुषी साध्वी श्री चंदनाजी म.सा. अपनी साध्वी मंडल के साथ ।

चित्र-बायें से साध्वी श्री अक्षय ज्यौतिजी म सा, साध्वी श्री चंदनाजी म. सा., साध्वी श्री महाश्वेताजी म. सा. एवं साध्वी श्री कुमुदलताजी म.सा. श्री व. स्था. जैन श्रावक संघ, चेम्बूर-वम्बई में चातुमासार्थ विराज रहे हैं। चातुर्मास प्रवेश के उपलक्ष में पास में चेम्बूर संघ के अध्यक्ष श्री सुभाषचन्द्रजी रूनवाल सभा को संबोधित कर रहे हैं।

विदुषी साध्वी श्री चंदनाजी म. सा. का संक्षिप्त जीवन परिचय

| | | |
|---------------|--|--|
| पिताजी | : श्री मोहनसिंहजी वावेल | प्रेरित संस्थाएँ . (1) महासति कमलावती परमार्थिक समिति, उदयपुर |
| माताजी | : श्रीमती पिस्तावाई वावेल | |
| जन्म भूमि | : उदयपुर (राजस्थान) | (2) वाल चिकित्सा केन्द्र, दारव्हा, विभिन्न स्थानों पर स्थानक आदि का निर्माण, जैन पाठशाला स्थापित आदि। |
| गुरुणी | : स्व मालव सिंहनी महासती श्री कमलावती जी म. सा. | |
| अध्ययन | : जैन आगम, न्याय दर्शन आदि का तलस्पर्शी अध्ययन, साहित्यरत्न, सिद्धान्त शास्त्री, M. A. | विशेष : आप अच्छे वक्ता, लेखक, मधुर व्याख्यात्री हैं। श्रमण संघ की होनहार साध्वी हैं। वम्बई में कई चातुर्मास पूर्ण कर इस वर्ष चेम्बूर में विराजमान हैं। |
| भाषा ज्ञान | : हिन्दी, राजस्थानी, गुजराती, संस्कृत, अंग्रेजी आदि। | |
| विचरण क्षेत्र | : राजस्थान, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा, उत्तरप्रदेश, दिल्ली, कर्नाटक, आंध्रप्रदेश, तमिलनाडू आदि। | |

विदुषी साध्वी रत्ना डॉ. अर्चनाजी म. सा MAPHD एव साध्वी वृन्द



विदुषी साध्वी रत्ना डॉ अर्चनाजी म सा (बाएँ में तृतीय), साध्वी श्री वन्दनाजी म सा, साध्वी श्री मनीषाजी म सा एव साध्वी श्री अचलाजी म सा चित्र में घटे दिखायी दे रहे हैं।

विशेषण—जैन जगन् की विदुषी साध्वी रत्ना, निर्भीग, निडर एव प्रखर व्याख्यात्री, मयुरभाषी, नवचेतना प्रेरक, दश के अनेक प्रांतों में विचरण, अनेक भाषाओं की ज्ञाता, उज्ज्वल भविष्य की श्रमण मय की प्रभावशाली विदुषी साध्वी आदि।

श्रमण मधीया साध्वी गिरामणी स्व श्री पद्मादेवीजी म सा की मुनिप्याएँ परम प्रभाविनी, विदुषी साध्वी रत्ना डॉ अर्चनाजी म सा MAPHD, साध्वी श्री वन्दनाजी म सा, साध्वी श्री मनीषाजी म सा, साध्वी श्री अचलाजी म सा जादि ठाणाओं 4 का जोधपुर (राजस्थान) में सन 1993 वष का चातुर्मास ध्यान, दर्शन, चरित्र एव तप की आराधनाओं में यशस्वी, चिरस्मरणाय एव ऐतिहासिक बनने की मयनकामनाएँ करते हुए—

हार्दिक शुभकामनाओं सहित -

श्री वर्धमान स्थानकवासी जैन श्रावक सघ

महावीर भवन, निम्बाज की हवेली, जोधपुर-342003 (राजस्थान)

फोन अध्यक्ष-23038, 27939

श्रमण संघीय

विदुषी साध्वी श्रुताचार्य डॉ. मुक्तिप्रभाजी म. सा. एवं डॉ. दिव्यप्रभाजी म. सा.



श्री आनन्द मुक्ति शिशु संघ अमृतसर

डॉ. मुक्तिप्रभाजी म. सा.

डॉ. दिव्यप्रभाजी म. सा.

श्री आनन्दमुक्ति शिशु संघ-अमृतसर

श्रमण संघीय आचार्य सम्राट पूज्य गुरुदेव श्री आनन्द-ऋषिजी म सा. के सजीवित काल के समय की अन्तिम संस्था "आनन्द मुक्ति शिशु संघ" अमृतसर की स्थापना श्रमण संघीय विदुषी साध्वी श्रुताचार्य डॉ. मुक्तिप्रभाजी म. सा. एवं डॉ. दिव्यप्रभाजी म. सा की सद्प्रेरणा से 15 मार्च, 1992 को की गयी इस संस्था का मुख्य उद्देश्य उस दिन को स्वाध्याय दिवस के रूप में मनाया जावेगा।

उपप्रधान-मधु अभिलाष जैन, कंचन सतीश जैन

SHRI RAM PRINTING MILLS

All kinds of Textiles Proessing Specialist
in Synthetics Polyester

Taran Taran Road, AMRITSAR (Punjab)

Tel. : Off.-44786, Resi.-31498

खरतरगच्छीय समुदाय के
गणिवर्य श्री महिमाप्रभ सागरजी म सा



पूज्यपाद गणिवर्य श्री महिमा प्रभ सागरजी म सा
आदि ठाणाओ 3 वे इंदौर नगर में भव्यतम चातुर्मास पर

शत शतः वन्दन ।

हार्दिक शुभकामनाओ सहित-

जैन मित्र परिषद्

इन्दौर

सतीश हुडिया
अध्यक्ष

वमल मेहता
सचिव

धर्मद्र मेहता
कोषाध्यक्ष

सभी पूज्य आचार्यों, मुनिराजो को
कोटि-कोटि वन्दन ।



उपाध्याय श्री महोदय सागरजी म सा (दुग)



श्री अभयचंद्र विजयजी म सा (अधेरी बन्वई)



१ रत्न श्री रविंद्र मुनिजी म सा (इंदौर)

अ. भा. समग्र जैन चातुर्मास सूची प्रकाशन परिषद् बम्बई
कार्यकारिणी के माननीय पदाधिकारी सदस्यगण 1993

अध्यक्ष →



श्री दीपचंद भाई गाडी

उपाध्यक्ष




श्री विशनजीभाई
लखमशीभाई शाह
बम्बई
महामंत्री




श्री नगीनदासभाई विराणी,
राजकोट
मंत्री




श्री एस लालचन्द वाघमार,
मद्रास
मंत्री




श्री रिखचंद जैन (टी टी)
दिल्ली
मंत्री



श्री शातीलाल छाजेड, जैन,
बम्बई



श्री रमेशचन्द जैन
दिल्ली



श्री डी टी नीसर,
बम्बई




श्री नेमनाथ जैन, (प्रेस्टीज)
इन्दौर

सहमंत्री



श्री नृपराज जैन,
बम्बई



जेठमल चौरडिया,
वैगलौर



श्री किशोरचन्द्र वर्धन,
बम्बई



श्री कान्तीलाल जैन,
बम्बई

कोषाध्यक्ष

संयोजक-सम्पादक


परिषद् के कार्यकारिणी सदस्यगण



श्री सम्पतराज बावडिया
बम्बई



श्री बालान जैन 'उज्ज्वल'
बम्बई



श्री मुखलाल बोठारी,
सार-बम्बई



श्री बटलाल बोठारी
पूना

परिषद् के कार्यकारिणी सदस्यगण



श्री हनुचन्द्र नाहटा
दिल्ली



श्री मुमायचल हनवान
बम्बई



श्री माफतराज मुपोत
बम्बई



श्री हीरालाल जैन
सुधियाना



श्री जसवतभाई सी शाह
बम्बई




श्री जे डी जैन
गाजियाबाद



श्री उमरावमल चौरडिया
जयपुर



श्री मुमतिलाल बनावट
ठाणा-बम्बई



श्री बी आर बी
बम्बई



श्री मन्वुकुमार मण्डारी
इन्दौर




श्री रतनलाल वाफना
जलगांव



श्रीमती मुलोचना दवी
पी लुवड बम्बई

परिषद् के कार्यकारिणी सदस्यगण




श्री सरदारमल मुणोत,
बम्बई




माणकचन्द्र साखला,
अजमेर, बम्बई




श्री अभयराज बलदोटा,
बम्बई



श्री हसमुखभाई मेहता,
बम्बई




श्री शान्तीलाल दुगड,
नामिक



श्री अशोक (बाबू मेठ) वोरा
अहमदनगर




श्री उमगरवमिह ओस्त्रवाल,
बम्बई




श्री प्रतापभाई चादीवाले,
बम्बई




श्री रतन कुमार जैन
बम्बई




श्री एन ताराचन्द्र दुगड,
मद्रास




श्री इन्द्रचद हीरावत,
बम्बई




श्री चपालाल कर्नाटक
बम्बई




श्री राजेन्द्र ए. जैन, बम्बई



श्री गोतमचद काकरिया,
मद्रास



श्री मोहनलाल सिपानी,
बैंगलोर




श्री शातिलाल साड
बैंगलौर

परिषद के माननीय सदस्यगण



श्री चापसीभाई नन्दु
बन्धई



श्री अमरवन्द गाला
(नवनीत) बन्धई




श्री पाचुभाई शिवजी गाला
बन्धई



श्री गागजी भाई धेन
(प्रिम) बन्धई



श्री गागजी भाई चुवरजी
बोग समोधिया-बन्धई



श्री गयनीभाई कर्मणभाई
बानीआ ठाणा-बन्धई



श्री रामकलाल पचणी भाई
छाडवा बन्धई



श्री वादूभाई लुभा भाई गडा
(पणेडा) बन्धई



श्री रतनजी नायाभाई मोत्रा
थाणा-बन्धई



श्री वादूभाई पालणभाई नीयर
बन्धई



श्री मधजी हनुभाई भाह
बन्धई



श्री प्रमजीभाई शाह
बन्धई



श्री मणीभा
बन्धई



श्री गणजीभाई
बन्धई



श्री गणकिलाल छाडवा
बन्धई



श्री दामजी भाई नेलाभाई भा
बन्धई

परिषद् के माननीय सदस्यगण



श्री भीमराज कछारा,
वम्बई



श्री मीठालाल मिश्री,
वम्बई



श्री शकरलाल कोठारी,
वम्बई



श्री पारसमल सुराना,
वम्बई




श्री गणपतलाल कोठारी
वम्बई




श्री भवरलाल वोहरा
कोट-वम्बई




श्री रूपराज साखला,
वम्बई




श्री भवरलाल वोहरा
शाताक्रुझ-वम्बई




श्री सोहनलाल मियाल (जैन)
वम्बई



श्री सम्पतलाल डागलिया
वम्बई




श्री मनोहरलाल चौरडिया
वम्बई




श्री देवीलाल इटोलिया
वम्बई




श्री नवल मिह सुराना
वम्बई



श्री लक्ष्मीचंद्र वोहरा
वम्बई



श्री औकारगमिह सुराना
वम्बई



श्री मीठालाल सुराना
वम्बई

परिषद् के माननीय सदस्यगण



श्री मपतराज बोर्कडिया
मद्रास



श्री उत्तमचन्द वाधमार
मद्रास



श्री पन्नालाल मुरगना
मद्रास



श्री मुरगुमाई महता
मद्रास



श्री महलचन्द साखला
नामिक मिठी



श्री चन्नमल जोहरा
बैंगलोर



श्री एन मुगालचंद जैन
मद्रास



श्री दीपचंद वाधमार
जलगांव



श्री जवाहरलाल वाधमार
मद्रास



श्री एम जैरमल जैन
मिक्न्द्रावाद



श्री कशीचंद शिवराम
बम्बई



श्री फूलचन्द चुणिया,
बैंगलोर



श्री एन श्रीमती मोहनलाल
पारम्भ हैदराबाद



श्री राजराम जैन मराठ
मवाड माधोपुर



श्री रामन्याल जैन मराठ
मवाड माधोपुर



श्री मुनी पुण्या जैन,
बम्बई


परिषद् के माननीय सदस्यगण




श्री राजकुमार जैन
दिल्ली



डॉ रामानन्द जैन
दिल्ली




श्री किशोरीलाल जैन
दिल्ली



श्री पन्नालाल जैन (बूटाना)
दिल्ली



श्री सोम प्रकाश गोयल (जैन)
बम्बई



श्री राम कुमार जैन
दिल्ली



श्री मगल मेन जैन
दिल्ली




श्री जगदीश प्रसाद जैन
दिल्ली




श्री सुभाषचन्द्र जैन
दिल्ली



श्री सत्यकुमार जैन (बूटाना)
दिल्ली




श्री धर्मपाल जैन (देहरा)
दिल्ली



श्री सत्येन्द्र कुमार जैन
दिल्ली




श्री सुजील कुमार जैन
दिल्ली



श्रीमती नगीना देवी जैन
दिल्ली



श्री ठडीराम जैन
दिल्ली



श्री हजारीमल वरदारिया
कवरडा - मद्रास

परिषद् के माननीय सदस्यगण



श्री चपालाल मकलचा
जालंधर



श्री दुलीचंद जैन
जलगांव



श्री भैवरलाल पूतफगर सराफ
याश्वन्तरी (पूना)



श्री मुगलाल वाफना
फुलिया (महाराष्ट्र)



श्री मुरगुभार तालेरा
पूना



श्री किशनलाल कोठारी
जामनेर



श्री इ. ड. महेश बाबुल
उदयपुर



श्री मुरगुभार सुनावकर
तिलोरा



श्री कुन्दनमल साकरिया
इन्दौर



श्री व. डी. लाल जैन पोरवाल
इन्दौर



श्री भाईलाल भाई तुरधिया
इन्दौर



श्री मांगीलाल कोठारी
इन्दौर



श्री मूरजमल जैन पोरवाल
इन्दौर



श्री जमनालाल जैन पोरवाल
इन्दौर



श्री गगाधर जैन पोरवाल
इन्दौर



श्री अशोक भण्डारी
जयपुर


परिषद् के माननीय सदस्यगण



श्री ताराचन्द सिंघवी,
पाली-मारवाड



श्री मोहनलाल डागा,
पाली-मारवाड



श्री शान्तीलाल ललवाणी,
पाली-मारवाड



श्री गुमानमल लुकड,
पाली-मारवाड



श्री कान्तीलाल एम गांधी,
वम्बई



श्री हसमुखभाई मनसुखलाल
शाह सुरेन्द्रनगर



श्री गौतमचन्द जैन
कुभकोनम्



श्री फूलचन्द जैन पोरवाल,
इन्दौर

परिषद् के माननीय सहयोगी सदस्यगण



श्री जिनेन्द्र कुमार जैन,
जयपुर



श्री कमलकांत वडजात्या
वम्बई



श्री चन्दनमल "चाँद", वम्बई
(जैन जगत)



श्री रतीलाल सी शाह
(धर्मप्रिय), वम्बई




श्री नगीनभाई शाह
(वावडीकर) वम्बई



श्री महेन्द्रभाई मेठ,
भावनगर



श्री चिमनलाल शाह
(कलाधर) वम्बई



श्री प्रशांत एम झवेरी,
वम्बई

सहयोगी कार्यकर्ता सदस्यगण



श्री हीरालाल शास्त्री (जैन)
नईदुनिया प्रिंटींग इन्डोर



श्री महेंद्र डांगी,
नईदुनिया प्रिंटींग इन्डोर



श्री छोटूभाई देडा
(जयंत प्रिंटींग), गम्बई



श्री राजू भाई
(ट्रिपटिव पेज) गम्बई



श्री विजयमिह नाहर
इन्दौर



श्री सपतलाल नायडू
दुर्ग
परिषद् के सन्स्थापक - आधार स्तम्भ सदस्य



श्री पारगमल मचेती
दुर्ग
आधार स्तम्भ सदस्य



श्री पूलचंद जैन (मुख्य भ्राता)
लुधियाना



स्व श्री केशवनाथ वेताला
गौहाटी



स्व श्री मुनालाल लोढामनन
पाली माग्वाड



स्व श्री अमृतलाल कावडिया
बम्बई



स्व श्री पूषराज सुखड
बम्बई



स्व श्री सच्चिदानंद
गम्बई



स्व श्री गजेशल लक्ष्मीचंद मराफ
जलगांव



स्व श्री सचचलाल बापना
औरंगाबाद




स्व श्रीमती मुखलाल कोठारी
खार-बम्बई

परिषद् के शाखा संयोजक एवं प्रतिनिधि सदस्यगण



राणीदान बोथरा दुर्ग (म प्र)
(छन्नीसगढ-दुर्ग प्रतिनिधि)



श्री बाबूलाल जैन पोरवाल इन्दौर
(इन्दौर-मालवा प्रतिनिधि)




श्री प्रकाशचंद हुण्डीवाल
जलगाँव प्रतिनिधि




श्री मुवाहु कुमार जैन 'मर्गाफ'
(मवाई माधोपुर प्रतिनिधि)




श्री सदीप दुग्ड
दुर्ग




श्री मांगीलाल कटारिया,
(रतलाम प्रतिनिधि)




श्री रसीकलाल मी पारख
(जैन क्रान्ती)(राजकोट प्रतिनिधि)



श्री गौतमचंद ओस्नवाल
वैगलोर, प्रतिनिधि




श्री हुकमचंद जैन (बखाडा)
कोटा प्रतिनिधि



श्री शातिलाल खिमनगर
भीलवाडा प्रतिनिधि



श्री विनोद कुमार जैन
(मुजफ्फरनगर-प्रतिनिधि)



श्री रामस्वरूप जैन, आगरा
(आगरा प्रतिनिधि)



श्री सतोषचन्द वाफना
राजनादगाँव प्रतिनिधि



श्री हसरज गोलेछा (गुरुजी)
नागपुर प्रतिनिधि



श्री दीपक वाफना
धमतगी प्रतिनिधि



श्री प्रकाशचन्द वाघरेचा
वालाघाट प्रतिनिधि



मृदुभाषी, मिलनसार, उदार एवं धार्मिक आचार-विचार वाले दिल्ली के बमठ सेवाभावी व्यवसायी श्री रमेशचन्द्र जैन का 9 सितम्बर, 1939 ई को रोहतक (हरियाणा) में जन्म हुआ। पिताश्री प्रतापसिंहजी के ज्येष्ठ पुत्र श्री जैन ने 14 वर्ष की अल्पायु में पिता के मागदशन में व्यापार प्रारम्भ किया और अपनी प्रतिभा तथा परिश्रम से दिल्ली के जाने-माने व्यवसायी बन गये। पी.एस. जैन कम्पनी के मालिक श्री रमेशचन्द्र जैन ने देश एवं विदेशों की यात्राएँ कर अनुभव तथा व्यवसाय को बढ़ाया। दिल्ली में बजाज सूटर्स के वितरक, फाइनेंस एवं प्रोपर्टी के व्यवसाय में आज उनकी पी.एस. जैन कम्पनी सुप्रसिद्ध है।

पी.एस. जैन फाउण्डेशन के अध्यक्ष श्री जैन ने दिल्ली में पी.एस. जैन प्रोग्रेसिव स्कूल स्थापित किया। ट्रस्ट द्वारा छात्रवृत्तियाँ, जरूरतमंदों को सहायता आदि के साथ ट्रस्ट के सस्थापक अपने पिताश्री के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष सद्साहित्य का प्रकाशन कर नि:शुल्क वितरित करते हैं। आप अपने सौजन्य, व्यवहार कुशलता और सदाभाव में न केवल जैन समाज में बल्कि, अजैन समाज सस्थाओं में भी सक्रिय रूप से जुड़े हुए हैं। गुरु नानक फाउण्डेशन, सनातन धर्म मन्ना पञ्जाबी सोसायटी, रामजीना बमठी, रोटरी क्लब, हरियाणा एण्ड पञ्जाब चन्दर आफ कॉमर्स, बजाज डीलर एसोसिएशन आदि सस्थाओं में आप प्रमुख पदों पर हैं। अ. भा. दिगम्बर जैन समाज के मंत्री एवं दिगम्बर समाज की कार्यकारी अध्यक्ष बई सस्थाओं से आप जुड़े हुए हैं।


भगवान महावीर की 25वीं निर्वाण तिथि के महोत्सव में स्व. मातृ शान्तिप्रसाद जैन तथा स्व.गणेशगोपाला के सहस्राब्दि

महामस्तकामिषेक में स्व. साहू श्रेयासप्रसाद जैन के साथ आपने उल्लेखनीय योगदान दिया। आपकी धर्मपत्नी श्रीमती सुगीनादेवी स्नेहशील एवं सेवाभावी महिला हैं। सुपुत्र श्री राजकुमार जैन होनहार विनम्र और सस्कारी युवक हैं। भारत जैन महामंडल के 47वें अध्यक्ष श्री रमेशचन्द्र जैन युवकाचित उत्साह, बमठना और समन्वयात्मक भावना से महल के कार्यों को अधिव विस्तार देकर व्यापन बनाने पर जोर दिया है। श्री रमेशचन्द्र जैन ममप्र जैन समाज की अखिल भारतीय सन्ध्या भारत जैन महामंडल के अध्यक्ष पद पर कार्यरत हैं।

समाज के हरे काय में आप हमेशा अग्रसर रहने हैं। आप न काय करने की विशेष शैली हैं। जिस काय की हाय में हैं उसे पूरा करने ही दम लेते हैं। भारत जैन महामंडल में आई तरह के रचनात्मक काय करने की आप की इच्छा है।

इस वर्ष दिसम्बर 93 में श्रमण बेलगोला में आयोजित महामस्तकामिषेक महोत्सव को सफल बनाने में आप कायरत हैं आप अनेक सस्थाओं को भरपूर सहयोग भी देते रहते हैं। सम्पूर्ण दिल्ली एवं देश विदेश में आपका काफी प्रभाव है। अनेक सस्थाओं की ओर से आपका सम्मानित भी किया जा चुका है। ममप्र जैन समाज एक मंच पर एवन्तित हो इत प्रयास हेतु आप हमेशा कायरत रहते हैं। जब से आप भारत जैन महामंडल के अध्यक्ष बने हैं तब से उमम अनेक रचनात्मक काय प्रारम्भ होने लग गये हैं। आप समय समय पर देश विदेश में सेवा के कार्यों के लिए श्रमण करते रहते हैं। एव अनेक कायन्मों में आप सम्मिलित होते रहते हैं।

श्री भरतकुमार शांतिलाल सेठ--अहमदाबाद



वृहद् गुजरात के स्थानकवासी जैन समाज में आपका नाम प्रसिद्ध है। इसका कारण है आपकी विशिष्ट गुण-गुरिमा-सेवा परायणता, विनम्रता एवं उदात्त दान भावना।

आपका जन्म ता 6-9-1940 में लीम्बड़ी के सुप्रसिद्ध परिवार सेठ नानजी डुगरशी खानदान में हुआ। मैट्रिक तक की शिक्षा लीम्बड़ी में लेकर आप अहमदाबाद को ही कर्म-भूमि बना कर बसे हैं। यहाँ आपने व्यावसायिक क्षेत्र में अनेकविध संघर्षों का मुकाबला करते हुए पूरी सफलता पाई। फिलहाल आप फेरो एलोइज व्यवसाय में संलग्न हैं। आपके सुविनीत पुत्र रत्न शिशिरकुमार ने पूरे कारोबार का कार्य-भार अपने शिर पर सम्हाल कर आपको पूरे समाज की तन-मन-धन से सेवा करने के लिए मुक्त कर दिया है। आपके सेवा-सत्कार्यों के पीछे मूक-प्रेरणा प्रदान करनेवाली जो शक्ति है वह है आपकी धर्मपत्नी पुष्पादेवी।

आपके हृदय में सभी गच्छ समुदायों के चारित्रात्माओं के प्रति अपूर्व भक्ति-भावना व आस्था है। उनकी वैयावच्च करना आपका मूलमन्त्र है। इसके अलावा जीवदया, साधमिक-भक्ति, गरीब परिवारों के प्रति वात्सल्यमय योगदान देने की वृत्ति, आत्म-आराधना का प्रथम साधन धर्मस्थानक निर्माण में दिलचस्पी, शिक्षा और मेडिकल आदि विभिन्न-क्षेत्रों में आपको अत्यंत दिलचस्पी रही है। उन सभी क्षेत्रों में आप सदैव उदार हृदय से सहयोग प्रदान कर अपरिग्रह-व्रत की आराधना द्वारा कर्म-निर्जरा एवं दान-भावना से महान पुण्यानुबन्धी पुण्य उपार्जित कर रहे हैं।

अहमदाबाद का सबसे अधिक प्रतिष्ठा-प्राप्त सौराष्ट्र स्थानकवासी जैन संघ (नगर सेठ उपाश्रय) का एवं घाट-लोडिया स्थानकवासी जैन संघ का एव वृहद् अमदाबाद जालावाड दशाश्रीमाली स्थानकवासी जैन ज्ञाति-समाज का आप कुशल नेतृत्व करते हुए अध्यक्षपद को निभा रहे हैं। घाटलोडिया जैन उपाश्रय "महावीरालय" का सुदरतम नवनिर्माण आपके निजी खर्च से किया है—जो वृहद् अहमदाबाद व वम्बई के जैन समाज में सर्व प्रथम घटना है।

नगर सेठ वंडा उपाश्रय में इस वर्ष (ईसन् 1993) अजरामर सम्प्रदाय (लीम्बड़ी सम्प्रदाय) के मुनि श्री भास्करजी स्वामी ठाणा-4 का यशस्वी चातुर्मास प्राप्त कराने में आपका ही योगदान उल्लेखनीय है। अजरामर सम्प्रदाय के मुनिगण का चातुर्मास 37 साल के बाद हुआ है। इसके उपलक्ष्य में सौराष्ट्र संघ के सदस्य 3100 परिवारों का सामूहिक साधमिक वात्सल्य-नवकारसी प्रीतिभोज का आयोजन आपके समस्त कुटुम्ब-स्वजन-परिवार के सौजन्य से सम्पन्न होगा।

आपने इस वर्ष चातुर्मास सूचि प्रकाशन परिषद् के 'प्रमुख स्तम्भ-सदस्य' के रूप में शामिल होकर परिषद् को गौरवान्वित बनाया है।

शत्-शत् अभिनन्दन।

श्री हरकचन्द नाहटा दिल्ली



श्री आर डी जैन दिल्ली




स्वभाव में नम्रता, व्यवहार में कुशलता, वाणी में मधुरता, हृदय में कौमलता, चेहरे पर हंसमुखता, कार्य में बुद्धिमता, मन में अगाध धर्म अड्डा जादि जनेक गुणों से युक्त श्रीमान् हरकचन्द नाहटा का जन्म 18-7-1936 को राजस्थान प्रांत के बीकानेर में नाहटा परिवार में श्रीमान् भैरदानजी के यहाँ हुआ। बीकानेर में आपकी शिक्षा पूरा हुई। बाल्यावस्था में प्राण्य पारिवारिक सम्भारों ने आपके जाचार विचार को एक निदिष्ट स्वरूप एवं दिशा प्रदान की। स्व श्री हरकचन्द नाहटा आपके चाचा थे एवं श्री भैरदानजी नाहटा आपके ज्यज्य भ्राता हैं। आपकी बाल्यावस्था से ही धर्म के प्रति काफी लगाव अड्डा रही है। सन् 1958 में आपने ट्रान्स्पॉर्ट के क्षेत्र में कदम रखा। अगल कठोर परिश्रम लगन तीव्र व्यापारिक बुद्धि तथा पूव उपायित पुण्य कर्मों के फल स्वरूप सुदूर जानाम एवं पूवात्तर भारत की सबसे विगतान 'जेन कार्ट एजेन्सी खान दा तथा उमदा सफरता पूवक सचालन किया। सन् 1964 में बतवक्ता में विशागतम एवं विन्धान 'दिन्नीग्रियन' स्टूडियों खरीदकर अपन कम क्षेत्र को नई दिशा दी। उसने परचात आपने सन् 1969 में जयता उद्योग श्रम दिल्ली बनाया। बतमान में आप दिल्ली के 'प्रता भू सम्पत्ति व्यापारी एवं देश के विख्यात किम १०००००० हैं। अपने कम क्षेत्र में सफरता के निखर पर ३००००० श्री नाहटाजी उदारमना, बला नाहटा उद्योग उद्यम भीरु तथा बर्मठ सामाजिक वायव्यता के 'जन धन का मधु-पयाग भी विभिन्न धार्मिक माणिक्य संस्थाओं को मुक्त हस्त सदान देन म विधा है। आप ५०००००० 50०००००० में निम्नी न किमी पदा पर १००००००० मवारें जर्षित कर रहे हैं। अ भा हरकचन्द नाहटा आप राष्ट्रीय ज्यज्य हैं। भारत जैन महामण्डल के दिल्ली प्रदेश के भी अध्यक्ष हैं। आप समस्त जैन आचार्य उद्योग साधु साध्वीया वीणाव परंपरा के जाचार्यों के जाधुओं एवं अनकों रा'नेताओं के निवट सम्भव म रहे हैं। आप जनका जगह सम्मानित भी हो चुके हैं क'र रहे के तवा भी आपका प्राप्त हुए हैं।

आपका जन्म उत्तरप्रदेश प्रांत के जिला मेरठ के ग्राम खट्टा प्रह्लादपुर में 24-11-1936 को लाला तारीन-सिंहजी के सम्पन्न परिवार में हुआ। शिक्षा पूरा करने पर परचान् आपने परिवार के समुक्त व्यापार में सहयाा दिया उमके पश्चात् सन् 1960 में अपन जैन वायर बवन नामक स्वय की पैकट्री की स्थापना अरवान मडी जिला मेरठ में की एवं दिल्ली में भी क्रय विश्वम कार्यलय की स्थापना की। अपने कठिन परिश्रम एवं व्यापार कुशलता से सफलता प्राप्त करने हुए इस उद्योग का सन् 1975 में आपन दिल्ली स्थानातगिन क्रिया जिनने वातावर में "जैन तार उद्योग" के नाम से प्रतिदि जर्जित की। दिल्ली के ताम्र उद्योग में इस फर्म की विश्वमनविपता एवं प्रतिदि महत्त्वपूर्ण है। वायर डाटा एनालिसिसन दिल्ली के जाप पूव में बोपाध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष भा रहे हैं। कार्ट उद्योग व्यापारिक मन्वाजा के वाय मुमिति के आप मदम्य है। जाप दिल्ली प्रदेशीय श्री व गानक जैन महासघ के कई वर्षों तक अध्यक्ष पद पर भा रहे चुके हैं एवं सारणक भी हैं। अ भा स्व म्वा जैन कॉन्फ्रेंस दिल्ली के आप बतमान में उपाध्यक्ष पद पर कार्य कर रहे हैं। अपनी सौजन्यता प्रम परामप एवं उदार वृत्ति के कारण सम्पूर्ण जैन समाज में विकीर व्याति जर्जित की है। स्वभाव से हंसमुख मिलनसार एवं समाज सेवा होने के कारण आपका मवय्य सम्पूण देन एवं म्यानीय सम्वाजा से जुडा हुआ है। सेवा कार्यों में आपकी विशेष रुचि है। इसके अलावा जनक मन्धानी में उनके पदों पर जाप जपनी सेवाएँ प्रदान कर रहे हैं। जीवन प्रवाण याचना के जाधार स्वभ भी है। भारत जैन महामण्डल के भी जाप मन्त्रिय वायव्यता है। विश्व जैन सम्मननों में भाग लेन एवं व्यापार वाय के लिए आप कई बार जनक देशों की यात्राएँ भी कर चुके हैं। आपके दोना सुपुत्र श्री यो'ड जैन एवं अला जैन भी प्रेजुगेट हैं एवं पितामही के व्यापार कार्यों में माय दे रहे हैं। आपका भरपूरा परिवार धार्मिक सम्भारा में मुगाभित है।

श्री विजयराज ब्रह्मेचा नासिक सिटी



श्री राजेन्द्र पाल जैन लुधियाना (पंजाब)




वाणी में मधुरता, स्वभाव में नम्रता, हृदय में उदारता, व्यवहार में कुशलता, चेहरे पर हंसमुखता, कार्य में बुद्धिमत्ता, मन में अगाढ़ धर्म श्रद्धा, आदि अनेक गुणों से युक्त श्रीमान् विजयराज ब्रह्मेचा अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त अंगूर के उत्पादक एवं निर्यातक है। आप शालेय जीवन में विज्ञान की पढ़ाई पूर्ण करने के पश्चात् कृषि व्यवसाय में सलग्न हुए। अध्यात्म की रुझान बढ़ने पर जैन दर्शन का चिन्तन भी किया। आपने 32 आगमों का अध्ययन भी किया है साथ ही वैदिक दर्शन का भी अध्ययन किया है।

स्व. कर्नाटक केशरी श्री गणेशीलालजी म सा के फार्म पर आगमन के अवसर पर फार्म में आलू, प्याज आदि का उत्पादन न करने का प्रत्याख्यान लिया तथा फलोत्पादन के उपदेश पर अंगूर के उत्पादन में सलग्न हुए। इस प्रत्याख्यान को अभी तक निभा रहे हैं। सम्प्रति 40 एकड़ भूमि में उत्कृष्ट कोटी के अंगूर का उत्पादन, अंगूर उत्पादन की शास्त्रीय जानकारी हेतु युरोपीय देश फ्रांस इंग्लेण्ड आदि देशों का भ्रमण भी कर चुके हैं। महाराष्ट्र राज्य बगार्डितदार संघ की स्थापना में अग्रणी, उसके संस्थापक सदस्य। नासिक सिटी के जैन स्थानक निर्माण में तन मन धन से सहयोग। नासिक रोड श्रावकसंघ निमित्त सौ. विमला वाई ब्रह्मेचा जैन धर्मार्थ दवाखाना में अच्छा सहयोग प्रदान किया। लासलगाव के जैन स्थानक में भी पूर्ण सहयोग प्रदान। पाथर्डी बोर्ड अहमदनगर के स्वाध्याय संघ में भी अच्छा सहयोग प्रदान किया। आप अनेक सामाजिक धार्मिक संस्थाओं में अनेक पदा पर कार्यरत संलग्न हैं। जैन काफ्रेस की जीवन प्रकाश योजना के आप आधार स्तंभ सदस्य हैं। कृषि क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए भारत सरकार की ओर से राष्ट्रपति द्वारा आपको कृषि पण्डित अवार्ड प्रदान कर सम्मानित किया जा चुका है। समाज के हर सेवा कार्यों में आप हमेशा अग्रसर रहते हैं। वर्तमान में आप अ. भा. ज्वे. स्था. जैन कान्फेन्स दिल्ली के उपाध्यक्ष हैं।

आपका जन्म पंजाब प्रान्त के जगराहो शहर में 22-1-1937 को सेठ साहव श्री विलायती रामजी जैन के यहाँ हुआ। अध्ययन पूर्ण करने के पश्चात् आप लुधियाना पधार गये और व्यवसाय की ओर अपने कदम बढ़ाये। बाईसिकल इंजिनियरिंग की फ़ैक्ट्री प्रारंभ की वर्तमान में आप सायकल व्यवसाय में कार्यरत हैं आपका माल विदेशों में भी निर्यात होता है। लुधियाना में राजेन्द्र इंजिनियरिंग इण्डिया, सेवको इण्डस्ट्रीज, एस के स्टील आदि अनेक आपके प्रतिष्ठान काफी प्रसिद्ध हैं। श्रमण संघ के प्रति आपमें अगाढ़ श्रद्धा है। आप सेवा के प्रत्येक कार्य में हमेशा अग्रसर रहते हैं। वर्तमान में आप एस एस जैन महासभा उत्तर भारत के प्रधान पद पर कार्यरत हैं। इसके अलावा आत्म मनोहर जैन श्रुतपीठ के भी अध्यक्ष पद पर हैं अ. भा. ज्वे. स्था. जैन कान्फेन्स के कार्यकारिणी के भी सदस्य हैं। इनके अलावा अनेक पदों पर भी अपनी सेवाएँ अर्पित कर रहे हैं। आपके सभी प्रतिष्ठान आपके द्वारा ही स्थापित किये हैं। आपने अनेक संस्थाओं को काफी योगदान भी प्रदान किया है। स्कूलों के फाउन्डेशन आपके द्वारा कई जगह हो चुका है। आपके छोटे भ्राता श्री एस पी. जैन भारतीय सेना के वर्तमान में जनरल हैं सेवा कार्य में कार्यरत हैं। आपकी बाल्यावस्था से ही धर्म के प्रति अगाढ़ श्रद्धा रही है। छोटी वय में 20 वर्ष में कॉलेज में कार्यकारिणी के सदस्य भी रह चुके हैं। आपके दादाजी स्व. श्री चौधरी अमरचंद जी जैन 35 वर्ष तक जगराहो जैन श्री संघ के प्रधान भी रह चुके हैं। महामुनि श्री रूपचंद जैन सिनियर स्कूल जगराहो जिसमें वर्तमान में 1600 बच्चे अध्ययन कर रहे हैं इस स्कूल का 1983 में आपके करकमलों द्वारा ही शिलान्यास सम्पन्न हुआ था। आपका प्रभाव सम्पूर्ण उत्तरी भारत में व्याप्त है। आप अनेक कार्यक्रमों में हमेशा भाग लेते रहते हैं। आपको अनेक संस्थाओं की ओर से कई बार सम्मानित भी किया जा चुका है आपके निवास स्थान में एक कमरा आपको प्रदान किये गये मृत चिन्हों प्रशस्ति पत्रों से सजा हुआ मिलेगा। आप जैन समाज के प्रतिष्ठित कर्मठ सेवा भावी कार्यकर्ता हैं।

डॉ सी आर भसाली

वम्बई



A - 1

वाणी में मधुरता, स्वभाव में नम्रता, हृदय में उदारता, व्यवहार में कुशलता, चेहरे पर हैममुखता, काय में बुद्धिमत्ता, मन में अगाध धर्म श्रद्धा, आदि अनेक गुणों का मगम श्रीमान् सी आर भसाली म विद्यमान है। आप सी आर. बी कैंपिटल मार्केटिंग के चेयरमैन हैं। जा लिडिंग मार्केटिंग बैंक हैं। इण्डियन कैंपिटल मार्केटिंग की उच्च श्रेणी की जय प्रसिद्ध फर्म है। आपने सी ए उद्योगों की फिर एसोसियेटेड कम्पनी के सेक्रेटरी बने आपने कैंपिटल मार्केटिंग के ऊपर डिप्लोमा भी किया। आप अनेक सम्मेलनों में अनेक पदों में भी जुड़े हुए हैं। जैन विद्यन भारती लाइन के बोर्ड सदस्य, भीनवाडा स्कूल के ट्रस्टी, भारत जैन महामण्डल के विशेष सदस्य, आदि साहित्य सभ दिवसों के ट्रस्टी, आदि आप दुनिया के अनेक देशों की कई बार विदेश यात्राएँ भी करने रहते हैं। महावीर मेमोरियल अणुव्रत के कमेटी मेंबर एवं जय तुलसी फाउंडेशन के भी कमेटी मेंबर हैं। आप विजनर्स एक्मप्लोअर टाइम्स (साप्ताहिक-अंग्रेजी) के मानद संपादक भी हैं। आप अनेक चेम्बर ऑफ कामर्स एक्स्पोजिट और गानाइजेशन एवं व्यापारिक एसोसियेशन से जुड़े हुए हैं। इनके अलावा आप अनेकों मोसायटीयों, कनवा, सत्याजी से जुड़े हुए हैं। दि इटर कन्वर्जल आपन युनिवर्सिटी निदर, लेण्ड के द्वारा आपकी गत माह कैंपिटल मार्केटिंग के जाने में की गयी उल्लेखनीय शोध पर "डिग्री ऑफ डॉक्टर ऑफ फिनेंशियल इन इकोनॉमी" की पदवी भी प्रदान की गयी है जो विद्यन में इने गिने सर्वोच्च सम्मान पाने वाले का ही प्राप्त होती है। इकोनॉमी कैंपिटल मार्केटिंग आपका नाम दुनिया के हर कोने में प्रसिद्ध हो चुका है। आप आचार्य श्री तुलसी के अनन्य भक्त हैं।


श्री गणपतलाल सिधवी

वम्बई



आपका जन्म राजस्थान प्रांत के भीलवाड़ा जिले के बरडौद कस्बे में 11-1-1951 को हुआ। आपके पिताजी का नाम श्रीमान् विशानलालजी सिधवी है। हार सेवे डी तक शिक्षा ग्रहण करने के पश्चात् आप वम्बई पधार गये और मन् 1973 में चेम्बूर में सिधवी ज्वेलर नामक जैवम का व्यवसाय प्रारम्भ किया। इसके अलावा महण ज्वेलर, महन्द्र ज्वेलर्स टिम्पती डायमण्ड आदि के नाम से भी कई प्रतिष्ठान आपके कायम हैं। आपकी बचपन से ही धर्म के प्रति काफी रुची रहती है। आप अनेक सम्मेलनों को तन, मन, धन से हमेशा महयोग देने रहते हैं। आप कई सम्मेलनों में अनेक पदों पर रहकर अपनी सेवाएँ अर्पित कर रहे हैं जिनमें प्रमुख इस प्रकार है—चेम्बूर ज्वेलर एसोसियेशन के अध्यक्ष, मेन्नाड मच के कर्मठ सदस्य चेम्बूर स्थानक्यामी सभ के ट्रस्टी, मेवा सभ घाटका के 5 वर्ष तक अध्यक्ष रहे, चेम्बूर मच के 10 वर्षों तक मच रहे आदि आदि। आपने अपनी मातृभूमि में पिताजी के नाम में एक औपचार्य की इमारत बनवाकर राजस्थान सरकार को भेंट की एवं एक प्रतीक्षालय का निर्माण भी करवाया। यश नगर (म प्र) में महासती श्री यशकुवरज होस्पिटल में एक कमरे का निर्माण भी आपने करवाया है। आप दीन दुःखियों, रोगियों की सेवा करने का पूरा ध्यान रखते हैं। आप समाज सेवाओं के हर क्षेत्र में हमका अग्रसर रहते हैं। सुलझे हुए विचारों को प्रधानता देना आपका मुख्य लक्ष्य है। जैन धर्म के सभी आचार्यों से सम्पर्क करना व जैन एकता में पूरा विश्वास रखते हुए सभी का एक मच पर लान का प्रयत्न करने रहते हैं। आपका प्रभाव वम्बई महानगर में व्याप्त है। आप हौनहार युवा रत्न कर्मठ मेवा भावी कायकर्ता हैं।

श्री सुमतिलाल कर्नावट ठाणा-बम्बई




व्यवहार में कुशलता, वाणी में मधुरता, स्वभाव में नम्रता, हृदय में उदारता, हँसमुख मिलनसार, सरल हृदय, मन में अगाढ़ धर्म श्रद्धा, बुद्धिमता, कर्मठ सेवा-भावी श्रीमान सुमतिलाल कर्नावट जैन समाज के सुप्रसिद्ध सेवा भावी कार्यकर्ता हैं। आप वर्तमान में ठाणा बम्बई के निवासी हैं। आपका शिक्षण क्षेत्र में बहुत ही महत्त्वपूर्ण योगदान है। आप अच्छे लेखक, लेक्चरर, स्नातक हैं। आपने ग्यारहवी कक्षा से लेकर वी कॉम तक लगभग सभी विषयों पर कई पुस्तकें भी लिखी हैं। अब तक आपकी 21 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। सभी पुस्तकें बम्बई और पूना विद्यापीठ और बोर्ड में मान्यता प्राप्त हैं। आपने निजी कॉलेज में 12 वर्ष तक कामर्स के प्रमुख के रूप में कार्य करने के पश्चात् आपने ठाणा-बम्बई में स्वयं की अपनी संस्था "कर्नावट क्लासेस" चालू की जो आज ठाणा एवं बम्बई में प्रमुख स्थान रखती है। इस क्लासेस में वी ए., वी एस-सी. और एम. कॉम तक की क्लासेस चलाये जाते हैं। आप बम्बई और पूना विश्व विद्यापीठ के एकेडमिक कोन्सिल के सदस्य भी रह चुके हैं। अ भा. श्वे. स्था. जैन कांफ्रेंस दिल्ली के कार्य समिति के सदस्य एवं बम्बई शाखा के उपाध्यक्ष हैं। आप अपनी संस्था कर्नावट क्लासेस में जैन भाई बहिनों को रोजाना दो घंटे कम्प्यूटर ट्रेनिंग भी देते हैं। आप अनेक संस्थाओं को मुक्त हाथों से दान भी दिया करते हैं। जैन कांफ्रेंस के अलावा चांदवड़ बोर्डिंग, सिद्धाचलम् आश्रम, पूना, आयबिल भवन धूलिया आदि कई सामाजिक धार्मिक शैक्षणिक संस्थाओं को मददकर उदारता का परिचय दिया है। आप एवं आपकी धर्म पत्नी दोनों जीवन प्रकाश योजना के आधार स्तंभ सदस्य भी हैं। इस वर्ष उदयपुर में जैन कांफ्रेंस की ओर से आयोजित आचार्य चांदर प्रदान समारोह को सफल बनाने में आपने काफी परिश्रम किया रात दिवस कई महिनो तक कठिन परिश्रम आपने किया। समाज सेवा के हर कार्य में आप हमेशा अग्रसर रहते हैं।

श्री जे. मानकचन्द कोठारी बैंगलौर



व्यवहार में कुशलता, उत्साही. सरल हृदय, वाणी में मधुरता, स्वभाव में नम्रता, हँसमुख मिलनसार, धर्म के प्रति अगाढ़ श्रद्धावान, कर्मठ कार्यकर्ता श्रीमान् जे. माणक चन्द कोठारी जैन समाज के युवा रत्न हैं दक्षिण भारत में तो आपका प्रभाव है लेकिन पूरे देश के स्थानकवासी समाज में आप अपनी समाज सेवाओं के लिए काफी प्रसिद्ध हैं। आपने वी. कॉम. तक की शिक्षा ग्रहण करने के पश्चात् व्यवसाय की ओर कदम बढ़ाये और अपने अदम्य साहस, ईमानदारी, लगन बुद्धिमता एवं कठिन परिश्रम पूर्ण कर व्यवसाय में चहुँमुखी विकास की ओर स्थान ग्रहण किया है। बचपन से ही शिक्षा में रुचि रही है। राष्ट्र संघ द्वारा आयोजित परीक्षा में आपने सम्पूर्ण भारत देश में प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया है एवं पी यू सी में भी स्वर्णपदक प्राप्त किया है। आप अनेक संस्थाओं में, अनेक पदों पर अपनी बहुमूल्य सेवाएँ समाज देश को अर्पित कर रहे हैं। अ भा. श्वे. स्था. जैन कांफ्रेंस के आप उपाध्यक्ष एवं कर्नाटक प्रान्त शाखा के अध्यक्ष हैं। इसके अलावा श्री हिन्दी शिक्षण संघ बैंगलौर के मंत्री, इसके अन्तर्गत दो हाईस्कूल के प्राथमरी, दो मिडिल, जुनियर कॉलेज एवं गोटावत कला वाणिज्य, महाविद्यालय तथा सायन्स कॉलेज भी चल रहा है। कर्नाटक पान ब्रोकर्स एसोशियसन के भी मंत्री पद पर कार्य कर रहे हैं। आप वर्तमान में बैंगलौर में ज्वैलरी एवं फायनेस का व्यवसाय करते हैं। जैन कांफ्रेंस के चहुँमुखी विकास सदस्यता अभियान आदि कार्यों में आपने काफी सहायनीय कार्य किया है। आपका हमेशा यही प्रयत्न रहता है कि समाज का चहुँमुखी कैसे हो। आप धार्मिक प्रवृत्ति के कर्मठ सेवाभावी युवा रत्न कार्यकर्ता हैं। आप जीवन प्रकाश योजना के आधार स्तंभ सदस्य भी हैं।



सर्व महानगर मजदूरों का काम के निष्पान विन्दस विद्यमान है ता वर्षों से नृभर के आधार पर विडर्म व्यवसाय में नायकन है। परन्तु वीर काम विल्डर लार्जिन व। अनुभव नहीं जान के बादबूट डम व्यवसाय में प्रवेश कर उच्च शिक्षण पर पहुँचने वाले विन्दे ही हैं। वर्षवई महानगर में हजारों विन्दम व्यवसाय में नायकन हैं उनमें से उच्च श्रेणी के 10 विन्दम म जिनकी गणना होती ही अपन अदम्य साहम प्रतिभा, म वष्वट के विन्दम लाइन मटोप प्रमुख 10 विन्दम में अपना स्थान सुरक्षित करवाया ऐसा नवयुवक ममान मवी व मड नायकनी शोमान् मुमायचन्द्रजी रूनवाल है। जिना विनी नृमद के अपन अदम्य साहम म सन् 1979 में विन्दम व्यवसाय में प्रवेश किया और देखते देखते कुछ वर्षों में विन्दम व्यवसाय में उन्नति के नय उच्च शिखर तक पहुँचने में सफल हो गये। अरु पर्यंत आपन 1,000 फ्लेट का भाटी श्वीम रूनवाल पाक रतवान नगर, चेम्बूर में, एक नयावा ठाणा में 800 फ्लेट, चेम्बूर में 200 फ्लेट, चेम्बूर में 50 बाले रूनवाल प्लाटा ठाणा, रूनवाल ठावस मुन्ड, स्वास्तित व्लाडा चेम्बूर सुबोध पाक चेम्बूर, रूनवाल मॅटर चेम्बूर आदि का निर्माण पूरा किया। आज सम्पूर्ण वर्षवई के टोप 10 विल्डरों में आपकी गणना की जाने लगी है।

श्री सुभाषचन्द्र रूनवाल मूलत धुलिया के निवासी हैं। वी वॉम की परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात् 1967 में आपन सी ए की परीक्षा दी जिसमें सम्पूर्ण भारत में प्रथम पाँच में से प्रथम रहे। सन् 1968 में दण्डिवन वावन कम्पनी में एकाठ की सर्विस प्रारम्भ की उनके पश्चात् उमी कम्पनी में आप फायनेस मैनेजर तैन पद पर पहुँचे और उनके बाद कम्पनी ने आपका कम्पनी मकेटी जैसा जवाबदार मुख्य पद पर पदावन भी लिया। परन्तु आपकी इच्छा स्वयं का व्यापार की जो और आपन स्वेच्छा से वह नौकरी छोड़ दी

वीर सन् 1978 में गण वाम विल्डर व्यवसाय में प्रवेश किया उम् वचन आपन काफी मात्रा में जमीन खरीद ली वार निर्माण बानून फेर बदल होन म आपको काफी लाभ हुआ और तभी में आपका भाग्य फिल उठा। और आपन उम जमीन में वाद्य काम प्रारम्भ कर दिया। अभी दुगारों फ्लेट बुक हो गयी और कुछ वर्षों में आप वर्षवई के प्रतिष्ठित जाने पहचाने विल्डर बहलाने गये। लोगों की ज्ञान म 'रूनवाल' का विश्वास नाम आने लगा। चेम्बूर वर्षवई स्थित रूनवाल पाक में लगभग 2500 एस्कायर फुट जैन स्थानक बनवाकर धार्मिक उपयोग में आण किया है इसकी कीमत 50 लाख रुपये है जो आपने समाज के धार्मिक कार्य के लिए दी है। इस जैन स्थानक में कई साधु-नाथवीवीजी पधारते रहते हैं। इन वप श्रमण सघीय विदुषी महामती श्री चन्दनाजी म मा आदि ठाणा का चातुर्मास हो रहा है। सम्पूर्ण वर्षवई में इतना बड़ा जैन स्थानक जिनो एक स्थिति के द्वारा बनाया जाये ऐसा यह प्रथम अवनर है। इसके अलावा आपन धुलिया में भी जैन स्थानक के निर्माण में सहयोग प्रदान किया है। इसी तरह रूनवाल नगर ठाणा में भी चार हजार फीट जमीन में निर्माण कर रूनवाल को सेंट की है जहा शीघ्र ही स्कूल प्रारम्भ होने वाला है। इसके अलावा घाटवीपर में पोपानोजीकल तिवारटरी एव जलगाव में हायस्कूल का निर्माण कर सेंट प्रदान किया है।

अप भारत जैन महा मण्डल के उपाध्यक्ष, जेमवाल, मित्रमण्डल के कार्य समिति के सदस्य, चेम्बूर स्थानकवासी जैन मय के अध्यक्ष, आदि अनेक पदों पर कार्य कर रहे हैं। 1985 से सुभाष रूनवाल एज्युकेशन फाउंडेशन की भी अध्यक्षी प्रगति है। आपने दो भ्राता धुलिया में ही रहते हैं एक भाई वकील है दूसरे सिमेंट के डीलर हैं। आपको धर्मपति श्रीमती चंदा रूनवाल भी एम ए सी उत्तीर्ण हैं एव सभी कम्पनियों में डायरेक्टर हैं। प्रतिदिन आपने कार्यालय में जाकर कम्पनी के सारे कामकाज देखती हैं। आपने दोनों सुपुत्र ग्रेज्युएट हैं एव एक सुपुत्री है जिसका विवाह जलगाव के प्रसिद्ध सराफा श्री राजमल लखीचंद फर्म के श्री प्रकाश बाबू के सुपुत्र से हुआ है। आपका भरपूर परिवार धार्मिक सस्कारों से सुशोभित है। आप अनेक सस्थाओं को मुक्त हाथों स भरपूर दान देते रहते हैं। असहाय गरीबों को भी आर्थिक सहयोग प्रदान करते रहते हैं। सम्पूर्ण वर्षवई में जैन जैनतर समाज में आपका नाम प्रसिद्ध है।

श्री हीरालाल जैन-लुधियाना (पंजाब)



हंसमुख चेहरा, वाणी में मधुरता, व्यवहार में कुशलता, स्वभाव में नम्रता, मिलनसार, सरल हृदय धर्म के प्रति अगाढ़ श्रद्धा, हृदय में उदारता, कार्य में बुद्धिमत्ता आदि अनेक गुण अगर देखना चाहे तो वह श्रीमान् हीरालाल जैन लुधियाना (पंजाब) में देखे जा सकते हैं। आपका जन्म पंजाब प्रांत के सियालकोट में 9-7-1938 को सेठ श्रीमान् वसंतरामजी जैन के यहाँ सपन्न घराने में हुआ। 13 वर्ष की वाल्यावस्था में आप लुधियाना पधार गये। कॉलेज तक की शिक्षा पूर्ण करने के पश्चात् आप जनसेवा के कार्यों में कूद पड़े। आपने जैन समाज में ऐसा रचनात्मक कार्य किया है कि ऐसा कोई नहीं करे न केवल उत्तर भारत वल्कि सम्पूर्ण देश में आपका जबरदस्त प्रभाव है। आप सैकड़ों संस्थाओं में अनेक पदों पर अपनी सेवाएँ अर्पित कर रहे हैं। अ. भा. श्वे. स्था जैन कान्फ्रेंस दिल्ली के आप महामंत्री एवं युवा शाखा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। इसके अलावा जैन कान्फ्रेंस के मंत्री महामंत्री आदि पदों पर रहते हुए वर्तमान में आप उपाध्यक्ष हैं। भारत जैन महामंडल के उपाध्यक्ष एवं मार्ग दर्शक भी हैं। लार्ड महावीर फाउन्डेशन जिसके भारत के पूर्व राष्ट्रपति श्री ज्ञानी जेलसिंह अध्यक्ष हैं उसके आप जनरल सेक्रेटरी पद पर हैं एवं इसके आप फाउन्डर भी हैं। श्री महावीर जैन संघ उत्तर भारत के आप फाउन्डर एवं जनरल सेक्रेटरी पद पर भी सेवाएँ प्रदान कर रहे हैं। पंजाब जैन महासभा उत्तरी भारत के वर्तमान में उपाध्यक्ष भी बने हैं। अ. भा. श्वे. स्थानकवासी जैन कान्फ्रेंस दिल्ली जिसके ट्रस्ट बोर्ड में पाँच व्यक्ति हैं उसमें आप भी एक ट्रस्टी हैं। गुरु नानक देव युनिवर्सिटी अमृतसर के आप सेनेटर भी हैं। आप लगभग 100 से भी अधिक संस्थाओं के ट्रस्टी हैं। सम्पूर्ण उत्तर भारत में प्रसिद्ध शिक्षा के क्षेत्र में उच्च स्थान रखन वाली एकमात्र शिक्षण संस्था श्री आत्म जैन पब्लिक स्कूल, आत्म नगर, लुधियाना के आप फाउन्डर एवं प्रिन्सिपल मुख्य ट्रस्टी मुख्य कर्णधार हैं आज इस स्कूल में लगभग पाँच हजार बालक बालिकाएँ सभी धर्मों के अध्ययन कर रहे हैं सभी विद्यार्थियों को यह नियम

दिला रखा है कि वे मासाहार शराब का सेवन नहीं करेंगे तथा प्रतिदिन महामंत्र नवकार एव आचार्य सम्राट श्री आत्मारामजी म सा. के गुणगान अवश्य करेंगे।

आपका प्रभाव सम्पूर्ण उत्तर भारत में धार्मिक, सामाजिक, राजनैतिक, आदि सभी क्षेत्रों में व्याप्त है। राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, राज्यपाल एवं कई राजनेताओं, धार्मिक, सामाजिक संस्थाओं की ओर से आपका कई बार सार्वजनिक रूप से सम्मान भी हो चुका है। भारत जैन महामंडल के 1986 में दम्बई में आयोजित अधिवेशन में जिससे राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, राज्यपाल आदि कई राजनेता पधारें थे उस अधिवेशन को सफल बनाने में भी आपका पूर्ण योगदान रहा था। आपका प्रभाव पंजाब में इतना गजब का है कि अगर किसी को आपका नाम कह दिया जावे तो आपके प्रति श्रद्धा से उसका शिर अपने आप झुक जाता है। हर क्षेत्र में आपने जनसेवा के ऐसे उत्कृष्ट कार्य किये हैं कि सम्पूर्ण देश में आप प्रसिद्ध हैं। लुधियाना में सुविख्यात शात एरिया आत्म नगर के निर्माण कार्य में आपका ही प्रमुख योगदान रहा है। आपके कण-कण में आत्म आनन्द वसा हुआ है आपके निवास प्रतिष्ठान स्कूल एवं जिस-जिस संस्था से आप जुड़े हुए हैं वहाँ सभी जगह आत्म आनन्द के फोटो अवश्य मिलेंगे। आपमें धर्म के प्रति अगाढ़ श्रद्धा भाव है रात्री भोजन के त्याग एवं भोजन में केवल एक सब्जी का उपयोग करते हैं इतने बड़े व्यक्ति होने के पश्चात् भी इतना त्याग अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है कोई तरह की कभी नहीं होने एवं आज के जमाने में ऐसे कठिन नियमों को आप धार्मिक श्रद्धा भाव से निभा रहे हैं। आप जहाँ भी जाते हैं वहाँ उपस्थित जन समूह आपके पैर छुए बिना नहीं रहता। आत्म पब्लिक स्कूल लुधियाना में लगभग 300 व्यक्तियों का स्टाफ रोजाना आपके पैर छूकर आपका अभिवन्दन करते हैं। आत्म पब्लिक स्कूल की नींव का श्री गणेश आपने किसी राजनेता से नहीं वल्कि एक माली से करावाया एवं स्कूल के करोड़ों रुपये की संपत्ति की चाबी भी उसी माली को आप देकर आते हैं। आपका मूलतः लक्ष्य समाज को एक मंच पर लाने का, जन सेवा करने, दीन-दुखियों की सेवा करने का है। आत्म पब्लिक स्कूल के एक खण्ड में जैन स्थानक भवन का भी निर्माण किया है जहाँ पर भविष्य में आचार्य श्री देवेन्द्रमुनिजी म सा. का चातुर्मास कराने की आपकी तीव्र भावना है। सम्पूर्ण देश में आपका प्रभाव काफी है सभी आपके द्वारा किये गये जन सेवाओं की भूरी-भूरी प्रशंसा करते रहते हैं क्योंकि आप नाम में नहीं काम पूर्ण करने के पक्ष में हैं काम अच्छा होगा तो नाम तो अपने आप ही जावेगा। जितना रचनात्मक कार्य आपने किया उतना शायद ही किसी ने किया है।

श्री जे डी जैन-गाजियाबाद



समस्त श्वेताम्बर स्वामीवर्गीय जैन समाज के वरिष्ठ-धार्मिक दानवीर एवं प्रतिष्ठित उद्योगपति श्री जे डी जैन का जन्म हरियाणा प्रांत के आजता सानीपत में रमड़ा ग्राम के एक जैनकुटुम्ब हुआ। धार्मिक व महदय पिता स्व श्री मनोहरनाथ जैन व माता श्रीमती मुडदेवी जैन का इस पुत्र रत्न की प्राप्ति नव वय के प्रथम दिवस की सुबह बेली प्रथम जनवरी 1940 को हुई। जाप जन्म में ही बिलक्षण प्रतिभा के धनी हैं। जापकी प्रारम्भिक शिक्षा इसी ग्राम में हुई। अपनी जन्म से अधिष्ठ प्रतिभा सम्पन्न होने से प्रारम्भ आपने हायर सेकेण्डरी की शिक्षा जैन हायर सेकेण्डरी स्कूल, दरियागज दिल्ली में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। आपकी उच्च शिक्षा लखनऊ में हुई। 1962 में बहा के हेविट पॉली टेक्नीक में जापन मिबिन इंजीनियरिंग की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की।

जापनी उच्च शिक्षा की समाप्ति के बाद आपन प्रथम दो वर्ष मिलिटरी इंजीनियरिंग में नवंबर 1963 में श्री वामीरी लाजकी की मुधुरी स्व श्रीमती डॉ. दारा जैन में आपका विवाह सम्पन्न हुआ। 1964 में जापने अपना निजी लाहू उद्योग, "जैन रॉयनिंग मिन्स" के रूप में अपने बड़े भाई स्व श्री ओम-प्रकाशजी जैन के साथ-साथ बड़ी उम्मीदों के साथ ईमानदारी से प्रारम्भ किया। आपकी प्रतिभा व उन्नत रण लाई जीए एक दिन जापना 35 वर्ष की आयु में ही 1975 में ही भारत के उपराष्ट्रपति श्री बी डी जेती द्वारा "सेल्फ मेड इन्ट्रिप्राइज" उद्योग "पत्र" में सम्मानित किया गया।

आपन न केवल औद्योगिक क्षेत्र में ही अपनी प्रतिभा दिखाई बल्कि आपन सामाजिक, धार्मिक परिवारिक आदि क्षेत्रों में अपनी नम्रता, शालीनता, दानशीलता में विभिन्न पदों पर रहकर समाज, धर्म, देश व उद्योग की विम्वग्णीय सेवा की। जापन अनेक पदाओं प्रतिष्ठित व विभूषित किया-

- 1 मय रत्न जैन मिलन, गाजियाबाद
- 2 अध्यक्ष भारतीय जैन मिलन

- 3 अध्यक्ष दिल्ली प्रदेशीय श्री बधन दायी जैन महामण्डल, दिल्ली
- 4 अध्यक्ष जैन मुनि श्री भागमन, ममारक अस्तान, पुरखान, दिल्ली
- 5 अध्यक्ष श्री धार्मिक रामनीना कर्नल गाजियाबाद
- 6 अध्यक्ष लोहा व्यापार मण्डल,
- 7 अध्यक्ष स्टोन रॉयनिंग मिन्स, गाजियाबाद
- 8 डिप्टी वरिष्ठ मिबिन डिफेन्स गाजियाबाद

आप आज भी अनेक पदों पर मुगोमित सेवा, दश सवा में तन-मन-मे जुटे हैं। आज आप-

- 1 सप रत्न लाहू, व्यापार मण्डल,
- 2 मय रत्न भारतीय जैन मिलन
- 3 मय रत्न रिगेनिंग मिन्स एमोसिएट्स इन्डियन व पी
- 4 अध्यक्ष उ प्र श्वे स्वामी जैन महामण्डल
- 5 अध्यक्ष श्री एम एस जैन समाज, दिल्ली
- 6 अध्यक्ष श्री एम एस जैन समाज, नई दिल्ली।
- 7 अध्यक्ष श्री जैन साधु पदमाविधि शक्तिनगर, दिल्ली
- 8 अध्यक्ष श्री वदमान जैन गज मन्त्र कल्याण, हरियाणा
- 9 उपाध्यक्ष अ भा श्वे स्वामी जैन मिलन, दिल्ली
- 10 उपाध्यक्ष दि नोस्टन इन्डिया एमोसिएशन, बानपुर
- 11 डिप्टी कमान्डिंग ऑफिसर सिविल डिफेन्स गाजियाबाद।
- 12 आन्तरेरी एनिमल वलफेयर ऑफीसर भारत सरकार,

इस तरह आप समाज सेवा व देश सेवा करते हुए अपने निजी व्यापार की अति व्यवस्तता के बावजूद मुनिवद की वैषाद्वि व अतिथि सेवा में सतत रहते हैं। दान, धर्म विनय आपके व्यक्तित्व के विशिष्ट गुण हैं। यह महान व्यक्तित्व के चरममलों के द्वारा अनेक धार्मिक सत्कारों की नींव रखी गई।

अनेक सम्प्रदायों का शिला यास कर आप सबको का समय-समय पर परिचय देते रहते हैं। आपन सभी प्रजाति गरीब-अमीर के प्रति सद्भाव व समताभाव रहता है। आप सभी सम्प्रदायों के परस्पर मतभेद को समाप्त कर उसे भगवान महावीर के आश्रय में एक ही प्लेट पाम पर लाकर समाज व देश को एक सुदृढ़ बनाने में सलामत हैं।

श्री नेमनाथ जैन-इन्दौर



श्री नेमनाथ जैन का जन्म रावलपिंडी में हुआ। उन्होंने इलेक्ट्रिकल, मेकेनिकल व वायलर टेक्नालॉजी में इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त की। आज श्री जैन का सामाजिक, धार्मिक, और औद्योगिक क्षेत्र में जाना माना नाम है।

श्री जैन धार्मिक वृत्ति के साथ आधुनिक विचार के व्यक्ति हैं। आप अध्यक्ष के रूप में कई धार्मिक संस्थाओं जैसे भारत जैन महामंडल म प्र, स्वाध्याय सघ, म प्र, जैन इंटरनेशनल म प्र इत्यादि से जुड़े हुए हैं। खजानसीता पारमार्थिक ट्रस्ट के आप संस्थापक हैं। कई संस्थाओं जैसे वर्धमान जैन स्थानकवासी ट्रस्ट, महावीर स्वास्थ्य केंद्र, जैन दिवाकर विद्या निकेतन ट्रस्ट, हस्तीमल सुदरवाई पारमार्थिक ट्रस्ट, सत्यसाई ट्रस्ट आदि के आप ट्रस्टी हैं।

श्री जैन एक प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में स्वास्थ्य और शिक्षा में विशेष रुचि रखते हैं। आप कई सामाजिक संस्थाओं से जुड़े हुए हैं उनमें से प्रमुख है अश्वत्थ के लिए पॉल हेरीस स्कूल, रोटरी क्लब, इन्दौर, गीता भवन हॉस्पिटल इत्यादि।

आपके द्वारा प्रदत्त विशेष सहयोग से स्वाध्याय भवन, छवि मेमोरियल स्कूल, छवि नेत्र कोष, ब्लाड स्कूल आदि का निर्माण हुआ है। आपके द्वारा उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है।


श्री जैन ने अपना जीवन एक बहुत छोटे से पद से टेक्सटाइल मिल में प्रारंभ किया। शीघ्र ही उन्नति के शिखर पर चढ़ते हुए प्रमुख पद पर पहुंचकर कई उद्योगों को शुरू करने और सफलतापूर्वक लाने में महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान किया उनमें से प्रमुख है टेक्सटाइल, आर्डल मिल, टिन प्लाट, साल्वेट प्लाट, वनस्पति प्लाट, पशु आहार, मैदा मिल व होजयरी इत्यादि। आपने अपने स्वयं का उद्योग 1977 में

पशु आहार बनाने की एक छोटी फेक्ट्री से शुरू किया। आज, प्रेस्टीज उद्योग समूह मध्य प्रदेश के सफलतम उद्योग समूहों में से प्रमुख है। प्रेस्टीज ग्रुप के अंतर्गत पशु आहार की तीन फेक्टरियां, सोयाबीन प्रोसेसिंग की भारत में सबसे बड़ी फेक्ट्री, रिफाइनड आर्डल, एलपीजी गैस सिलेंडर, स्टील प्लाट, टेलीविजन फेक्टरी और आयात निर्यात के व्यापार के साथ लगभग 150 करोड़ का कारोबार है।

श्री जैन कई औद्योगिक संस्थाओं से भी जुड़े हुए हैं। आप एम. पी. साल्वेट एक्सट्रेक्टर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष, ऑल इंडिया एल पी जी सिलेंडर्स मेन्यु-फेक्चरर्स एसोसिएशन के कार्यकारी सदस्य भी हैं। आपने देश विदेश की भारत सरकार के विशेष सदस्य के रूप में कई बार यात्राएँ की हैं।

आप "उद्योग पत्र" एवं "उद्योग विभूषण" जैसे प्रतिष्ठित पद से भारत के राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित भी हो चुके हैं। आप अनेक संस्थाओं में अनेक पदों पर रहकर अपनी अमूल्य सेवाएँ अर्पित कर रहे हैं। जिनमें मुख्य है श्री पार्श्वनाथ शोध संस्थान, वाराणसी के अध्यक्ष, अ. भा. श्वे. स्था. जैन कान्फ्रेंस दिल्ली के उपाध्यक्ष, अ. भा. श्वे. स्था. जैन कान्फ्रेंस मध्य प्रदेश प्रान्त के अध्यक्ष, श्री महावीर जैन स्वाध्याय शाला के डायरेक्टर जनरल, मध्य प्रदेश जैन स्वाध्याय सघ के अध्यक्ष एवं अ. भा. समग्र जैन चातुर्मास सूची प्रकाशन परिषद् बम्बई के मंत्री आदि। इस वर्ष उदयपुर में आचार्य श्री देवेन्द्रमुनिजी म सा के आचार्य चांदर प्रदान समारोह को सफल बनाने में आपने प्रमुख भूमिका निभायी। सेवा के हर कार्य में आप हमेशा अग्रसर रहते हैं। आप धार्मिक क्षेत्र में भी काफी रुचि रखते हैं।

श्री प्रसन्न कुमार लोढा बम्बई



श्री दीपचन्द भसाली बैंगलौर



आपका जन्म 12 11 1957 को महाराष्ट्र प्रान्त के जयपुर जिले के जामनर शहर में श्रीमान् चम्पालालजी नाटा क महाद्वारा वा काम की शिक्षा पूरा कर आप सन् 1978 में बम्बई की ए एम एन पत्रिका एव वतमान में जैन लोडा एनालायटिक्स के नाम से ए ए का कार्य कर रहे हैं। आप बचपन में ही स्मूथ आर क्रीम में अत्यन्त प्रतिभावान् हानहार छात्र रहें हैं। जामनर क्षेत्र में सन् 1974 में आप मरीट गाल्ट मडल प्राप्त किया। कलिंग में भी आपन अन्तर्महाविद्यालय में प्रतिनिधित्व नतुल्य किया। आप बम्बई एव महाराष्ट्र की अनेक सामाजिक, वैज्ञानिक, धार्मिक, सामाजिक समस्याओं में जनक पदा पर कार्य कर रहे हैं। अघेरी (बम्बई) काग्रेस कमेटी (जय) तालुका क उपाध्यक्ष श्रमिक सहकारी बक बम्बई क महासचिव, ओसवाल मित्र भण्डन बम्बई के कार्य समिति के सदस्य, भारत जैन महासंघ के सदस्य, ए भा श्वे म्या जैन काग्रेस बम्बई शाखा के कार्य समिति के सदस्य, महात्मा पूने टेक्नीकल हाईस्कूल परेल बम्बई के कार्य समिति सदस्य, भारत नगर मचेंट एनालायसिस ग्राट रोड के उपाध्यक्ष यंग इण्डियन चेरी, ट्रस्ट अघेरी के कार्य समिति के सदस्य आदि जनक सस्याओं में जुड़े हुए हैं। आपन कठ संन्याया को काफी महत्वाय मागदान भी प्रदान किया है। जामनर में अपने स्व पिताजी सेठ श्री चंपालाल लोडा ममारियल फाउंडेशन की स्थापना भी की है जिसके अंतर्गत गरीब असाहाय बच्चों को स्मूथ पुस्तकें एव बचड़े आदि वितरित किये जाते हैं। आपके पूज्य पिताजी स्व पिताजी सेठानी भी थे और सन् 1942 में स्वतंत्रता आन्दोलन में जैन भा गये थे। आप समाज सेवाओं के हर कार्य में हमेशा अग्रसर बन रहते हैं। आपका बम्बई

आपका जन्म राजस्थान के बाड़मेर जिले के करमावांस बम्बई में सन् 1955 को श्रीमान् धिगडमलजी भसाली क यहाँ हुआ। वी काम एल एल बी तक की शिक्षा पूरा करने के पश्चात् आप बैंगलौर पत्रिका एव पेपर का व्यवसाय प्रारंभ किया। पुत्र पपर एजेन्सी नाम से आपका बैंगलौर प्रसिद्धि प्रतिष्ठान है। आपकी संप्रेरणा एव कार्य के एम वाय एफ के द्वारा विगत 15 वर्षों से बैंगलौर जयपुर पाव लगाने का मानव सेवा का सुन्दर कार्य किया जा रहा है। आप अनेक समस्याओं में अनेक पदा पर अपनी सेवा अर्पित कर रहे हैं। आप सेवा के हर कार्य में तन, मन, धन का महत्वाय प्रदान करते रहते हैं। स्थानिकवासी समुदाय के स पूज्य साधु-साध्वियों की आप लगन एव श्रद्धा भाव से सेवा करते रहते हैं। बचपन से ही आप में धर्म के प्रति काफी रुची एव श्रद्धा है। समाज के हर छोटे-बड़े कार्यक्रम में आप हमेशा अग्रसर रहते हैं। बाणी में महधुरता, हृदय में कोमलता कार्य में तत्परता अपनी ईमानदारी एव कठिन परिश्रम से आप उन्नति के उच्च शिखर तक पहुँचे हैं। बैंगलौर के जैन समाज में आप प्रतिष्ठा प्राप्त युवा रत्न बन्धु सेवा भावी कार्यकर्ता हैं। आपने तीन सुपुत्र एव भ्रातृपूरा परिवार है। आपको समाज में काफी आस्थाएँ हैं। आप होनहार युवा रत्न हैं।

एव खानदेश के जैन समाज में काफी प्रभाव है। आप पक्के काग्रेसी नेता भी हैं। आपका अनेक सस्याओं की ओर से कई बार सम्मान भी हो चुका है। जेन्टल क्लब ऑफ बक बम्बई की ओर से आपकी स्मृति चिन्ह भी प्रदान किया जा चुका है। आपकी धर्म पति श्रीमति कुसुम लोडा भी आपकी ही तरह जैन सेवा के कार्यों में आपका साथ देकर धार्मिक कार्यों में अपनी सेवाएँ प्रदान करती रहती हैं। आप बन्धु सेवा भावी युवा रत्न है।

श्री कांतिलाल जैन बम्बई



आपका जन्म महाराष्ट्र प्रान्त के नासिक जिले में उमराणा नामक गाव में हुआ । आपके पिताजी का नाम श्रीमान् हुकमीचंदजी ब्रह्मोचा है । पढाई पूर्ण करने के पश्चात् आप अपना भाग्य अजमाने बम्बई पधारे एवं यहाँ आकर ऐसा व्यवसाय प्रारंभ किया कि "हर व्यक्ति अपना भाग्य अजमाने हेतु आपकी ओर दौड़े चले आते है ।" सम्पूर्ण भारत एवं महाराष्ट्र प्रांत के हर कोने में सुप्रसिद्ध "पी. एच जैन लोटरी" के नाम से आपने अपना व्यवसाय प्रारंभ किया जो लोटरी की दुनिया में आज प्रमुख सर्वोपरी स्थान रखती है । आप स्व आचार्य सम्राट पूज्य श्री आनन्दऋषीजी म सा के अन्त-वासी श्रावक भक्तों में से एक है । इसके अलावा श्रमणसंघ के वर्तमान आचार्य श्री देवेन्द्रमुनिजी म. सा. एवं सभी साधु-साध्वीयों के प्रति आपकी अगाढ़ श्रद्धा भावना है । आप अदम्य साहसी, कड़ी मेहनत, मधुर व्यवहार कार्य की दक्षता, वाणी में मधुरता, हृदय में कोमलता आदि गुणों से युक्त जैन समाज के एक होनहार कर्मठ सेवा भावी युवा रत्न है । आप अनेकों संस्थाओं में अनेक पदों पर रहकर अपनी अमूल्य सेवाएँ प्रदान करते रहते हैं । अ भा. ज्वे स्था जैन कान्फ्रेंस बम्बई शाखा के आप अध्यक्ष है । सिद्धा-चलम् चैरीटेबल ट्रस्ट पुना के प्रमुख ट्रस्टी, ओसवाल मित्र मण्डल, भारत जैन महा मंडल के सदस्य, अ भा समग्र जैन चातुर्मास सूची प्रकाशन परिषद् बम्बई के सहमंत्री एवं आनन्द प्रतिष्ठान के उपाध्यक्ष भी हैं । आपको महाराष्ट्र सरकार ने S.E M 'विशेष दण्डाधिकारी मजिस्ट्रेट' की उपाधि भी प्रदान की है । आप अनेक संस्थाओं को काफी आर्थिक सहयोग प्रदान करते रहते हैं । जीवन प्रकाश योजना के आप आधार स्तंभ सदस्य भी हैं । उदयपुर में आचार्य चादर प्रदान समारोह को सफल बनाने में आपने काफी योगदान दिया है । स्व. आचार्य

→

श्री शान्तिलाल राठोड़ (जैन) गोरेगांव-बम्बई



आपका जन्म राजस्थान प्रान्त के मेवाड़ क्षेत्र में सलोदा ग्राम में 20-11-53 को सेठ साहब श्री ताराचन्दजी जैन के यहाँ हुआ । मेट्रीक की पढाई पूर्ण करने के पश्चात् आप बम्बई पधारे एवं यहाँ पर व्यवहाय की ओर कदम बढ़ाये । वर्तमान में आप पेटस मैनुफैक्चर्स एंव महावीर इलेक्ट्रीक एण्ड हार्डवेयर का व्यवसाय करते है । आप श्री व. स्था. जैन श्रावक संघ (मेवाड़) बम्बई के पूर्व में कोषाध्यक्ष एवं वर्तमान में संघ के प्रमुख सलाहकार है । मेवाड़ संघ एवं साधना भवनो की स्थापना में आपका महत्वपूर्ण योगदान रहा है । आप श्रमण सघीय प्रवर्तक श्री अम्बालालजी म. सा. एवं महामंत्री श्री सौभाग्यमुनिजी म सा. 'कुमुद' के परम भक्त गण श्रावक है । आप कई संस्थाओं को काफी सहयोग भी प्रदान करते रहते है । समाज सेवाओं के हर कार्यों में आप हमेशा अग्रसर रहते है । आप अनेक संस्थाओं से जुड़े हुए है । आप अनेक कार्यक्रमों में पूर्ण सक्रिय रूप से भाग लेते रहते है । आपकी धर्मपत्नि; दो सुपुत्री भी धार्मिक प्रवृत्ति के है । आपका भरापूरा परिवार धार्मिक संस्कारों से सुशोभित है । बम्बई मेवाड़ संघ को अग्रसर बनाने में आपका सहयोग काफी रहा है । सम्पूर्ण मेवाड़ एवं बम्बई के मेवाड़ संघ में आपका प्रभाव काफी है । मधुर भाषी, कड़ी मेहनत, उदारता, धर्म के प्रति अगाढ़ श्रद्धा आदि गुणों के आप भण्डारी है ।

सम्राट के महाप्रयाण की अन्तिम दर्शन यात्रा कार्यक्रम को सफल बनाने में आपका ही महत्वपूर्ण मार्ग दर्शन रहा था । बम्बई की अनेकों संस्थाओं में आप भाग लेते रहते है । समाज सेवा के हर कार्य में आप हमेशा अग्रसर रहते है । आप उच्च विचारों के कर्मठ सेवा भावी युवा रत्न कार्यकर्ता है । जैन कांफ्रेंस के चहुँमुखी विकास में आपका विशेष सहयोग बना रहता है । आपका एक ही ध्येय बना रहता है कि समाज का चहुँमुखी विकास हो रचनात्मक कार्य हो समाज आगे बढ़ता रहे ।

अ. भा. श्वेताम्बर स्थानकवासी जैन कॉन्फ्रेन्स, दिल्ली



महिला अध्यक्षा
डा विद्युत जैन



अध्यक्षीय कार्यालय •
के वी 45, कवि नगर,
गाजियाबाद-201001
(उ प्र)
फोन 8-40001/8-712541

शुभ कामना सन्देश ।

डा विद्युत जैन (गाजियाबाद)

सम्पूर्ण भारतीय जन सम्प्रदाया (श्वेताम्बर मूर्तिपूजक, स्थानकवासी तेरापची एव दिगम्बर) को एकता के सूत्र में पिराने वाली "ममग्र जैन चातुर्मास सूची" की प्रकाशन अखिल भारतीय सुसुप्र जन चातुर्मास सूची प्रकाशन परिषद् बम्बई, बार्द की पाय है। श्री बाबुलाल जैन 'उज्ज्वल' द्वारा इस सूची को पूर्ण पुस्तक रूप में, सम्पूर्ण जन मानुष के चातुर्मास की विस्तृत जानकारी देने का प्रयास अत्यन्त सराहनीय व प्रशंसनीय है।

इस अद्भुत सूची के प्रथम मासालकार होने पर इसकी उपयागिता से असीम तुष्टी हुई। इस सूची से सम्पूर्ण जैन समाज अत्यधिक लाभान्वित हो रही है। साथ ही सभी श्रावक, श्राविकाओं के धन, समय व शक्ति की बचत भी हो रही है। दूसरी ओर सम्पूर्ण जन मानस में इस सूची के माध्यम से एकता के भाव, प्रेम, प्रेम के भाव ही सज्ज दिख पड़ते हैं।

इस पुस्तिका में अनेकानेक लाभ जैसे सभी सम्प्रदायों के पूज्य जैन आचार्यों, साधु साध्वियों जी के प्रति वष होन वाले चातुर्मास, नई दीनाओं नई पदवियों एव समाज की धार्मिक गतिविधियों की सम्पूर्ण जानकारी जनायास ही एक स्थान व एक समय में प्राप्त हो जाती है।

मुझे आशा ही नहीं पूरा विश्वास है कि यह परिषद् समाज को इसी प्रकार की सेवायें देकर लाभान्वित व वृत्ताय बगनी रहगा। मैं अपनी ओर से व सम्पूर्ण स्थानकवासी जैन महिला वर्ग की ओर से पुन बधाई देती हूँ और मफनना की कामना करती हूँ।

शुभेच्छक
विद्युत जैन
गाजियाबाद

श्री चिमनलाल चंपालाल डांगी

बम्बई



श्री सम्पतलाल सिपानी

सिलचर (आसाम)



आपका जन्म महाराष्ट्र प्रान्त के (पूर्व खानदेश) जलगांव जिले के रवंजे ग्राम में 16-8-1951 को श्रीमान् चंपालालजी डांगी के यहां हुआ। B. Com तक की पढ़ाई पूर्ण करने के पश्चात् आप बम्बई में C. A. करने हेतु खाली हाथ आये और सी. ए. उत्तीर्ण करने के पश्चात् इनकम टेक्स सेलटेक्स कम्पनी सलाहकार एवं फायनेन्स मेनेजमेंट का व्यवसाय प्रारंभ किया। आपको सभी सी. सी. डांगी के नाम से पुकारते हैं एवं जानते हैं। आप अनेक संस्थाओं में जुड़े हुए हैं। भारत जैन महामण्डल में सन् 1978 से सदस्यता बनाने का कार्य आप करते आ रहे हैं। वर्तमान में भारत जैन महामण्डल के आप युवा शाखा के मंत्री हैं। ओसवाल मित्र मण्डल के कार्यकारिणी सदस्य, अ. भा. इवे. स्था. जैन कान्फेन्स बम्बई शाखा के संयुक्त मंत्री, चेम्बर्स ऑफ इनकम टेक्स कन्सल्टेंट के सदस्य, सेल्स टेक्स प्रेक्टिसनर्स एसोसियसन के सदस्य मालाड चेम्बर्स ऑफ टेक्स, कन्सल्टेंट के आजीवन सदस्य, फिल्म लाइन में सलाहकार, ट्रांस्पॉर्ट व्यवसाय के सलाहकार आदि पदों पर कार्य कर रहे हैं। भारत जैन महामण्डल के सर्वाधिक सदस्य बनाने के उपलक्ष में दो बार आपको प्रथम पुरस्कार भी प्राप्त हो चुका है। सी ए इन्टर में आपने सम्पूर्ण भारत में 26/50 वां स्थान प्राप्त किया है। बाहर गांव से अन्य जाति के लोग बम्बई आते हैं उनको पूरी जानकारीयां सहयोग आदि हर प्रकार की सहायता सहयोग आप प्रदान करते रहते हैं। आप फिल्म लाइन के भी सलाहकार हैं फिल्म इण्डस्ट्रीज को सलाह आदि प्रदान करते रहते हैं। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट लाइन का भी आपका अच्छा कामकाज है। बड़ी बड़ी रोड़-लाईनो का कर सलाहकार आप करते हैं। आप हर कार्यक्रम में भाग लेते रहते हैं। सम्पूर्ण बम्बई के स्थानकवासी समाज में आपका काफी प्रभाव है। आप कर्मठ सेवा भावी युवा कार्यकर्ता युवा रत्न हैं।


आपका जन्म राजस्थान प्रान्त के बीकानेर जिलान्तर्ग उदयरामसर में चैत्र शुक्ला 3 वि. सं 1989 को स्व. श्री उत्तमचन्दजी सिपानी के यहां हुआ। मिडिल तक शिक्षा ग्रहण करने के पश्चात् 15 वर्ष की लघु वय में वि. सं. 2004 में आप अपना भाग्य अजमाने कार्य की तलाश में सिलचर (आसाम) जैसे दूरस्थ प्रांत में पधार गये। वहां पर कुछ वर्षों तक कार्य करने के पश्चात् आपने स्वयं का कपडे का व्यवसाय प्रारंभ कर दिया वर्तमान में सिलचर में आपके कपडे का थोक एवं खैरुज का व्यवसाय है। आप साधुमार्गी समुदाय के आचार्य प्रवर श्री नानालालजी म. सा. के अनन्य भक्तों में से एक उच्चकोटि के श्रावक रत्न हैं। आप श्री साधुमार्गी जैन संघ के उपाध्यक्ष पद पर अपनी सेवाएँ अर्पित कर रहे हैं। आपने सिलचर में भी काफी सहयोग प्रदान किया। सम्मैतशिखरजी में एक कमरे का निर्माण, नोखा (राजस्थान) में स्थानक में एक कमरे का निर्माण, उदयरामसर में समता भवन में दो कमरों का निर्माण अपने सहयोग से बनाये। इसके अलावा कई संस्थाओं को भी आप सहयोग प्रदान करते रहते हैं। आचार्य श्री नानालालजी म. सा. के सन् 1984 में वीरीवली-बम्बई चातुर्मास काल के समय साधुमार्गी जैन संघ बम्बई की ओर से आपको सम्मानित भी किया गया था। आप अनेक पदों पर अपनी सेवाएँ प्रदान कर रहे हैं। आपके पाँच सुपुत्र एवं सुपुत्री हैं। आपका भरा-पूरा परिवार धर्म के सस्कारों से सुशोभित है। सिलचर में साधुमार्गी जैन संघ की स्थापना में आपका काफी योगदान रहा है। पूर्वोत्तर मारवाड़ी संघ सिलचर के उपाध्यक्ष साधुमार्गी जैन संघ सिलचर के उपाध्यक्ष, साधुमार्गी संघ उदयरामसर के मंत्री आदि पदों पर भी कार्य कर रहे हैं।

सेठ श्री छवीलदास त्रिकमलाल
सुरेन्द्रनगर



आपका जन्म गुजरात प्रान्त के सौराष्ट्र क्षेत्र में कोय गाण्ड में 14-11-1911 का मठ श्री त्रिकमलाल के यहां हुआ। मैट्रिक तक पढ़ा-पूरा करने के पश्चात् आपने उच्च शिक्षण की ओर रुख किया। पश्चात् आपने बी. ए. का डिग्री प्राप्त किया। आपका नाम से कोय गाण्ड कायदा का व्यवसाय है। श्री त्रिकमलाल नामक म्यानकवासी जैन छ. राठी मोटा समुदाय (सौराष्ट्र) की जन्म से स्थापना हुई। तब से आपने पूरा जीवन ही सच के प्रमुख दल में आये हैं। उसी दल में वर्तमान में इस सच के आप प्रमुख दल में आये हैं। इनके अलावा आप अनेक सस्थाओं के अनेक पदों पर भी कार्यरत हैं। श्री त्रिकमलाल जैन छात्रालय के प्रमुख, लिम्बडी जैन लायनेरी के प्रमुख, श्री अजयराजजी जैन धार्मिक शिक्षण बोर्ड के अध्यक्ष आदि पदों पर भी कार्य कर रहे हैं इनके अलावा निम्न सस्थाओं के भी कमेटी सदस्य दल में आये हैं गुजरात चेम्बस ऑफ कामस अहमदाबाद, चालावाड चेम्बस ऑफ कामस सुरेन्द्रनगर, रेल्वे बन्नेट्टीज कमेटी, उद्योग नगर महकरी मण्डी, सुरेन्द्रनगर, लिम्बडी ऐज्युकेशन मण्डी लिम्बडी आदि। आप लिम्बडी म्या छ. कोटी मोटा पक्ष समुदाय के सर्वे सर्वा प्रमुख हैं। आप काफी धार्मिक प्रवृत्ति के होनहार कमठ समाज सेवा कार्यकर्ता हैं। सम्पूर्ण गुजरात एवम् अन्ध आदि क्षेत्रों में आपका काफी प्रभाव है। सच सचान्त का सारा काय आपकी देखरेख में होगा। आप तब मन धन से सच सेवा समाज सेवाओं में कार्यरत रहते हैं। सभी कार्यक्रमों में आप उत्साह पूर्वक भाग लेते रहते हैं। आपका पूरा परिवार धार्मिक सत्कारों से सुगमित है।

श्री सम्पतलाल राजमल चौरडिया
पूना (महाराष्ट्र)



आपका जन्म महाराष्ट्र प्रान्त के पूना जिले के बोरीबुद्ध नामिक गांव में 15-6-1936 को हुआ। आपके पिताजी का नाम श्रीमान् राजमलजी बन्ध्यालालजी चौरडिया है। आप मूलतः राजस्थान के जाजवर ग्राम के निवासी हैं परन्तु पीडिया में महाराष्ट्र में बसे हुए हैं। एस. एस. सी. तक की शिक्षा पूरा करने के पश्चात् आपने सन् 1951 में सावदाना, हन्दी, और अनाज का योक व्यवसाय प्रारम्भ किया पूना में आपके योक व्यापार के तीन जगह विशाल प्रतिष्ठान हैं। सन् 1976 में योक व्यापार प्रारम्भ किया। आपने अनेक सस्थाओं को मुक्त हाथों से सहयोग प्रदान किया है। आप आचार्य श्री र्शनानन्दकृपिजी म सा, आचार्य श्री देवे द्रमुनिजी म सा गुरुदेव, श्री गणेशमुनिजी म सा 'शास्त्री' आदि के विषय में भक्त हैं। अमर जैन साहित्य सस्थान उदयपुर के आप उपाध्यक्ष, पूना चेम्बस सर्वे के समासद सदस्य एवम् अनेक सस्थाओं के अनेक पदों पर कार्यरत हैं। आप प्रतिवर्ष काठ प्रस्त लोगी एवम् अधों को एक बार भोजन भी कराते हैं। आपने अमर जैन साहित्य सस्थान उदयपुर स्थित जिनैन्द्र लायनेरी हॉल के निर्माण में पूरा सहयोग प्रदान किया है। इसके अलावा हर वर्ष गर्मी के दिनों में गाय बिल पशुओं, पाजरापोला का पानी एवम् हवा पास डलवाने की भी व्यवस्था अपनी ओर से करते हैं। आप पूज्य गुरुदेव सुप्रसिद्ध साहित्यकार श्री गणेशमुनिजी म सा 'शास्त्री' के विशेष अनन्त परम भक्तगण श्रावक हैं। आपके सुपुत्र श्री प्रकाश चौरडिया एवम् प्रवीण चौरडिया भी आपके साथ व्यवसाय में आपकी सहायता करते हैं। आपका भरा पूरा परिवार धार्मिक सत्कारों से सुगमित है। पूना शहर में आपका काफी प्रभाव है। आप समाज सेवा के हर कार्य में हमेशा अग्रसर रहते हैं।

श्री जयन्तीलालभाई रुग्नाथभाई दोशी

बम्बई



आपका जन्म गुजरात प्रान्त के सौराष्ट्र प्रान्त मे सावर कुडला शहर मे 55 वर्ष पूर्व श्री रुग्नाथ भाई दोशी के यहा हुआ। अध्ययन पूर्ण करने के पश्चात् व्यवसाय की ओर आपने कदम बढ़ाये। वर्तमान में आप बम्बई एव गुजरात की प्रख्यात पेढी गुजरात सेविंग के नाम से बैंकर्स एव इन्वेस्ट-मेंट्स का व्यवसाय करते हैं। आपने अपने माता पिता के स्मरणार्थ दिवालीवेन रुग्नाथ दोशी फाउन्डेशन एव श्री महाकाली ट्रस्ट की भी स्थापना की है। आपने निम्नलिखित लोकोपयोगी एवं धार्मिक कार्य भी पूर्ण किये हैं जिनमें प्रमुख हैं—गुजरात सेविंग कमा वापा वाडी सावर कुडला, पाठ-शाला एव छात्रावास सावर कुडला, स्थानकवासी जैन उपाश्रय राजकोट, गुजरात सेविंग जैन उपाश्रय हैदराबाद, गुजरात, सेविंग जैन साधना एव सेवागृह उपाश्रय मद्रास, गुजरात सेविंग अरोग्य धाम, वसई बम्बई, गुजरात सेविंग अतिथि गृह वसई बम्बई, गुजरात सेविंग ऐम्बुलेस सावर कुडला धरमपुर आदि। आप अनेक संस्थाओं मे अनेक पदो पर कार्यरत भी हैं जिनमे मुख्य इस प्रकार है श्री सौराष्ट्र दशा श्री माली सेवा संघ बम्बई कमेटी मेम्बर, श्री लल्लू भाई सेठ फाउन्डेशन बम्बई ट्रस्टी, सावर कुंडला मित्र मंडल बम्बई ट्रस्टी, स्था. जैन श्रीसंघ विलेपार्ले बम्बई कमेटी मेम्बर, श्री दिवालीवेन रुग्नाथ दोशी फाउन्डेशन ट्रस्टी, दशा श्रीमाली जैन बोर्डिंग सावर कुडला कमेटी मेम्बर, श्री महाकाली ट्रस्ट सावर कुंडला ट्रस्टी, श्री व. स्था. जैन स्वास्थ्य संघ घाट-कोपर ट्रस्टी, श्री सावर कुडला दशा श्रीमाली जैन युवक मण्डल बम्बई ट्रस्टी, श्री काया वामा जोशी परिवार बम्बई ट्रस्टी, सावर कुंडला दशा श्री माली स्था. जैन संघ सावर कुंडला ट्रस्टी श्री बालचंद मुन्दरजी दोशी रोजगार लक्ष्मी शैक्षणिक नंकुल सलाहकार आदि अनेक संस्थाओं में अनेक पदो पर आपका प्रभाव पूरे गुजरात में व्याप्त है। आप अनेकों संस्थाओं को मुक्त हाथो से सहयोग प्रदान करते रहते हैं। आपके तीन नुपुत्र एवं चार नुपुत्रीयां हैं। आपकी धर्मपति श्रीमती ज्योति वेन भी आपके कार्यों में हमेशा सहयोग प्रदान करती रहती है।

श्री बालचन्द देवीचन्द संचेती

पूना



आपका जन्म महाराष्ट्र प्रान्त के अहमदनगर जिलान्तर्गत रई ग्राम (तालूका पारनेर) में 14-7-1939 को श्रीमान् देवीचन्दजी संचेती के यहाँ हुआ। एस. एस. सी. तक शिक्षा ग्रहण करने के पश्चात् आप पूना पधारे एवं मिर्ची का होलसेल व्यवसाय प्रारंभ किया। आज मिर्ची व्यवसाय में आपका नाम प्रख्यात एव सर्वोपरि स्थान पर है। आप अनेक संस्थाओं में अनेक पदो पर रहते हुए अपनी अमूल्य सेवाएँ प्रदान कर रहे हैं। धार्मिक सामाजिक, राजनैतिक, शैक्षणिक आदि अनेक संस्थाओं से आप जुड़े हुए हैं। आप अनेक संस्थाओं को मुक्त हाथ से सहयोग भी प्रदान करते रहते हैं। अ भा श्वे. स्था. जैन कान्फ्रेंस दिल्ली के आप कार्यकारिणी के सदस्य भी हैं। मारवाडी हॉस्पिटल पूना, आदि को भी सहयोग प्रदान कर चुके हैं। श्री जैन संघ पूना के आप 9 वर्ष तक उपाध्यक्ष पद पर भी रह चुके हैं। के. एम. हॉस्पिटल पूना के सन् 1976 में उद्घाटन पर तत्कालीन भारत की प्रधानमंत्री स्व. श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा आप सम्मानित भी हो चुके हैं। इसके अलावा सन् 1984 में तत्कालीन भारत के राष्ट्र-पति श्री ज्ञानी जेल्सिंह द्वारा भी मण्डल व्यापारी क्षेत्र पूना की ओर से भी आप पुरस्कार प्राप्त कर चुके हैं। आप मिर्ची के होलसेल स्पेसलिस्ट व्यापारी हैं आपके पूना में मिर्ची के कई विशाल गोदास हैं जिनमें लगभग 50 हजार मिर्ची के बोरो का विशाल भण्डार है मिर्ची व्यवसाय में आपका आधिपत्य साम्राज्य है। आप धार्मिक सामाजिक के अलावा राजनैतिक संस्थाओं में भी सक्रिय भाग लेते रहते हैं। आचार्य श्री आनन्दकृष्णीजी म. सा. के आप परम भक्त हैं। आपको अनेकों धार्मिक, राजनैतिक, सामाजिक संस्थाओं की ओर से अनेक अभिनन्दन प्रशस्ती पत्र भेटकर सम्मानित किया जा चुका है। आपका पूरे पूना शहर में काफी प्रभाव एव प्रतिष्ठिता प्राप्त है। आप प्रत्येक कार्यों में भाग लेते रहते हैं। समाज के हर कार्यों में हमेशा सदैव अग्रसर रहते हैं।

श्री सुरेन्द्र कुमार दस्तानी बम्बई



आपका जन्म राजस्थान प्रान्त के बीकानेर शहर में 26-2-1957 को मठ माहव श्रीमान् दीपचन्द्रजी दस्तानी के यहाँ हुआ। वी काम मी ए तक की शिक्षा ग्रहण करने के पश्चात आप बम्बई पधार एव यहा पर हीरा व्यवसाय आयात नियात एव इन्वेस्टमटम का व्यवसाय प्रारम्भ किया। मैमस पी पी जैन एण्ड कम्पनी के आप डायरेक्टर है। आपकी बचपन म ही एम के प्रति काफी रची रही है। आप माधुमार्गी आचाय प्रबन्ध श्री नानालालजी म मा के परम अन्तवाणी श्रावक भक्ती मे मे एक है। आपका एक ही ध्येय हमेशा बना रहता ह कि जिस काम को हाथ मे लिया उसे ऐमा व्यवस्थित ढंग मे उदिया काय पूण करें। या ता काय करना ही नहीं और अगर उमको पूरा करने की जिम्मेदारी ली है तो ऐमा अच्छा काम करने दिखावे कि दुनिया दायती रह जावे। आप अनेका मस्याओं मे अनेक पदो पर काय कर रहे हैं मभी मस्याएँ सर्वोपरि बिनाम के उन्नति के शिखर पर ह। आप दि बम्बई डायमण्ट मर्चेण्ट एगोशियसन के कायक रिणी के सदस्य, अ भा माधुमार्गी जन समता युवक मघ रतलाम के मनी, अ भा माधुमार्गी जन सघ बीकानेर के सहमनी, श्री माधुमार्गी जन मघ बम्बई के सहमनी, श्री बीकानेर जामवान मित्र मण्डल बम्बई के सस्थापक एव भारत जैन महामण्डल, जयपुर क्लर मोसायटी, समता बेरीटे-वल ट्रस्ट जादि जनेकों मस्याओ को भी अनेक पदों पर अपनी मचाएँ अर्पित कर रहे हैं। आप प्रतिवष 50 हजार रुपये का दान अनेकाय रूप मे करते ही ह। समता युवा मघ द्वाग म्बधर्मो प्रुओं का कर मुक्त ऋण की व्यवस्था म योजना करने हैं। गोपाला के संचालन एव गरीबों को

→

श्री सुशीलकुमार जैन दिल्ली



आपका जन्म दिल्ली में 1-3-1967 को श्रीमान् सत्यनारायण जैन के यहाँ हुआ। मैट्रिक तक शिक्षा ग्रहण करने के पश्चात् आपने अपने पिताजी के माथ व्यापार में बंदम बढ़ाये। बतमान में आप स्टोल एव आयरन का व्यापार एव कमीशन एजेंट का काय दिल्ली में कर रहे हैं। आप शासन प्रभावक प रत्न श्री सुदशनलालजी म झा के परम विशिष्ट भक्तों में से एक हैं। गुरु भक्ति के प्रति आपको अगाढ श्रद्धाभाव है। ममाज सेवा के हर क्षेत्र में आप हमेशा अग्रसर रहते हैं। आप अनेक सस्थाओ को बहुत अच्छी सख्या में आर्थिक सहयोग प्रदान करते रहते हैं दान पुण्य में हमेशा अग्रसर रहते हैं। आप अपने पिताजी के व्यवसाय काय में सहयोग प्रदान करते रहते हैं। आपका पूरा परिवार घम के प्रति श्रद्धावान् है। आपकी आतिथ्य सेवाएँ स्मरणीय रहनी हैं। आप हमेशा धर्मादायता में तत्पर रहते हैं।


दवाईया आदि में सहयोग देते रहते हैं। समता भवन में भी सहयोग प्रदान किया है। बीकानेर में गत वष जो 25 दीसाएँ आचाय श्री के सानिध्य में हुई उसका सफल आयोजन कराने में आपका योगदान महत्वपूर्ण रहा या आप माधुमार्गी सघ के काफी कमठ कायकर्ता युवा रत्न है। आपके भ्राता बीकानेर में मराफ का काय करते हैं। बम्बई में जितने भी कार्यक्रम होते हैं उनमें आप भाग लेते रहते हैं। आपके दिमाग में ऐसी ऐसी नयी योजनाएँ हैं अगर उसे क्रियाचित्र की जावे तो समाज में काफी रचनात्मक प्रगति हो सकती है। समाज को आपसे काफी आशाएँ हैं।

श्री रविन्द्रकुमार जैन, (सियाल)
(समीचा-मेवाड़) बम्बई



आपका जन्म राजस्थान प्रान्त के मेवाड़ प्रान्त में समीचा (कुंभलगढ-मेवाड़) (राज) में 18-12-1949 को श्रीमान् गेहरीलालजी सियाल (जैन) के यहाँ हुआ। हायरसेकेण्ड्री तक शिक्षा पूर्ण करने के पश्चात् आप बम्बई पधारे एवं सन् 1968 में ज्वैलर्स सर्राफ का व्यवसाय प्रारंभ किया। वर्तमान में आप सी. पी. टेक गुलालवाड़ी के नाके पर शा. सुखलाल मागीलाल एण्ड कम्पनी के नाम से सर्राफ ज्वैलर्स का व्यवसाय करते हैं। श्रमण संधीय प्रवर्तक श्री अम्बालाल जी. म. सा. एवं महामंत्री श्री सौभाग्यमुनिजी म. सा. 'कुमुद' के आप अनन्य भक्त हैं श्री व. स्था. जैन श्रावक संघ (मेवाड़) के आप पूर्व में उपप्रमुख पद पर एवं वर्तमान में सलाहकार समिति के सदस्य के रूप में अपनी सेवाएँ अर्पित कर रहे हैं। श्री मेवाड़ संघ ठाकुरद्वार के वर्तमान में उपाध्यक्ष भी बने हुए हैं। आपकी जन्म भूमि समीचा में प्राथमिक विद्यालय के भवन निर्माण में पूर्ण रूप से आपने ही सहयोग प्रदान किया है। आपके तीन भ्राता श्री मागीलालजी, नन्दलालजी, एवं प्रकाशचंदजी भी बम्बई में ही व्यवसाय कर रहे हैं। आपकी बम्बई सर्राफ ज्वैलर्स की चार दुकानें हैं—(1) मे. सुखलाल मागीलाल एण्ड कम्पनी, (2) ए वन ज्वैलर्स, (3) विशाल सेल्स कार्पो, (4) मंगलदीप ट्रेडिंग कम्पनी। महामंत्री श्री सौभाग्यमुनिजी म. 'कुमुद' के बम्बई चातुर्मास को सफल बनाने में आपका पूर्ण सहयोग रहा था। बम्बई मेवाड़ संघ के सभी साधना भवनों के निर्माण कार्यों में आपका पूर्ण सहयोग रहा है। समाज के हर कार्यों में आप सेवार्थ हमेशा अग्रसर रहते हैं। आप कर्मठ सेवा भावी युवा कार्यकर्ता हैं।

श्री मांगीलाल मादरेचा
(सेमा-मेवाड़) बम्बई



आपका जन्म राजस्थान प्रान्त के मेवाड़ क्षेत्र के सेमा नामक छोटे से ग्राम में सन् 1955 को श्रीमान् वृद्धिचंदजी मादरेचा के यहाँ हुआ। सेकेण्ड्री स्कूल तक की शिक्षा पूर्ण करने के पश्चात् आप सन् 1971 में बम्बई पधार गये और यहाँ आकर आपने विल्डिंग-विल्डर्स का व्यवसाय प्रारंभ किया। हँसमुख चेहरा, मधुर व्यवहार, मधुर वाणी, बुद्धिमत्ता, कार्य में तत्परता, स्वभाव में नम्रता, हृदय में कोमलता, अगाढ़ धर्म श्रद्धा, आदि ऐसे अनेक गुणों का संगम आपमें विद्यमान है। श्री व. स्थान० जैन श्रावक संघ (मेवाड़) के वर्तमान में आप मंत्री पद पर रहकर अपनी अमूल्य सेवाएँ अर्पित कर रहे हैं। इनके अलावा भी अनेक संस्थाओं में अनेक पदों पर कार्य कर सेवाएँ प्रदान कर रहे हैं। मेवाड़ केशरी के मंत्री, अ. भा. ग्वे. जैन कान्फ्रेंस दिल्ली के सदस्य, चैतन्य संस्कृति मंच के संरक्षक आदि में भी आप सेवाएँ दे रहे हैं। बम्बई मेवाड़ संघ के सभी साधना सदनो के निर्माण स्थापना में आपने स्वयं ने तथा अन्य में सहयोग हेतु आपने काफी कार्य किया। उदयपुर में इस वर्ष आचार्य श्री देवेन्द्रमुनिजी म. के आचार्य चादर प्रदान समारोह के अवसर पर उदयपुर के समीप हल्दी घाटी में महावीर कूलर प्याऊ के निर्माण स्थापना में भी आपने पूर्ण सहयोग एवं कार्य किया है। आवरी माता में प्याऊ की भी व्यवस्था की गयी है। आप अच्छे संचालक एवं स्पष्ट निर्भिक वक्ता भी हैं। आदर्श सेवा मण्डल, जैन ग्योसल क्लब, मेवाड़ संघ, जैन कान्फ्रेंस केशरी आदि संस्थाओं अनेक श्री संघों द्वारा आपका सम्मान हो चुका है। किसी भी कार्यक्रम में अगर राशि एकत्रित करनी हो तो उसकी जिम्मेदारी आपको संचालन करने की देदी जावे तो चन्द मिनटों में धन का अवॉर लग जाता है ऐसी आपमें कला है। समाज की उन्नति उत्थान के प्रति आप हमेशा कार्यशील रहते हैं। आप कर्मठ सेवा भावी युवा कार्यकर्ता युवक रत्न हैं।

श्री शांतिलाल काकरिया वैंगलौर



आपका जन्म राजस्थान प्रान्त के जोधपुर जिले के चौबडी कला में 12-2-1949 का हुआ। आपके पिताजी का नाम स्व. श्री ज्ञानलालजी काकरिया है। सन् 1965 में एस एस सी की शिक्षा पूर्ण कर आप युनाइटेड इण्डिया टन्नोंरिस कम्पनी मद्रास में सेवा काय में लगे और फिर डिविजनल मैनेजर जैसे उच्च पद पर पहुँचे। इससे अलावा काकरिया मोपटम प्रा लि वैंगलौर (निमाण मोपटम) मैमब राजस्थान पायनन्स मि डीकेट वैंगलौर जादि ध्यात नाम प्रतिष्ठान भी आपके कायरत हैं। आप जनेका सम्थाओं में अनेक पदों पर रहकर समाज का अपनी अमूल्य सेवाएँ अर्पित कर चुके हैं और आज भी दे रहे हैं। आपके जेष्ठ भ्राता श्री गौतमचन्द काकरिया मद्रास भी सन्त्रिय समाज मैत्री युवा रत्न हैं। आपका पूरा परिवार स्व. श्री मधुकर केजरीजी म सा एव वतमान में प्रवन्ध श्री रूपचन्दजी म सा 'रजत' के अनन्य भक्त हैं। राजस्थान युवध एमोसियेशन, वैंगलौर के आप 1987-88 में सेक्रेट्री एव 1992-93 में फोर सेक्रेट्री पदों पर सेवाएँ दे रहे हैं। अपनी जन्म भूमि चौबडी ग्राम म गौशाला, अस्पताल, प्याऊ स्कूल, जैन म्यानक आदि कार्यों में आपन काफी अच्छा सहयोग प्रदान किया है।

आपकी धर्मपत्नी श्रीमती विमला काकरिया महान तपस्वी रत्ना है। सन् 1992 में 71 दिनों तक के उपवास में 33 दिनों तक बिना पानी के उपवास पूर्ण किया है जिसका विश्व गिनिज बुक, लंदन, दिल्ली की लिम्बा बुक एव मम्बई की जैन रिवाइल्ड डायरेक्ट्री में नाम सम्मिलित हो चुका है इसके अलावा 41, 31, आदि अनक छोटी बड़ी तपस्या पूर्ण कर चुके हैं। इस वय बिना जल के सिद्धी तप की तपस्या श्राव्य की है। आपका भरा पूरा परिवार धर्म के सुमन्कारों से सुगोभित है। सभी सत-सतियों की आप श्रद्धा भाव से भक्ति सेवा करते रहते हैं।

श्री जे एम सोहनलाल मूथा वैंगलौर



आपका जन्म राजस्थान के मारवाड में रास ग्राम में 27-6-1956 को श्रीमान् मोतीलालजी मूथा के यहा हुआ। वी ए तक की शिक्षा पूर्ण करने के पश्चात् आपने व्यवसाय की ओर अपने कदम बढ़ाये। आप वर्तमान में अलमूर वैंगलौर में ज्वेलस एव वैकर्म का व्यवसाय करते हैं। आप मूक, समाज सेवी, दानवीर, धर्मवीर, युवा कर्मठ कायकर्ता हैं। आप अनेक सम्थाओं में अनेक पदों पर रहकर अपनी सेवाएँ अर्पित कर रहे हैं। वैंगलौर गोरक्षा शाला, हिन्दी शिक्षण सभ, जैन शिक्षा समिति, श्री एस एम जैन सभ अलमूर, वैंगलौर भगवान महाजीर कॉलेज, श्री भगवान महावीर कल्याण मण्डप, नान मंदिर उदयपुर आदि सम्थाओं में सेवाएँ दे रहे हैं। स्थानकवानी समुदाय के साधु-साध्वीयो की सेवाएँ आप तत्परता से करते हैं। इस वय उपाध्याय श्री केवल-मुनिजी म सा के अलमूर वैंगलौर चातुर्मास कराने में आपका विशेष योगदान रहा है। आप सम्पूर्ण वैंगलौर में प्रतिष्ठित श्रावक रत्न है। आपने कई सम्थाओं को भरपूर सहयोग भी प्रदान किया है। आप हमेशा सेवा के कार्यों में अग्रसर रहते हैं। आपकी धर्मपत्नी श्रीमती रमीलीबाई, मुपुत्र श्री मोहनलाल, राजेशकुमार, पदमकुमार एव नवीन कुमार भरापूरा परिवार भी धर्म के मन्कारों से सुगोभित है। समाज का कोई भी कायक्रम होता है उसमें आप हमेशा अग्रणी रहते हैं। अपनी जन्म भूमि रास मारवाड में भी अनेक परमाधिक धार्मिक काय आपने द्वारा किये गये हैं। आप कर्मठ कायकर्ता, उत्साही युवा रत्न है।

श्री जवाहरलाल बोकडिया

बम्बई



आपका जन्म राजस्थान प्रान्त के पाली जिला के सोजत सिटी (खारीया) में 8-9-1952 को हुआ। आपके पिताजी का नाम श्रीमान् लालचंदजी बोकडिया है। वी.एस.सी. तक की शिक्षा पूर्ण करने के पश्चात् सन् 1965 में आप बम्बई पधारे एव 1972 में कपड़े का व्यवसाय प्रारंभ किया। उर्मिलोन सिल्क मिल्स के नाम से निर्मित आपका माल देश के कोने-कोने में जाता है। क्वालिटी में आपका प्रमुख स्थान है, ऐसी क्वालिटी अन्यत्र देखने को नहीं मिलती। पूरे भारत में आपके डीलर बने हुए हैं। आप अनेक संस्थाओं में अनेक पदों पर कार्यरत हैं जिनमें प्रमुख है—सोजत जैन संघ (सामूहिक जैन) के कार्यकारिणी सदस्य, भारत जैन महामण्डल के कार्यकारिणी सदस्य, ओसवाल मित्र मण्डल बम्बई, जैन कान्फेन्स दिल्ली, जैन कान्फेन्स बम्बई शाखा आदि के कार्यकारिणी सदस्य हैं। आपके बड़े भ्राता श्री नेमीचंदजी भी धार्मिक, सामाजिक क्षेत्रों में समाज सेवाओं में अग्रसर हैं। आप अनेक संस्थाओं को दान देते रहते हैं। आपने सोजत में प्याऊ का निर्माण, जानवरो के अस्पताल में पूर्ण सहयोग, आप स्व. श्री मरुधर केशरीजी म.सा के प्रमुख अन्तेवाशी भक्तों में से एक हैं। खारीया के माध्यमिक स्कूल के निर्माण में आपने पूर्ण सहयोग प्रदान किया है। पावनधाम जैतारण में आपकी ओर से 10 मित्री का सहयोग प्रदान होता है। श्री मरुधर केशरीजी म. के देहावसान के समय सामूहिक भोज आपकी ओर से ही हुआ था एवं सोजत शहर में हर 50 वर्ष में एक सामूहिक भोज होता है वह भी आपकी ओर से ही होता है जिसमें लगभग 1½ लाख व्यक्ति भोजन करते हैं। भारत जैन महामण्डल द्वारा आयोजित बम्बई में भगवान् महावीर जन्म ज्यन्ति समारोह में भी आपने पूर्ण सहयोग प्रदान किया था। आज पूरे पाली जिले में आपका काफी प्रभाव है। सोजत पावनधाम या बम्बई जैन समाज में कोई भी कार्यक्रम हो, आपका सहयोग उसमें अवश्य रहता है। उर्मिलोन जैमा क्वालिटी का नाम है वैसी ही समाज सेवाएँ आपकी उच्चकोटी की हैं। आप सभी कार्यक्रमों में सदैव भाग लेते रहते हैं।

श्री सुनिल चम्पालाल बम्ब

बम्बई



आपका जन्म महाराष्ट्र प्रान्त के विदर्भ प्रान्त के वर्धा शहर में 28-12-1955 को हुआ। आपके पिताजी का नाम श्रीमान् चपालालजी केशरचंदजी बम्ब है। वी कॉम एल. एल वी. तक पढाई पूर्ण करने के पश्चात् सन् 1979 में आप बम्बई पधारे एवं ट्रासपोर्ट व्यवसाय की ओर अपने कदम बढ़ाये। ट्रासपोर्ट, इंजीनियरिंग, कास्मोटिक सौन्दर्य प्रसाधन वस्तुएँ आदि वस्तुओं का निर्माण आप करते हैं। वजाज आटो परिवहन के लिए आपके पास लगभग 60 ट्रक हैं, जो देश के हर कोने में वजाज आटो का माल एक दूसरी जगह पहुँचाते हैं। सौन्दर्य प्रसाधन में सन्टूर निविद्या टेलकम पाउडर, सन्टूर वेवी पाउडर, लिरिल टेलकम पावडर आदि का निर्माण आप स्वयं करते हैं। आप स्कूली जीवन में भी कई बार सम्मानित हो चुके हैं। आपके पूज्य पिताजी द्वारा जैन तीर्थ भाण्डव चादा (महाराष्ट्र) एवं जैन वॉडिंग वर्धा के निर्माण कार्य हाथ में लिया और उसे पूर्ण करने में मलग्न थे। आप समाज सेवाओं में हमेशा अग्रसर रहते हैं। आप होनहार, वित्तम, उत्साही एवं सुसंस्कारी युवक हैं। आप अनेक संस्थाओं में अपनी उदारता प्रदान करते रहते हैं। सभी पूज्य साधु-साध्वियों की सेवाएँ करने में आप अपने आपको धन्य अनुभव करते हैं। वर्धा विदर्भ में आपका काफी प्रभाव है। आपकी धर्म के प्रति वचन से ही रुची रही है। वाणी में मधुरता, हृदय में कोमलता, कार्य में तत्परता, स्वभाव में नम्रता, व्यवहार में कुशलता, चेहरे पर हसमुखता मन में अगाध धर्म श्रद्धा आदि अनेक गुण आप में दिखायी देते रहते हैं। आप समाज के होनहार युवा रत्न हैं।

श्री ताराचन्द जैन (गोलेछा)

(पाली-मारवाड)



आपका जन्म राजस्थान प्रान्त के जाधपुर जिले के फरौदी शहर में 1-3-1943 को हुआ। आपके पिताजी का नाम श्रीमान् भूरमलता गुलेच्छा है। उदयपुर में हस्तकला प्रशिक्षण में बी.एड की शिक्षा ग्रहण करने के पश्चात् सन् 1965 में अध्यापक पद पर कार्य प्रारम्भ किया और वर्तमान में भी इसी पद पर कार्य कर रहे हैं। आप अच्छे वक्ता, विचारक, प्रबुद्ध, नव चेतन साहित्यिक लेखक एवं हानहार युवा कार्यकर्ता हैं। साली जैन सभ के 1978 से 81 तक मंत्री पद पर भी सेवाएँ दे चुके हैं। आप अनेक मस्थाओं में अनेक पदा पर अपना नेवाएँ अर्पित कर रहे हैं। गाढ़वाल खेलकूद सभ के कापाध्यक्ष, स्कूल शिक्षा बोर्ड टेनिम पाली जिला। सन 1981 के जनगणना कार्य में राष्ट्रपति द्वारा रजत पदक से भी सम्मानित हो चुके हैं। इसके अलावा बहुउद्देशीय चिकित्सा शिक्षा, शिक्षक सभा, शैक्षणिक वृत्तव्यन साहित्यिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों में आयोजन एवं संचालन एवं प्राध शिक्षा, शराद बंदी, महिला शिक्षा आदि कार्य में आपका योगदान काफी महत्वपूर्ण है। समाज के हर कार्य में आप हमेशा अग्रसर रहते हैं। वर्तमान में आप महावार जन धार्मिक शिक्षण शाला का संचालन एवं अध्यापन कार्य करते हैं। सभी मुख्य आचार्यों, साधु-साध्वियों की सेवा भी आप करते रहते हैं। आपके एक सुपुत्री एवं दो सुपुत्र भग-भुग परिवार हैं। आपका पूरा परिवार धार्मिक सत्कार से सुभाषित है।

श्री मजयकुमार जैन

दिल्ली



युवा रत्न, धर्मनिष्ठ उदार हैमनुष्य, उन्माही, नम्र एवं व्यवहार कुशल श्री मजयकुमार जैन का जन्म स्व श्री भोयीरामजी जन पंजाबी बाग नई दिल्ली के घर सन 1969 में हुआ। आप मानव पत्रिका सभ में शिक्षा प्राप्त कर ही रहे थे कि 'जवान' आपके पिता श्री का स्वयंवात हो गया। जन जवान-जान में ही आपके नई बंधा पर पिताजी की सभी जिम्मेदारियाँ आ गयीं। आपका शुभ चिन्तकों तथा पारिवारिक जनों के उचित भाग दान में आपने अपनी सभी धार्मिक पारिवारिक सामाजिक, व्यापारिक उत्तरदायित्वों का समुचित निवाह किया। आपका परिवार अपनी धर्म भावना दानशीलता, आर्थिक समृद्धि एवं सेवा भावना में सर्वे अग्रणी रहा है। सन् 1989 में आपने विवाह बंधन का बन्दीकार किया। आपकी धर्म पत्नी श्रामती रुचिका जैन अनि उदार, ममतामयी, सरल, तोम्य महिला है। आपको दो सुन्दर पुत्रियों कुमारी श्रेया तथा कुमारी नियति के पिता हान का भी गौरव प्राप्त है।

आपके पिता श्री ने बंधन जैन गज मदन पट्टी कवियान, सम्मालका, हरियाणा में बड़े ही उदार मन में स्थापित की थी उनका भी आप बड़े सुन्दर टैंग से संचालन व व्यवस्था कर रहे हैं। जिनमें आज लगभग 360 गाँवों में सेवा पा रही है। इस प्रकार आज आप अपनी अल्प आयु में अपनी कुशाग्र बुद्धि व लगन के कारण अनेकों सामाजिक, धार्मिक शैक्षणिक स्वास्थियक व व्यापारिक मस्थाओं में अनेक पदों का सुशाभित कर रहे हैं।

साथ ही आप काफी दानवीर उदार भी हैं। आप जीवन प्रवृत्ति याज्ञना के आधार स्तम्भ हैं। जैन समाज को आप जैसे युवा रत्न पर गौरव है। आप सभी साधु-साध्वियों की सन्तान एवं धर्म से समापित रहते हैं।

श्री राजकुमार जैन लुधियाना (पंजाब)



व्यवहार में कुशलता, हृदय में उदारता, स्वभाव में नम्रता, वाणी में मधुरता, चेहरे पर हसमुखता, कार्य में बुद्धिमता, मन में अगाढ़ धर्म श्रद्धा, आदि अनेक गुणों से युक्त श्रीमान् राजकुमार जैन का जन्म पंजाब प्रान्त के होशियार पुर जिले के जैजों दो आवा मे 13-9-1943 को हुआ। आपके पिताजी का नाम श्रीमान् जगन्नाथजी जैन जैजों दो आवा वाले हैं। बी. ए. तक की शिक्षा ग्रहण करने के पश्चात् आपने व्यवसाय में अपने कदम बढ़ाये। पंजाब की जग प्रसिद्ध वूलन फैक्ट्री ओसवाल वूलन मिल्स के आप शहर मे अधिकृत कमीशन एजेन्ट का कार्य कर रहे हैं। आप उत्तरी भारत की अनेकों संस्थाओं में किसी न किसी पदों पर रहकर अपनी अमूल्य सेवाएँ समाज को अर्पित कर रहे हैं। एस. एस. जैन सभा लुधियाना के आप सदस्य हैं। आपकी धर्मपत्नि श्रीमती सुमन जैन भी आपकी ही तरह समाज के हर कार्य में बड़ी रुची एवं श्रद्धा भाव से भाग लेती रहती हैं। लुधियाना एवं पंजाब दिल्ली आदि उत्तर भारत मे आपका काफी प्रभाव है। सभी साधु-साध्वीयों की सेवाएँ करने में आप अग्रसर रहते हैं। आपके दो सुपुत्र राजेश एवं रोहित जैन एवं एक सुपुत्री अनु भी धार्मिक प्रवृत्तियों में आपका अनुसरण करने लगे हैं। जैन एकता और संगठन कार्य मे आपकी काफी रुची है आपकी हमेशा यही भावना बनी रहती है कि सम्पूर्ण जैन समाज में एकता संगठन कायम हो और इस हेतु आप प्रयत्नशील भी हैं। आप कर्मठ युवा रत्न हैं।

श्री नवरत्नमल जैन (मेहता) बम्बई



आपका जन्म राजस्थान प्रान्त के चित्तौडगढ जिले के बड़ी सादडी शहर में सन् 1950 में श्रीमान् रगनाथसिंहजी मेहता के यहाँ हुआ। बाल्यकाल में ही आप बम्बई पधार गये एवं हायर सेकेंड्री तक की शिक्षा भी आपने बम्बई में ही पूर्ण की। उसके पश्चात् सन् 1968 से व्यवसाय की ओर कदम बढ़ाये एव इलेक्ट्रीकल सामान का व्यवसाय प्रारभ किया। आप हौनहार कर्मठ सेवा भावी कार्यकर्ता युवा रत्न हैं। सभी साधु-साध्वीयों की आप श्रद्धा भाव से सेवाएँ करते रहते हैं। शाताक्रुद्ध स्थित जैन स्थानक के पास जैन भवन में आप निवास करते हैं इसलिए प्रतिदिन पूरे परिवार द्वारा धर्मध्यान ज्ञान-राधना संत सती दर्शन सेवा आदि का विशेष लाभ आपको प्राप्त हो जाता है। आप कई संस्थाओं से जुडे हुए हैं। आपकी बम्बई में सभी जगह काफी पहिचान भी है। आप समाज सेवा के हर कार्यों मे हमेशा अग्रसर बने रहते हैं। आपका भरा पूरा परिवार धार्मिक संस्कारों से सुशोभित है। आप समय-समय पर सभी संस्थाओं को भरपूर सहयोग भी प्रदान करते रहते हैं। स्थानकवासी जैन समाज में आपका काफी प्रभाव है। हंसमुख चेहरा, वाणी में मधुरता, हृदय में उदारता, व्यवहार में कुशलता, कार्य में दक्षता, उत्साही सरल हृदय, आदि गुणों से युक्त कर्मठ सेवा भावी कार्यकर्ता हैं।

श्री बालचन्द्र रतनलाल खरवड बम्बई




श्री दीपचन्द्र रूपचन्द्र पारख वाशी-नई बम्बई



आपका जन्म राजस्थान प्रान्त के मेवाड़ प्रान्त के राज-समद जिले के गांव गलवा तहसील आलोट में 20-8 1946 का श्रीमान् रतनलालजी पामोरामजी खड के यहाँ हुआ। अपने पूसा के यहा कुवारिया में उच्च माध्यमिक तक की शिक्षा सम्पन्न की पढ़ाई में हमेशा उच्च स्थान ग्रहण करते थे। उसने पश्चात 1963 में आप बम्बई पधार एव चार वर्ष तक व्यवसाय का अनुभव लेने के पश्चात सन 1967 में अपना स्वयं का व्यापार प्रारंभ किया। सच्ची लगन एवं वाय-वृशलाता से अपन व्यापार का आपने धुन बढ़ाया। अपने साध-साध सामाजिक, धार्मिक एवं राजनैतिक कार्यों में अच्छी रूची लेने लगे। अपन गांव में कई शिक्षा के कार्यों के साथ साथ वहाँ की उच्च माध्यमिक विद्यालय भवन बनाने में अपना पूरा सहयोग दिया। कई सम्स्थाओं को आपने दान भी दिया है। घाटकोपर में आनन्द भवन निर्माण कार्य में भी आप सक्रिय रहे। आप इस समय श्री व स्या जैन श्रावण सप (मेवाड़) घाटकोपर के अध्यक्ष एवं गनवा युवक सेना सघ के भी अध्यक्ष हैं। मिन भाषी मिलनसार अच्छे बनना व साध-साध वायव्यमो के अच्छे संचालक भी हैं। बम्बई के मेवाड़ सघ द्वारा निर्मित साधना भवन में भी आपने काफी सहयोग प्रदान किया। इसका अलावा आप अनेक वायव्यमों में भाग लेते ही रहते हैं। समाज की बहुमुखी विकास के लिए आप हमेशा तत्पर रहते हैं। अस्पताल बनाने में भी आपने पूरा सहयोग प्रदान किया है। आपकी धर्मपत्नी श्रीमती भवरी देवी, सुपुत्र दिनश कुमार एवं सुपुत्रीया आशा कुमारी एवं अनिता कुमारी भी धार्मिक प्रवर्तिका हैं। आप वमठ सेवाभावी समाज सेवी युवा रहते हैं।

आपका जन्म महाराष्ट्र प्रान्त के पुना जिले के माता (धानपी) कस्बे में 13 4 1939 को श्रीमान रूपचन्द्रजी बालचन्द्रजी पारख के यहाँ हुआ। उच्च माध्यमिक तक की पढ़ाई पूरा करने के पश्चात् आपका सन 1957 में अर्थात् स्वयं का व्यवसाय प्रारंभ किया। आपका व्यापारिक गहन धर्म के प्रति लगाव रहा है। सभी माधु गांधीवादी व गणतंत्रियन में आप अपन आपका धर्म समझते हैं। कई बम्बई कार्यों में आपने कांदा बटाटा का धारा का व्यवसाय है। अनेक मालुमूनि में जन स्थानों एवं मंत्रि के निवास में आपने काफी सहयोग प्रदान किया है उमम मरम बहाहिष्मा आपा ही रहने किया। वागी च वाग्ने नियत जन स्थानों भवन के निर्माण कार्य में भी आपने काफी सहयोग प्रदान किया है। आप 'यू बम्बई' जैन स्थानों के अध्यक्ष पद पर चुना गये हैं। 'यू बम्बई' बादा बटाटा आइत व्यापारी सघ के प्रमुख हैं। हमेशा अनायास स्वयं, जम्पतान प्लाऊ जादिक कार्यों में आप हमेशा योगदान करते ही रहते हैं। आप जे एम एम सी में पढ़ने के उम समक आपकी योग्यता के कारण राष्ट्रपति में सम्मान भी प्राप्त हुआ है। आप उम्र तपस्वी भी हैं। पार-बम्बई में आपने स्मृति चिह्न प्रदान कर सम्मानित भी किया जा चुका है। आपने चार सुपुत्र एवं सुपुत्री हैं। नरापुत्रा पत्नी- धार्मिक सुमस्वारा में सुगर्भित हैं। आप आगतुक्त महानभावा की मनाए बडे आदरभाव में रहते हैं। कई बम्बई कार्यों में आपने काफी प्रभाव निष्पायी देता है। आप अनेक सम्स्थाओं का मुक्त हाथों से अच्छा सहयोग भी प्रदान करते रहते हैं।

श्री सिरेमल देशलहरा दुर्ग (म. प्र.)




आपका जन्म दुर्ग जिले की बालोद तहसील के नेवारीकला ग्राम में 1-10-1918 को उदारमना सेठ श्री मोतीलालजी देशलहरा एवं माता श्रीमती मृगयादेवी देशलहरा के यहाँ हुआ, आपके पूर्वज राजस्थान में ग्राम तिवरी, जिला-जोधपुर के मूल निवासी थे। वहाँ से आपके दादाजी श्री भोसराजजी देशलहरा व्यापार-वाणिज्य की तलाश में विभिन्न स्थानों पर विचरते हुए ग्राम नेवारीकला में सुस्थापित हुए। आप वचपन से ही कुशाग्र बुद्धि हैं, आपकी प्रारंभिक शिक्षा हरदा तथा कवर्धा में हुई। आपका विवाह साढ़े सत्रह वर्ष की आयु में श्रीमती जमुनादेवी देशलहरा से हुआ। व्यापार के क्षेत्र में आपने अपने अनुज श्री मानकलालजी देशलहरा के साथ मिलकर बहुत नाम कमाया। आपका व्यवसाय क्षेत्र विस्तृत रहा, आपने कृषि, ठेकेदारी, चाँदी, अनाज एवं कपड़े का थोक व्यवसाय पर अपना ध्यान प्रमुख रूप से केन्द्रित रखा 50 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर आपने सक्रिय व्यवसाय अपने अनुज व पुत्रों को सौंपकर सामाजिक एवं धार्मिक क्षेत्र में अपने कर्तव्यों को पूरा करने में अपना ध्यान लगाया। अभी वर्तमान में आपके परिवार में कपडा, चाँदी, ठेकेदारी, कृषि, टायर के व्यवसाय के अलावा कोक के कारखाने एवं खनिज उद्योग आपके आशीर्वाद से चल रहे हैं।

राजनैतिक पृष्ठभूमि तथा स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय योगदान देनेवाले परिवार से सम्बद्ध होने के कारण आप कांग्रेस के सक्रिय कार्यकर्ता तथा तहसील कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे। आप किसान आंदोलनों से जुड़े रहे, तथा जनपद एवं ग्राम पंचायत के सरपंच रहे। ग्राम नेवारीकला में सड़क, स्कूल व अस्पताल की व्यवस्था की तथा क्षेत्र में अनेक बेरोजगारों के लिए रोजगार के अवसर प्रदान किए को-ऑपरेटिव्ह आंदोलनों से आप सदा प्रभावित रहे तथा जनता मोटर को-ऑपरेटिव्ह सोसायटी की स्थापना की तथा कई वर्षों तक उसके अध्यक्ष रहे, धार्मिक क्षेत्र में आप विशेष रूप से सक्रिय हैं। तथा आचार्य श्री नानालालजी म. सा. में आपकी अनन्य

→

श्री मांगीलाल संचेती दुर्ग (म. प्र.)



आपका जन्म राजस्थान प्रान्त के जोधपुर जिले के इन्द्रोका नामक ग्राम में 10-1-1923 को श्रीमान् कालू-रामजी संचेती के यहाँ हुआ। प्रायसरी स्कूल तक की शिक्षा ग्रहण करने के पश्चात् आप दुर्ग पधारे एवं सविस करने लगे। उसके पश्चात् वि. स 2010 में मैसर्स राजेन्द्र क्लॉथ स्टोर्स एवं श्री पारसमल नेमीचंद नाम से स्वयं का कपड़े का व्यवसाय प्रारंभ किया। आप श्री व. स्था. जैन श्रावक सघ, दुर्ग के वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं एवं जनता ट्रासपोर्ट दुर्ग के पूर्व उपाध्यक्ष पद पर रह चुके हैं। आप जैन आचार्य श्री जयमलजी म. सा की समुदाय के स्व. युवाचार्य श्री मधुकरमुनिजी म. सा., श्री वृजलालजी म. सा, मंत्री मुनि श्री हजारीमलजी म. सा. के अनन्य भक्तगण हैं। आप अनेक संस्थाओं को मुक्त हाथों में सहयोग प्रदान करते रहते हैं। आपके भ्राता श्रीमान् पारस-मलजी संचेती भी साथ में सयुक्त परिवार में ही रहते हैं। आपके परिवार में लगभग 30 सुपुत्र, सुपौत्र, सुपौत्रियों का भरापूरा परिवार है। पूरा परिवार धार्मिक संस्कारों से सुशोभित है। सेवा के हर कार्यों में आप हमेशा अग्रसर रहते हैं। आप नियमित ज्ञान, ध्यान, धर्म क्रियाएँ बराबर करते रहते हैं। आपका दुर्ग शहर में काफी प्रभाव विद्यमान है। साधु-साध्वियों की सेवाएँ करने में आप अपने आपको धन्य मानते हैं।

→

श्रद्धा है। आपने महाकौशल-धार्मिक शिक्षण शिविर ट्रस्ट के माध्यम से शिविर लगाकर छत्तीसगढ़ एवं महाकौशल क्षेत्र के प्राय. सभी बड़े शहरों में वच्चों व युवाओं में धार्मिक संस्कारों का प्रत्यारोपण कर रहे हैं। आप इस ट्रस्ट के वर्षों से अध्यक्ष हैं। आप देवानंद जैन स्कूल राजनादगाँव के ट्रस्टी हैं। सादा जीवन उच्च विचार आपका आदर्श रहा है।

श्री मतोपकुमार वाफना राजनादगाँव (म प्र)

प श्री रविचन्द्र जैन दमोह (म प्र)



आपका जन्म मध्यप्रदेश प्रांत के राजनादगांव शहर में 28 4 1966 को श्रीमान लूनकरणजी वाफना के यहाँ हुआ। कठोर परिश्रम का कोई विकल्प नहीं इस व्यक्ति को अपने जीवन में चरित्रात्मक करने जाने श्री वाफना ज भा सुप्रम जैन नवयुवक मण्डल में महामंत्री हैं। राजनादगांव की ऐतिहासिक कई समस्याओं में पदाधिकारी के माध्यम में तन, मन, धन द्वारा जपित आपका मर्यादा युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणा स्रोत है। श्री सुधम जैन नवयुवक मण्डल राजनादगांव की अग्रिम प्रगति के लिए आपका उत्सर्ग है। मानव जीवन की साक्षरता एवं सभ्यता के लिए जिनके मध्यम को अपनाकर भातिकवाद की वृत्तियों में दूर रहकर अपने अपन जीवन का सुसम्कार शान्त बनाया है। प्राथमिक शिक्षण विधियों में शिविराधिया का अदम्य उदाहरण बढाने हेतु एक युवक को धर्म में जाड़ने हेतु आपकी स्व-स्वयं मागदात्र रही है। आप आजस्वी वक्ता हैं एवं सुप्रम प्रचारक मण्डल के प्रमुख स्वाध्यायी हैं। आप ज्ञान गच्छाप्रतिनिधि तपस्वी राज श्री चपालालजी म मा के परमभक्त हैं। सभी मातृ-माध्विया की सेवा करने में आप अपने आपका धर्म अनुभव करते हैं। आप ज्ञान, ध्यान धर्म के रथ में अग्रगण्य रहते हैं। आप अभी अविवाहित हैं। जैन युवक मण्डल राजनादगांव के आप कोषाध्यक्ष पद पर कार्य कर रहे हैं। इनके अलावा अनेक समस्याओं में अनेक पदा पर कार्य कर रहे हैं। आप पात्र भाई एवं एक बहिन हैं। वर्तमान में आपके राजनादगांव शहर में प्लायवूड एवं सर्राफ़े का व्यवसाय है सभी परिवार मयुक्त रूप में रहता है एवं धार्मिक समस्याओं में सुशासनित है। आगन्तुक महानुभावों की सेवा आप उच्छेद भावना से करते हैं। मातृ-माध्विया की विहार एवं सेवा मर्यादा आप काफी लगन श्रद्धा में करते हैं। आप बमठ कायवर्ती युवा जैन धावक रहल हैं।

आपका जन्म मध्यप्रदेश प्रांत के सागर जिले के बल्लू ग्राम में सन 1919 को श्रीमान् नेठ गोपालदासजी जैन के यहाँ हुआ। श्री गणेश दिगम्बर जैन विद्यालय मोरार भवन, सागर (म प्र) में साहित्य विचारद नव का अध्ययन पूरा किया। उससे पश्चात आपने व्यवसाय की ओर रुख बदिया। आज स 50 वर्ष पूर्व दमोह (म प्र) में अपना बतनों का व्यवसाय प्रारंभ किया जो आज यौव एवं वृद्ध व्यापार में दमोह में प्रमुख स्थान बनाय हुए है। बठिन महान् ईमानदारी, व्यवहार बुद्धि, मधुर व्यवहार से आप सम्पूर्ण दमोह में प्रसिद्ध हो गय। समाज की अनेक समस्याओं में आप अध्यक्ष, मंत्री एवं सामाजिक समस्याओं के सदस्य हैं। इससे पूर्व आप चौधरी दिगम्बर जैन मंदिर के अध्यक्ष, सहित ज्ञान मंदिर, जैन पाठशाला के मंत्री भी रह चुके हैं। आप समाज के हर सेवा कार्य में हमेशा अग्रसर रहते हैं। आप अनेक जैन जेनेटर समाज की अनेक समस्याओं को अच्छी मत्या में महयोग राशि भी प्रदान कर चुके हैं और अब भी दे रहे हैं। आपको अनेक समस्याओं की ओर से सम्मानित कर प्रशस्ति पत्र स्मृति चिन्ह भी प्रदान किये जा चुके हैं। गदर्य समिति, जैन पचायत दमोह कुण्डलश जैन क्षेत्र द्वारा भी सम्मानित कर प्रशस्ति पत्र दे चुके हैं। आपके परिवार में आपकी धर्मपति, सुपुत्र सुपुत्री आदि सभी धार्मिक सत्कारों से सुशीलित हैं। धार्मिक सामाजिक क्षेत्रों में आपका अग्रगणी स्थान है। आप अनेक धार्मिक अनुष्ठानों में बड़ी रुची में भाग लेते रहते हैं। जैन दर्शन में आपकी काफी रुची है एवं आपने साहित्य विचारद की पदवी भी ग्रहण की है। आपको दमोह सागर क्षेत्र के जैन समाज में पण्डित्य के नाम में सभी प्रेम से पुकारते हैं। आप समाज के बमठ सेवा भावी कायवर्ती हैं। आपका दमोह (म प्र) में वर्तमान में प्रभात वतन भण्डार का स्टील के बतनों का प्रतिष्ठित व्यवसाय है।

श्री मोहनलालजी श्री श्रीमाल दुर्ग



श्री गगाराम जैन नई दिल्ली



श्री मोहनलालजी श्रीश्रीमाल (उम्र 67 वर्ष) मूल निवासी तीवरी (जिला जोधपुर) राजस्थान के उदारमना दृढ़धर्मी सुश्रावक श्री प्रेमराजजी श्रीश्रीमाल के चार मुपुत्रों में से दूसरे नम्बर के सुपुत्र हैं। श्री मोहनलालजी ने अपने प्रचण्ड आत्म पुरुषार्थ से जीवन में प्रगति के पथ पर आगे कदम बढ़ाये हैं। जीवदया प्रेमी स्वाध्याय सामायिक एवं धार्मिक शिक्षा के प्रति आपकी सदैव रुचि रही है। स्वास्थ्य की परवाह न करते हुए आप स्वाध्याय प्रवृत्ति में सदा दिलचस्पी रखते हैं। दीन-दुखियों की सेवा में सदा सलग्न रहते हैं।

आपकी धर्मपत्नी कर्त्तव्यपरायण, धर्म उत्साही श्रीमती हुलासी देवी एवं आपके चारों होनहार मुपुत्र सर्व श्री मदन जैन, राजेन्द्रकुमार, सुनीलकुमार व अनिलकुमार तथा पौत्र भरत व पंकज आदि समस्त परिवार दुर्ग नगर की धार्मिक, सामाजिक एवं शैक्षणिक सस्थाओं में अग्रणी होकर तन-मन-धन से उत्तम सेवा प्रदान कर रहे हैं। आपके ज्येष्ठ सुपुत्र श्री मदन जैन कांग्रेस (आई) के युवा नेता व अनेक सस्थाओं में पदाधिकारी व सक्रिय हैं।

श्री मोहनलालजी श्रीश्रीमाल के सादगी एवं सौजन्यता-पूर्ण व्यवहार से श्रीसंघ व समाज के लोगों में आपका आदरणीय स्थान है। आपके ज्येष्ठ भ्राता स्व. श्री भंवरलालजी श्रीश्रीमाल दुर्ग स्थानकवासी जैनसंघ के अध्यक्ष, लघुभ्राता श्री ताराचन्द्र जी श्रीश्रीमाल दुर्ग नगर भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष व आपके ज्येष्ठ पुत्र श्री मदन जैन दुर्ग नगर निगम के स्थायी समिति के अध्यक्ष पद पर तथा जैन तरुण क्लब महावीर विद्यालय के अध्यक्ष पदों पर रहकर अच्छी सेवाएँ प्रदान की हैं। श्री मोहनलालजी श्रीश्रीमाल दीर्घायु बनकर संघ व समाज की उत्तम सेवा बजाते रहे यही मंगल कामना है।

आपका जन्म हरियाणा प्रान्त के रोहतक जिले में रवडा ग्राम में 12-5-1955 को हुआ। आपके पिताजी का नाम श्रीमान् रामेश्वरदासजी जैन है। बी. ए. की पढाई पूर्ण करने के पश्चात् आप दिल्ली पधार गये एवं मन् 1975 में स्वयं का व्यवसाय प्रारंभ कर दिया। वर्तमान में आप लेमिनेशन के काम में आनेवाले मेटेरियल, इलेक्ट्रीकल स्टीप सीटम एवं सिलिकोन सीट, बी.पी. सीट आदि का खरीद बेचान का व्यवसाय श्री वर्धमान उद्योग नाम के प्रतिष्ठान में करते हैं। आप अनेक सस्थाओं के अनेक पदों पर रहते हुए अपनी अमूल्य सेवाएँ ममाज को अर्पित कर रहे हैं। जैन साध्वी पद्मा विद्या निकेतन शक्ति नगर विस्तार, श्री एम.एम. जैन मभा पश्चिमी विहार, दिल्ली एवं श्री अ.भा.श्वे.स्था. जैन काफ्रेन्स युवा शाखा दिल्ली आदि सस्थाओं में भी जुड़े हुए हैं। ममाज सेवाओं के हर कार्यों में आप हमेशा अग्रसर रहते हैं। आपने अनेको सस्थाओं को मुक्त हाथों से सहयोग भी प्रदान किया है। आप श्री वर्धमान उद्योग दिल्ली के मैनेजिंग पार्टनर हैं। आपका पूरा परिवार धार्मिक प्रवृत्तियों से ओत-प्रोत है। अपनी कठिन मेहनत एवं बुद्धिमता में आप व्यवसाय में उन्नति के उच्च शिखर पर पहुँचे हैं। सभी साधु-साध्वियों की सेवाएँ आप आत्म भाव श्रद्धा, भक्तिभाव से करते हैं। आपकी धर्मपत्नी श्रीमती बीना जैन भी काफी धर्मपरायण श्राविका रत्ना हैं।

श्री भँवरलाल श्रीश्रीमाल दुर्ग (म प्र)



श्री वशीलाल सिंघवी वम्बई



तन्नामूमि राजस्थान प्रान्त के जोधपुर के तीवरी ग्राम के मूल निवासी श्रीमान भवरलालजी श्रीश्रीमाल मुपुत्र जीवदया प्रेमो धमनिष्ठ स्व मुधावक श्री प्रेमराजजी श्रीश्रीमाल के ज्येष्ठ मुपुत्र थे। पिछले 17 माल में जाप दुग वधमान स्थानकवामी जैन श्रावक मध के अग्र्यक्ष पद पर रहकर तन मन व धन में पूज्य माधु साध्वीजी एव मध जीर समाज की मन, कवन दायी के सर्वोच्छ्रेष्ठ भाव से सेवा वजा रह थे। आपकी हृदय मरुता जीव दया व अहिमा क प्रति प्रीति एव धार्मिक गिलाण व प्रायना क प्रति आत्म थडा अद्भुत एव अनुपम थी। माल में एक बार, वा जार अपन परिवार के माय पूज्य मन, मतिपाजा म मा की सेवा एव दगन हतु महाराष्ट्र, राजस्थान, मैसूर, बंगलौर, मद्रास आदि क्षेत्रों में अवश्य जाया करत थे। अजने निवाम स्थान पर पुत्र, पौत्र, पौत्री आदि परिवार के साथ नित्य प्रति मुत्र नाम मामूहित रूप म प्रायना किया करते थे।

आप चार भाइया म 1 श्री भवरलालजी, 2 श्री माहलालजी, 3 स्व श्री मायरलालजी, 4 श्री ताराचदजी एव श्री बडे पितानो श्री हनुमन्तजी एव श्री दीपचदजी आदि ममस्त श्रीश्रीमान परिवार म धम की लगन बहुत ही उच्चतम है। श्री भवरलालजी अवन जीवत की मादगी विवेकपूण स्वजयशीन स्वभाव एव जीव मात्र के प्रति कल्या की अनूठी भावना का नेत्र दुग नगर समेत छत्तीसगढ क्षेत्र म जन-जन म लासप्रिय बन गय थे। आपकी कम प्रवीण ण्ड कम्पनी वीर प्रवीण ण्ड कम्पनी का व्यवसायिक क्षेत्र म प्रमुख स्थान है। आपकी धमपनी श्रीमती त्रिशलादेवी कई वर्षों म महिला जागृति के लिए प्रचड पुण्याय क माय बहून ही जैनी सेवा प्रदान कर रह हैं। अमण सध क स्व आचाय मन्नाट श्री अन्वितनप्रिजी म मा, स्व सुवाचाय श्री मधुकरमुनिजी म मा एव वार्धा भूपण पूज्य श्री रतनमुनिजी म मा आदि नमा पूज्य मन-मतिपाजा म मा के प्रति आपकी अगाध श्रद्धा एव भक्ति रही है। →

आपका जन्म राजस्थान प्रान्त के मेवाड के गवारी वस्त्रे म 6 4-1953 को हुआ। आपने पितानो का नाम श्रीमान् जाधराजजी सिंघवी है। बी.एम.सी. तक शिक्षा ग्रहण करने के पश्चात् आप वम्बई में पछारे एव यहाँ पर 1980-81 में व्यवसाय प्रारंभ किया। आप कई सस्याजों में कई पदों पर अपनी भवार्थ प्रदान कर रहे हैं। श्री व स्था जैन श्रावक मध मेवाड के आप मगठन मंत्री हैं। श्री व स्था जैन श्रावक मध स्नवाल माक चेम्बूर वम्बई के भी आन सदस्य हैं। हृदयोपाठी मेवाड में स्थापित महावीर बुना प्याऊ के निर्माण कृत्य में भी आपने महयाग प्रदान किया है। आपकी धमपत्नी श्रीमती प्रेमलताबाई भी धमपरामण श्राविका रता है। आपके एक सुपुत्र एव तीन सुपुत्रियां हैं। पूरा परिवार धार्मिक मुमम्कारों से रत है। समाज के हर काय में आप हमेशा अग्रसर रहते हैं। आपने कई सस्याजों का अच्छा सहयोग भी प्रदान किया है। आप नमठ, सेवा भावी होतहार युवा रतन हैं। समाज के चहुँमुखी विकास के लिए आप हमसा चिन्तन करते हुए योजनाबद्ध काय करते की प्रेरणा देते रहते हैं।

आपके सुपुत्र श्री प्रवीणकुमारजी, श्री प्रदीपकुमारजी एव डॉ प्रफुल्ल जैन एव सुपुत्री चन्द्रपुर निवासी श्रीमती सराज बंद आदि पात्र-मात्रियां में धार्मिक जागृति की लहर छार्ई हुई है। ऐमे निम्नही, निराभिमानी, निस्वार्थी, सेवा भूति, कर्तव्यपरायण, उदारमना, मुश्रावक श्री भवरलालजी इमी जुलाई महीने की 14 तारीख की रात्रि के 101 बने नामस्कार मन्नामत्र के पवित्र स्मरण व श्रवण के साथ समाधि पूर्वक पठित मरण को प्राप्त हुए। स्वमस्थ आत्मा की सात्वत शांति के लिए श्री वार परमात्मा से हमारी चिन्तन प्रायना है। दीपक बुझ गया ज्योति जलाकर धूप सली सुलग गई, सौरभ महकाकर आपकी सेवा सौरभ अमर बन गई

श्री शंकरलाल बोथरा दुर्ग



श्री सुशीलकुमार जैन लुधियाना

धर्म नगरी दुर्ग के 500 घरों के 4000 व्यक्तियों के प्रेरणा स्थान रूप 69 वर्षीय श्री शंकरलालजी बोथरा, राजस्थान के सुप्रसिद्ध ग्राम तीवरी (जोधपुर) के मूल निवासी है। "सादा जीवन उच्च विचार" को अपने जीवन में मूर्तिमत् बनाने वाले सुश्रावक श्री जुगराजजी एव श्रीमती सुवावाई, बोथरा के तीन तेजस्वी पुत्र स्व. श्री भंवरलालजी स्व. श्री सुन्दरलालजी के पश्चात् आप तृतीय सुपुत्र हैं। आध्यात्मिक, सामाजिक, राष्ट्रीय एवं शैक्षणिक प्रवृत्तियों में पिछली चार पीढ़ी से बोथरा परिवार तन, मन व धन से सेवा कार्यों में कर्तव्य परायणता से जुड़े हुए है और दुर्ग ओसवाल पंचायत के अध्यक्ष पद का कार्यभार वहन कर रहे है। मध्यप्रदेश के एवं भारत के आदरणीय राजपुरुषों एवं जनता के हृदय में श्री शंकरलालजी ने अपनी चौबीस घंटों की निरन्तर निस्वार्थ सेवा प्रवृत्तियों के कारण रूप गौरव से युक्त स्थान प्राप्त किया है। दुर्ग नगर की जनता सुख-दुख के छोटे बड़े विभिन्न कार्यों में श्री शंकरलालजी की सच्ची सलाह और सेवा लेना पसंद करते हैं। सामाजिक सेवा एवं भावी पीढ़ी रूप बच्चों में नैतिक संस्कार डालने हेतु श्री मारवाड़ी विद्यालय एव श्री महावीर विद्यालय जैसी दुर्ग नगरी की गरिमा पूर्ण कई संस्थाओं के विकास में आपका सदैव महत्वपूर्ण योगदान रहा है। प्रत्येक विषयों में गंभीरता के साथ सोचकर निर्णय लेना यह आपके जीवन की खास विशेषता है। धन या सेवा प्राप्ति हेतु आपकी पेढ़ी पर आया हुआ कोई भी व्यक्ति निराश बनकर खाली हाथ नहीं जाता है

सभी धर्म व सम्प्रदाय के संतों एवं पूज्य जैन साधु साध्वीजी सहित चतुरविध श्री सघ की सेवा में आप श्रीमान् एवं आपके परिवार में धर्मपत्नी श्रीमती विदामीदेवी आदि परिवार के

→

आपका जन्म पंजाब प्रान्त के अमृतसर शहर में 1-12-1930 को श्रीमान् रिखीरामजी जैन के यहाँ हुआ। वी.ए. की शिक्षा पूर्ण कर आप लुधियाना पधारे एव स्वयं का व्यवसाय प्रारंभ किया। मैसर्स संगम वियर्स ग्रुप ऑफ इण्डस्ट्रीज के आप डायरेक्टर है। कठिन परिश्रम एवं व्यवहार कुशलता से आप व्यवसाय में चहुँमुखी प्रगति के किनारे पर पहुँचे हैं। सम्पूर्ण लुधियाना में आपका व्यवसाय काफी प्रसिद्ध है। आप बिना किसी प्रसिद्धि के हृदय से गुप्त दान देने में विख्यात है। आप अनेकों संस्थाओं में अनेक पदों पर रहते हुए अपनी सेवाएँ अर्पित कर रहे है। श्री आत्मारामजी जैन स्वास्थ्य सेवा समिति के आप चेयरमेन है। जन कल्याण धार्मिक सघों के मुख्य कार्यकर्ता है। समाज में निर्धन एवं असहाय जो बंधु है उनकी समय-समय पर आप सभाल लिया करते हैं। सभी साधु-साध्वियों के प्रति आपकी भक्ति भावना अटूट है। आप आचार्य सम्राट श्री आत्मारामजी म सा. के अनन्य भक्त है। सम्पूर्ण उत्तरी भारत में आपका प्रतिष्ठान सर्वत्र प्रसिद्ध है। आपका भरापूरा परिवार धार्मिक संस्कारों से सुशोभित है। आप समाज के सभी कार्यक्रमों में भाग लेते रहते है। आप सेवाभावी युवा कर्मठ कार्यकर्ता है। समाज में आपका काफी प्रभाव व्याप्त है।

→

सभी लोगों का सेवा कार्य में सदैव सहयोग मिलता रहता है। आपके स्व पिता श्री जुगराजजी ने श्री अखिल भारतीय साधु मार्गीय जैन सघ वीकानेर के उपाध्यक्ष पद को विभूषित किया था वैसे ही श्री शंकरलालजी आज भी दुर्ग नगरी की अनेक ऐतिहासिक संस्थाओं में विविध पदों पर अपनी उच्चतम निस्वार्थ सेवाएँ प्रदान कर रहे है, श्री शंकरलालजी बोथरा परिवार का जीवन आचार्य भगवन्त श्री नानेश के प्रति सम्पूर्ण आस्था एवं दृढ़ श्रद्धा के साथ समर्पित है।



राजस्थान प्रांत के जापुर जिला में फरगंदी तहसील के ग्राम मारीण मुजान के निवासी स्व मुन्नाजी श्री लिखमीचन्द्रजी काकर की सुपुत्री 90 वर्षीय श्रीमती मूलीवाई बायरा घमपनी श्री खेतमलजी बायरा ग्राम रायभरदाडा तहसील अरिया निवासी हैं। अभी आप परिवार के माय मध्य प्रदेश की घम नगरी दुर्गा में निवास करती हैं। आपका परिवार अपने पुण्याय एवं बहोते मेहनत आर उच्चवर्ग भावनाओं की माय में नजर आते अपने जीवन में जयपुर बना है पूज्य मूलीवाई के चेहरे पर सदैव मुस्मान छाई रहती है। दोन दुबो एव गाय बद्धतर तथा खान आदि मूक प्राणियों के प्रति भी अपनी करुणायुक्त सेवा की धारा सदैव बहती रहती है। आंगन में आपा हुआ कोई भी प्राणी मूलीवाई के लिए समान है। और उनकी सेवा का ताम प्राप्त करता है। इस 90 वर्ष की वृद्धावस्था में भी दशन वदन सामाजिक स्वाध्याय ध्यान और तप साधना में अपने स्वास्थ्य की परवाह न करने हुए आप निरंतर धार्मिक साधना आराधना में अपना मन लगा कर रखती हैं आप अपने ग्राम रायभरदाडा में धार्मिक व सामाजिक कार्यों में लगे रहने के कारण ग्राम में काफी लोकप्रिय है एवं छोटे बड़े सभी मृत्योर्षी के नाम में मन्वाधित करते हैं।

आपने 6 पुत्रों में से विजयेश्वर में ज्येष्ठ सुपुत्र श्री राणी-तानजी बायरा दुर्गा व स्या जैन मध के महामंत्री जैन मित्र मठल दुर्गा के मरसक एवं नई पीढ़ी में आध्यात्मिक ज्ञान व सम्कार हेतु प्रचंड पुण्याय करन वाली छनीमठ क्षेत्र की गौरवशाली सम्प्रा श्री महाकौशल जैन श्वेताम्बर माधु-मार्गीय शिबिर ट्रस्ट के मंत्री जादि विविध सम्प्राओं में विविध पदों पर रहकर आप अपना कीमती समय का मद्दुपयोग करते तप मन धन में समाज उत्थान के लिए सदैव कायगत हैं। समाज के छोटे बड़े सभी व्यक्तियों की अपने में वन मक उनकी सेवा अवश्य करते हैं।

समय जैन धारुणान् मूषि प्रकारान् परिपद के विकास कार्यों में छनीमठ क्षेत्र में शाखा मयोजक के रूप में आपकी निष्ठाएं सेवा अविस्मरणीय है।

आपका जन्म जन्म में 68 वर्ष पूर्व लाहौर पाकिस्तान में हुआ थाप स्व श्री खजाचीतानजी जैन की घमपति है। मन्मि तप की निष्ठा ग्रहण की उनके बाद आपका मन 1944 में स्व श्री खजाचीतानजी के साथ विवाह सम्पन्न हुआ। उनमें अश्वान् आप पाकिस्तान में लुधियाना आगय आर यहां पर टेक्सटाईल्स का व्यवसाय आरम्भ किया। आपके चार सुपुत्र हैं मय श्री पूरणचन्द्रजी, किमतीलालजी, विजेन्द्र कुमारजी एव नमोन्द्र कुमारजी। श्री विजेन्द्र कुमारजी भी सामाजिक कार्यों में अपने स्व पिताजी की तरह पुता उमी शान की दृढतापूर्वक निभा रहे हैं। आप अनेक मस्याओं का भरपूर सहयोग प्रदान करते रहते हैं। वनमान में आप लुधियाना पास भसी में मैसन शादीलाल खजाचीतान जैन के नाम से टेक्सटाईल्स का व्यवसाय करते हैं। आपका भरपूर परिवार धार्मिक सत्कारों में सुसोभित है। आपके पिताजी पाकिस्तान से आने के बाद प्रथम ऐसे श्रावक थे जो उन परिस्थितियों में झुंघने हुए समाज सेवाओं में सक्रिय रहे। आचार्य श्री आत्मारामजी म सा की प्रेरणा से सामने आयी विपदाओं का सामना करते हुए समाज सेवाओं में सक्रिय रहे। आज उनके लगाये गये बगीचे के पीछे लुधियाना में व्यवसाय भी प्रमुख स्थान रखते हैं। वे भारतीय मन्मूनिव के मुकबल प्रतीक थे। आचार सात्विक थे। आपके सुपुत्र श्री विजेन्द्र कुमार जैन आजकल अनेक सत्याओं में अनेक पदों पर काय कर रहे हैं। आप समाज में एक वरमठ कायकर्ता हैं।

श्री मेहता
स्व. श्री भोमराज श्रीश्रीमाल
बालोद (म. प्र.)



श्री प्रकाशचन्द सी. कानूगो
बम्बई



आपका जन्म मध्यप्रदेश प्रांत के छत्तीसगढ़ क्षेत्र के बालोद ग्राम में सन् 1916 में हुआ। आपके पिताजी मूलतः राजस्थान प्रांत के सोमेश्वर के निवासी थे जो बाद में बालोद आकर बस गये। अढ़ाई वर्ष की वय में आपकी माताजी का देहावसान हो गया और आपको फिर वापिस राजस्थान अपनी दादीजी स्व. श्रीमति गुमानी बाई के पास भेज दिया जहाँ उन्होंने आपका लालन पालन किया। 8 वर्ष की वय में फिर आप बालोद आ गये और शिक्षा भी बालोद में पूर्ण की। मात्र 14 वर्ष की वय में आप व्यवसाय में संलग्न हो गये थे। चौबीस वर्ष की अल्पायु में पिताजी का साया भी सिर से उठ गया था व्यवसाय एवं परिवार का सारा भार आपके कंधों पर आ गया था परन्तु फिर भी अदम्य साहस एवं कठोर परिश्रम करके अपनी साधना में निरंतर बढ़ते ही चले। अपनी बड़ी इमानदारी से लक्ष्मी का अर्जन प्रारम्भ किया। रचनात्मक प्रवृत्ति आप में बचपन से ही रही थी। छत्तीसगढ़ अंचल में बालोद में औसवाल भवन के निर्माण कार्य में आपने तन मन धन से महत्त्वपूर्ण योगदान दिया। सभी साधु-साध्वीयोंके आप अनन्य भक्त थे। सन् 1965में छत्तीसगढ़ का सर्वप्रथम धार्मिक शिक्षण शिविर आपने अपने स्वयं के खर्च से सौल्लास सम्पन्न करवाया था। आपके सद् प्रयासों से नगर में विशिष्ट जैन साधु-साध्वीयों के नौ चातुर्मासों का अप्रतिम लाभ उठाया है। आपके विशेष सहयोग एवं मार्गदर्शन में श्रीमति सीखवाई भीमराज श्रीमाल महावीर भवन बालोद भवन का भी निर्माण कार्य पूर्ण हुआ। बालोद के माध्यमिक स्कूल में भी एक कमरे का निर्माण आपने करवावा था। आपने श्रीमति सिखवाई भीमराज श्रीश्रीमाल ओषधि दान ट्रस्ट की भी स्थापना की थी। आप अनेक संस्थाओं में अनेक पदों पर रहकर अपनी सेवाएँ प्रदान करते रहते थे। श्री देव आनन्द जैन शिक्षण संघ राजनांदगांव के आप प्रमुख ट्रस्टी एवं अध्यक्ष भी थे। सद्गुरु कवीर मंदिर के आप प्रमुख आधार स्तंभ थे। आप जनपद ग्राम पंचायत न्याय पंचायत नगर पालिका में अनेक पदों पर सत्कार भी हुए थे। आपका गत माह दुःखद निधन हो गया।

श्री वर्द्धमान स्या. जैन संघ दुर्ग के सेवा निष्ठ कर्तव्य परायण जीवदया प्रेमी सुश्रावक श्री चन्दनमलजी बोथरा सुपुत्र श्री हनुमतमलजी एवं श्रीमती मूलीबाई यह तीनों व्यक्ति के जीवन में सबसे बड़ा गुण अपने हृदय की सरलता विशालता एवं नम्रता का था। नाम के मुताबिक श्री चन्दनमलजी का जीवन निस्प्रही एवं पवित्रता से चन्दन जैसी सौरभ से महका हुआ था। श्री दुर्ग संघ और जैन औसवाल समाज की प्रत्येक धार्मिक एवं सामाजिक गतिविधियों में सदैव तन, मन व धन से आपका सहयोग मिलता रहता था।

स्वर्गीय श्री चन्दनमलजी एक कवि के रूप में धार्मिक कविताओं की रचना और प्रस्तुति बड़े ऊँचे भाव से किया करते थे। उनकी श्रद्धा के आधार स्तंभ समता विभूति परम पूज्य आचार्य भगवन्त 1008 श्री नानालालजी म. सा. थे उनके दर्शन एवं वीतराग वाणी सुनने हेतु सपरिवार जाते थे और व्याख्यान सभा में अपनी बुलंद स्वर से धार्मिक गान पेश करते थे इसी कारण से वास्तव्य भाव से पूज्य आचार्य श्रीजी उनको कविराज के नाम पुकारते थे।

स्व.श्री चन्दनमलजी की धर्मपत्नी श्रीमती मैनादेवीजी एवं सुपुत्र होनहार नवयुवक श्री गौतमचन्दजी आज भी बड़े उत्साह एवं सम्यक् श्रद्धा के साथ धार्मिक विविध अनुष्ठानों में एवं विशेष रूप से पूज्य पंच महाव्रतधारी साधु-साध्वीजी के स्वास्थ्य लाभ के हेतु अपनी सम्पत्ति और समय का सद्उपयोग करके सेवा सुश्रुषा एवं वैयावच्च में सदैव अग्रसर रहते हैं।

स्व. श्री चन्दनमलजी का सादगी सौजन्यता पूर्ण महान जीवन हम सबके लिए सदैव प्रेरणा रूप बने और हम भी हमारे जीवन में आते हुवे कष्टों को झेलकर चन्दन की तरह कष्ट दुखों की परवाह न करते हुए अपने जीवन को अहिंसा के पथ पर चलाये यही शुभकामना है।

श्री चुन्नीलाल वेलजीभाई मेहता

माडवी-कच्छ (गुजरात)



आपका पूरा जीवन और काय जैनशासन की समुप्राप्ति में बीता है। अजरामर सम्प्रदाय (लीम्बडी सम्प्रदाय) के कच्छ विभाग के बरिष्ठ मधपति के पद पर आसीन हज़ार वि स 2021 न वि स 2037 तक (निरन्तर 25 वर्ष) पतुविध मध की आपकी बहुमूल्य सेवाएँ अजरामर धमसध के इतिहास में स्वर्ण अधर से मईव अंकित रहेंगी।

पू माधु-भाध्वीजी म सा के प्रति आपका हृदय म उमडती हुई भक्तिभावना शासन के प्रति प्रतिबद्धता और किसी भी कठिन समस्या का मरलतम समाधान ढूँढ निवालने की पुणाग्र बुद्धिमत्ता बेमिसाल थी। अजरामर धमसध (लीम्बडी सम्प्रदाय) के महामहिम पुण्यवता आचार्य भगवत श्री रूप-चद्रजी म सा के मुन्यपुममय शासनकाल के दौरान आपका ही यागदान विशेष रूप में मस्याप्त था।


आपके देना सुशिक्षित पुत्ररत्न 1 श्री लहेरीभातभाई मेहता एवं 2 उदारचेना दावीर डॉ नवीनभाई मेहता अमेरिका में सुम्बित हैं। एतदय पिछले 12 वर्ष स आप अपने पुत्र-मोत्रादि परिवार के बीच धममय जीवन बीता रहे हैं। उम्र म नवदशक के नडदोक हाते हुए भी आपकी प्रज्ञा सचेष्ट है, और आपन अपने कुलदीपक पुत्ररत्न डॉ नवीनभाई के प्रेरित करके जैनशासन की सेवा में एव अपनी मातृमूमि कच्छ की जाहिर जनता की सेवा में लाखा का दान दिलवाया है। माडवी छ कोटि जैन सध के आप 25 साल तक सपपति थे। इतलि० सवप्रथम आपन अपनी और से श्रीसध के एव उपाश्रय का नवनिर्माण करवा कर भेंट किया। माडवी

की जी टी हाईस्कुल में आपने समुप्य नवीनभाई न पू मातुश्री प्रणकुवर बटेन चुन्नीलाल मेहता प्रायना हॉल एवं पू मातु पितृ वदना के रूप में उसी नाम का एक हाईस्कुल भुज (कच्छ) में भी नवनिर्मित समुल करवाया है। इनके अलावा धार्मिक शिक्षा, मेडिकल, जीवदया, आदि अनेक क्षेत्रों में दानगमा बहाते रहते हैं।

आपके हृदय में दादागुरु श्री अजरामरजी स्वामी के प्रति भारी आस्था है। उनके नाम में अलङ्कृत जैनाचार्य अजरामरजी विद्याधाम के उद्घाटन व नामकरण ममारोह में धाम अमेरिका से अपने पुत्र डॉ नवीनभाई को भेजकर पुण्य पूज दादागुरु के प्रति अपनी आस्था की अभिव्यक्ति की। भुज शहर का मवमें विद्यालय इस शिक्षा-सकुल का उद्घाटन डॉ नवीनभाई ने करके शहर का समुद्र किया। विद्याधाम के संचालन दि भुज इग्लिश स्कूल ट्रस्ट ने उनका हार्निव अभिवादन किया। डॉक्टर माहूर ने विद्याधाम का सर्वाधिक आर्थिक सहयोग प्रदान किया है। इस समारोह में आपकी (श्री चुन्नीलाल भाई की) 25 वर्ष की सुदीध शासन सेवा के उपलक्ष्य में माडवी छ कोटि जैन सध के द्वारा और समस्त कच्छ तथा छ कोटि जैन समाज की आर से आपका "सप-रत्न" पद में रजतपट्ट द्वारा सम्मानित किया गया। आपके सम्मान का प्रतीक आपके पीथरत्न चि निरखतुमार ने स्वीकृत किया।

अप शताब्दि आयु से पार हो स्वस्व हाकर आत्म आराधना के मध जावन मंगलमय बनाएँ यही परिपद की और से मंगल प्रायना।

श्री प्रेमचन्द अचलदासजी मेहता बम्बई



आपका जन्म स्वतंत्रता प्राप्ति के वर्ष सन् 1947 में राजस्थान प्रांत के जालौर जिले के सांचौर कस्बे में हुआ। आपके पिताजी का नाम श्रीमान् अचलदासजी फोजराजजी मेहता है। सांचौर में मिडिल तक पढ़ाई पूर्ण करने के पश्चात् आप अपना भाग्य आजमाने बम्बई पधार गये और यहाँ आकर श्री राम मेटल के नाम से धातु व्यवसाय प्रारंभ किया आज विगत 30 वर्षों से इसमें संलग्न है। आपकी बचपन से ही धर्म के प्रति काफी रुची रही। आप ज्ञान गच्छाधिपति तपस्वीराजजी श्री चम्पालालजी म सा. के विशिष्ट भक्तों में से एक सुश्रावक रत्न हैं। अपनी जन्म भूमि सांचौर में स्वनिर्मित अस्पताल का आपने निर्माण करवाया है इसके अलावा प्याऊ का निर्माण, विरामी जालौर धार्मिक स्थलों में कमरों का निर्माण में विशेष योगदान भी दिया है। सांचोरी स्थानक-वासी मण्डल के मंत्री एवं छाजेड़ जैन समाज के आप प्रमुख सदस्य भी हैं। जीवदया के कार्य में आप हमेशा अग्रसर रहते हैं। जोधपुर सुधर्म प्रचार मण्डल द्वारा सांचौर में भव्य शिविर करवाने के उपलक्ष में आपके पूरे परिवार को प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया था। आपके तीन सुपुत्र एवं एक सुपुत्री सहित भरापूरा परिवार है। गत वर्ष ज्ञान गच्छाधिपति तपस्वीराज श्री चंपालालजी म. सा. के सांचौर में सफल चातुर्मास करवाने में आपका काफी योगदान रहा है। आप काफी दानवीर भी हैं। समाज सेवा के हर कार्य में आप हमेशा अग्रसर रहते हैं। आपके तीनों सुपुत्र व्यवसाय में तो आपको पूर्ण सहयोग देते ही रहते हैं परन्तु समाज सेवा कार्यों में भी आपकी तरह हमेशा अग्रसर रहते हैं। सांचौर एवं बम्बई में आपका नाम काफी प्रतिष्ठा के साथ लिया जाता है।

श्री प्रकाशचन्द सी. कानूगो बम्बई



आपका जन्म 2-7-1953 को राजस्थान प्रान्त के जालौर जिले के सांचौर कस्बे में हुआ। राजस्थान में हायर सेकण्ड्री तक अध्ययन पूर्ण करने के पश्चात् आप बम्बई महानगर पधार गये और व्यवसाय की ओर अपने कदम बढ़ाये। स्टील वाजार में प्रकाश स्टील के नाम से आपका व्यवसाय काफी प्रतिष्ठित है। आप बचपन से ही धर्म के प्रति काफी श्रद्धावान हैं। आप विगत 15 वर्षों से स्टील के थोक स्टोकिस्ट हैं। इसके अलावा चन्दन एण्ड कानूगो लेण्ड डेवलपमेंट्स का भी कार्य कर रहे हैं। वाणी में मधुरता, कार्य में तत्परता, हृदय में उदारता, हँसमुख चेहरा, ईमानदारी व सच्ची लगन से आज आप सम्पूर्ण स्टील मार्केट में ही नहीं अपितु पूरे देश में विख्यात हो गये हैं। आप अनेक संस्थाओं में अनेक पदों पर रहकर अपनी सेवाएँ समाज देश को अर्पित कर रहे हैं। आप स्टेनलेस स्टील मर्चेन्ट एसोसियेशन के 1989-90 में चेयरमैन भी रह चुके हैं। वर्तमान में आप अनेक पदों पर कार्यरत हैं उनमें मुख्य हैं दि अरबी-ट्रेडिंग कमिटी के चेयरमैन, मरीन लाईन जूनियर चेम्बर्स बम्बई के अध्यक्ष, श्री जैन श्वेताम्बर खरतरगच्छ संघ सांचौर के अध्यक्ष, मेटल एण्ड स्टेनलेस स्टील मर्चेन्ट एसोसियेशन के कमिटी मेंबर, कलम्बोली मार्केट कम्प्लेक्स के सदस्य, श्री सांचौर जैन युवक मित्र मण्डल के सक्रिय सदस्य, स्टील चेम्बर्स ऑफ इण्डिया के सदस्य आदि प्रमुख हैं। आप खरतरगच्छ समुदाय के गणिवर्य श्री मणिप्रभसागरजी म सा के अनन्य भक्तगण श्रावक रत्न हैं। आप सुप्रसिद्ध दानवीर भी हैं। आप समाज सेवा के हर कार्य में हमेशा अग्रसर रहते हैं। इस वर्ष सांचौर में आयोजित प्रतिष्ठा महोत्सव को सफल बनाने में आपका ही सर्वोपरि योगदान रहा है। आप अनेकों कार्यक्रमों में सम्मिलित होकर अपनी सेवाएँ प्रदान करते रहते हैं। समाज को आप से काफी आशाएँ हैं।


श्री बुधराज मोहनोत जोधपुर



जयमल जैन अख्यारण्य प्राज्ञ के आधुनिक म मिनी
मद्रपण बर 15 वि म 1982 म हुआ। आपके पिताजी का
नाम श्री बुधराजजी माहूनोत है। बचपन से ही जीवन के
उत्तम अर्थ में अपने सदान से व्यापार प्रारम्भ किया एव
वतमान म विपणन का अर्थ म वास्तुपोट के व्यवसाय में
विशेष प्राप्ति के पथ पर है।

जयमल टाउन्पाट वापरीकरण जोधपुर म स्थित है
जयमल एव आपके पिता श्री बुधराजजी का जीवन
बचपन म ही मूल धर्मियों की सेवा का रहा है आप अपने
नियम अनुसार प्रति अख्यारण्य को बन्दरों, मछली मीर का
दाना भोजन डालने के बाद ही भोजन करते हैं। गरीबों
अपग, निराश्रितों, T B मरीजों, काँडिया, मूरदासों
आदि की सेवा करने म हर समय तत्पर रहते हैं। आप
जयमल जैन श्रावण रूप जोधपुर के प्रमुख सदस्यों में हैं।
श्री जयमल गच्छ एव तान गच्छ क साधुओं में आपकी
अद्वैत आस्था है आप प्रतिदिन सामायिक करने के बाद ही
भोजन किया करते हैं। आपके जनका दिन रात्री भोजन के
व्याग है, आपके बड़े भ्रत प्रह्लादचय का नियम लिय वापी समय
हो गया है, आपने अपने माता-पिता की स्मृति में भी
श्रुताचाम चौप स्मृति भवन जोधपुर में (21) इक्कीस
हजार रुपए का भोजनशाला का निर्माण कराया आपकी
धर्मपत्नि श्रीमती इचरजकंबर के दोनों वर्षीतप पर
अति उपयोगी प्रभावना सामायिक उपकरणों से भरा
बैग व अटेचिपॉइन्ट। आपका पूरा परिवार ही धर्म प्रवृत्तिमय
है, आप कठिन परिस्थितियों में धवराय नहीं बल्कि निभय
होकर आगे बचने रहे मुसीबतों को हँस-हँसकर श्लेकर
खद प्रसन्नचित्त मुग से ही रहते हैं आये की आदर देना

श्री शातिलाल देवजी रांभीया वम्बई



आपका जन्म सन 1943 को वम्बई में हुआ। आपके
पिताजी का नाम श्रीमान देवजी गागजी रांभीया है। मैट्रिक
तक की शिक्षा पूर्ण करने के पश्चात् आपने वम्बई में बिल्डिंग
का व्यवसाय प्रारम्भ किया। आपने अनेक मस्याओं को बहुत
छ्छी सन्ना में दान राशि सहयोग म प्रदान किया। पाजर-
पाल, सेनेटेरियम, हॉस्पिटल, स्कूल, बन्या शालाएँ आदि में
आपने बहुत अच्छी सख्या में सहयोग प्रदान किया। आप
गुन्दाला महाजन वम्बई के मनोजिग ट्रस्टी भी हैं। आप अनेक
मस्याओं म अनेक पदा पर काय कर रहे हैं। आप समाज
सेवा के हर काय में हमेशा अग्रसर रहते हैं। आपके एक सुपुत्र
श्री प्रफुल्ल भाई है। आपका पूरा परिवार धार्मिक सत्कारी
में रहत है।

→
जैसे आपका विरासत में मिला हो आपका कहना है कि घर
आया मा जाया बराबर हाता है, पद से परे हटकर आप
सदैव साधु-साध्वी एव समाज सेवा में हर समय तत्पर रहते
हैं, आपके 4 पुत्र एव 2 पुत्रिया हैं जो क्रमशः धनराज,
आनन्दराज वानराज, मानराज माहूनोत जो लगभग
35-40 स्थानों में जुड़े हुए हैं, पुत्रिय श्रीमती मदन-
कुँवर व शकुन्तला हैं, आप वरीद-वरीद सत्कार के नामों
से निवृत्त हो चुके हैं आप पूर्व में ट्रासपोर्ट एसोसिएशन के
मत्री भी रह चुके हैं एव वतमान में मोहनोत भाईया
जाधपुर के वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद पर सुयोभित हैं। पुण्याय
करने म आपका मनोबल बहुत मजबूत है, आपका कहना
कि किया सा काम भजीया सो राम, अत समय पर सब
काम कर लेने चाहिये।

श्री वरदीचन्द डांगी बम्बई



श्री गुणवंतभाई माधोलाल वरवालिया बम्बई



आपका जन्म राजस्थान प्रान्त के मेवाड़ क्षेत्र के आमेट वाया काँकरोली में 1-1-1945 को श्रीमान् भेरूलाल जी डांगी के यहाँ हुआ। हायर सेकेण्ड्री तक शिक्षा ग्रहण करने के पश्चात् 30 वर्ष पूर्व आप कार्य की तलाश में बम्बई पधार गये और कुछ वर्ष व्यवसाय का अनुभव प्राप्त करने के पश्चात् आपने अपना स्वयं का ज्वैलर्स-सर्जाफ का व्यवसाय प्रारंभ कर दिया। आज चेम्बूर-बम्बई में आपका श्री गणेश ज्वैलर्स के नाम से सर्जाफ का शौ रूम है। आप अनेक संस्थाओं में अनेक पदों पर कार्यरत हैं जिनमें मुख्य श्री मेवाड़ सघ चेम्बूर के अध्यक्ष श्री व. स्था जैन श्रावक संघ रत्नवाल पार्क चेम्बूर के कोषाध्यक्ष, आदि प्रमुख हैं। गत वर्ष श्रमण सघीय श्री नरेन्द्रमुनिजी म सा. के काकरोली के चातुर्मास को सफल बनाने में आपका काफी योगदान रहा। आपको अनेक संस्थाओं एवं श्री सघों द्वारा सम्मानित भी किया जा चुका है। मेवाड़ संघ बम्बई के आप कर्मठ सेवा भावी कार्यकर्ता हैं। आप अनेक संस्थाओं को मुक्त हाथों से समय समय पर सहयोग भी प्रदान करते रहते हैं। बम्बई में अनेक कार्यक्रमों में आप भाग लेते रहते हैं। समाज का चहुँमुखी विकास एवं समाज उत्थान कार्य में आप हमेशा प्रयत्नशील रहते हैं। सभी साधु साध्वियों की सेवाएँ करने में आप हमेशा अग्रसर रहते हैं। आपका भरा पूरा परिवार धर्म ध्यान में सलग्न रहता है। मेवाड़ सघ बम्बई के चहुँमुखी विकास के लिए आप कार्यरत हैं। आप कर्मठ सेवा भावी युवा कार्यकर्ता हैं। आप अच्छे वक्ता भी हैं। कई कार्यक्रमों का संचालन भी अच्छी तरह से करते रहते हैं।

आयरेक्टर —माधवराव टेक्सटाईल इंडस्ट्रीज प्रा. लि. बम्बई

ट्रस्टी-मंत्री —श्री व. स्था जैन श्रावक संघ, चेम्बूर बम्बई

कार्यकारिणी—वृहद् मुंबई स्थानकवासी जैन महासंघ-बम्बई

सदस्य

सदस्य —अध्यात्मिक स्टडी सर्कल, घाटकोपर-बम्बई

सदस्य —काठियावाड़ स्थानकवासी जैन समाज

—घाटकोपर-बम्बई

संपादक —काठियावाड़ी जैन पत्रिका (मासिक गुजराती)
बम्बई

विशेष—“गुजन” वरवालिया के नाम से छ. पुस्तकें प्रकाशित
“तपाधिराज वर्षातिप” एवं “शैलेशी” जैनधर्म पर
आधारित पुस्तकें भी प्रकाशित “जैन दर्शन में शाका-
हार” नामक पुस्तक डॉ मधुवेन वरवालिया द्वारा
गुजराती भाषा में रूपांतरित 50 हजार पुस्तकें
प्रकाशित हो चुकी हैं।

श्री वेदप्रकाश जैन दिल्ली



श्री महिपाल जैन लुधियाना

आपका जन्म हरियाणा प्रान्त के जिंद जिले के बडौदा ग्राम में 15-7-1946 को हुआ। आपके पिताजी का नाम श्रीमान् दीपचन्दजी जैन है। मिडिल स्कूल तक पढाई पूर्ण करने के पश्चात् आप अपना भाग्य अजमाने एव काय की तलाश में दिल्ली आ गये और वहाँ पर अपना स्वतन्त्र निजी व्यवसाय प्रारम्भ कर दिया, बतमान में आप धायर, निर्दिग, अल्युमिनियम, कौयल आदि का मेसर्स सुशीलकुमार जैन एण्ड कम्पनी एव जैन वायस के नाम से दिल्ली में व्यवसाय कर रहे हैं। श्री एम.एम. जैन सघ दिल्ली के आप सदस्य हैं। सभी माधु-साध्विया की सेवाएँ करने में आप अपने आपको घाय मानते हैं। आप अनेक सस्थाओं को समय समय पर सहयोग भी प्रदान करते रहते हैं। समाजसेवा के हर कार्य में आप हमेशा अग्रसर रहते हैं। अपने कई जगह प्याऊ का निर्माण काय भी किया है, जिसका पूरा सहयोग आपन ही वटन किया है। अपने परिवार में सभी धार्मिक प्रवृत्तियों के व्यक्ति हैं। आपने दो सुपुत्र एव एक सुपुत्री है। अपने अदम्य साहस एव कठिन परिश्रम, मिलनसार, व्यवहार बुशलता से आपने व्यवसाय में चहुँमुखी विकास उत्पन्न किया है। सम्पूर्ण दिल्ली में आपकी काफी पहचान है। आप कमठ सेवाभावी समाज सेवक कायकर्ता हैं।

आपका जन्म पंजाब प्रान्त के लुधियाना शहर में 16 मार्च 1943 को हुआ। आपके पिताजी का नाम श्री त्रिलोकचन्दजी जैन (भगतजी) है। मेट्रीक तक शिक्षा ग्रहण करने के पश्चात् आपने व्यवसाय की ओर ध्यान दिया। प्रारम्भ से ही होजियरी का व्यवसाय कर रहे हैं। होजरी की दुनिया में जाना पहिचाना नाम "स्नोवेज निटम" नामक लुधियाना की आपकी फर्म है। उच्चकोटी का होजरी का माल बनता है। आप स्नोवेज निटस के डायरेक्टर हैं। आप अनेक सस्थाओं से जुड़े हुए हैं। अनेक जनकल्याण हित की सस्थाओं को आप सहयोग भी प्रदान करते रहते हैं। आचार्य सम्राट पूज्य श्री आत्मारामजी म सा के विद्या गुरु श्री मोतीरामजी म सा, के नाम से जो स्मारकीय जन सेवाएँ (अस्पताल) आदि काय करने का निणय हुआ उसके प्रमुख कायकर्ता आप ही हैं। अनेक कायक्रमों में भाग लेते रहते हैं। लुधियाना एव उत्तरी भारत में आपका काफी प्रभाव एव नाम है। आचार्य सम्राट श्री आत्मारामजी म सा के आप अनन्य भक्त हैं। आपका भरापूरा परिवार धार्मिक सस्कारों से सुशोभित है। लुधियाना के होजरी व्यवसाय में आपका काफी प्रमुख स्थान है। आप कमठ सेवा भावी कायकर्ता हैं।

श्री सतीशकुमार जैन लुधियाना



आपका जन्म पंजाब प्रान्त के सियाल कोट में 8-12-1940 को लाला श्री रोशन लालजी जैन के यहां हुआ। लुधियाना में मेट्रीक तक की पढ़ाई पूर्ण करने के पश्चात् आजादी के 7-8 वर्ष पश्चात् व्यवसाय की ओर आपने कदम बढ़ाये। आपने होजरी-रेडीमेड का व्यवसाय लुधियाना में प्रारंभ किया वर्तमान में सतीश जैन होजरी (रजि.) के नाम से आपका व्यवसाय कार्यरत है। होजरी एव रेडीमेड के आप निर्माता एवं थोक विक्रेता हैं। अपने कठिन परिश्रम एवं विश्वशनीयता से आज सम्पूर्ण भारत में आपका नाम प्रसिद्ध है। "बुल आय सर्ट" नामक मार्का सभी जगह प्रसिद्ध होकर धूम मचा रहा है होजरी एव रेडीमेड की आपकी स्वयं की फैक्ट्री भी कार्यरत है। आप अनेक संस्थाओं में अनेक पदों पर रहकर अपनी सेवाएँ अर्पित कर रहे हैं। श्री एस एस. जैन सभा, मुन्दर नगर, लुधियाना की कार्यकारिणी के आप सदस्य भी हैं। आप अनेक संस्थाओं को काफी सहयोग भी प्रदान करते रहते हैं। लुधियाना में जो भी कार्यक्रम होता है उसमें आप अवश्य भाग लेते रहते हैं। आपके परिवार में आपकी धर्मपत्नी के अलावा एक सुपुत्र एवं दो सुपुत्रियाँ भी काफी धार्मिक प्रवृत्ति के हैं। आपके व्यवसाय की प्रसिद्धि पूरे देश में फैली हुई है। आप कर्मठ सेवाभावी युवा रत्न हैं।

श्री किमतीलाल जैन लुधियाना

आपका जन्म पंजाब प्रान्त के जालंधर जिले के बंगा कस्बे में 2-5-1950 को श्रीमान् लाला वासुदेवजी जैन के यहाँ हुआ। मेट्रीक तक शिक्षा ग्रहण करने के पश्चात् सन् 1971 में व्यवसाय की ओर कदम बढ़ाये और लुधियाना में होजरी का व्यवसाय प्रारंभ किया। वर्तमान में आप मैसर्स के. एल. ओसवाल होजरी फैक्ट्री (रजि.) लुधियाना के सुप्रसिद्ध व्यवसायी हैं। होजरी की स्वयं की मिले हैं। जहाँ उच्च कोटी का माल बनता है। आप अनेक संस्थाओं को मुक्त हाथों से सहयोग देते ही रहते हैं। आप अनेक पदों पर भी कार्यरत हैं। समाज सेवा के हर कार्य में आप हमेशा अग्रसर रहते हैं। आपका भरापूरा परिवार धार्मिक संस्कारों से ओतप्रोत है। श्रमण सभ के साधु-साध्वियों के प्रति आपकी अगाध श्रद्धा भावना है। श्रमण संघीय उपप्रवर्तक श्री सुदर्शनमुनिजी म. सा के आप अनन्य भक्त हैं। कठिन परिश्रम, अपनी ईमानदारी, व्यवहार कुशलता, आदि अनेक गुणों के कारण आपके व्यवसाय की प्रतिष्ठा पूरे उत्तर भारत में विद्यमान है। आप आगन्तुकों की सेवाभावना के लिए हमेशा अग्रसर रहते हैं। धर्म के प्रति आपकी वचन से ही रुची एवं लगन रही है। आप होनहार कर्मठ सेवाभावी कार्यकर्ता युवा रत्न हैं।

स्व श्री सोमचन्द्र बनाजी जीवाणी वम्बई

श्री एम पारसमल पगारिया बंगलौर



(स्व श्री माहात्मान पगारिया)

विचारा एव व्यवहार म कानिदारी हृदय म बरगा
शील, आम्पा के दूढ़ एय परतु घ बातर स्व गामान्द बनाजी
जीवाणी ता व्यक्ति अन्ठा अनुपम एय प्रेरण था ।
आपने समान माहित्य राष्ट्रवा, व्यापार, मञ्जलि आदि
विभिन्न क्षेत्र म जा अभूतपूर्व योगदान दिया यद् प्रेरण है ।
आपका जन्म राजस्थान के जातार जिन के छोटे ग्राम पूरण
मे 29 मार्च 1919 वा हुआ । दा यय की उम्र म माता का
वियोग एय 12 वय की शिक्षावस्था म पिता का छाया
स भी वचिन हान वाता वातक जीवाणी अपने गुरुणा,
जीवन एय साहम म सम्पर्क मे नीतरी के लिए आया । कठोर
जीवनचर्या, महत्त एय ईमानदारी म नीतरी बरत करी
व्यवसाय म आय एय एक मफन व्यापारक रूप म अयो-
पाजन म मघन हुए ।

अय उनवे जीवन का लक्ष्य नहीं था अत व द्रगम
निष्प नहीं हुए बनि परापनाग, मरा एय राष्ट्र हिन म
उसका नियोजन करन लगे । भारत छोडा आन्दान म
लाठिया छाड, गांधीजी म मिन एय आजीवन छात्री पटना
का मरुप लिया । स्वतन्त्रता मनाया के मद्यमा वा,
उनकी जमानते कराई एय उनर परिवारक व भरण पापण
मे सहयोगी बन । राजनैतिन जागण व माव साथ सामाजिन
रुढिया, अधविद्यमा एय कुप्रयाआ व विरुढ नी उहाने उम
युग म वाय किया जय राजस्थान का जैन ममाज वापा पिछडा
हुआ था । दहेज प्रथा, बन्धा विप्रय, पर्दा प्रथा आदि के विरोध
म व छडे हुए । सन 1943 म 'मारवाड जन विदाम' मासिक
का सम्पादन किया एय अतिम धणा म भी पुनः 'हारा' नामक
पुस्तक अस्पताल म तैयार की । उहाने अननसूत्रे, अस्पताल,
धमशास्त्राएँ आदि अपने जीवाणी चेरिटेबल ट्रस्ट स
→

आपका जन्म राजस्थान प्रांत के जागरी जिन व कुपेण
शहर म पान्मुन गुरवा 6 वी म 1988 को श्रीमान मान
मानत्री पगारिया व यकी हुआ । मिटिन कराम मर की
गिया पुन करा व परताय आय बान्वातग्या म ही बरगा
की मताय म बत पडे । पूर्वी पारिमान व रमपुर गिया
गायबधा शहर म जातार मरिन करा मने । उनने परता
आप कतरगा एय बंगलौर की पधार एय मगारापुर सेन्ट
दीनापुर पणिम बगान एय बंगलौर म मय वर व्यवसाय
प्रारभ किया । आप ममाज मताय म हुमना अग्रग
रहा है । श्री व म्या जय थावक मय पिछाट बंगलौर व
आप मम्य है एय कताया पावरम जय मय के मरुता ए
पर नाय मर क है । आप आका मरुता बॉन्डो एय अन्य
तामा का वाफी दान मरवाग दे चुके हैं । ममाज के हर वारो
मे हुमना अग्रमर रहा है । ममाज व हर वायवमा म भाग
लेत ही रहा है । आपन मय पूज्य पिताजी श्री माहात्मानत्री
पगारिया ता भी मयन वाफी प्रभाव था । आप आक
मम्याआ म पिता म गिया एय म जुडे हुए है । श्री जैन स्थानन
एय अन्य सम्पाआ म आप मरिन भाग मते रहा है । आपका
मरा पूरा परिवार धार्मिक मरुतारा स गुवाभित है । धार्मिक
वारो म पूरा परिवार यकी मनी म भाग लेता रहा है ।

→
बनाई तथा अय मम्याआ का भरपूर मद्यम दिया । बन्धा
मिशन, व लिए आज गुप्रमिड मस्या "विद्यादात्री रानी
(राजस्थान) के व सम्पापक सदस्य मे ।


उनकी जीवन यात्रा गुण्य स प्रारभ हुई एय सुजन ता
विशात भण्डार छोडार के 6 9 1985 को देह त्याग
किया । आपने सुपुत्र श्री रमशजी जीवाणी भी वाफी ममड
वायवता समाज सेवा युवा रत है ।

स्व. श्री ताराचन्द बड़जात्या बम्बई



आपका जन्म राजस्थान प्रान्त में सन् 1914 में हुआ। विद्यासागर कलेज कलकत्ता में ग्रेजुएट होकर 85/- रुपये माह में सविस प्रारंभ की। उसके पश्चात् आपने फिल्म लाइन में प्रवेश किया और फिल्मों दुनिया में जग प्रसिद्ध "राज श्री पिक्चर्स" नाम से व्यवसाय प्रारंभ किया। 15-8-1947 को आपने इस व्यवसाय की स्थापना की। और देश के कई स्थानों में आपने अपने प्रतिष्ठान की शाखाएँ स्थापित की। आपने विकट परिस्थितियों का सामना करते हुए कड़ी मेहनत और बुद्धिमता से राजश्री के लेवल के ऊपर ऐसी-ऐसी सुविख्यात फिल्मों का निर्माण किया कि वे आज भी वैसी ही ताजा लग रही हैं। आपके द्वारा बनायी गयी सभी फिल्मों की एक विशेषता यह दिखायी देती है कि वे सभी फिल्में मानव के दिलों को छू लेती है एव परिवार के सभी सदस्य एक साथ देख सके, ऐसी पारिवारिक फिल्में बनायी हैं। आपके द्वारा बनायी गयी अधिकांश फिल्में बोक्स आफिस पर सुपर हिट होती है। सिल्वर, गोल्डन, डायमण्ड, सेचुरी ज्युवीली भी मना चुके हैं। आपने अधिकांश हिन्दी फिल्में ही बनायी, परन्तु तेलगू, तमिल, मलयालम एवं अन्य भाषाओं में भी बनायी है। आपको देश-विदेशों से कई अवार्ड भी प्राप्त हुए हैं। आप उच्चकोटी के फिल्म निर्माता, प्रोड्यूसर थे। पूर्व प्रधानमंत्री स्व श्रीमती इन्दिरा गाँधी ने आपको भारत की ओर से सूचना एवं प्रसारण मन्त्रालय की ओर से फिल्म इण्डस्ट्रीज कमेटी का चेयरमैन परसन भी बनाया था। उसके पश्चात् भी आपको भारत सरकार की ओर से "Working Group On Film" पद प्रदान किया। आपका गत वर्ष अचानक निधन हो गया। आज आप चाहे हमारे बीच में मौजूद नहीं हैं, परन्तु आपके बताये हुए मार्ग, दिशा, निर्देश आज भी विद्यमान हैं। आपके सुपुत्र श्री कमलचन्द बड़जात्या भी आपके पद चिन्हों पर ही चल रहे हैं। धार्मिक कार्यों में आप हमेशा भाग लेते रहते हैं। सेवा के हर कार्य में हमेशा अग्रसर रहते हैं।

स्व. श्री देवजीभाई धारसी गाला समाधोघा--कच्छ



आपका जन्म कच्छ की पुण्य भूमि समाधोघा में पोष शुक्ला 7 विसं 1967 को हुआ। आपके पिताजी का नाम श्री धारसी नपु था। पढाई पूर्ण करने के पश्चात् आप बम्बई, रगून फिर बम्बई आदि स्थानों पर गये और व्यवसाय प्रारंभ किया। अपनी उदारता, सहिष्णुता एवं भोलेपन से आप जन-जन के प्रिय बन गये थे। समाज के हर सेवा कार्यों में आप हमेशा अग्रसर रहते थे। आपके गुणों की प्रशंसा सर्वत्र व्याप्त थी। समाधोघा जैन महाजन के आप प्रमुख निर्माता प्रेरक थे। दुष्काल एव अभाव के समय आप द्वारा किये गये परमार्थिक, रचनात्मक कार्य आज भी स्मरण होते रहते हैं। बचपन से ही आप में धार्मिक सुसस्कार विद्यमान थे। बाल्य-काल से ही आप सामाजिक एवं रचनात्मक प्रवृत्तियों में सक्रिय रूप से भाग लेते रहते थे। समाधोघा जैन महाजन वाडी के निर्माण में आपने काफी अच्छा सहयोग प्रदान किया था। समाधोघा में दवाखाना के निर्माण कार्य में भी आपने अच्छा सहयोग प्रदान किया। आप द्वारा की गयी सेवाएँ प्रशंसनीय एवं स्मरणीय रहेगी। आपके द्वारा की गयी उत्कृष्ट सेवाओं को मान देकर समाधोघा जैन महाजन के सभी सदस्यों की ओर से आपको 30-12-1973 को सार्वजनिक रूप में प्रशस्ति पत्र अर्पण करके आपका सार्वजनिक अभिनन्दन भी किया गया था। आपका 21-7-1974 को दुःखद निधन हो गया। आपके सुपुत्र एव सुपौत्र श्री शैलेशभाई गाला भी वर्तमान में काफी सक्रिय सेवाभावी कार्यकर्ता, कर्मठ युवारत्न हैं। वर्तमान में आपका भरापूरा परिवार धार्मिक सुसस्कारों से सुशोभित है।

With best compliments from :



Scholarship

Deserving candidates send your handwritten applications for scholarship to

Shree Surajmal Shrimal Memorial Trust,
4F2(A) Court Chambers 35 New Manne Lines,
Bombay-400 020 (INDIA) Phone 299979, 311067

FROM FOREST TO HIGH FASHION
GRASIM INDUSTRIES LTD
STRIVES TO SET THE NEW INTERNATIONAL STANDARDS OF
EXCELLENCE

In addition to manufacture of regular staple fibre GRASIM INDUSTRIES LTD has developed various types of special Viscose Fibres to fulfil the specific requirements of the industry with entirely indigenous know how and manufactured on commercial scale

GRASI HIGH

High Tenacity Elongation and Snow white Colour suitable for 100% VSF P/V Yarns where Better Yarn Quality & Productivity is desired

GRASI-SUPER

The Tenacity, Elongation & Finish of the Fibre is adjusted to give smooth spinnability with better quality & productivity

GRASIBOW

Suitable for Real Melange effect for Spinning 100% VSF Yarn & also in Blend with Polyester, Acrylic, Cotton and other Fibres

GRASIRIB

Ribbon Cut (Flat Cross Section) Fibre in Coarse Denier to impart Novel effects in the Fabrics with increased lustre

MICRO-FIBRE

Developed and Marketed in 0 8 1 0 Denier Provides goods sheen soft silky feel and good aesthetic appeal It can be used advantageously for Super Fine Fabrics & Dress Materials & Suitings

GRASIM INDUSTRIES LIMITED
(STAPLE FIBRE DIVISION)
P O BIRLAGRAM NAGDA (M) -456 331

Telex 0733 233 GNGD IN
Fax (07842) 22214

Telephone 22360-69
Telegram GRASIM



टी.टी.

अन्डरगारमैन्ट्स

अन्डरवियर • बनियान
ब्रा • पैन्टी • जुराबें • टी-शर्ट

आराम का दूसरा नाम..



FREE

व्यवसाय EXPORTS - निर्यात सलाह केन्द्र

व्यवसाय सलाह केन्द्र, - बम्बई
आयोजक

श्री जैन सेवा सभ, बम्बई
एव

श्री जैन श्रेताम्या खरातगच्छ सभ, बम्बई
व्यवसाय खासकर Exports निर्यात विषय में
Dr Y.R. Ullal के सहयोग से
मुफ्त FREE केन्द्र का लाभ उठावें

● संपर्क सूत्र ●

श्री जैन प्रज्ञा केन्द्र
श्री जैन सेवा सभ
४ एच-२ कोर्पोरेशन
३१, न्यू एरिन लाइन्स
बम्बई ४० २
फोन नं. २१११७९ २ १ १ ९७

राष्ट्रिय केन्द्र उद्योग
१६, रिपब्लिक आर्टिस्टिक
आफिसी ब्लॉक रोड नं. १
बालिवली (पूर्व)
बम्बई ४०० १०१
फोन नं. ८८८ १२४

दत्तक पुत्र/पुत्री योजना

निर्धन एव निर्गमिन बालक बालिकाओं को मित्रता के उद्योगतम
अवसर प्राप्त करने के लिए हमारी दत्तक पुत्र/पुत्री योजना
से लाभ उठावें — उत्तम फने पर सम्पर्क करें



नई सजावट के साथ
फिर आपकी सेवा में

श्री रुम

U

उम्मेदमल तिलोकचंद जवरो

हाउस भाप एम्बबलुजिब ज्वेलरी


51 गणगना बाजार मुम्बई देवी रोड

बम्बई 400002

फोन नं. 3437904 3444000

3420293 3420289

1, 2, 5 व 15 किलोग्राम पैक में उपलब्ध.



आधुनिक व्यवहार
विश्व

PRESTIGE

32, Jaora Compound, INDORE-452 001 INDIA
Phone 461201-204 Telex 0735 205 PFM IN
Telefax 0731-166718 Cable : 'PRESTIGE'

संदेश

प्रेसटीज

शुद्ध सुपर रिफाइन्ड कुकिंग ऑइल

संदेश, काया, बनी की...

Swift/91403

अ भा श्वे रथा जैन कॉफ़िस (ववई शाखा) की प्रेरणासे

❀ पुस्तक पेट्टी ❀

होशियार एवं जरूरतमंद

घान एवं घानाओंके लिए किताबे दी जाएगी।

कक्षाएँ - ५ मे १० की तक

भारतन पर हेतु राग ११

पी एच् जेन

२४२ प्रिन्सस स्ट्रीट बम्बई - ४०० ००२

अधिकृत विक्रेता महाराष्ट्र राज्य लॉटरी

पी एच जैन
Majestic  Store
CHANDRA MAHAL
241 PRINCESS ST BOMBAY 2
Issuing Office - Pay & A/Cs Office B. Bay

प्रत्येक तिकीटावर
असा शिद्ध असल्याची
खात्री करा

हा शिद्धता प्रमाणनेच "भाव्य लक्ष्मी"

महाराष्ट्र राज्य लॉटरीचे सर्वाधिक
तिकीट विक्री करणारे एजट



पी.एच.जैन

प्रकाशकीय

अ भा. समग्र जैन चातुर्मास सूची प्रकाशन परिषद् द्वारा प्रकाशित "समग्र जैन चातुर्मास सूची, 1993" का अंक आपके सन्मुख प्रस्तुत करते हुए परम प्रसन्नता अनुभव करते हैं।

विश्व विख्यात प्रमाणिक सूची:--सम्पूर्ण विश्व के समग्र जैन समाज की असाम्प्रदायिक यही एकमात्र पूर्ण एवं प्रमाणिक विश्व विख्यात चातुर्मास सूची है। जिसे सम्पूर्ण जैन समाज के हर वर्ग ने एक स्वर से स्वीकार भी किया है। आज सम्पूर्ण विश्व का समग्र जैन समाज इस सूची से काफी लाभांकित हो रहा है और भविष्य में भी काफी लाभांकित होता रहेगा। चातुर्मास के पश्चात् श्री दीक्षोत्सव, पड्डोत्सव, प्रतिष्ठोत्सव, सम्मेलनों एवं अन्य विशाल कार्यक्रमों में समग्र जैन समाज के सम्पर्क-सूत्र एक जगह प्राप्त करने वाली यही एक मात्र सूची है, जो बारह महीने ही उपयोग में आती है। अब यह सूची देश विदेशो मे काफी लोकप्रिय हो चुकी है। इसकी लगभग 300 प्रतियाँ विदेशो में भी जाती है।

संकलन संपादन कार्य:--समग्र जैन चातुर्मास सूची का संकलन संपादन का कार्य, कर्मठ उत्साही, कार्यकर्ता, जैन शृंगारं, उत्कृष्ट सेवाभावी, समाजसेवी श्री बाबूलाल जैन "उज्ज्वल" ने बड़ी कुशलता, तत्परता, लगन, उत्साह से सही समय पर पूर्ण कर आप तक पहुँचाया है। उनकी समाजसेवा से ही यह कार्य पूर्ण हुआ है। श्री 'उज्ज्वल' सभी कार्यों को छोड़कर अपना एकमात्र ध्यान इसी ओर केन्द्रित करके इस कार्य में जुट जाते हैं। इन्दौर प्रेस में हर वर्ष 15-20 दिन तक वहाँ ही रहकर भूख-प्यास की चिन्ता किये बगैर असह्य कष्ट को सहन करते हुए यह कार्य पूर्ण करके ही वम लेते हैं। सभी समुदायों के चातुर्मास की सूचियाँ एकत्रित करना, प्रेस काफी के 800 पृष्ठ तैयार करना, प्रूफ रीडिंग, पुस्तकें पोस्ट करना, विज्ञापन सदस्यता बनाना एवं परिषद् की आर्थिक स्थिति को बरकरार कायम रखने हेतु सदा प्रयत्नशील रहते हैं। यहाँ तक कि नि स्वार्थ अपारश्रमिक रूप, सच्ची समाज सेवा करने हेतु आप अपना व्यापार तक भी 1-1 1/2 माह के लिए बन्द रख देते हैं। आपका हमेशा एक ही ध्येय बना रहता है कि जितना जल्दी हो सके, यह जल्दी-जल्दी से कार्य पूर्ण होवे, ताकि समाज सर्वाधिक लाभ प्राप्त कर सके। आपकी समाजसेवा सम्पूर्ण जैन समाज मे अद्वितीय है।

आर्थिक संकट टला नहीं:--इस कार्य में गत वर्ष भी हमारी आर्थिक स्थिति काफी कमजोर ही रही थी। हमारे पास न तो कोई स्थायी फंड है और न ही किसी आचार्य-भगवत की छात्रछाया, हम तो यह कार्य सिर्फ विज्ञापन, पुस्तक भेट-योजना, सदस्यता शुल्क आदि से ही विगत वर्षों से पूर्ण करते चले आ रहे हैं। इस वर्ष विज्ञापन भी कम ही प्राप्त हुए हैं एवं सहयोग भी कम ही प्राप्त हुआ है। इस वर्ष सूची का पूर्ण कार्य कम्प्यूटर ऑफसेट एवं कलर मे करवाने के कारण इस वर्ष की आर्थिक स्थिति भी काफी कमजोर ही रहेगी। आप सभी से नम्र निवेदन है कि चातुर्मास के उपलक्ष मे इस परिषद् को भी फूल नहीं तो पँखुडी ही सही कुल न कुछ सहयोग अवश्य प्रदान करें। यह परिषद् भी आपकी अपनी ही संस्था है।

देरी का कारण टला नहीं:--यह प्रसन्नता का विषय है कि हमारी विज्ञप्ति सूचना को ध्यान में रखकर कुछ विशाल समुदायों को छोड़कर प्राय कर सभी समुदायों की सूचियाँ समय पर प्राप्त हो गयी थी। परन्तु फिर भी कई समुदायों की सूचियाँ चातुर्मास प्रारम्भ होने के 30-35 दिन बाद तक प्राप्त होने के कारण देरी का कारण

बना। हमने तो सभी से यही निवेदन किया था कि चातुर्मास प्रारम्भ होने तब सभी सूचियाँ हमें भिजवायें, लेकिन विगत वर्षों की भाँति इस बार भी देरी का ही कारण बना।

चातुर्मास चाट का प्रकाशन—इस वर्ष श्वेताम्बर स्थानकवासी समुदाय के चार तरह के चाट प्रकाशित हैं जिनमें दो चाट हिन्दी भाषा में एवं दो चाट गुजराती भाषा में हैं। प्रथम चाट बम्बई महानगर स्थानकवासी समुदाय का गुजराती भाषा में इसके सौजन्यदाता श्री सुधलालजी फोडारो बम्बई, द्वितीय चाट बम्बई महानगर स्थानकवासी समुदाय का हिन्दी भाषा में, जिसके सौजन्य दाता श्री प्रमत्त कुमार लाडा बम्बई, तृतीय चाट श्वेताम्बर स्थानकवासी श्रमण सभ एवं स्वतंत्र सम्प्रदायों का हिन्दी भाषा में जिनके सौजन्यदाता मुनि मायाराम नन्दा प्रकाशन दिल्ली एवं चतुर्थ चाट श्वेताम्बर स्थानकवासी बृहद् गुजरात सम्प्रदायों का गुजराती भाषा में जिनके सौजन्यदाता आचार्य श्री श्रनरामरजी स्वामी के गुरु भवन सदस्य हैं। उपर्युक्त चारों चाट सभी जगह प्रेषित कि जा चुके हैं एवं सभी को निशुल्क प्रदान किये जा रहे हैं। सभी चारों चाट के चारों सौजन्यदाताओं का इ बहुत-बहुत आभारी हैं।

भेंट योजना में निराशा—परिपक्व की आर्थिक स्थिति काफी कमजोर होने से सभी को पुस्तकें लिखने भेजने में हम असमर्थ हैं, हमने विनापन पत्र में एवं विनापि में सूचना जारी कर दी थी कि कोई भी महानुभव श्यामप सस्थाएँ अपनी अपनी समुदायों के लिए पुस्तक भेंट-योजना में श्रमना सहयोग प्रदान करें। उनके सहयोग से हम आर्थिक स्थिति सुधर सकती है एवं सभी पूज्य माधु-नाथियों को पुस्तक उनकी श्रेय से प्राप्त हो सकती है।

परन्तु बड़े आश्चर्य एवं दुःख के साथ लिखना पड़ रहा है कि स्थानकवासी समुदाय के भलावा किसी समुदाय ने इस धोर पूरा रूप से ध्यान नहीं दिया। भ्रत हम इस वर्ष भेंट-योजना में जिन जिन महानुभावों सहयोग प्राप्त हुआ है, उनकी समुदायों के भलावा किसी भी समुदाय के साधु-नाथियों को पुस्तकें निशुल्क भेजने असमर्थ हैं। ननी समुदायों, जैन श्री सभों, सस्थाओं से नम्र निवेदन है कि यदि आप भी इस पुस्तक को प्राप्त करना चाहते हैं तो रुपये 25/- शीघ्र भेज कर प्राप्त कर सकते हैं। विवशता के लिए क्षमा।

मुद्रण का कठिन कार्य—आशा-निराशा, फिर आशा—चातुर्मास सूची को तैयार करने में जितनी कठिन चातुर्मास सूचियाँ एकत्रित करने, सक्तन संपादन काय करने में नहीं होती, उससे कहीं ज्यादा परेशानी मुद्रण के में होती है। किसी भी प्रकाशन का मुद्रण काय नमय पर पूरा हो जावे तभी उसका प्रकाशन मफल माना जा है। हम विगत 11 वर्षों से मुद्रण का काय सम्पूर्ण मध्यप्रदेश की एकमात्र मजसे बड़ी सुप्रसिद्ध नईदुनिया प्रिंटरी से ही मुद्रण काय पूरा करवाते आ रहे हैं।

नईदुनिया प्रिंटरी में हेरफेर कम्पोजिंग का काय बन्द हो जाने के कारण सूची का अधिकांश काय कम्प्यूटर से ऑफ़ पर ही करवाना पड़ा। बम्बई में कम्प्यूटर पर पत्र बनवाकर नईदुनिया प्रिंटरी में लाये। पुस्तक का कुछ मटर बम्बई में प्रिन्टिब पत्र मेकर फोट एवं श्री टोनिवम टाइप सेटिंग, दादर में करवाया। कुछ काय नईदुनिया प्रिंटरी वालों से पूरा करवाया। इस कारण मुद्रण की इस बार व्यवस्था बराबर नहीं बठने के कारण कुछ देरी हो गयी, परन्तु फिर भी हम नईदुनिया प्रिंटरी को धन्यवाद देना चाहेंगे कि उन्होंने दूसरों का कार्य बीच में रोककर इस काय को प्राथम्य से मुद्रित करके दिया। इसके भलावा चारों तरह के चाट जपन्त प्रिंटरी, बम्बई द्वारा मुद्रित किया गया।

एक तो सभी समुदायों की सूचियाँ काफी देरी से प्राप्त हुईं, फिर प्रेस कापी करना और मुद्रण का कठिन काय यह सब करते-करते तो पर्युषण का विचार ही पास आ जाता है, फिर आप ही बतावें हम क्या करें। लेकिन कई ध्यवित एस भी होते हैं जो पंसा को नहीं देखकर समाजसेवा, समाज हित, धर्म जागृति, धार्मिक भावना को ही

प्रमुख स्थान देते हैं; हम नईदुनिया प्रिन्टरी के संचालक मण्डल को जितना धन्यवाद देवे उतना कम है उन्होंने अपना अन्य कार्य को बीच में ही रुकवा कर इस कार्य को सर्वप्रथम प्रमुखता प्रदान की और इतने वर्षों का जो प्रेम व्यवहार बना हुआ है उसे ध्यान में रखते हुए इस कार्य को समय पर पूर्ण करने की पूरी कोशिश की।

अतः क्रियेटिव पेज मेकर, वम्बई, श्री टोनिक टाइप सेटर, वम्बई, जयन्त प्रिन्टरी वम्बई एवं नईदुनिया प्रिन्टरी, इन्दौर के संचालक मण्डल एवं कर्मचारियों मण्डल के हम-बहुत-बहुत आभारी हैं, सभी को हम बहुत-बहुत धन्यवाद प्रदान करते हैं।

हार्दिक आभारः--अतः हम सभी पूज्य आचार्यों, मुनिराजों, साध्वियोंजी म. सा., जैन श्री संघों, हितेषी महानुभावों, विज्ञापनदाताओं, भेटकर्ताओं, नये सदस्यों, चतुर्विध संघों, नईदुनिया प्रिन्टरी मण्डल एवं जयन्त प्रिन्टर्स, क्रियेटिव पेज मेकर एवं श्री टोनिक टाइप सेटिंग वम्बई आदि का हम बहुत-बहुत आभार प्रकट करते हुए सभी से यही आशाएँ करते हैं कि भविष्य में भी इसी तरह का पूर्ण सहयोग प्रदान करते रहेंगे, इसी आशाओं के साथ !

वम्बई : 25-8-1993

—हम है आपके—

दीपचंद भाई गार्डी

अध्यक्ष

शांतिलाल छाजेड़ (जैन)

महामंत्री

रमेश चन्द जैन

नेमनाथ जैन

डी. टी. नोसर

मंत्री

हार्दिक आभार

अ. भा. समग्र जैन चातुर्मास सूची प्रकाशन परिषद् वम्बई द्वारा प्रकाशित "समग्र जैन चातुर्मास सूची" के प्रचार-प्रसार के कार्य हेतु इस वर्ष मैंने देश के अनेक भागों का दौरा किया। छत्तीसगढ़ क्षेत्र के दुर्ग, रायपुर, राजनांदगाँव आदि, नागपुर, जलगाँव, नासिक, अहमदनगर, शिर्डी, पूना, जयपुर, दिल्ली, गाजियाबाद, लुधियाना, जालंधर, कपूरथला, उदयपुर आदि, जिन-जिन क्षेत्रों में मैं गया वहाँ के श्री संघों, महानुभावों ने मुझे जो आदर, सत्कार प्रदान किया, उसे मैं जीवन में कभी भी नहीं भूला सकता। कई क्षेत्रों में तो मैं प्रथम बार गया था। वहाँ चाहे मुझे कोई शकल से नहीं पहचानते हो, परन्तु मेरे नाम से सभी परिचित हैं। मुझे यह आभास प्रथम बार हुआ एव प्रथम देखा कि मेरे कार्यों, सेवाओं का प्रभाव देश-विदेश तक फैल चुका है। इस सूची पुस्तक से सम्पूर्ण जैन समाज के चतुर्विध संघ में मेरा नाम भी सब जानने लग गये हैं। मैं जहाँ भी गया जिनसे भी सम्पर्क किया सभी ने मेरे कार्य की भूरी-भूरी प्रशंसा की, सुझाव भी प्रदान किये सभी ने एक स्वर से सराहना भी की। मैं तो समाज का एक छोटा-सा निर्धन अल्प बुद्धि का सेवक हूँ, मैं मेरा फर्ज अदा कर रहा हूँ। मुझे किसी तरह का कोई लोभ-लालच या आजीविका का साधन बनाकर समाज को धोखा देकर लूटना जैसा घिनौना कार्य करना नहीं है। मैंने न तो ऐसा घिनौना कार्य पूर्व में कभी किया है, न भविष्य में करने का कोई इरादा है। मैंने तो मेरा फर्ज अदा करके सम्पूर्ण जैन समाज को दिखा दिया है कि अगर सच्ची सेवा करनी है तो वह करके दिखावे, जो कार्य बड़ी-बड़ी संस्थाएँ नहीं कर सकी, वह मैंने कई मुसीबतों का सामना करके दिखा दिया है और उसे समग्र जैन समाज ने एक स्वर से स्वीकारा भी है।

अतः सभी का बहुत-बहुत आभार प्रकट करता हुआ, आप सभी को अनेकानेक धन्यवाद अर्पित कर रहा हूँ। समयान्तर के कारण सभी के नाम प्रकाशित नहीं कर पा रहा हूँ, आगामी अंक में पूर्ण विवरण के साथ प्रकाशित करूँगा। आशा करता हूँ कि आप भविष्य में भी इसी प्रकार का सहयोग प्रदान करते रहेंगे, ऐसी आशाएँ करता हुआ।

आपका

बाबूलाल जैन 'उज्ज्वल'

संपादक

चातुर्मास सूची समर्पण तालिका 1979-93

अ भा मध्य जैन चातुर्मास सूची प्रकाशन गारण्ट वर्युंड द्वारा प्रकाशित रथा एव मध्य जैन चातुर्मास सूची का विगत 14 वर्षों से नियमित प्रकाशन किया जाता रहा है, मत्र 1979 म इसका प्रकाशन प्रारंभ हुआ। मत्र 1979 से 1985 तक स्थानस्थायी एव 1986 से 1993 तक मध्य जैन चातुर्मास सूची प्रकाशित की जा रही है। इस हर वर्ष अलग-अलग संप्रदायों के विधी एव पूज्य आचार्य/गण्डाधिपति या सच नायर ने चरणी म यह सूची पुनः समायन करने आये है, आत्र तक हम नियंत्रित विधा वप म त्रित्व जिन आचार्यों का सूची पुस्तक समर्पण कर चुके है, उगरी जलकारी यहीं की जा रही है—

| वर्ष | समर्पण किया उलगा नाम | दिनांक-स्थल | मासिस्थ/दि.था |
|------|---|-------------------|--|
| 1979 | चातुर्मास सूची का प्रकाशन प्रारंभ | | |
| 1979 | स्वा समुदाय के मभी सत गतिया को | वार-दर्युंड | श्रम अनु प्रवता श्री वट्टेयात्रालकी म मा 'तमल' |
| 1980 | स्था समुदाय के मभी सत गतिया का | वायकेश्वर दर्युंड | श्रम अनु प्रवता श्री वट्टेयात्रालकी म मा 'तमल' |
| 1981 | स्था समुदाय के मभी गत-गतियों को | हरदाराबाद | श्रम अनु प्रवता श्री वट्टेयात्रालकी म मा 'तमल' |
| 1982 | त्रिम के स्थ आचार्य श्री रूप टट्टेजी स्वामी म सा | देववाली (नासिर) | श्रम अनु प्रवता श्री वट्टेयात्रालकी म मा 'वमल' |
| 1983 | श्रम के स्थ आचार्य समट्ट श्री आनंददत्तपित्री म मा | नासिर सिटी | श्रम आचार्य समट्ट श्री आनंददत्तपित्री म मा |
| 1984 | रत्नवशील स्व आचार्य श्री हस्तीमलकी म मा | जायपुर | रत्नवशील आचार्य श्री हस्तीमलकी म मा |
| 1985 | माधुमार्गी आचार्य श्री नालालकी म मा | घाटवापर दर्युंड | माधुमार्गी आचार्य श्री नालालकी म मा |
| 1986 | समय जैन चातुर्मास सूची का प्रकाशन प्रारंभ | | |
| 1986 | मध्य जैन मध्यदायो के मभी 120 आचार्यों को | | |
| 1987 | श्वे तैरापरी संप्रदाय ने आचार्य श्री तुलसीजी म मा | उदौर | श्रम मधुर वता भी वमत्र मुनिजी म मा 'तमकेश' |
| 1988 | श्वे मूर्ति स्व आचार्य श्री राम टट्ट गरीश्वरजी म मा | इन्दौर | श्री भक्ति गरीजी समू के पत्न्याम श्री अरुण विजयजी म मा |
| 1989 | श्वे स्था गा. गण्डाधिपति श्री चमलावती म मा | इन्दौर | श्रम के आचार्य श्री देवेद्र मुनिजी म मा |
| 1990 | श्वे मूर्ति आचार्य श्री जलतैन गरीश्वरजी म मा | उदौर | श्रम सत्वाहार श्री मूल मुनिजी म मा |
| 1991 | श्वे मूर्ति रायट्टगत आचार्य था पदमनाथर गरीश्वरजी म मा | इन्दौर | श्रम सकत्र वता श्री अजित मुनिजी म मा |
| 1992 | श्वे स्था मध्य नायन श्री मुदहनलालकी म मा (हरियाणा) | | श्री मगत्र समू के उगाध्याय श्री मन म सागरजी म मा |
| 1993 | श्वे स्था श्रमण सचीय आचार्य श्री देवेद्रमुनिजी म मा | इन्दौर | (अहिंसा री गमा म तारा समू के सत-गतिया म मा) |
| | | भीलवाडा | श्री स्थानस्थायी युवक सच वासिरा म पदम म मे |
| | | | श्रम आचार्य प्रवर श्री देवेद्र मुनिजी म मा |

सम्पादकीय

समग्र जैन चातुर्मास सूची, 1993 का अंक आपके सम्मुख प्रस्तुत करते हुए परम सतोप का अनुभव कर रहा हूँ।

इस वर्ष इस प्रकाशन के लिए मई माह में ही सूचनाएँ एव विज्ञप्ति जारी कर दी थी कि सभी पूज्य आचार्य, साधु-साध्वियाँ जैन श्री सघ अपने-अपने होने वाले चातुर्मासों की सूचनाएँ हमें शीघ्र भिजवावे। मैंने भी अबकी बार यही प्रयास किया कि चातुर्मास प्रारम्भ होने तक यह पुस्तक सभी के पास पहुँचे परन्तु इस बार भी वही हुआ जो विगत वर्षों में होता आया है। मैं चाहे कितनी ही लाख कोशिश करूँ, परन्तु किसी न किसी कारण से इसका हल नहीं निकलता और यह मैंने विगत कई वर्षों से देखा भी है। कई समुदाय चातुर्मास प्रारम्भ होने के एक माह बाद तक भी अपनी सूचियाँ नहीं भेज पाते या देर से भेजने हैं, तो फिर आप ही बताइये कि मैं पुस्तक कहाँ से शीघ्र प्रकाशित कर आप तक पहुँचाऊँ ? क्या मुद्रण कार्य में समय नहीं लगता। फिर भी मुझे पूर्ण संतोष है कि चाहे कुछ देर से ही प्राप्त हो सभी समुदायों की सूचियाँ तो प्राप्त हो रही है और इस वर्ष भी प्रथम पर्युषण के कुछ दिन बाद तक यह सूची पुस्तक प्रेषित करने में सफल हो पाया हूँ। इस वर्ष पाँच माह का चातुर्मास होने से इसका उपयोग अच्छी तरह से हो सकेगा ऐसा मुझे विश्वास है।

- * सभी समुदायों के साधु-साध्वियों के चातुर्मास स्थलों का विवरण सभी का एक जैसा किया गया है ताकि इसी को फोटो कापी करवाकर आप सम्पर्क सूत्र के रूप में प्रयोग में ले सकें।
- * श्वेताम्बर स्थानकवासी समुदाय एव श्वेताम्बर तेरापथी समुदाय की सूचियाँ सबसे प्रथम हमें प्राप्त हो जाती हैं, इसलिए इस पुस्तक का प्रारम्भ हम स्थानकवासी समुदाय से करते हैं, श्वेताम्बर मूर्तिपूजक समुदाय की सूचियाँ काफी देरी से आती हैं, अगर उनकी सूचियाँ पहले प्राप्त हो जाएँ तो हम उनका प्रथम क्रमांक डालकर प्रारम्भ कर सकते हैं।
- * परिपद का आय-व्यय का हिसाब पुस्तक में इस वर्ष भी प्रकाशित किया गया है।
- * पुस्तक का सम्पूर्ण कार्य इस वर्ष कम्प्यूटर से ऑफसेट पर ही मुद्रण कार्य पूर्ण करवाया है।
- * श्वेताम्बर स्थानकवासी वृहद गुजरात सम्प्रदाय जो शत-प्रतिशत गुजराती भाषी है, उनकी भावनाओं एवं सुझावों को ध्यान में रखकर सभी गुजरात समुदायों का गुजराती भाषा में मुद्रण प्रयोग रूप में करवाया गया है, अगर इसकी अच्छी प्रतिक्रिया मिलेगी तो भविष्य में भी हम गुजराती भाषा में मुद्रण करवाएँगे और अगर प्रतिकूल प्रतिक्रिया रही तो भविष्य में हिन्दी में मुद्रण करेंगे।
- * समग्र जैन पत्र-पत्रिका सूची एवं जैन विश्व रिकार्ड डायरेक्ट्री को अबकी बार इसमें सम्मिलित नहीं किया गया है क्योंकि मुद्रण के लिए समय काफी लगता और फिर अल्प समय में पूर्ण ज्ञानकारियों इसमें सम्मिलित नहीं कर पाते। इन दोनों डायरेक्ट्रियों को हम अलग से प्रकाशित करवा रहे हैं। कार्य पूर्ण एव प्रमाणिक हो इसका पूरा ध्यान रखा गया है, अबकी बार इन दोनों डायरेक्ट्रियों में पृष्ठ संख्या भी काफी बढ़ गयी। इसका मुद्रण कार्य आरम्भ हो चुका है, द्वितीय पर्युषण तक ये दोनों पुस्तकें सभी को निशुल्क प्रेषित कर दी जावेंगी। भविष्य में हम साथ में ही देने का प्रयत्न करेंगे। जैन समाज रिकार्ड डायरेक्ट्री के कार्य को भी सम्पूर्ण जैन

समाज ने एक स्वर से सराहा है एवं जन समाज का महत्वपूर्ण कदम बनाया है। सभी जगहों से इस प्रशंसा की काफी डिमाण्ड आ रही है।

- * मेरे इस कार्य के प्रारम्भ से ही प्ररक अनुयाग प्रवतक थमण सपीय सलाहकार श्री कहेयालालजी म मा 'कमल' रह हैं। श्रीर आज भी हैं। आपकी छत्रछाया मे ही यह कार्य पूण हो पाया है। अत आपका भी मैं बहुत आभारी हूँ।
- * इसका निर्देशन थमण सपीय प्रवतक श्री रूपचन्द्रजी म सा 'रजत' एवं उपप्रवतक मलाटकार श्री सुवनमूर्तिजी म सा की छत्रछाया म ही पूण हुआ ह, अत आप दोनों का भी मैं बहुत आभारी हूँ।
- * इसके प्रकाशन, लेखन, संपादन, चातुर्मास सूचियों आदि एवत्रित करन आदि के कार्यों में समग्र जन समाज के कई पूज्य आचार्यों, साधु-साध्वियों का पूण सहयोग एवं मागदमन प्राप्त हुआ, स्थानाभाव एवं समयभाव के कारण सभी के नाम लिखने मे असमर्थ हूँ, अत आप सभी का भी मैं बहुत आभारी हूँ।
- * अथकी वार परिपद की नींव सुदृढ करने हेतु देश के कई क्षेत्रों मे दौरा करके प्राया नासिक, नागपुर, टुंग, राजनादगांव, रायपुर, पूना, अहमदाबाद, मिर्जा, उदयपुर, जयपुर, लुधियाना, गाजियाबाद, दिल्ली, जतगांव, मुसावल आदि जहाँ-जहाँ भी मैं गया वहाँ के श्री सभों, धर्मप्रमी धर्मियों ने मुझे काफी आदर मकार प्रदान किया, आतिथ्य सेवा इस तरह की प्रदान की कि उसे मैं जिदगी भर नहीं भूला सकता। सभी क्षेत्रों व शाखा सभाजकों, प्रतिनिधियों, श्री सभों, महानुभावों, दानदाताओं ने बहुत ही अच्छी सहाय मे जो सहयोग प्रदान किया है उसी से इस वप की आर्थिक स्थिति कुछ सतोपपूण बनी है। समयामान एवं स्थानाभाव के कारण सभी के नाम व विवरण प्रस्तुत नहीं कर सका हूँ। अत आप सभी का मैं बहुत-बहुत आभार प्रकट करता हूँ।
- * अथकी वार सम्पूर्ण जैन समाज के प्राय कर सभी जन पत्र-पत्रिकाओं के सम्पादकों ने भी सूची की सूचनाएँ अपने अपने पत्रों मे प्रकाशित कर मुझे सहयोग प्रदान किया है, आपके इस कार्य से ही मेरा यह कार्य समय पर पूण हुआ है, अत आपका भी मैं बहुत-बहुत आभारी हूँ।
- * विगत 11 वर्षों की भाति इस वप भी सेवा सदन एवं जन श्वताम्बर मण्डा मार्केट सुकून फण्ड धमशाला, इंदौर म भी मैं लगभग 20-25 दिनों तक रहा उनका बहुत ही आभारी हूँ जिन्होंने वहाँ रहन की अनुमति प्रदान की, अत आपक ट्रस्टीगण का भी मैं बहुत-बहुत आभारी हूँ।

इस सूची मे किसी भी प्रकार का साम्प्रदायिक भेदभाव नहीं रखा गया है। सभी के नाम समान रूप से दिये गय हैं, इस सूची का मुख्य उद्देश्य यही है कि सभी सत-सतियों एवं समाज की सभी गतिविधियों की पूरी सहाय एवं, गतिविधियों की सही जानकारी प्राप्त हो जाव। किन्तु सध चातुर्मास से ताभावित ह एवं मुमुु भावों मे कितनी कितनी प्रगति हुई है न कि किसी तरह से समाज व पंक्तों का अपव्यय कर अर्थोपाजन करना।

क्रियाटिव पेज मेकर, बम्बई व श्री राजू भाई, श्री टानिक टाइप सेटस, बम्बई व श्री प्रवीण भाई एवं जयन्त प्रिन्स, बम्बई क श्री छोटू भाई ने सूची पुस्तक के पत्र कम्पोजिंग का कार्य एवं चाट का मुद्रण कार्य सही समय म पूण करके दिया। एवं नईदुनिया प्रिन्टरी, इन्डौर व सचालक व्यवस्थापक श्री अभयजी सा छजलानी, श्री हीरालालजी सा चालरी, श्री श्रीनिवासजी सा, श्री महेश्वरजी सा डोंगी, श्री ज्ञा साहब एवं सचालक मण्डल आदि का भी अथकी वार भी विरकृतन हूँ, जिन्होंने समाज हित एवं चातुर्मास का लक्ष्य ध्यान मे रखकर 500 से अधिक पृष्ठों का यह ग्रंथ इतनी सुन्दर, साजसज्जा, मेकअप, सुन्दर छापाई करके हमे अथकी वार भी सिर्फ 10-15 दिन म

ही मुद्रित करके दिया है। हम आपके आभार का किस तरह वर्णन करें हमारे पास शब्द नहीं है। कारण आपने हमारे कार्य को समय पर पूर्ण किया है। यह कार्य और जगह होना बहुत ही मुश्किल था। इस प्रयत्न से ही यह प्रकाशन इस रूप से प्रस्तुत हुआ है। अतः आपका भी बहुत-बहुत आभारी हूँ।

मैं यह कार्य विगत 14 वर्षों से सिर्फ सच्ची समाज सेवा हेतु ही बड़ी कठिनाइयाँ उठाकर अपारश्रमिक रूप से नियमित पूर्ण करता आ रहा हूँ। इस कार्य में किसी तरह की कोई गलती छपने में संकलन कार्य में रह गयी हो, नाम लिखने में छूट गया हो, नाम ऊपर-नीचे आ गया हो, या किसी अन्य तरह की कोई अन्य गलती रही गयी हो तो मैं चतुर्विध श्री संघों से क्षमा चाहता हूँ!

अन्त में प्रेरक अनुयोग प्रवर्तक प रत्न मुनिश्री कन्हैयालालजी म. सा. 'कमल', निर्देशक प्रवर्तक श्री रूपचन्दजी म. सा. 'रजत', उपप्रवर्तक सलाहकार श्री सुकनमुनिजी म. सा. आदि सभी परम श्रद्धेय पूज्य मुनिराजों एवं महासतियों जी म. सा., सभी श्री संघों, सभी स्नेही महानुभावों, सभी विज्ञापनदाताओं, सभी पत्र-पत्रिकाओं, परिषद् के उत्साही कार्यकर्ताओं, प्रतिनिधियों, सूची के सभी शुभ-चिन्तकों, सभी प्रशंसकों, हितैषी धर्मप्रेमी वधुओं, नईदुनिया प्रिन्टरी (इन्दौर) एवं जयन्त प्रिन्टरी बम्बई (चार्ट मुद्रण) के संचालक मण्डल आदि का भी मैं बहुत-बहुत आभारी हूँ जिन्होंने मुझे हर प्रकार का सहयोग प्रदान किया है एवं आशा करता हूँ कि भविष्य में भी मुझे इसी तरह पूर्ण सहयोग प्रदान करते रहेंगे।

मैं अन्तःकरण पूर्वक आप सभी का एवं चतुर्विध श्री संघों का भी बहुत-बहुत आभार प्रकट करता हूँ। इसी आशा के साथ !

इन्दौर : 25-8-1993

आपका सेवक
बाबूलाल जैन "उज्ज्वल"
संयोजक-सम्पादक

क्षमा वीरस्य भूषणम्

साँवत्सरिक क्षमापना

मन, वचन और काया के योग से स्वार्थ या प्रमाद के बश होकर जाने अनजाने में यदि मैंने सभी पूज्य आचार्यों, मुनिराजों, साध्वियोंजी म. सा. श्रावक श्राविकाओं, श्री संघों आदि चतुर्विध संघ का हृदय दुखाया हो तो उसके लिए साँवत्सरिक प्रतिक्रमण

करते समय जैसे सभी जीवों से क्षमा माँगी है वैसे ही हम अपने अन्तःकरण पूर्वक आपसे भी क्षमा याचना करते हैं।

वित्तितः—

बाबूलाल जैन पोरवाल
(इन्दौर-मालवा प्रतिनिधि)
इन्दौर

इन्दौर
दिनांक 21-8-1993

बाबूलाल जैन 'उज्ज्वल'
संपादक
समग्र जैन चातुर्मास सूची—जैन एकता सन्देश
बम्बई

नोट—चातुर्मास सूची के कार्य में बहुत ही व्यस्त रहने के कारण सभी को अलग से क्षमा याचना पत्र नहीं लिख सका, अतः इसे ही मेरा क्षमापना पत्र मानें।

—सम्पादक

अ भा समग्र जैन चातुर्मास सूची प्रकाशन परिपद-बम्बई

परिपद के नये मस्यो का हादिक स्वागत-अभिनन्दन

(1) प्रमुख स्तम सदस्य

- 1 श्री. रमेशचन्द जैन दिल्ली
2 श्री. भक्त कुमार शातिलास सठ अहमदाबाद

(2) आजोवन सदस्य

- 1 श्री. ह. कचद नाहटा दिल्ली
2 श्री. प्रकाशचन्द वानुगा (नाचौर) बम्बई
3 श्री. जवाहरलाल वाकडिया बम्बई
4 श्री. दीपचन्द भमाती बंगलौर
5 श्री. आर. पी. जैन दिल्ली
6 श्री. विजय राज न्हमेचा नासिक मिटो
7 श्री. राजेन्द्रभाऊ जैन लुधियाना
8 श्री. सुरेन्द्र कुमार दम्माना बम्बई
9 श्री. जे. भाणेशचन्द कोठारी बंगलौर
10 श्री. शैरालाल जैन लुधियाना
11 श्री. प्रमथ कुमार नाडा बम्बई
12 श्री. सी. सी. टागी बम्बई
13 श्री. सी. आर. भमाती बम्बई
14 श्री. गणपतनास मिषवी (चेम्बूर) बम्बई
15 श्री. बुधराजजी माहनास जाधपुर
16 श्री. प्रेमचन्द मेहता (माचौर) बम्बई
17 श्री. मजय जैन दिल्ली
18 श्री. भवन्नाथ श्रीश्रीभाल दुग
19 श्री. बालानाथ मिषवी (चेम्बूर) बम्बई
20 श्री. कर्मण कुमार उडजाला (गानश्री) बम्बई
21 श्री. देवजी धारणी गाना बम्बई
22 श्री. मुनील चवानान बम्बई
23 श्री. तागचन्द गानेच्छा पार्ली भागवाड
24 श्री. शान्तिनाथ देवजी रार्मिया बम्बई
25 श्री. शातिलास राठोड (गानगाव) बम्बई
26 श्री. धानवन्त गतनान शरवड बम्बई
27 श्री. चन्द्र कुमार मियाल (जैन) बम्बई
28 श्री. भातिलास मादरेवा बम्बई
29 श्री. कन्दारुका जोगी (चेम्बूर) बम्बई
30 श्री. बुधरालाल वेतजी महता भाडवी-बच्छ
31 श्री. दीपचन्द कचद पारग नई बम्बई

- 32 श्री. जे. एम. सोहनलाल मूषा बंगलौर
33 श्री. शातिलास वाकरिया बंगलौर
34 श्री. सपतलाल मिपानी मिन्चर (आसाम)
35 श्री. मम्पतलाल राजमल चौरडिया पूना
36 श्री. जयनीलाल रुगनाथ दोशी (गुजरात सविंग) बम्बई
37 श्री. छवीनदामभाई त्रिकामदास मठ मुरडनगर
38 श्री. गुणवत भाई बरवालिया (चेम्बूर) बम्बई
39 श्री. बालचन्द देवीचन्द सचेती पूना
40 श्री. एम. पारममल पमारिया बंगलौर
41 श्री. तवरदनमल मेहता बम्बई
42 श्री. राजबुभार जैन लुधियाना
43 श्री. शतीप बुभार जैन लुधियाना
44 श्री. कर्मिलाल जैन लुधियाना
45 श्री. महिपाल जैन लुधियाना
46 श्री. भती फूलावती अशाक शर्मा जैन लुधियाना
47 श्री. सुशील कुमार जैन लुधियाना
48 श्री. गगाराम जैन दिल्ली
49 श्री. सुशील कुमार जैन दिल्ली
50 श्री. वेद प्रकाश जैन दिल्ली
51 श्री. चदनमल बोहग दुग
52 श्री. शबरलाल बोधरा दुग
53 श्री. माहनलाल श्रीश्रीमाल दुग
54 श्री. मिरमल देशलहुरा दुग
55 श्री. सतोप बुभार बापना राजनादगाव
56 श्री. भागीलाल सचेती दुग
57 श्री. मोमराज श्रीश्रीमाल दुग
58 श्री. सीमचन्द बनजी जीवाणा बम्बई
59 श्री. मसस रीटा मेवेनिलस बन्म लुधियाना
60 श्री. एम. एम. जैन सभा करीदाबाद
61 श्री. पानचन्द सी. जैन दिल्ली
62 श्री. लाला प्रकाशचन्द जैन दिल्ली
63 श्री. सुभाषचन्द जैन दिल्ली
64 श्री. वसत भाई (गानगाव) बम्बई
65 श्री. लालजी वीरजी देविया बम्बई
66 श्री. रविबुभार जैन दमोह
67 श्री. हृदारीमनजी रिखचन्दजी बरदिया कवराडा
68 श्री. जयमगवान जैन प्रितमपुरा दिल्ली
69 श्री. जानकीदास जैन (कगारा) लुधियाना
70 श्री. तरमेन्दुमार जैन (जैन उदय) लुधियाना

अ. भा. समग्र जैन चातुर्मास सूची प्रकाशन परिषद्, बम्बई

सन् 1993 की कार्यकारिणी के पदाधिकारीगण एवं सदस्यगण

अध्यक्ष :

श्री दीपचन्दभाई गार्डी

बम्बई

श्री जशवतभाई सी शाह

बम्बई

श्री हीरालाल जैन

लुधियाना

श्री सुमंतिलाल कर्नावट

ठाणा-बम्बई

श्री शांतिप्रसाद जैन (माडवी बैंक)

बम्बई

श्री रतनलाल सी वाफना

जलगाव

श्री नवरत्नमल एस. मुणोत

बम्बई

श्री उमरावमल चौरडिया

जयपुर

श्री जम्बुकुमार भण्डारी

इन्दौर

श्री हसमुखभाई मेहता (वर्धमान-निर्माण)

बम्बई

श्री अभयराज बलदोटा

बम्बई

श्री एन. ताराचंद दुगड

मद्रास

श्री प्रतापभाई चादीवाला

बम्बई

श्री शांतिलाल दुगड

नासिक

श्रीमती सुलोचना देवी लुकाड

बम्बई

श्री शंकरलाल कोठारी (सेवाड)

बम्बई

श्री माणकचंद साखला

बम्बई

श्री मीठालाल संघवी

बम्बई

श्री इन्द्रचन्द हीरावत

बम्बई

श्री उमरावसिंह ओस्तवाल

भायन्दर

श्री रमणिकभाई छाडवा

बम्बई

श्री सोहनलाल सिपानी

वैंगलोर

श्री कुन्दनमन साकारिया

इन्दौर

श्री गणपतलाल कोठारी

बम्बई

श्री सी सी डागी

बम्बई

श्री अरविन्दभाई डी लुखी

बम्बई

श्री प्रसन्नकुमार लोहा

बम्बई

सहयोगी कार्यकर्ता :

श्री राणीदान बोथरा

दुर्ग

श्री राधेश्याम जैन (रोहिणी)

दिल्ली

श्री गौतमचन्द काकारिया

मद्रास

श्री शांतिलाल साड

वैंगलोर

श्री चम्पालाल कर्नावट (रीड)

बम्बई

श्री भाईलालभाई तुरखीया

इन्दौर

श्री रूपराज बम्ब

इचलकरजी

श्री गौतमचन्द ओस्तवाल

वैंगलोर

उपाध्यक्ष :

उपाध्यक्ष :

श्री एस लालचंद वाघमार

मद्रास

श्री विशनजीभाई लखमणी भाई शाह

बम्बई

श्री नगीनभाई धिराणी

राजकोट

श्री रिखबचन्द जैन (टी. टी)

दिल्ली

महामंत्री :

श्री शांतिलाल बी. छाजेड़ (जैन)

बम्बई

मंत्री

श्री रमेशचन्द्र जैन

दिल्ली

श्री नेमनाथ जैन (प्रेस्टीज)

इन्दौर

श्री डी. टी नीसर

बम्बई

सहमंत्री :

श्री किशोरचन्द्र वर्धन

बम्बई

श्री जेठमल चौरडिया

वैंगलोर

श्री नृपराज जैन

बम्बई

श्री कान्तिलाल जैन (पी एच जैन)

बम्बई

कोषाध्यक्ष :

श्री संपतराज कावडिया

बम्बई

संयोजक-संपादक :

श्री बाबूलाल जैन "उज्ज्वल"

बम्बई

कार्यकारिणी सदस्यगण :

श्री सुखलाल कोठारी

बम्बई

श्री वंकटलाल कोठारी

पूना

श्री हरकचन्द नाहटा

दिल्ली

श्री सुभाषचन्द्र रुनवाल

बम्बई

श्री मोफतराज मुणोत

बम्बई

श्री जे. डी जैन

गाजियाबाद

श्री सी. आर भंसाली

बम्बई

श्री जे माणकचन्द कोठारी

वैंगलोर

| | | | |
|------------------------------------|--------|--------------------------------|--------|
| श्री इ.द्रसिंह बाबेल | उदयपुर | परामश सहयोगी कायधर्ता | |
| श्री मागीलाल खटारिया | रतलाम | श्री रतीलाल सी शाह "धर्मप्रिय" | बम्बई |
| श्री राजेन्द्र ए. जन | बम्बई | श्री जिन द्रकुमार जन | जयपुर |
| श्री भंवरलाल बोहरा (मोलेला फोट) | बम्बई | श्री श्रीचंद सुराना 'सरस' | आगरा |
| श्री हीरालाल झाझरी (नईदुनिया) | इन्दौर | श्री रसीवलाल सी पारख | राजकोट |
| श्री महेन्द्रसिंह डागी (नईदुनिया) | इन्दौर | श्री चदनमल चाद | बम्बई |
| श्री छोट्टभाई छेडा (जयत प्रिन्टरी) | बम्बई | श्री नगीनभाई शाह 'बावडीकर' | बम्बई |
| श्री राजूभाई (क्रियेटिव) | बम्बई | श्री महेन्द्रभाई शाह | भावनगर |
| श्री विजयसिंह नाहर | इन्दौर | श्री प्रशान्त एम झवेरी | बम्बई |
| श्री बाबूलाल जैन पोरवाल | इन्दौर | श्री चिमनभाई कलाधर | बम्बई |

समग्र जैन सम्प्रदाय सर्वाधिक नई दीक्षा सूची

सम्पूर्ण जैन समाज में एक ही आचार्य/साधु-मुनिराजों के सान्निध्य, निश्चा में एक ही दिन एक ही स्थान पर सर्वाधिक जो सामूहिक नई दीक्षाएँ सम्पन्न हुई हैं उनका विवरण यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है।

| क्र | समुदाय | सान्निध्य/निश्चा | दीक्षा सख्या | दीक्षा स्थान | दीक्षा तिथि |
|-----|----------------------|--|--------------|---------------|-------------|
| 1 | श्वे तेरापयी | आचार्य श्री तुलसी | (31) | बीकानेर | वि स 1994 |
| 2 | श्वे तपागच्छ | आचार्य श्री कलापूण सूरीश्वरजी म सा | (29) | कटारिया तीर्थ | |
| 3 | श्वे तपागच्छ | आचार्य श्री रामचन्द्र सूरीश्वरजी म सा | (27) | | |
| 4 | श्वे स्था साधुमार्गी | आचार्य श्री नानालालजी म सा | (25) | रतलाम | सन् 1984 |
| | | | (21) | बीकानेर | सन् 1992 |
| 5 | दिगम्बर | आचार्य श्री विद्यासागरजी महाराज | (25) | जबलपुर | सन् 1993 |

नोट—इसके अलावा उपरोक्त आचार्यों की निश्चा में 29, 27, 25, 21, 15, 12, 10 आदि अनेक बार सामूहिक नई दीक्षाएँ भी सम्पन्न हो चुकी हैं। इसके अलावा अपनी-अपनी समुदाय में भी कई सामूहिक नई दीक्षाएँ सम्पन्न हो चुकी हैं। सभी समुदायों के सध नायकों, आचार्यों, मुनिराजा से नम्र निवेदन है कि अपनी-अपनी समुदायों में सर्वाधिक सामूहिक नई दीक्षाएँ सम्पन्न हुई, उसकी जानकारी हम अवश्य भिजवाएँ ताकि भविष्य में सभी समुदाय में सर्वाधिक सम्पन्न नई दीक्षाओं की सूची प्रस्तुत कर सकें। ताकि समाज को ज्ञात हो सके कि किस समुदाय में कितनी सर्वाधिक सख्या में सामूहिक नई दीक्षाएँ कब कहाँ सम्पन्न हुईं।

अ. भा. समग्र जैन चातुर्मास सूची प्रकाशन परिषद्, बम्बई

परिषद् के प्रधान, शाखा कार्यालय एवं प्रतिनिधि मण्डल

प्रधान कार्यालय

संयोजक—श्री बाबूलाल जैन 'उज्ज्वल'
105, तिरुपति अपार्टमेंट्स, आकुर्ली क्रॉस रोड नं. 1,
कादिवली (पूर्व) बम्बई-400101 (महाराष्ट्र)
फोन नं. 8881278

शाखा कार्यालय

1. मद्रास शाखा—श्रीलालचन्द एस. बाघमार,
80 ओयडप्पा नायकन स्ट्रीट, साहूकार पेठ,
मद्रास-600079 (तमिलनाडू)
फोन नं आफिस-522605, 522066,
निवास-6423271, 6426223
2. दुर्ग-छत्तीसगढ़ शाखा - श्री राणीदान बोथरा
मैसर्स खेतमल राणीदान बोथरा, वर्तनों के थोक
विक्रेता, शनिश्चरी बाजार, दुर्ग-491001 (म.प्र.)
3. इन्दौर-भालवा शाखा—श्री बाबूलाल जैन पोरवाल,
C/o जैन किराणा भण्डार, 70 रामगज (जिन्सी)
मैन रोड इन्दौर-452002 म.प्र.)
4. दिल्ली शाखा—श्री राधेश्याम जैन (रोहिणी)
मैसर्स—राम साम सेल्स कार्पोरेशन, 3228/2 गली
पीपल महादेव OPP. चौमुख मंदिर, हौजकाजी,
दिल्ली-110006, फोन नं. आफिस-3273527,
3264925, निवास-7271585, 7272136

प्रतिनिधि मण्डल -

1. जलगांव प्रतिनिधि—श्री प्रकाशचंद हुण्डीवाल,
मैसर्स गजेन्द्र इलेक्ट्रीकल्स स्टोर्स, पाजरापोल बिल्डिंग,
नेरी नाका, जलगाव-425001 (महाराष्ट्र)
2. सवाई माधोपुर प्रतिनिधि—श्री सुवाहु कुमार जैन
सर्राफ, श्री बजरंगलाल महावीर प्रसाद जैन सर्राफ,
नगर परिषद् के सामने, सवाई माधोपुर
(राज.)-322021
3. लुधियाना प्रतिनिधि—श्री हीरालाल जैन (प्रधान)
आत्म पब्लिक स्कूल, आत्म नगर, आत्म पार्क के पास,
लुधियाना-141008 (पंजाब)
फोन नं. 493935, 493904

4. रतलाम प्रतिनिधि—श्री मागीलाल कटारिया (मंत्री)
19/3 पेलेस रोड, रतलाम-457001 (म. प्र.)
फोन . 22681, 20288
5. उदयपुर प्रतिनिधि—श्री इन्द्रसिंह वावेल, दिवाकर
दीप, 38 सहेली नगर, सहेली मार्ग, उदयपुर-313001
(राजस्थान) फोन नं 60153
6. बैंगलौर प्रतिनिधि—श्री गौतमचन्द ओस्तवाल, संपादक
मोक्ष द्वार पाक्षिक, नं 53, 1 म जिल, 2 री मेन रोड, 4 वां
क्रॉस, नागप्पा ब्लोक, बैंगलौर-560021 (कर्नाटक)
7. कोटा प्रतिनिधि—श्री हुकमचन्द जैन (बरवाडा वाला)
मैसर्स वर्धमान टेक्सटाइल्स, मेहरापाड़ा, रामपुरा,
कोटा-324006 (राजस्थान)
8. उत्तर-प्रदेश प्रतिनिधि—श्री जे डी जैन, के. वी. 45,
कविनगर, गाजियाबाद (उत्तर-प्रदेश) 201001
फोन नं 840001, 847205
9. भीलवाड़ा प्रतिनिधि - श्री शातिलाल खिवसरा,
मैसर्स गौतम क्लोथ स्टोर्स, गाधीनगर, भीलवाड़ा
(राजस्थान) 311001 फोन नं. 7667
10. राजकोट प्रतिनिधि - श्री रसिकलाल सी पारख,
तंत्री जैन क्रांति मासिक 31/36 करणपरा, राजकोट-
(गुजरात) 360001
11. सुरेन्द्रनगर प्रतिनिधि—श्री हंसमुखभाई मेहता (सियाणी
वाले) मैसर्स चामुण्डा कोटन ट्रेडर्स, मेहता मार्केट,
सुरेन्द्रनगर (गुजरात) -363001
फोन आफिस- 21243, 23074, निवास-22462
12. आगरा प्रतिनिधि—श्री रामस्वरूप जैन, 22/4 बाग
अन्ता, लोहा मण्डी, आगरा-282003 (उत्तर प्रदेश)
13. मुजफ्फर नगर प्रतिनिधि—श्री विनोद कुमार जैन,
मैसर्स विनोदकुमार हीरालाल, वैकर्ष, न्यू मण्डी
मुजफ्फर नगर (उत्तर-प्रदेश)-251001
फोन . आफिस-403522, 403122,
निवास-405938

- 14 इचलवरजी प्रतिनिधि—श्री स्वराज वस्त्र,
ममम तजराज स्वराज वस्त्र मेन राट, इचलवरजी
जिना-कोल्हापुर (महाराष्ट्र)-416416,
फोन दुबान-22259 22179, निबाम 22452
- 15 मासिक प्रतिनिधि—श्री शांतिनाथ दुग्ड, मूढटा
हाउस, 2माता, एम जी राड, नामिक मिटी 422001
(महाराष्ट्र)
- 16 भुज-कच्छ प्रतिनिधि—श्री जमूलाल टी महता
(कोर्टेक्टर) सिद्धाचल, हास्पीटल राड भुज-कच्छ
(गुजरात) 370001 फोन 20816 4816
- 17 जयपुर प्रतिनिधि— श्री उमराधमन चार्गिडा
13 सतनशही राड, जवाहरनाथ नरह राड,
जयपुर (राजस्थान) 302004
- 18 नागपुर-विदम प्रतिनिधि—श्री हमराज गानछा
(गुरुजी) शाह नागजी हांगी जैन छात्रालय अहमदा
भवन, स्वामी नामपुर-440002 (महाराष्ट्र)
फोन 47283 पी पी
- 19 अहमदनगर प्रतिनिधि—श्री जगन्नाथ (बाबू मठ) नारा
मैनन विजय माडी मेटर महात्मा गांधी मार्ग
अहमदनगर-414001 (महाराष्ट्र)
- 20 रायपुर प्रतिनिधि—श्री वसन्त शरीवान
मूष-इंडना प्रेस धांगीवाल गवा मंदर बाजार,
रायपुर-492001 (म प्र)
- 21 राजनादगाव प्रतिनिधि— श्री सतापचंद राफना
ममम प्रकाश पायवूट, समाधीन भाग, राजनादगाव
(म प्र) फोन 6331
- 22 बालोतरा प्रतिनिधि—श्री जामप्रकाश वाठीया (मी ए)
भेरु बाजार तालावरा, जिला-वाडमेर,
(राज) 341022
- 23 बालाघाट प्रतिनिधि—श्री प्रकाशचंद रागरेचा, ममस
पायन गारमट मंदर बाजार तालाघाट (म प्र)

नाट—भारत के विभिन्न शहरों में परिषद के प्रतिनिधि
वर्तमान बाउ इन्डुम महात्माव परिषद् के प्रान्त
वाद्यालय में सम्भव कर नियमावली प्राप्त करें।
उपरोक्त प्रतिनिधियों के जनाओं हमारे कोर्ट
प्रतिनिधि नहीं है।

रचनाएँ व लेख आमंत्रित हैं

परिषद् का मुख पत्र—'जैन एन ता मदेश' मासिक पत्र में
लेख, रचनाएँ, सम्मरण, वृत्तियाँ, समाजीयान सुझाव
पुस्तक समीक्षा, समाचार आदि प्रकाशनाय आमंत्रित हैं।

सभी पूज्य आचार्या, मुनिगजा, माध्वीयों, श्री सधा,
महानुभावा नम्र निवेदन हैं कि उपरोक्त पत्र हेतु रचनाएँ
समाचार व लेख मुझाव, सम्मरण, पुस्तक समीक्षा व पुस्तकें
आदि प्रेषित करने की कृपा करें।

विनिर्णय—बाबूलाल जैन 'उज्ज्वल'

समाचार आमंत्रित हैं

सम्पूर्ण जैन समाज व परम पूज्य आचार्यों, मुनिगजा
माध्वीयों, श्री सधा धर्मप्रेमी महानुभावा नम्र निवेदन
हैं कि आपके यहाँ पर होनेवाले दीक्षा, तपस्या, पट्टोत्सव,
नई दीक्षा वान वम की सूचना, जन्मश्लोका प्रतिष्ठान्त
आदि वाचनाय की सभी सूचनाएँ, आमरण पत्रिकाएँ, समा-
चार आदि हम भी अवश्य प्रेषित करें। आप अन्य सभी का
समाचार भेजते रहते हैं ता उसी प्रकार आपकी सम्भव
सूचनाय भी हमारा भी नाम दर्ज कर लें। आपकी छाटी में
छाटी जानकारी भी हमारे काम में किसी रूप में
नहीं जाती है। मासिक पत्र में भी प्रकाशित करेंगे तथा
वातुमार्ग सूची में भी उदाहरण करेंगे।

हम आपका विनाम दिनत है कि आपने द्वारा
प्रेषित जानकारी सूचनाएँ हमारे यहाँ सभी भी व्यय
नहीं आवेंगी। जत आप सूचनाएँ, समाचार, आमरण
पत्रिकाएँ आदि अवश्य प्रेषित करने की कृपा करें।

निर्णय—बाबूलाल जैन 'उज्ज्वल'

जैन एकता सन्देश

सम्पूर्ण जैन समाज में जैन एकता, सम्मेलन और सगठन
व वाय में अग्रणीय स्थान प्राप्त करनेवाला परिषद् द्वारा
प्रकाशित 'जैन एकता सन्देश' विगत 5 वर्षों से त्रैमासिक
रूप में प्रकाशित किया जाता रहा है।

आप सभी का सूचित करने हुए परम हृदय है कि
अक्टूबर 1993 में इस त्रैमासिक के स्थान पर मासिक
वर्णन का नियम किया गया है। जत जागामी अक्टूबर माह
1993 में यह मासिक के रूप में प्रकाशित किया जाता रहा।

—संपादक

समग्र जैन चातुर्मास सूची-बम्बई की हर क्षेत्र-समय में उपयोगिता

अ भा. समग्र जैन चातुर्मास सूची प्रकाशन परिषद् बम्बई द्वारा प्रकाशित भारत के समग्र जैन समाज के सभी समुदायों के लगभग 10 हजार जैन साधु-साध्वियों के प्रति वर्ष होने वाले चातुर्मासों एवं समाज की सभी गतिविधियों की सभी जानकारीयों की सम्पूर्ण जैन समाज की प्रसिद्ध एक मात्र पूर्ण एवं प्रामाणिक "समग्र जैन चातुर्मास सूची" का विगत 14 वर्षों से नियमित प्रकाशन किया जाता रहा है।

इस चातुर्मास सूची से आज सम्पूर्ण विश्व का जैन समाज काफी लाभान्वित हो रहा है। प्रति वर्ष होनेवाले जैन साधु-साध्वियों के चातुर्मासों के बारे में तो मार्गदर्शन मिलता ही है साथ में एक दूसरे समुदाय की गतिविधियों की जानकारीयों भी एक जगह उपलब्ध हो जाती है जैन एकता स्थापित करने में इस पुस्तक का काफी योगदान रहा है। इस पुस्तक की माँग देश-विदेशों तक पहुँच गयी है क्योंकि सम्पूर्ण विश्व में जैन समाज की ऐसी पुस्तक अन्य कहीं से भी प्रकाशित नहीं होती है। इन परिषद् द्वारा ही एकमात्र यह सूची पुस्तक प्रकाशित होती है जो पूर्ण एवं प्रामाणिक एवं अस्मिन्प्रदाधिक है। यह बात समग्र जैन समाज में एक स्वर से स्वीकार्य भी है।

कई महानुभाव इस पुस्तक के बारे में यह तर्क देते रहते हैं कि यह पुस्तक तो मात्र चातुर्मास काल तक ही काम में आती है। मेरे ख्याल में उनका यह सोचना गलत है यह सूची पुस्तक बारह महीने हर समय, हर वर्ग, हर क्षेत्र में काम आती रहती है। लेकिन जितना उपयोग चातुर्मास काल में होता है उतना अन्य समय में कम होता है। फिर भी महत्व तो बना ही रहता है। चातुर्मास समय के पश्चात् कहीं पर भी कोई दीक्षात्मक, पट्टोत्सव, प्रतिष्ठोत्सव, सम्मेलन, अधिवेशन, नामकरण, उद्घाटन या अन्य कोई भी कार्यक्रम आयोजित होते हैं। उनकी आमदण पत्रिकाओं के लिए सम्पर्क सूत्र इस पुस्तक से ही प्राप्त किये जाते हैं क्योंकि इतने सम्पर्क सूत्र एक जगह कहीं से भी प्राप्त नहीं हो सकते, चाहे चातुर्मास स्थलों से साधु-साध्वियों का वहाँ से विहार हो गया हो लेकिन सम्पर्क सूत्र तो नहीं बदलते वह तो स्थायी रहते हैं और सारे सम्पर्क सूत्र एक जगह प्राप्त किये जा सकते हैं। इसके अलावा जैन समाज की जानकारीयों जाननेवालों के लिए यह सूची पुस्तक महत्त्वपूर्ण कड़ी है। भविष्य में यह पुस्तक जैन इतिहास पूर्ण एवं प्रामाणिकता का जीता-जागता नमूना सिद्ध होगा। इन तरह इसकी उपयोगिता बारह महीने हर समय, हर वर्ग, हर क्षेत्र में काफी महत्त्वपूर्ण है।

आवश्यक सूचना

अ.भा.समग्र जैन पत्र-पत्रिका सूची एवं जैन विश्व रिकार्ड्स डायरेक्ट्री का प्रकाशन

अ.भा. समग्र जैन पत्र-पत्रिका सूची एवं जैन विश्व रिकार्ड्स डायरेक्ट्री का प्रकाशन समयाभाव से समग्र जैन चातुर्मास सूची 1993 में सम्मिलित नहीं कर सके। इन दोनों का प्रेस मेटर तैयार कर लिया था, परन्तु प्रेस में कम्पोजिंग एवं मुद्रण की परेशानी के कारण समयाभाव से मेटर को बीच में रोकना पड़ा। अब इन दोनों डायरेक्ट्रियों का प्रकाशन अलग से अलग-अलग पुस्तक रूप में शीघ्र ही हो रहा है। ये

दोनों डायरेक्ट्रियाँ सभी साधु-साध्वियों, परिषद् के सदस्यों एवं ग्राहकों, संपादकों एवं हितेषी महानुभावों को निःशुल्क प्रेषित की जावेगी, प्रकाशन अवधि 20-9-93 तक सम्भव है। विवशता के लिए क्षमा।

-बाबूलाल जैन उज्जवल
सम्पादक

अ भा समग्र जैन चातुर्मास

सन् 1992-93 वर्ष का

(दिनांक 1-1-1992 में)

| सन् 1991 | रूपये | आय विवरण | सन् 1992 93 | रूपये |
|-------------|-------|--|-------------|-------|
| 409-15 | | पुरानी बानी शूद्र नफा/नुबयान रहा | | — |
| | | विज्ञापन एवं सदस्यता शुल्क से प्राप्त आय | | |
| 49,405-00 | | बम्बई प्रधान कार्यालय, बाबूलाल जैन 'उज्ज्वल' | 61,965-00 | |
| 6,560-00 | | इन्दौर शाखा, श्री बाबूलाल जैन पौरवाल | 5,288-00 | |
| 7,200-00 | | छत्तीसगढ़, दुग प्रतिनिधि श्री गणोदान रायरा दुग | 2,201-00 | |
| 2,300-00 | | रतलाम प्रतिनिधि, श्री मागीलाल कटारिया | 2,000-00 | |
| 1,300-00 | | उदयपुर प्रतिनिधि, श्री इ.ट्रिनिह वारेल | 1,500-00 | |
| 8,900-00 | | श्री डी टी नीसर मंत्री द्वारा प्राप्त आय | 13,200-00 | |
| 1,000-00 | | मुजफ्फर नगर प्रतिनिधि, श्री विनादवाल जैन | 1,300-00 | |
| — | | बैंगलूर प्रतिनिधि, श्री गौतमचंद ओस्तवाल | 950-00 | |
| — | | भद्रास शाखा, श्री लालचंद वाघमार | 600-00 | |
| — | | दिल्ली शाखा, श्री राघेय्याम जैन (रोहिणी) | 12,000-00 | |
| — | | जलगाँव प्रतिनिधि श्री प्रवाशचंद हुण्डीवाल | 3,319-00 | |
| — | | गाजियाबाद प्रतिनिधि, श्री जे.टी. जैन | 1,000-00 | |
| 77,074-15 | | | 1,05,323-00 | |
| 11,700-00 | | पुस्तक भेंट योजना से प्राप्त आय | | |
| | | चातुर्मास सूची पुस्तकें/भेंट भेजी उसकी आय का प्राप्त | 13,500-00 | |
| | | आयिक सहयोग प्राप्त आय | | |
| 1,038-00 | | चातुर्मास के उपलक्ष एवं अन्य प्रसंगों पर साभार सहयोग प्राप्त | 3,552-00 | |
| 10,400-00 | | पुराने वर्षों की बकाया राशि प्राप्त आय | | |
| | | पुराने वर्ष 1990-91 वर्ष का बकाया राशि का प्राप्त हुआ। | 20,325-00 | |
| | | बिकी से प्राप्त आय | | |
| 1,746-00 | | चातुर्मास सूची पुस्तकें विक्री का प्राप्त हुआ | 2,118-00 | |
| 1,01,958-15 | | | 1,44,818-00 | |
| 14 498-85 | | शूद्र नुकसान रहा जो आगामी वर्ष के लिए रखा गया | 11,870-00 | |
| 1,16,457-00 | | कुल योग | 1,56,688-00 | |

नोट—(1) उपरोक्त हिसाब 1 1 92 से 31-3-93 तक 15 माह का प्रस्तुत किया गया है।

(2) कई सदस्यों एवं महानुभावों से सपनाम 22 हजार रुपये का चेमेन्ट आना शेष रहा जो आगामी वर्ष में सम्मिलित किया जा सकेगा।

(3) मुद्रण का पूरा कार्य कम्प्यूटर-ऑफसेट पर करने से खर्च बहुत ज्यादा बढ़ गया है। सन 1993 में भी पूरा कार्य कम्प्यूटर ऑफसेट पर ही हो रहा है।

(4) उपरोक्त हिसाब की विस्तृत जानकारी प्रधान कार्यालय में आकर कभी भी देख सकते हैं।

बम्बई
10-4 1993

दीपचंद भाई गाडें
अध्यक्ष

शांतिलाल छाजेड जैन
महामंत्री

सूची प्रकाशन परिषद्, बम्बई

आय-व्यय का विवरण

31-3-93 तक)

| सन् 1991 रुपये | व्यय विवरण | सन् 1992-93 रुपये |
|-------------------|---|----------------------|
| -- | पुराना शुद्ध नुकसान रहा | 14,498-85 |
| | समग्र जैन चातुर्मास सूची एवं जैन एकता सन्देश 1992 प्रकाशन कार्य : | |
| 38,117-00 | छपाई खर्च खाता:-मैसर्स नईदुनिया प्रिन्टरी इन्दौर, जयन्त प्रिन्टरी बम्बई को पुस्तके छपाई का दिया | 49,174-00 |
| 20,362-00 | कागज खर्च खाता:-पुस्तकों के लिए इन्दौर-बम्बई से कागज खरीदा उसका दिया | 26,512-00 |
| 3,176-00 | ब्लाक खर्च खाता:-फोटो के ब्लाक बनवायी के दिये | 1,288-00 |
| 4,290-00 | स्टेशनरी खर्च खाता:-स्टेशनरी, कागज, फोटो कार्पियाँ, ऑफसेट, विज्ञापन पत्र, पेन, साइक्लोस्टाइल टाईप लिफाफे, रेपर कवर आदि स्टेशनरी सामान | 6,498-00 |
| 23,728-00 | पोस्टेज खर्च खाता:-चातुर्मास सूची, जैन एकता सन्देश, विज्ञापन पत्र, पोस्टर, चार्ट पर स्टाम्प आदि का पोस्टेज खर्च | 28,300-00 |
| 2,115-00 | पत्र-पत्रिका शुल्क खाता:-जैन समाज की लगभग 75 पत्र-पत्रिकाओं का वार्षिक शुल्क | 2,683-00 |
| 10,249-00 | यात्रा-प्रवास खर्च खाता:-इन्दौर प्रेस मे मुद्रण हेतु इन्दौर में 40 दिन तक दो व्यक्ति रहे, वहाँ का खर्चा एवं चातुर्मास सूची के लिए अनेक जगहों की यात्राएँ की उसका खर्चा | 12,758-00 |
| 845-00 | फोरवाडिंग ट्रांसपोर्ट खर्चा:-इन्दौर से बम्बई, बम्बई से इन्दौर एवं अनेक स्थानों पर पुस्तके, कागज, सामान आदि भेजे उसका ट्रांसपोर्ट फोरवाडिंग का खर्चा | 1,468-00 |
| 686-00 | टेलीफोन तार खर्च खाता:-टेलीफोन, टेलेक्स, तार किया उसका खर्चा | 896-00 |
| 915-00 | बैंक खर्च खाता:-ड्राफ्ट, बैंक क्लियरिंग आदि का बैंक ने चार्ज किया | 1,835-00 |
| 6,229-00 | शाखा कार्यालय खर्च खाता:-इन्दौर शाखा का खर्चा वेतन आदि का खर्चा | 3,312-00 |
| 5,015-00 | मेधावी विद्यार्थी अभिनन्दन समारोह खर्च:- राजस्थान प्रान्त के सवाई-माधोपुर, टोंक, कोटा, बून्दी आदि जिलों के जैन समाज के लगभग 300 मेधावी विद्यार्थियों का अभिनन्दन समारोह का आयोजन स. माधोपुर मे किया, पारितोषिक एवं समारोह का खर्चा हुआ | 6,480-00 |
| 730-00 | परचून खर्चा:- | 985-15 |
| 1,16,457-00 | | 1,56,688-00 |
| -- | शुद्ध नफा/नुकसान रहा जो आगामी वर्ष के लिए रखा गया | -- |
| 1,16,457-00 | कुल योग | 1,56,688-00 |

संपतराज कावड़िया
कोषाध्यक्ष

रमेशचंद जैन
नेमनाथ जैन
डी.टी. नीसर
मंत्री

बाबूलाल जैन 'उज्ज्वल'
संयोजक-सम्पादक

श्री बाबूलाल जैन 'उज्ज्वल' बम्बई द्वारा की जा रही समाज सेवाएँ

सम्पूर्ण जैन समाज के सुप्रसिद्ध सेवाभावी, कर्मठ कार्यकर्ता, पत्रकार श्री बाबूलाल जैन 'उज्ज्वल' बम्बई विगत 15 वर्षों से जैन समाज की उच्च कोटी की उत्कृष्ट सराहनीय सेवाएँ प्रदान करते आ रहे हैं। वर्तमान में जो सेवाएँ वह कर रहे हैं, उनका विवरण यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है—

1. **समग्र जैन चातुर्मास सूची**— अ भा समग्र जैन चातुर्मास सूची प्रकाशन परिपद् बम्बई द्वारा प्रकाशित सम्पूर्ण भारत के चारों जैन समुदायों के लगभग 10 हजार जैन साधु-साध्वियों के प्रतिवर्ष होने वाले चातुर्मासों एव समाज की अन्य सभी गतिविधियों की पूर्ण एव प्रमाणिक अद्वितीय जग प्रसिद्ध एकमात्र "समग्र जैन चातुर्मास सूची" का विगत 15 वर्षों से नियमित संपादन-प्रकाशन कार्य करना ।
2. **स्थानकवासी जैन चातुर्मास चार्ट**—परिपद् द्वारा प्रकाशित ज्वेताम्बर स्थानकवासी जैन समुदायों के साधु-साध्वियों के प्रतिवर्ष होने वाले चातुर्मासों का चार्ट चार भागों में हिन्दी एव गुजराती भाषा में विगत 15 वर्षों से नियमित प्रकाशन कार्य करना ।
3. **जैन विश्व रिकार्ड डायरेक्ट्री**— सम्पूर्ण विश्व के समग्र जैन समाज में जो एक से बढ़कर एक आश्चर्यजनक अद्वितीय विश्व जैन रिकार्ड्स स्थापित हुए हैं, ऐसे लगभग 300-400 रिकार्डों की जानकारियों की पूर्ण एव प्रमाणिक विवरणों के साथ में जैन विश्व रिकार्ड डायरेक्ट्री का विगत तीन वर्षों से नियमित प्रकाशन कार्य करना ।
4. **जैन पत्र-पत्रिका डायरेक्ट्री**—सम्पूर्ण जैन समाज में वर्तमान की लगभग 400 जैन पत्र-पत्रिकाओं के सम्पर्क सूत्र एव अन्य विवरण की सभी जानकारियों की जैन-पत्रिका डायरेक्ट्री का कई वर्षों से प्रकाशन कार्य करना ।
5. **जैन एकता सन्देश पत्र**— परिपद् द्वारा प्रकाशित सम्पूर्ण जैन समाज के सभी समाचार, रचनात्मक लेख, नई दीक्षा, कालधर्म, नई पदवियों की सूची एव समाजोत्थान समाज की सभी गतिविधियों की प्रमाणिकता एव असाम्प्रदायिकता से सम्पूर्ण जैन समाज का सुप्रसिद्ध "जैन एकता सन्देश" पत्र का विगत पाँच वर्षों से नियमित प्रकाशन कार्य करना ।
6. **जैन विवाह सूचना केन्द्र (बम्बई)**— श्री जैन सेवा सघ बम्बई के सहयोग द्वारा आयोजित सम्पूर्ण जैन समाज में विवाह योग्य लड़के-लड़कियों के विवाह सवध स्थापित करने की समस्या का हल ढूढने वावत जैन विवाह सूचना केन्द्र बम्बई की स्थापना की गयी है, साथ में एक मासिक पत्रिका का भी निशुल्क प्रकाशन कार्य शीघ्र ही प्रारम्भ किया जा रहा है। इस कार्य में पूर्ण सहयोग प्रदान करना ।
7. **जैन आचार्य श्रमण-श्रमणी ग्रंथ**—सम्पूर्ण जैन समाज के सभी 165 जैनाचार्यों, लगभग 10 हजार जैन साधु-साध्वियों में अनेक पदाधिकारीगण एव प्रभावशाली साधु-साध्वियों का फोटो-परिचय के साथ ग्रंथ का प्रकाशन हिन्दी भाषा में कार्य पूर्ण होने की तैयारी में, पूर्व के दिवगत सुप्रसिद्ध आचार्यों, साधु-साध्वियों का भी विवरण । सम्पूर्ण-जैन समाज के महत्वपूर्ण ग्रंथ के प्रकाशन कार्य में कार्यरत ।

समग्र जैन सम्प्रदाय संत-सती तालिका 1993

(1) श्वे. स्थानकवासी जैन सम्प्रदाय

(1) श्रमण संघ :

श्रमण संघीय आचार्य श्री देवेन्द्र मुनिजी म.सा. के आज्ञानुवर्ती संत-सतियाँजी म.सा.

| क्र | प्रांत का नाम | चातुर्मास स्थल | | कुल स्थल | कुल सत | कुल सतियाँजी | कुल ठाणा | |
|---------|---------------------|----------------|-----|----------|--------|--------------|----------|--------|
| | | आचार्य | संत | | | | | सतियाँ |
| 1. | राजस्थान | 1 | 13 | 39 | 52 | 55 | 181 | 236 |
| 2. | तमिलनाडू | — | 2 | 4 | 6 | 6 | 34 | 40 |
| 3. | कर्नाटक | — | 4 | 4 | 8 | 11 | 18 | 29 |
| 4. | आन्ध्रप्रदेश | — | 1 | — | 1 | 9 | — | 9 |
| 5. | महाराष्ट्र | — | 11 | 27 | 38 | 42 | 124 | 166 |
| 6. | उत्तर भारतीय प्रांत | — | 20 | 50 | 70 | 54 | 279 | 333 |
| 7. | गुजरात | — | 3 | 1 | 4 | 10 | 4 | 14 |
| 8. | मध्यप्रदेश | — | 4 | 22 | 26 | 17 | 95 | 112 |
| | अन्य सत-सतियाँ | — | 6 | 3 | 9 | 6 | 3 | 9 |
| कुल योग | | 1 | 64 | 150 | 214 | 210 | 738 | 948 |

(2) स्वतन्त्र सम्प्रदाय :

| क्र | सम्प्रदाय का नाम | चातुर्मास स्थल | | कुल स्थल | कुल सत | कुल सतियाँजी | कुल ठाणा | |
|---------|---------------------------------------|----------------|-----|----------|--------|--------------|----------|--------|
| | | आचार्य | संत | | | | | सतियाँ |
| 2. | आचार्य श्री नानालालजी म सा | 1 | 12 | 41 | 53 | 38 | 259 | 297 |
| 3. | ज्ञान गच्छाधिपति श्री चपालालजी म सा | — | 9 | 53 | 62 | 42 | 283 | 325 |
| 4. | आचार्य श्री हीराचन्द्रजी म सा | 1 | 3 | 7 | 10 | 12 | 34 | 46 |
| 5. | आचार्य कल्प श्री शुभचन्द्रजी म सा | — | 3 | 9 | 12 | 7 | 36 | 43 |
| 6. | आचार्य श्री सोहनलालजी म.सा. | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | 11 | 17 |
| 7. | प्रसिद्ध वक्ता श्री सुदर्शनलालजी म सा | — | 6 | — | 6 | 25 | — | 25 |
| 8. | तपस्वी रत्न श्री मान मुनिजी म सा. | — | 2 | 6 | 8 | 5 | 22 | 27 |
| 9. | स्व उपाध्याय श्री अमरमुनिजी म सा | 2 | 5 | 1 | 6 | 10 | 10 | 20 |
| | श्री वर्धमान वीतराग संघ समुदाय | — | 1 | — | 1 | 2 | — | 2 |
| | अन्य समुदाय के संत-सतियाँ | — | 10 | 2 | 12 | 22 | 3 | 25 |
| कुल योग | | 5 | 52 | 122 | 174 | 169 | 658 | 827 |

(3) बह्वु गुजरात सम्प्रदाय

| क्र. सं. | सम्प्रदाय का नाम | चातुर्मास स्थल | | | कुल पाल | कुल मत | कुल मतिदात्री | कुल ठाणा | |
|----------|---------------------------------------|----------------|----|-------|---------|--------|---------------|----------|------|
| | | आचार्य | मन | मतिथी | | | | | |
| 10 | श्री गाडन माटा पक्ष सम्प्रदाय | - | 12 | 52 | 64 | 22 | 250 | 272 | |
| 11 | श्री लिम्बडी मोटा पक्ष सम्प्रदाय | - | 5 | 56 | 61 | 18 | 248 | 266 | |
| 12 | श्री दरियापुरी आठ काटी सम्प्रदाय | 1 | 3 | 27 | 30 | 14 | 117 | 131 | |
| 13 | श्री निम्बडी (सघवी) गाजात सम्प्रदाय | - | 4 | 22 | 26 | 13 | 123 | 136 | |
| 14 | श्री कच्छ आठ काटी माटा पक्ष सम्प्रदाय | - | 6 | 25 | 31 | 15 | 80 | 95 | |
| 15 | श्री कच्छ आठ काटी नानी पक्ष सम्प्रदाय | 1 | 6 | 8 | 14 | 21 | 35 | 56 | |
| 16 | श्री खमात सम्प्रदाय | 1 | 3 | 7 | 10 | 9 | 37 | 46 | |
| 17 | श्री वाटाद सम्प्रदाय | - | 1 | 3 | 4 | 4 | 46 | 50 | |
| 18 | श्री गाडल मघाणी सम्प्रदाय | - | 1 | 6 | 7 | 1 | 32 | 33 | |
| 19 | श्री बग्गला सम्प्रदाय | - | 1 | 4 | 5 | 6 | 11 | 17 | |
| 20 | श्री मायना सम्प्रदाय | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | |
| 21 | श्री हालारी सम्प्रदाय | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | |
| 22 | श्री बधमान सम्प्रदाय | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | |
| | अथ मन-मतिथी | - | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 7 | |
| | | कुल पाल | 3 | 48 | 215 | 263 | 131 | 991 | 1122 |

अ भा स्थानकवासी अँन सत-सती तुलनात्मक तालिका 1993

चातुर्मास स्थान 1993

| सम्प्रदाय | आचार्य | चातुर्मास स्थान 1993 | | | प्रति-शत | 1992 कुल | 1991 कुल | 1990 कुल | 1989 कुल | 1988 कुल | | | |
|-----------------------|--------|----------------------|-------|-----|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------|------|------|
| | | मन | मतिथी | कुल | | | | | | | | | |
| धर्मण मघ | 1 | 64 | 150 | 214 | 210 | 738 | 948 | 33% | 880 | 975 | 910 | 937 | 926 |
| रुनत सम्प्रदाय | 5 | 52 | 122 | 174 | 169 | 658 | 827 | 29% | 872 | 798 | 780 | 773 | 786 |
| बृहद गुजरात सम्प्रदाय | 3 | 48 | 215 | 263 | 131 | 991 | 1122 | 38% | 1093 | 1080 | 1048 | 1053 | 1023 |
| कुल पाल | 9 | 164 | 487 | 651 | 510 | 2387 | 2897 | - | 2845 | 2853 | 2738 | 2763 | 2710 |

(2) श्वे. सतिपूजक जैन सम्प्रदायों की तालिका 1993

(1) तपागच्छ समुदाय

| क्र.सं. | समुदाय का नाम | आचार्य | वर्तमान में समुदाय के प्रमुख आचार्य | कुल चातुर्मास स्थान | | | | | |
|---------|--|--------|--|--|------|------|------|------|------|
| | | | | कुल | कुल | कुल | | | |
| | | | | मुनिराज साध्वियों स्थान मुनिराज साध्वियों ठाणा | | | | | |
| 1. | श्री विजय प्रेम सूरेश्वरजी म सा (भाग-1) | (23) | श्री विजय महोदय सूरेश्वरजी म सा | 52 | 112 | 164 | 253 | 637 | 890 |
| 1ए. | श्री विजय प्रेम सूरेश्वरजी म सा (भाग-2) | (12) | श्री विजय जयधोष सूरेश्वरजी म सा | 45 | 81 | 126 | 209 | 397 | 606 |
| 2. | श्री विजय नेमी सूरेश्वरजी म सा | (14) | श्री विजय मेरू प्रभ सूरेश्वरजी म.सा. | 34 | 64 | 98 | 190 | 380 | 570 |
| 3 | श्री सागरानंद सूरेश्वरजी म सा | (13) | श्री दर्शनसागर सूरेश्वरजी म सा | 37 | 106. | 143 | 115 | 688 | 803 |
| 4 | श्री धर्म विजयजी म सा (डेहलावाला) | (5) | श्री विजयराम सूरेश्वरजी म सा (डेहलावाले) | 12 | 52 | 64 | 27 | 197 | 224 |
| 5 | श्री विजय वल्लभ सूरेश्वरजी म सा | (5) | श्री विजय इन्द्रविभू सूरेश्वरजी म सा | 12 | 50 | 62 | 52 | 215 | 267 |
| 6. | श्री बुद्धिसागर सूरेश्वरजी म सा | (6) | श्री सुबोधसागर सूरेश्वरजी म सा | 13 | 18 | 31 | 48 | 97 | 145 |
| 7 | श्री विजय नीति सूरेश्वरजी म सा | (3) | श्री विजय अरिहत सिद्ध सूरेश्वरजी म.सा | 18 | 69 | 87 | 52 | 383 | 435 |
| 8. | श्री विजयलब्धि सूरेश्वरजी म सा | (10) | श्री विजय जिनभद्र सूरेश्वरजी म.सा. | 12 | 25 | 37 | 54 | 185 | 239 |
| 9. | श्री मोहनलालजी म सा | (1) | श्री चिदानंद सूरेश्वरजी म सा | 7 | 13 | 20 | 15 | 39 | 54 |
| 10 | श्री विजयमोहन सूरेश्वरजी म.सा | (6) | श्री विजय यशोदिव सूरेश्वरजी म सा. | 12 | 43 | 55 | 30 | 210 | 240 |
| 11 | श्री विजय भक्ति सूरेश्वरजी म सा | (5) | श्री विजय प्रेम सूरेश्वरजी म.सा | 17 | 33 | 50 | 61 | 180 | 241 |
| 12 | श्री विजयकनक सूरेश्वरजी म सा (बागड) | (1) | श्री विजय कलापूर्ण सूरेश्वरजी म.सा. | 7 | 71 | 78 | 25 | 385 | 410 |
| 13 | श्री विजय सिद्धी सूरेश्वरजी म सा (बापजी म) | (3) | श्री विजय भद्रकर सूरेश्वरजी म सा. | 7 | 33 | 40 | 23 | 250 | 273 |
| 14 | श्री विजय केशर सूरेश्वरजी म सा | (2) | श्री विजय हेमप्रभ सूरेश्वरजी म.सा. | 7 | 36 | 43 | 24 | 177 | 201 |
| 15 | श्री विजय हिमाचल सूरेश्वरजी म सा | (1) | श्री विजय लक्ष्मी सूरेश्वरजी म सा | 5 | 12 | 17 | 15 | 80 | 95 |
| 16 | श्री विजय शांतिचन्द्र सूरेश्वरजी म सा | (2) | श्री विजय भुवनशेखर सूरेश्वरजी म सा. | 7 | 13 | 20 | 20 | 50 | 70 |
| | कुल योग | (112) | | 304 | 831 | 1135 | 1213 | 4550 | 5763 |

| क्र.सं. | सम्प्रदाय का नाम | अ.चाय | वर्तमान में सम्प्रदाय के प्रमुख आचार्य/मुनि | चतुर्मास स्थल | | कुल मुन | कुल ठाणा | | | | |
|--------------------|--|-------|---|-------------------|------------------------|---------|----------|------|------|------|------|
| | | | | मुनिराज साध्वियों | स्थल मुनिराज साध्वियों | | | | | | |
| 1 | श्री अचर गच्छ सम्प्रदाय | (2) | श्री गुणादय सागर सूरिभरजी म सा | 15 | 74 | 89 | 42 | 210 | 252 | | |
| 2 | श्री वरर गच्छ सम्प्रदाय | (1) | श्री किं उदयसागर सूरिजी म सा | 12 | 55 | 67 | 20 | 198 | 218 | | |
| 3 | श्री त्रिस्तुति गच्छ सम्प्रदाय (भाग-1) | (1) | श्री विजय हेमेट सूरिजी म सा | 5 | 5 | 10 | 13 | 11 | 51 | | |
| 4 | श्री त्रिस्तुति गच्छ सम्प्रदाय (भाग 2) | (1) | श्री विजय जयन्तसिंह सूरिजी म सा | 8 | 16 | 24 | 29 | 76 | 105 | | |
| 5 | श्री त्रिस्तुति गच्छ सम्प्रदाय (भाग 3) | (1) | श्री विजयलक्ष्मि सूरिजी. म सा. | 2 | — | 2 | 7 | — | 7 | | |
| 6 | श्री पाणवच ट गच्छ सम्प्रदाय | (-) | श्री रामच ट्रजी म सा | 6 | 21 | 27 | 11 | 69 | 80 | | |
| 7 | श्री विमल गच्छ सम्प्रदाय | (-) | श्री प्रधुमन विमलजी म सा | 1 | 12 | 13 | 4 | 40 | 44 | | |
| 8 | अन्य गच्छ सम्प्रदाय | (2) | अन्य | 4 | — | 4 | 12 | — | 12 | | |
| | | | | 53 | 183 | 236 | 138 | 634 | 772 | | |
| कुल योग (8) | | | | | | 357 | 1014 | 1371 | 1351 | 5184 | 6535 |

श्री मूर्तिपूजक सम्प्रदाय का कुल योग (120)

श्री 120-श्वेताम्बर तैरापथी एवं विगम्बर सम्प्रदाय को एक ही तालिका हटाने से अलग से नहीं दिखाया गया है।

अ.भा.समग्र जैन सम्प्रदाय साधु-साध्वी तुलनात्मक तालिका 1993

| सम्प्रदाय | चतुर्मास स्थल | | कुल मुनि | कुल साध्वियाँ | कुल ठाणा | प्रतिशत | 1991 | | 1990 | | 1989 | | |
|-----------------------|---------------|------|----------|---------------|----------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|------|------|
| | कुल आचार्य | मुनि | | | | | कुल ठाणा | कुल ठाणा | कुल ठाणा | कुल ठाणा | कुल ठाणा | | |
| श्वेताम्बर मूर्तिपूजक | 120 | 357 | 1014 | 1371 | 1351 | 5184 | 6535 | 62% | 6228 | 6501 | 6162 | 5772 | 5560 |
| श्वेताम्बर स्थानवासी | 9 | 164 | 487 | 651 | 510 | 2387 | 2897 | 27% | 2795 | 2853 | 2728 | 2763 | 2715 |
| श्वेताम्बर तैरापथी | 1 | 36 | 92 | 128 | 147 | 548 | 695 | 7% | 695 | 702 | 719 | 712 | 728 |
| विगम्बर सम्प्रदाय | 35 | 92 | 38 | 130 | 265 | 210 | 475 | 1% | 423 | 374 | 355 | 355 | 362 |
| कुल योग | 165 | 649 | 1631 | 2280 | 2973 | 8329 | 10602 | 100% | 10111 | 10121 | 9974 | 9602 | 9565 |

अ. भा. समग्र जैन साधु-साध्वी पद तालिका 1993

| क्र | समुदाय | गच्छाधि-पति | आचार्य | आचार्य कल्प | युवाचार्य | एलाचार्य | उपाध्याय | पन्थास | गणि | महामन्त्री | मन्त्री | प्रवर्तक | उपप्रवर्तक | प्रवर्तिनी | उप-प्रवर्तिनी |
|---------|-----------------|-------------|--------|-------------|-----------|----------|----------|--------|-----|------------|---------|----------|------------|------------|---------------|
| 1. | श्वे स्थानकवासी | 3 | 9 | 1 | 2 | - | 4 | - | - | 1 | 1 | 7 | 12 | 18 | - |
| 2. | श्वे तेरापश्री | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. | श्वे मूर्तिपूजक | 14 | 120 | - | - | - | 11 | 81 | 15 | - | - | 13 | - | 12 | - |
| 4. | दिगम्बर समुदाय | - | 35 | 3 | - | 5 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| कुल योग | | 17 | 165 | 4 | 3 | 5 | 21 | 81 | 15 | 1 | 1 | 20 | 12 | 30 | |

नोट—(1) जिन समुदायों के खाने खाली है उनमें अधिकांशतया वे पद लागू नहीं है।

(2) विस्तृत जानकारी के लिए उनकी समुदाय की सूची में देखिये।

(3) इनके अलावा भी जैसे मध संरक्षण, सलाहकार, स्थविर प्रमुख, प्रमुखा आदि अनेक पद भी विद्यमान है।

(4) सम्भव है इनके अलावा भी अन्य साधु-साध्वियों इत पदों पर हो, जितनी जानकारी उपलब्ध हुई, यहाँ प्रस्तुत की गयी है। भूल सुधार कर पढ़े एवं हमें भी अवगत करावे ताकि आगामी अंक में सशोधन कर सकें।

—संपादक

छपते-छपते

समग्र जैन चातुर्मास सूची 1993 का विमोचन

श्रमण सघ के आचार्य प्रवर श्री देवेन्द्र मुनिजी म. सा. के सान्ध्य में श्री आत्म जयंतो एवं अ. भा. श्वे. स्थ. जैन कांफ्रेंस युवा शाखा दिल्ली का अधिवेशन 29-8-93 रविवार को भीलवाड़ा में विशाल कार्यक्रम में समग्र जैन चातुर्मास सूची 1993 का विमोचन तमिलनाडु प्रांतीय युवा शाखा के अध्यक्ष श्री अशोक कुमार श्री श्रीमाल कुंभकोणम् (तमिलनाडु) के कर कमलो द्वारा सम्पन्न हुआ।

हम समाज को जोड़ेंगे, हमने यह व्रत धारा है ।
जैन समन्वय और एकता, यही हमारा नारा है ॥



शुभकामनाओं के साथ :

पता आफिस- 274515/272425
275620/274564
निवास- 4942409/4936177


किशोरचन्द्र एम. वर्धन

वर्धमान बिल्डर्स (इन्डिया)

हिन्द महाराष्ट्र कन्स्ट्रक्शन कंपनी
222, कॉमर्स हाऊस, नगोतवास मास्टर रोड, फोर्ट,
बम्बई-400 023 (महाराष्ट्र)

**WITH BEST COMPLIMENTS FROM
TORRENT
GROUP OF INDUSTRIES**

**WHERE COMMITMENT TO QUALITY
LEADS THE WAY**



TORRENT... ALWAYS AHEAD

**MANUFACTURERS AND EXPORTERS OF
PHARMACEUTICAL FORMULATIONS,
BULK DRUGS, VETERINARY MEDICINES,
CABLES, MEDICAL ELECTRONIC EQUIPMENTS**



CORPORATE OFFICE

"TORRENT HOUSE", OFF ASHRAM ROAD, AHMEDABAD-380 009.

सभी पूज्य आचार्यों, संत-सतिथियों की कोटि-कोटि वन्दन

दीपचन्द भाई गार्डी

अध्यक्ष अ भा समग्र जैन चातुर्मास सूची प्रकाशन
परिषद बम्बई

उपा विरण, वरमाईन रोड,

पडर रोड, पोस्ट 400026 (महाराष्ट्र)

फोन न - 4945431 4945270

सुखलाल कोठारी

पूर्व अध्यक्ष, कार्यकारिणी सदस्य अ भा समग्र जैन
चातुर्मास सूची प्रकाशन परिषद बम्बई

नूतन फर्नीचर माट

3 रा रोड, रेलवे स्टेशन के सामने,

खार रोड (वेस्ट), बम्बई 400052 (महाराष्ट्र)

फोन ऑफिस 6483919, 6483081

निवासे 6498328

जवाहरलाल लोढा

सत्यापक कार्यकारिणी सदस्य अ भा समग्र जैन

चातुर्मास सूची प्रकाशन परिषद बम्बई

दोर प्रिंटिंग प्रेस

मुराना मार्केट के पास,

पानी मागवाट 306401

फोन न 20388 21008

मरदारमल मुणोत

नवरत्नमल एस जैन

कार्यकारिणी सदस्य अ भा समग्र जैन चातुर्मास सूची
प्रकाशन परिषद बम्बई

जैन गुप

पोस्टल बम्बई, फोन न 60, 3 मल्ला,

एमए वेंदरी रोड, जम भूमि प्रेम के पास

पोस्ट, बम्बई 400001 (महाराष्ट्र)

फोन न आफिस 253248, 290201

निवासे 3682661, 3681070

नगीनभाई रामजीभाई विराणी

उपाध्यक्ष अ भा समग्र जैन चातुर्मास सूची प्रकाशन
परिषद बम्बई

विराणी दिना दिवानपुरा, मेनराड

पोस्ट न 136 गजकाट 360001 (गुज)

फोन न 28526, 25437

एस लालचद बागमार

उपाध्यक्ष अ भा समग्र जैन चातुर्मास सूची प्रकाशन
परिषद बम्बई

80 बोथडप्पा नाथकन स्ट्रीट

माहाराष्ट्र पठ, मद्रास-600079 (तमिलनाडु)

फोन न आफिस 522605, 522066

निवासे 6423271, 6426223

माणकचद साखला

कार्यकारिणी सदस्य अ भा समग्र जैन चातुर्मास सूची
प्रकाशन परिषद

साखला भवन, 177/24 मज्जी मण्डी,

वर्दिभ यनालय के पीछे, अजमेर-305001 (राजस्थान)

५

रतनलाल भदरलाल साखला

5, "नवयुग" नैनि बर्ती, बालकेश्वर,

बम्बई-400006 (महाराष्ट्र)

फोन 3670761, 3621655

ज्ञानचद धर्मचद वेताला

धमचद वेताला

कार्यकारिणी सदस्य अ भा समग्र जैन चातुर्मास सूची
प्रकाशन परिषद बम्बई

माटर फाउन्डेशन

ए टी रोड, गाहाटी 781001 (आसाम)

फोन न आफिस 27247

निवासे 28157

हादिक शुभकामनाओं सहित :-

OSTWAL PLANTATION (INDIA) LTD.

प्लान्टेशन की दुनिया मे प्रदूषण निवारण करने के लिए महत्वपूर्ण कार्यक्रम योजना

Fax : 022-8191995

फोन न —ऑफिस—8192412, 8192468
निवास—8192831

श्री ओस्तवाल बिल्डर्स प्रा. लि.

ए-11, शान्ति गंगा अपार्टमेन्ट्स, रेलवे स्टेशन के सामने,
भायन्दर (पूर्व) जिला ठाणा (महाराष्ट्र)—401105

- 卐 श्री ओस्तवाल बिल्डर्स प्रा. लि.
- 卐 श्री ओस्तवाल बिल्डर्स लि.
- 卐 श्री ओस्तवाल बिल्डर्स
- 卐 श्री ओस्तवाल डिवलपर्स
- 卐 श्री ओस्तवाल कन्स्ट्रक्शन्स
- 卐 श्री ओस्तवाल हार्डिंग
- 卐 श्री कुन्दन बिल्डर्स
- 卐 श्री पृथ्वी बिल्डर्स
- 卐 श्री ओस्तवाल प्रोडक्शन (फिल्म भारत-रत्न)
- 卐 मांगरोल वाला ट्यूब एण्ड कन्टेनर्स प्रा. लि.

हमारे यशस्वी सफल निर्माण प्रोजेक्ट—

- ओस्तवाल अपार्टमेन्ट्स, भायन्दर ○ ओस्तवाल निकेतन, भायन्दर ○ ओस्तवाल पेलेज, भायन्दर
- ओस्तवाल कुज, भायन्दर ○ ओस्तवाल महल, भायन्दर ○ ओस्तवाल पार्क, (45 विल्डिंग), भायन्दर
- ओस्तवाल टावर (4 विल्डिंग), भायन्दर ○ ओस्तवाल कार्मिथल सेटर (7 विल्डिंग), भायन्दर
- ओस्तवाल नगर (20 विल्डिंग), भायन्दर ○ ओस्तवाल कॉलोनी (35 विल्डिंग), भायन्दर

—: शुभेच्छुक :-

उमरावसिंह ओस्तवाल

मंत्री—श्री साधुमार्गी जैन संघ, बम्बई

अध्यक्ष—अ.भा. साधुमार्गी समता युवा संघ, रत्नाम

With best compliments from :

SHREE NITYANAND STEEL ROLLING MILLS

**Re-Rollers of Mild & Special Steel Rounds, Flats,
Squares, Hexagons, Octagons, C T.D. Bars
Sections & Structural**

**TRANSWORLD TRADE FARE GOLD MEDAL
SELECTION AWARD**



Office


**3rd, Darukhana Lane,
BOMBAY-400 010**



Works

**Kotwalwadi, Neral,
Dist Raigad-410 101 (M.H)**

Phones Sales-8726192 / 8724054 Works-38 & 60




With best compliments from :

P. S. JAIN FOUNDATION

**7-A, Rajpur Road
DELHI - 110054**

Tele, · 2525123 / 2523083



With best compliments from

Abhayraj Baldota ❁ Narendra A. Baldota

FOR **IRON ORE** CONTACT

MINERAL SALES PRIVATE LIMITED

**Producers of high grade and
Super high grade Iron ore**



Regd Office

Baldota Bhavan, 1117, Maharshi Karve Road, BOMBAY-400020

Phone 290989/209762

Telegram HEMATITE



Branch Office

Co-operative Colony, Hospet (Karnataka) 583203

Phone 8402/8878/8591


Telegram HEMATITE

With Best Compliments from :



**SHRI JAIN SWETAMBER
KHARTARGACHCHA SANGH**

**C/o. Shri Shantiprashad
Jain**



**4-F-2 (A) COURT CHAMBERS,
35, NEW MARINE LINES,
BOMBAY-400020 (MAH.)**



TELEPHONE NO.-299979/2011067/2862983

TELEX NO.-011-6805 SIVA IN

FACSIMILE NO.-259808

With best compliments from

FLOUR & FOOD LTD.



Alpine Solvex Ltd.



Administrative Office

10/11, Yeshwant Niwas Road,
INDORE-452 003 (M P.)



Phones 37365-6, 7, 8, 9

Telex 216 FOOD IN

Fax (0731) 32926

हार्दिक शुभेच्छा!.....

कर्णावट

कलाश्रेय

- ▶▶ संदीप बिल्डर्स अॅन्ड डेव्हलपर्स
- ▶▶ संदीप कन्स्ट्रक्शन्स्
- ▶▶ संदीप अॅन्ड असोसीअेटस्
- ▶▶ संदीप अॅन्टरप्राईजेस्

रेल्वे स्टेशन जवळ, ठाणे (पश्चिम)

फोन : ५०८०६२, ५०३०६६, ५०९२११

५३९३२१६, ५०५३७४, ५००६९०

जय गुरुदेवाय नम

श्री महावीराय नम

जय गुरुदेवाय नम

Good News for Every House Builder

Exclusive Quality of White Marble Available at—

LAXMI MARBLE & TILES CO

Talai Niwas, KANKROLI, Distt Rajesamand (Rajasthan)

J D MARBLES

Neejarna Mines, RAJESAMAND (Rajasthan)

INDIRA MARBLES

Kelwa Niwas RAJ NAGAR (Rajasthan)

YASH MARBLES

Telesharia Mines, SARDARGARH (Rajasthan)

Sale Depot at—

Delhi-Udaipur Main Road, RAJESAMAND (Raj)

Tel No (02952) 20029 20756

STOCK YARD

HARSH MARBLES

All kind of Marbles

Meerut Road, opp Sail Yard, Guldhar, GHAZIABAD-251 001 (U P)

Tel No (0575) 718830, 40001 41077

जे. डी. जैन

गाजियाबाद (उत्तर प्रदेश)


शुभेच्छुक

हिम्मतलाल हिगड़

लक्ष्मी भवन, कांकरोली जिला राजसमंद (राज)

सभी पूज्य आचार्यों साधु साधिवर्यों को कोटि-कोटि वन्दन

हार्दिक शुभकामनाओं सहित



श्रेष्ठ बाँध काम के निर्माता

वर्धमान ग्रुप एवं निर्माण ग्रुप

इन्जिनियर्स एवं बिल्डर्स

40-41 विशाल शॉपिंग सेन्टर, सर एम. बी. रोड,
अंधेरी कुर्ला रोड, अंधेरी (पूर्व)

बम्बई - 400 069 (महाराष्ट्र)

फोन नं. 837 7333, 832 9917, 832 3625

ओनर्स हसमुखराय वनमालीदास मेहता

फोन : 514 8948, 5150244

लक्ष्मीचंद सावलचंद वर्धन

फोन : 832 9873

अमृतलाल जवाहरलाल जैन

फोन नं. : 3632238

जान गच्छाप्रति नमस्वीराज प रत्न पूज्य गुह्ये श्री चणानात्री म ता आदि टाणाओ वा भावी
(राज) एव ज्ञान गच्छ नमदाय वे नमी पूज्य मनिराजा एव महामाताजा म मा वा म् 1993 वष का
चातुमास नमी वामिक प्रवन्तिया म मफन एने चाा एणन चाग्नि एव तप वी अभिवृद्धि हो गेमी मगन कामनाए
करत टा —

With best compliments from



Telex 011-84088 BYKM IN

Tel Off 2085534-2085430

Cable 'MULTIBIO'

2085457

Telefax 91-(022)2870044

Resi 484223-485947

**Biochem Pharmaceutical Inds
Biochem Pharmaceuticals Pvt. Ltd**

Audun Bldg 1st Dhobi Talao, Post Box No 2217
BOMBAY-400 002 (India)



शुभेच्छुक

जशवंतलाल एस. शाह

वेयरमेन एण्ड मेनेजिंग डायरेक्टर

अध्यक्ष

श्री अ मा ज्ञानगच्छ धावक सघ, जोधपुर
श्री अ मा सुधम थावक समिति (ज्ञानगच्छ), जोधपुर
श्री अ मा साधुमार्गी जैन सत्कृति रक्षक सघ, सीलाला
श्री सुधम प्रचारक मण्डल, गुजरात शाखा, अहमदाबाद

सभी पूज्य आचार्यों, संत-सतियोंजी को कोटि-कोटि वन्दन

हार्दिक शुभकामनाओ सहित —

जगन्नाथ लक्ष्मीनारायण जैन

मु. पोस्ट गम्भीरा, वाया धमूण खुर्द, (कुस्तला)

जिला-सवाई-माधोपुर (राज) 322001

लड्डूलाल धर्मचंद जैन

चौथ का बरवाडा-322 702
जिला-सवाई माधोपुर (राज)

बाबूलाल जैन "उज्जवल"

सयोजक . अ.भा. समग्र जैन चातुर्मास सूची
प्रकाशन परिषद, बम्बई
105, तिरुपति अपार्टमेंट्स, आकुर्ली, क्रास रोड न. 1
कादिवली (पूर्व) बम्बई-400101 (महा.)
फोन न. 8881278

उज्जवल इन्टरप्राइजेज

प्रो. बाबूलाल सोभायमल जैन
शिव मन्दिर, दुकान नं. 3, टोक रोड, स्टेशन वजरिया,
सवाई-माधोपुर 322001 (राज)

दिपेशकुमार बाबूलाल जैन

11, पंचायतवाडी, 4 माला,
101/3, भूलेश्वर रोड,
बम्बई-400002 (महा)



उज्जवल प्रकाशन

105, तिरुपति अपार्टमेंट्स, आकुर्ली क्रास रोड न 1
कादिवली (पूर्व) बम्बई-400101 (महाराष्ट्र)
फोन न 8881278

राजस्थान-शाखा कार्यालय :

2/199, हार्डनिंग बोर्ड कॉलोनी, बस स्टेण्ड के पाम,
मवाई-माधोपुर (राजस्थान) 322021

जैन विश्व रिकार्ड्स

सम्पूर्ण जैन समाज में श्वे त्पानकवाती श्रमण सध समुदाय के आचार्य श्री देवेन्द्रमुनिजी म सा एक मात्र ऐसे आचार्य है जिनकी निश्रा मे सर्वाधिक लगभग 1050 साधु-साध्वीयों वर्तमान मे विद्यमान है।

* * *

श्री रतनलालजी वाफना सर्राफ जलगाव एक मात्र ऐसे व्यक्ति है जिन्होंने स्वयं के द्वारा लगभग 50 हजार व्यक्तिव्यो को मासाहार - शराव का त्याग कराया है। और प्रत्येक वर्ष करवा रहे है।

* * *

सम्पूर्ण जैन समाज मे श्वे तेरापथी समुदाय के आचार्य श्री तुलसी ही एक मात्र ऐसे आचार्य है जिनको आचार्य पद की सर्वाधिक अवधि 57 वर्षों की है।

* * *

सम्पूर्ण जैन समाज मे वैगलार (कनाटक) निवाती श्रीमनि विमला देवी शान्तीलालजी काकरिया एक मात्र ऐसी श्राविका है जिन्होंने सर्वाधिक 33 दिनो तक बिना पानी के उग्र तपत्सा पूर्ण की है।

* * *

सम्पूर्ण जैन समाज मे श्रेष्ठीवर्ग श्री दीपचंद भाई गाडी एक मात्र ऐसे व्यक्ति है जो रोजना लगभग 1 लाख रुपये का दान देते रहते है।

* * *

सम्पूर्ण विश्व म राजस्थान स्थित श्री राणकपुर जैन मंदिर एक मात्र ऐसा मंदिर है जिस म सर्वाधिक 1444 खमे लगे हुए है।

* * *

श्वे तेरापथी समुदाय के आचार्य श्री तुलसी एक मात्र ऐसे आचार्य है जिनका चारो समुदायो (श्वे मूर्तिपूजक, स्थानकवाती तेरापथी एव दिगम्बर) मे से किसी एक समुदाय पर पूर्ण अधिकार है।

* * *

श्वे स्थानकवाती श्रमण सध समुदाय सम्पूर्ण जैन समाज मे एक मात्र ऐसी समुदाय है कि जितमे सर्वाधिक लगभग 30 साधु

साध्वीयों M A PHD जैसी उच्च शिक्षा की उपाधि प्राप्त किये हुए है।

* * *

पालीनागा (सौराष्ट्र) एक मात्र ऐसा महातीर्थ है जहा पर लगभग 45 हजार जैन मूर्तिया है। अगर एक एक मूर्ति पर एक एक छाटी चम्बल घावल के दाने चढाये जाये तो कुल 7 क्विंटल घावल चाहिए।

* * *

सम्पूर्ण जैन समाज म श्वे तेरापथी समुदाय के आचार्य प्रव श्री तुलसी एक मात्र ऐसे आचार्य है जिन्होंने आचार्य पद पर रहने हुए वर्तमान तक लगभग 700 दीशाए स्वयं प्रदान कर चुके है। आपे सानिध्य मै सर्वाधिक एक दिन एक स्थान पर 33 दीशाए भी एक साथ सम्पन्न हा चुकी है जो समग्र जैन समाज मे एक रिकार्ड है।

* * *


स्था तिम्वडी मोटा पक्ष के शासन प्रभावक श्रीमान चन्दनी म सा एक मात्र ऐसे मुनिराज है जिन्होंने किसी भी समुदाय मे आचार्य, सध नायक के अलावा मुनिराज होते हुए अब तक 83 दीशाए प्रदान कर चुके है।

(जैन समाज रिकार्ड्स डायरेक्ट्रीसे साभार)

यह सूची पुस्तक समग्र जैन समाज के हर वर्ग तक पहुँचती है और फिर जब किसी समुदाय की सूची पुस्तक मे प्राप्त नहीं हो तो वह उस समुदाय के लिए एक चुनौती बन जाती है सभी का ध्यान उस ओर खिच जाता है अत समुदाय के पदाधिकारीगणा से यहाँ नम्र निवेदन है कि आप अपने समुदाय के अलावा समग्र जैन समाज के लिए अपनी पूरी सूची यहाँ अवश्य देवे ऐसा मरा एक सुझाव, नम्र विनती है, क्योंकि यह पुस्तक सम्पूर्ण विश्व के जैन समुदाय के हर वर्ग के पास पहुँचती है।

- सम्पादक

श्री मीठालाल सिंघवी बम्बई



आपका जन्म राजस्थान प्रान्त के भीलवाडा जिले मे गगापुर शहर मे हुआ। उदारमना, कर्मठ समाज सेवा मे हर समय अग्रणी उत्साही, सरल हृदय, हसमुख, मिलनसार श्री मीठालालजी सा. सिंघवी हर कार्य मे हमेशा अग्रसर रहते है। आपका वर्तमान मे बम्बई, सूरत, गगापुर (भीलवाडा) मे कपडे की मिले एव थोक मे व्यवसाय है। आप श्री व.स्था जैन श्रावक संघ (मेवाड) बम्बई के सस्थापक एव कई वर्षों तक अध्यक्ष पद पर रहे हैं। वर्तमान मे संघके उपप्रमुख हैं। इनके अलावा अभा. इवे. स्था. जैन कान्फ्रेस के कार्यकारिणी के सदस्य, श्री ओसवाल जैन मित्र मण्डल बम्बई के पदाधिकारीगण, श्री वस्था जैन श्रावक संघ सूरत के कार्यकारिणी के पदाधिकारीगण आदि पदो पर कार्यरत् है। बम्बई मेवाड संघ की स्थापना एव 7 स्थानक भवनो के निर्माण कार्यों मे आपका सहयोग सर्वोपरि है। आप अनेक सस्थाओ से जुडे हुए हैं एवं अनेक सस्थाओ को काफी मात्रा मे दान देने मे भी प्रसिद्ध हो। आप सभी तीन भ्राता बम्बई, सूरत, गगापुर मे व्यवसाय कार्य मे कार्यरत् है। आज आपका बम्बई, सूरत एव मेवाड प्रान्तो मे काफी प्रभावशाली नाम है। आप अनेक कार्यक्रमो मे पूर्ण सक्रिय रूप से भाग भी लेते रहते है। आप वैसे तो सभी सत-सतियों की सेवा मे अग्रसर रहते है परन्तु विशेषकर श्रमण संघ के प्रवर्तक श्री अवालालजी म सा. एव महामंत्री बम्बई युवक जाग्रति सगठन प्रेरक श्री सौभाग्य मुनिजी म 'कुमुद' के परम भक्तो में से अतेवासी परम सर्वोपरि भक्त हैं।



स्थानकवादी



मूर्तिपूजक



तेरापंथी



दिगम्बर

समग्र जैन चातुर्मास सूची

| सदस्यता | रुपये | |
|-----------------------|-------|-------|
| महा स्तंभ सदस्य | रुपये | 11000 |
| प्रमुख स्तंभ सदस्य | रुपये | 5000 |
| महा संरक्षण सदस्य | रुपये | 3000 |
| संरक्षण सदस्य | रुपये | 2000 |
| आजीवन सदस्य | रुपये | 1000 |
| वार्षिक सदस्य | रुपये | 25 |
| पंचवार्षिक शुल्क | रुपये | 150 |
| जैन एकतासंदेश वार्षिक | रुपये | 25 |

विज्ञापन शुल्क की दरें

| | रुपये |
|--------------------------|-----------------------------|
| कवर पृष्ठ iv | आर्ट पेपर चार रंगो में 7500 |
| कवर पृष्ठ ii-iii | आर्ट पेपर चार रंगो में 5000 |
| खंड विभाग सम्पूर्ण पृष्ठ | रंगीन पेपर 2000 |
| स्पेशल सम्पूर्ण पृष्ठ | रंगीन पेपर 1500 |
| सम्पूर्ण पृष्ठ | साधारण पेपर 1000 |
| अर्ध पृष्ठ | साधारण पेपर 500 |
| शुभ कामनाएँ | साधारण पेपर 300 |


सभी सदस्यों, दानदाताओं,

सहयोगियों एवं

विज्ञापनदाताओं का

हार्दिक आभार,

धन्यवाद



કાગળ પર અનોખું વ્યક્તિત્વ પૂરું પાડે
છે શબ્દો, ચિત્રો અને ફોટાઓ વડે...



સપૂર્ણ વાર્ષિક રીપોર્ટ્સ અને પોસ્ટર્સ

આકર્ષક એડ-બ્રોશર્સ અને સુદર લિફલેટ્સ



ધાર્મિક પુસ્તકો, હેન્ડબુક્સ અને પોસ્ટર્સ

કાર્ટ્સ અને પેકેજિંગ



જયંત પ્રિન્ટરીમા ઉત્તમ કાગળ પર સુદર,
નુષઠ અને વિવિધરંગી છાપકામ કરાવો અને
પ્રિન્ટીંગમા અદ્યતનપણુ અનુભવો

કાગળને હૈયે ઉમગ જ ઉમગ જયંત પ્રિન્ટરીની છપાઈને તગ



જયંત પ્રિન્ટરી

૩૫૨/૫૪, ગીરગામ રોડ, મુરલીધર મંદિર ક્વાર્ટર-૬, ઠાકુરદ્વાર પોસ્ટ ઓફિસ પાસે,
મુમઈ-૪૦૦ ૦૦૨. ફોન નં. ૨૦૫ ૨૯ ૮૨, ૨૦૫ ૦૧ ૯૩

| विज्ञापनदाता का नाम | स्थान | पृष्ठ संख्या | विज्ञापनदाता का नाम | स्थान | पृष्ठ संख्या |
|--|--------------|--------------|--|--------------|--------------|
| कवर पृष्ठ विज्ञापन | | | श्री सरदारमल मुणोत | वम्बई | 106 |
| श्री रतनलाल सी. वाफना सराफ | जलगाँव | कवर 2 | श्री नगीनभाई रामजीभाई विराणी | राजकोट | 106 |
| श्री शखेश्वर पार्श्वनाथ जैन ट्रस्ट | आगासीतीर्थ | कवर 3 | श्री एस लालचद वागमार | मद्रास | 106 |
| श्री नूतन राजुमणी ट्रांसपोर्ट प्रा लि | वम्बई | कवर 4 | श्री माणकचद साँखला | अजमेर | 106 |
| खण्ड-विभाग विज्ञापन | | | श्री ज्ञानचन्द धर्मचन्द बेताला | गौहाटी | 106 |
| श्री प्राकृत भारती अकादमी | जयपुर | भाग प्रथम | श्री ओस्तवाल विल्डर्स | वम्बई | 107 |
| श्री प्रेस्टीज ग्रुप | इन्दौर | स्पेशल भाग | श्री नित्यानन्द रोर्लिंग | वम्बई | 108 |
| श्री पी एच. जैन (लोटरीज) | वम्बई | स्पेशल भाग | श्री पी.एस. जैन फाउन्डेशन | दिल्ली | 109 |
| श्री कल्पतरु ग्रुप ऑफ कम्पनीज | वम्बई | भाग द्वितीय | श्री मिन्नरल सेल्स प्रा लि. | वम्बई | 110 |
| श्री जैन विश्व भारती | लाड़नू | भाग तृतीय | श्री श्वे जैन खरतरगच्छ जैन संघ | वम्बई | 111 |
| श्री माण्डवी वैक | वम्बई | भाग चतुर्थ | श्री फ्लोर एण्ड फूड लि | वम्बई | 112 |
| श्री सी आर बी. केपीटल | | | श्री कर्नावट क्लासेस | ठाणा-वम्बई | 113 |
| मार्केटस लि | वम्बई | भाग पंचम् | श्री जे डी मार्वल | गाजियाबाद | 114 |
| श्री डूके (रजि) | लुधियाना | भाग षष्ठम् | श्री वर्धमान ग्रुप | वम्बई | 115 |
| श्री गुलशन शूगर एण्ड केमीकल्स लि. | मुजफ्फर नगर | भाग सप्तम | श्री वायोकेम फार्मा इण्डस्ट्रीज | वम्बई | 116 |
| भाग प्रथम अन्य जानकारियाँ विभाग | | | श्री जगन्नाथ लक्ष्मीनारायण जैन | गंभीरा | 117 |
| श्री मेहता आयुर्वेद सस्थान | इन्दौर | 69 | भाग द्वितीय-श्वे. स्थानकवासी समुदाय विभाग | | |
| श्री सूरजमल श्री श्रीमाल मेमोरियल ट्रस्ट | वम्बई | 70 | श्री किशनचंद प्रेमचंद | सुरेन्द्रनगर | 29 |
| श्री ग्रासीम इण्डस्ट्रीज | नागदा | 70 | एन्कर इलेक्टोनिक्स एण्ड इले प्रा लि | वम्बई | 30 |
| श्री टी.टी. इण्डस्ट्रीज | दिल्ली | 71 | रिलायबल पेन मेकर्स | वम्बई | 46 |
| श्री उम्मेदमल तिलोकचन्द जवेरी | वम्बई | 72 | पनामा स्टोर्स | वम्बई | 49 |
| श्री किशोरचन्द्र एस वर्धन | वम्बई | 104 | पेगोडा प्लास्टिक्स | वम्बई | 50 |
| श्री टोरंटो ग्रुप ऑफ इण्डस्ट्रीज | अहमदाबाद | 105 | लक्की टिम्बर मार्ट | वम्बई | 54 |
| श्री दीपचन्द भाई गाडो | वम्बई | 106 | डॉ. हिम्मत भाई मोरवीआ | भुज-कच्छ | 56 |
| श्री सुखलाल कोठारी | वम्बई | 106 | दीप काटन कम्पनी | सुरेन्द्रनगर | 58 |
| श्री जवाहरलाल लोढा | पाली-मारवाड़ | 106 | श्री वाडीलाल रतनशी सावला | सुवई-कच्छ | 60 |
| | | | श्री देवजी मूरजी सत्तरा | गुन्दाला | 64 |
| | | | श्री ए. के. ट्रेडिंग कम्पनी | वम्बई | 86 |
| | | | श्री अरुणा सेल्स एजेन्सीज | वम्बई | 90 |

| विभाषणदाता का नाम | स्थान | पृष्ठ संख्या | विनापनदाता का नाम | स्थान | पृष्ठ संख्या |
|--|---------|--------------|--|-------------|--------------|
| श्री वन्धा जैन श्रावक सघ (मेवाड़) बम्बई | | 96 | श्री पञ्चव जैन प्रत्यूषभा | बम्बई | 186 |
| श्री बिक्की परमेज | बम्बई | 98 | श्री रीटा मनेनिकल वचम | सुधियाना | 194 |
| श्री पदमावती प्रकाशन मंदिर | बम्बई | 98 | श्री भिनोदवात हस्तिलाल | मुजफ्फर नगर | 198 |
| श्री पदमावती प्रकाशन मंदिर | बम्बई | 98 | श्री दिशंबर प्रकाशन | आगरा | 202 |
| श्री एस एम जैन सभा | दिल्ली | 100 | श्री विविधा | बम्बई | 208 |
| श्री प्लाजा ट्रेडम | बम्बई | 102 | श्री पौरवाल इतिहास शोध संस्थान | जवरा | 214 |
| श्री वन्धा जन श्रावक सघ | रतलाम | 102 | श्री जैन शास्त्र | सुधियाना | 221 |
| श्री मुनि माधाराम सम्बोधि प्रकाशन | दिल्ली | 104 | श्री आनन्द वृद्धाश्रम | पाचारा | 222 |
| कटागिया श्री मिश्रीलाल मागोलाल रतलाम | | 106 | श्री एच वी मेटल वापों | बम्बई | 225 |
| श्री तेजराज ह्यराज बम्ब | इचलवरजी | 107 | श्री शांतीलाल साह | बैंगलोर | 226 |
| श्री अरिहत इन्टरनेशनल | दिल्ली | 108 | श्री शशीवान पूना वाला | मैलम | 231 |
| श्री बन्धुर गुरु भोजन शाला ट्रस्ट बोर्ड | रतलाम | 108 | श्री बालेरी | बम्बई | 232 |
| श्री जमर जैन साहित्य संस्थान | उदयपुर | 109 | श्री दीप कौंटन बम्पनी | सुरन्द्रनगर | 235 |
| श्री प्राकृत भारती अकादमी | जयपुर | 110 | श्री जैन दुग्धालय | बम्बई | 236 |
| श्री कृषि गी मेवा ट्रस्ट | नागिव | 112 | श्री मरधर इलेक्ट्रिकल्स | बम्बई | 238 |
| भाग तृतीय-श्वे तैरापथी समुदाय विभाग | | | | | |
| श्री नन्दू ड्रेपर्स | बम्बई | 126 | श्री छजनामी प्रिंटस | रतलाम | 246 |
| श्री विशाल गारमेटम | बम्बई | 126 | श्री मुरलीधर बम्प्यूटम | दुग | 252 |
| श्री केशवजी ह्यमराज एण्ड क | बम्बई | 127 | श्री राजेंद्र ए जैन | बम्बई | 253 |
| श्री मेहता ठक्कर एण्ड क | बम्बई | 127 | श्री हीना मॉचिंग सेंटर | बम्बई | 253 |
| श्री खिराणी अनवरन स्टोम | बम्बई | 128 | श्री स्वामी श्रीपद्यालय प्रा लि | बम्बई | 254 |
| श्री राजदीप ट्रेडर्स | बम्बई | 128 | श्री रमनवाल इस्टेट प्रा लि | बम्बई | 255 |
| भाग चतुर्थ-श्वे भूतिपूजक समुदाय विभाग | | | | | |
| श्री एम के टेकमटाईल्स | बम्बई | 144 | श्री लायन पेन्मिल लि | बम्बई | 256 |
| श्री नगराज चन्दनमल एण्ड क | बम्बई | 152 | जैन माधवी महासती श्री कमला- वतीजी परमायिक समिति | उदयपुर | 262 |
| श्री डीमलेण्ड स्टोम | बम्बई | 167 | श्री जैन श्वेताम्बर सघ | नैत्लीर | 263 |
| श्री क्वालिटटी गारमेट्स | बम्बई | 168 | श्री इन्द्रसिंह बाबेल-जैन | उदयपुर | 264 |
| श्री डीमलेण्ड स्टोम | बम्बई | 174 | श्री सिपाल ब्रदम | इन्दौर | 268 |
| श्री त्रियेटीव पज सेटर | बम्बई | 179 | गुरु भवन (पायधुनी) | बम्बई | 269 |
| श्री पी पी जैन एण्ड क | बम्बई | 180 | श्री भारत सेल्स कापेरिशन | बालाघाट | 269 |
| श्री आमनील मावस प्रा लि | बम्बई | 185 | श्री अशोक भण्डारी | जयपुर | 270 |
| भाग पंचम-दिगम्बर समुदाय विभाग | | | | | |
| श्री भरतकुमार शातिलाल सेठ | | | श्री अरिहत ट्रेडिंग कम्पनी | बहमदाबाद | 280 |
| श्री कल्पतरु कलेक्शन | | | | राजकोट | 280 |
| | | | | मूद्रा | 282 |

| विज्ञापनदाता का नाम | स्थान | पृष्ठ संख्या | विज्ञापनदाता का नाम | स्थान | पृष्ठ संख्या |
|--|--------------|--------------|-------------------------------------|-------------------|--------------|
| श्री जैन दिवाकर फाउन्डेशन | इन्दौर | 283 | श्री वर्धमान मेडीकल स्टोर्स | लिम्बडी (पंचमहाल) | 2 |
| जैनाचार्य श्री अजरामरजी | | | श्री मुनि नाथूलाल जैन साहित्य | नीमच | 6 |
| विद्याधाम | भुज-कच्छ | 285 | विभाग | | |
| श्री व.स्था जैन श्रावक संघ चेम्बूर | वम्बई | 286 | श्री दुगड़ फायनेन्स लि. | मद्रास | 3 |
| श्री ए.डी. मेहता | भुज-कच्छ | 287 | श्री व.स्था जैन श्रावक संघ वेपेरी | मद्रास | 4 |
| श्री गागजीभाई कुवरजीभाई वीरा | समाघोषा | 288 | श्री व.स्था जैन श्रावक संघ | पाली-मारवाड़ | 4 |
| भाग षष्ठम-अन्य जानकारियाँ विभाग | | | श्री क्वालिटी गारमेट्स | वम्बई | 5 |
| श्री जैन श्वेताम्बर श्री सघ | दुर्ग | 38 | श्री रमेश नमकीन भण्डार | इन्दौर | 6 |
| श्री साई कृपा एम्पोरियम | इन्दौर | 40 | श्री प्रताप ब्रदर्स चादी वाले | वम्बई | 7 |
| श्री अरिहंत फर्नीचर्स | इन्दौर | 40 | श्री मध्यप्रदेश जैन स्वाध्याय सघ | इन्दौर | 8 |
| श्री सुन्दरम् वियर्स | इन्दौर | 40 | श्री नोबल स्टोर्स-तोहफा | वम्बई | 9 |
| श्री राजमल गीतमचंद ओस्तवाल | वैगलौर | 40 | श्री शातीलाल कर्नावट | इन्दौर | 10 |
| श्री व.स्था जैन श्रावक संघ | भीलवाडा | 41 | श्री सौराष्ट्र स्था. जैन संघ | अहमदाबाद | 11 |
| श्री वर्धमान जैन ज्ञानपीठ | तिरपाल | 42 | श्री पोप्यूलर ट्रेडिंग कं | लुधियाना | 12 |
| श्री महेन्द्र सेव भण्डार | इन्दौर | 44 | श्री जैन साधना केन्द्र | भून्तर | 13 |
| श्री रूपराज ट्रेडर्स | इन्दौर | 46 | श्रीमद् बुद्धिसागर सूरी ज्ञान मंदिर | बीजापुर | 14 |
| श्री सुपार्श्वनाथ सेव भण्डार | इन्दौर | 46 | श्री मेवाड भूपण प्रताप मुनि | उदयपुर | 15 |
| श्री राजेश ट्रेडर्स | इन्दौर | 46 | श्रमण सेवा समिति | | |
| श्री चामुण्डा कॉटन ट्रेडर्स | सुरेन्द्रनगर | 47 | श्री अजरामर जैन युवा सघ | वम्बई | 16 |
| श्री शंखेश्वर पार्श्वनाथ जैन ट्रस्ट | आगासीतीर्थ | 48 | श्री श्वेताम्बर स्था. जैन संघ | मंसूर | 18 |
| श्री रतनलाल सी वाफना सर्राफ | जलगाँव | 71 | श्री खेतमल राणीदान वोथरा | दुर्ग | 17 |
| श्री वर्धमान पशु सेवाश्रम | वम्बई | 72 | श्री महावीर कूलर प्याऊ | हल्दीघाटी | 18 |
| भाग सप्तम-विज्ञापन विभाग | | | श्री मोक्षद्वार पाक्षिक | वैगलौर | 18 |
| श्री जीवन प्रकाश योजना | वम्बई | 1 | श्री जैन के नमकीन | इन्दौर | 19 |
| श्री व.स्था. जैन श्रावक संघ | मदनगंज | 2 | श्री उर्मिलोनि सिल्क मिल्स | वम्बई | 20 |

आवश्यक सूचना

इस वर्ष प्रेस में मूद्रण कार्य समय पर नहीं होने के कारण इसके प्रकाशन में देरी हो गई क्षमा करें ।

अनुक्रमणिका सूची

अ. भा इवे. स्थानकवासी जैन समुदाय के चातुर्मास स्थलो के
गाँव-शहरो की अनुक्रमणिका सूची 1993

| गाँव शहरों के नाम | पृष्ठ सख्या | गाँव शहरों के नाम | पृष्ठ सख्या | गाँव शहरों के नाम | पृष्ठ सख्या |
|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|
| (अ) | | शाहीबाग | 84 | (औ) | |
| अलीगढ़ रामपुरा | 8 | बापूनगर | 85 | औरगाबाद | 12 15 |
| अलवर | 9 | मेम नगर | 85 | (क) | |
| अहमदनगर | 12 14 | घनश्याम नगर | 88 | किसानगढ़-मदनगज | 5 |
| अम्बाला | 16 18 19 | जीवराज पार्क | 93 | काकरोली | 6, 44 |
| अमृतसर | 20 | कृष्ण नगर | 94 | कुवारियाँ | 6 44 |
| अक्सलपुर्जा | 36 | साएरपति | 94 | बडनूर | 10 |
| अजमेर | 53 62 | शोला रोड | 99 | कोप्ल | 10 |
| अमरावती | 65 | (आ) | | के जी एफ | 11 |
| अवाई | 65 | आवह सादा | 8 | कलम्ब | 15 |
| अमरेली | 69 | आबोला (महा) | 16 | कालका | 17 |
| अजगर-बच्छ | 91 | आबोला (राज) | 37 | करनाल | 18 |
| अहमदाबाद शहर | | आबर | 44 | कोद | 26 |
| राजस्था उपग्राम | 23 | आगरा | 59 | करही | 26 |
| नवरगपुरा | 44 | आपोई-बच्छ | 76 | कोट | 27 |
| मणीनगर | 68 | आणन्द | 77 | कोटा | 27 47 |
| नगरसेठ का बडा | 71 | (उ) | | कागड | 31, 34 |
| दोततसागा | 74 | उदयपुर | 7, 33 35 59 | कासन | 35 |
| घाटलोडिया | 76 | उधना (भूरत) | 23 | कोपरगाँव | 39 |
| बासणा | 77 | उज्जैन | 26 32 61 | कुचेरा | 41 |
| गारामणपुरा | 79 80 | उन्हीस | 26 | काधला | 43 |
| विजयनगर | 75 | उदयरामसर | 37 | केथल | 43 |
| गरसपुर | 79 80 | उपसटा | 66 | कापुर | 48 |
| गवावाडज | 80 | (इ) | | केवडी | 51 |
| गिरधर नगर | 81 | इबतनरजी | 12 | कुसगड | 57 |
| गाहपुर | 81 | इन्दौर | 24 25 32 57 | कलकता | 59 |
| पीपागोस | 81 | इटीसा | 79 | कालावड (गितला) | 66 |
| गारगपुर | 81 | | | कसोड | 80 |
| बीमानगर | 82 | | | कापाया-बच्छ | 87 91 |
| अम्बावाडी | 82 | | | काशगरा-बच्छ | 87 91 |
| श्री बीज | 84 | | | | |

| गाँव शहरों के नाम | पृष्ठ संख्या | गाँव शहरों के नाम | पृष्ठ संख्या | गाँव शहरों के नाम | पृष्ठ संख्या |
|----------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-----------------|
| (ख) | | ज | | तुम्बडी-कच्छ | 73 |
| खण्डेला | 4 | जवाली | 6 | ताल (मालवा) | 25 |
| (ग) | | जोधपुर | 7,38,41,47,51,52,63 | थ | |
| गुलाबपुरा | 5 | जयपुर | 8,47 | थावला (राज) | 9 |
| गूरला | 8 | जालना | 16 | थादला | 26 |
| गिदडवाहा मडी | 17 | जालधर | 20 | थानगढ | 83 |
| गोविन्दगढ मण्डी | 17, 20 | जावरा | 25,33 | द | |
| गन्नौर मण्डी | 18 | जवलपुर | 26 | देवगढ (मदारिया) | 5 |
| गुडगाँव | 19 | जलगाँव | 34 | देवलाली (नासिक) | 15,62,69,70,105 |
| गौहाना मण्डी | 19 | जामखेड | 37 | देवास | 26 |
| गाजियाबाद | 23, 27 | जालौर | 41 | देशनोक | 31,33,40 |
| गाधी नगर | 23 | जामनगर | 44,65,66,67,68,103 | दूनी (टोक) | 36 |
| गंगा शहर | 32, 34, 41, 63 | जावला | 48 | दल्ली राजहरा | 42 |
| गगापुर (मेवाड) | 37 | जाखल मण्डी | 55 | दोधट | 43 |
| गगापुर सिटी (WR) | 48 | जेतपुर (काठी) | 67 | दामनगर | 83 |
| गोडा | 65, 66, 67, 68, 69, 70, 72, 97 | जाम खभार्लिया | 67 | देशलपुर | 92 |
| गुन्दाला | 76 | जूनागढ | 69 | दौड | 99 |
| गोता-अहमदाबाद | 101 | जाम जोधपुर | 85 | दिल्ली महानगर | |
| गढडा- (स्वामीनारायण) | 103 | जोरावरनगर | 87 | शक्तिनगर | 17 |
| च | | झडोल | 6 | न्यू शक्तिनगर | 17 |
| चित्तोडगढ | 8,33 | झ | | करोल बाग | 17 |
| चादवड | 13 | ड | | नागलोई | 18 |
| चडीगढ | 17 | डूगला | 3 | शास्त्री पार्क | 21 |
| चिकारडा | 32 | डग (मालवा) | 44 | अशोक विहार | 21 |
| चागुटोला | 37 | ढ | | शालीमार बाग | 21 |
| चेला | 57 | ढा | | राणा प्रताप बाग | 21 |
| चूडा | 72 | ढोल | 4 5 | शक्ति नगर | 21 |
| चोटीला | 73 | ढसा जक्शन | 67 | धर्मपुरा | 21 |
| छ | | त | | सदर बाजार | 21 |
| छोटी सादडी | 34 | ताल | 7 | कोल्हापुर हाउस | 21 |
| छपरोली | 43 | | | पजावी बाग | 21 |
| | | | | चिराग | 21 |
| | | | | गौतमपुरी | 21 |

| गाँव शहरों के नाम | पृष्ठ संख्या | गाँव शहरों के नाम | पृष्ठ संख्या | गाँव शहरों के नाम | पृष्ठ संख्या | | |
|-------------------|--------------|-------------------|-----------------|--------------------|--------------|-----------|-----------------|
| उत्तम नगर | 22 | नागदा (ज) | 36 | फ | | | |
| वीर नगर | 22 | नोखा मण्डी | 38,40 | | | | |
| प्रितमपुरा | 22 | नाथद्वारा | 40 | | फलीदी | 36 | |
| आदर्शनगर | 22 | नागौर | 51 | | | | |
| नरेला मण्डी | 22 | नडियाद | 74 | | ब | | |
| राणी बाग | 22 | नवसारी | 80 | | | | |
| प्रशान्त विहार | 22 | नवीनार कच्छ | 88 | | | ब्यावर | 4,6,32,33,51,52 |
| कृष्ण नगर | 22 | नाना भाडिया कच्छ | 89 | | | बडी सादडी | 4,5,37 |
| विदवास नगर | 22 | नगरी | 105 | | | बोरुन्दा | 7 |
| कैलाश नगर | 22 | प | | | | बिलाडा | 7 |
| चादनी चौक | 32 | | | | | बासिवाडा | 8 |
| अहिंसा विहार | 43 | | पाली-भारवाड | 7,39 41 | | बैगलोर | 10,65 80 |
| श्रीनगर | 55 | | प्रतापगढ | 8 | | बल्लारी | 11 |
| गाँधीनगर | 55 | | पूना | 14 16,68 | | बनोटी | 14 |
| श्रीतमपुरा | 61 | | पाथडी | 14 | बोदवड | 14 | |
| लक्ष्मीनगर | 62 | | परभणी | 15 | बालम टाकली | 15 | |
| | | | पीपलगाँव (बसवत) | 15 | बनूड | 20 | |
| | | | पानीपत | 16 19 | बलाचौर | 20 | |
| | | | पटियाला | 18 | बागपत | 23 | |
| | | पैची | 27 | बदनावर | 25,57 | | |
| धूलिया | 12 | प्रतापगढ | 31 | बालाघाट | 26 | | |
| धमतरी | 42 | पाटोदी | 36 | बीकानेर | 31,34 | | |
| घारी | 69 | पचपदरा | 40 | बीजापुर | 35 | | |
| धनबाद | 69 | पोटला | 44 | बालोतरा | 39 | | |
| घोराजी | 74 | पीपाड सिटी | 51 | बडोत | 39 | | |
| धाराघा | 83 | पानीपत | 56 | बालसेर सत्ता | 40 | | |
| धधुवा | 85 | पेटलावद | 57 | बालोतरा | 40 | | |
| धानेरा | 85 | पुर | 63 | बावडी | 41 | | |
| | | पाडतोली | 63 | बालोद | 42 | | |
| | | पेटरवार | 65 | बीड (महा) | 42 | | |
| | | पालियाद | 67 | बाशी | 43 | | |
| निम्बाहेडा | 4 | पोरबन्दर | 68 | बडोत मण्डी (यू पी) | 43 | | |
| जदराय | 7 | प्रागपुर-कच्छ | 78 91 | बडोद | 44 | | |
| नादगाँव | 13 | प्रान्तिज | 81 | बाडमेर | 48 | | |
| नासिक मिटी | 13 | पालनपुर | 81 | बडू | 53 | | |
| नालागढ | 17 | पाटण | 81 | बडवाह | 57 | | |
| नाभा | 20 | पाबडासण | 87 | बीछीया | 75 | | |
| नीमच सिटी | 24 36 | पभी-कच्छ | 88 | बरवाला | 76 99 | | |
| नागपुर | 34 | पाटडी | 94 | | | | |
| नाई (भेवाड) | 34 | | | | | | |

| गाँव शहरों के नाम | पृष्ठ संख्या | गाँव शहरों के नाम | पृष्ठ संख्या | गाँव शहरों के नाम | पृष्ठ संख्या |
|---------------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|
| बडवाण शहर | | विलेपार्ल | | माण्डलगढ | 5 |
| बोदाल | 79,83 | चिचपोकली | 84 | मद्रास | 9,10,93 |
| बडोदरा | 79 | चिच वन्दर | 85 | मदुरान्तकम | 10 |
| बलसाड | 80,84 | जोगेश्वरी | 87 | मैसूर | 11 |
| बाकी-कच्छ | 85 | मझगाँव | 88 | मालेगाँव | 14,42 |
| बीदडा | 87,90 | कोट | 88 | मालेर कोटला | 17,20 |
| बगडा-कच्छ | 88 | दहीसर | 89 | मेरठ | 18,22 |
| बारोई-कच्छ | 91 | कुर्ला | 89 | मूलाना | 20 |
| बिदडा-कच्छ | 92 | वोरीवली | 89 | मन्दसौर | 24,33,38 |
| बोटाद | 92 | सायन | 93,105 | महिदपुर | 25 |
| | 95 | दादर | 95 | मेघनगर | 26 |
| बम्बई महानगर | | शांताक्रुझ | 99 | मथानिया | 40 |
| भायन्दर | | नानगसोपारा | 105 | मनमाड | 42 |
| भाण्डुप | 13,83 | | 105 | मुज्जफरनगर | 43 |
| चेम्बूर | 13,87 | | | मगलवाड | 45 |
| ठःक्रुरद्वार | 15 | | | मसूदा | 48 |
| वसईगाँव | 15 | | | मांगरोल | 70 |
| गीरा रोड | 63 | | | मनफरा-कच्छ | 71 |
| गेरीवली (वेस्ट) | 66,74 | भीलवाडा | 3,5,6,9 | माण्डवी-कच्छ | 73 |
| कादिवली | 66 | भादसोडा | 5 | मियागाव | 81 |
| गोरेगाँव (पूर्व) | 66 | भोपाल सागर | 6 | माघापर-कच्छ | 89 |
| घाटकोपर | 67 | भटिण्डा | 27 | मून्द्रा-कच्छ | 89,92 |
| कादावाडी | 68,69,71,81,84,88 | भून्तर | 28 | मोरवी | 97 |
| थाणा | 69 | भीनासर | 34 | मेदरडा | 97 |
| माटूंगा | 73,75 | भोपाल | 35 | | |
| खार रोड | 73 | भीम | 37 | | |
| मूलजीनगर (वोरीवली) | 74 | भावी | 39,40 | | |
| वाशी-न्यू वोम्बे | 74 | भिलाई | 42 | | |
| अधेरी | 74 | भडगाँव | 43 | | |
| कल्याण | 75,80 | भोपालगढ | 47 | यवतमाल | 42 |
| विक्रोली | 76 | भाणवड | 67 | | |
| कलवा (ठाणा) | 76 | भचाऊ-कच्छ | 71 | | |
| मंलाड | 76 | भुज-कच्छ | 72,73,89,91 | रायपुर (भीलवाडा) | 6 |
| मुलुण्ड | 77,84,85 | भावनगर | 76,83 | राजाजी का करेडा | 7 |
| गोरेगाँव | 77,85,88 | भुजपुर | 89,90,91 | रूद | 8 |
| डोम्बीवली | 77 | | | राशमी | 8 |
| मरोल | 77 | | | रायचूर | 11 |
| वालकेश्वर | 77 | | | रानिया | 19 |
| माणेकपुर-वसई | 80 | | | रोपड़ | 20 |
| | 84 | मावली ज. | 3,6 | रतलाम | 24,35 |
| | | मदनगज-किशनगढ़ | 4,9,27 | रायपुर (म.प्र) | 36 |
| | | | | रालेगाँव | 37 |

भ


य

(र)

म

| गाँव शहरों के नाम | पृष्ठ सख्या | गाँव शहरों के नाम | पृष्ठ सख्या | गाँव शहरों के नाम | पृष्ठ सख्या | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------|---------------|-------|
| रुण्डेडा | 38 | सावडिया-कच्छ | 75 | समोषाघा-कच्छ | 72 | | |
| रामगज मण्डी | 40 | लक्षतर | 77 | सुरे ड्रनगर | 72,73,75 | | |
| रायपुर (सातावाड) | 44 | सासापुर-कच्छ | 88-91 | सुवई-कच्छ | 75 | | |
| रावटी | 44 | व | | सायला | 75 | | |
| रायकोट | 55 | | वाणावार | 11 | सामखियारी | 78 | |
| राजगृही | 59 | | वणी | 12 | सर | 84 | |
| रिंगनोद | 63 | | वभात | 18 | सागली | 87 | |
| रताडिया-कच्छ | 73 | | विजयनगर | 51,53 | साणन्द | 93 | |
| रापर कच्छ | 73 | | वाराणसी | 59 | श | | |
| रामाणीया-कच्छ | 74 | | वडिया | 65,69 | | शामली (उ प्र) | 18,56 |
| रव-कच्छ | 75 | | वीरपुर | 65 | | शाजापुर | 26 |
| रतनपुर | 75 | | वाकानेर | 72 | | शिहर (बीड) | 43 |
| रेहा | 89 | | वापी | 73 | | श्र | |
| रताडिया-कच्छ | 91 | विरमगाव | 79 | श्रीगोदा | | | 30 |
| राजकोट शहर | | विसनपुर | 81 | ह | | | |
| | | वढाला | 91 | | होशियारपुर | | 17,20 |
| कालावड रोड | 57 | विसावदर | 97 | | हामी | 18 | |
| श्रमजीवी सोसायटी | 66 | वेरावल | 97 | हैदराबाद | 69 | | |
| नादला सोसायटी | 66 | स | | हलवद | 84 | | |
| प्रह्लाद प्लोट | 66 | | सेहवाज | 3 | त्र | | |
| भक्ति नगर | 66 | | समदडी | 4,40 | | त्रयो-कच्छ | 72 |
| सरदार नगर | 66 | | सिधनूर | 11 | | | |
| माण्डवी चौक | 67,68 | | मिन्नावाद | 11,88 | | | |
| विराणी पोषघशाला | 67 | | सटाणा | 16 | | | |
| आनन्द नगर | 67 | | सहारनपुर | 17 | | | |
| बोधानी शेरी | 68 | | सफालवा मडी | 19 | | | |
| गीत गूर्जरी | 68 | | सम्भेद शिहरजी | 27 | | | |
| जकान प्लोट | 68 | | सारोठ | 32 | | | |
| जैन चाल | 69 | मूरत | 35,76,81 | | | | |
| मदर | 69,70 | सभवाड | 39 | | | | |
| नेमीनाथ सोमापटी | 70 | मोईन्तरा | 40 | | | | |
| दिवानपर | 97 | मातावास | 41 | | | | |
| ल | | माचौर | 41 | | | | |
| | लानूर | 12 | मिवाणा | 42 | | | |
| | लासलगाव | 13 | सिन् | 44 | | | |
| | लुघियाणा | 17,19,23 | सरवाड | 48 | | | |
| | लिम्बडी | 23,71,72,77,83 | साणीन | 52 | | | |
| | सेसानी | 32 | सोजत रोड | 52 | | | |
| | लामूर (रुवे स्टे) | 43 | मावर कुडला | 70 | | | |
| | लुघनऊ | 70 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

नोट-वे स्था समुदाय के अलावा 'वे
 तैरापथी श्वे मूर्तिपूजक एव द्विषम्बर
 समुदाय की भी अनुव्रमणिका तैयार कर
 ली थी लेकिन प्रेम से कार्य बन्द होने एव
 ममयाभाव के कारण यहाँ प्रस्तुत नहीं
 कर सके। इस वर्ष सभी चातुर्मास स्वत
 बड अक्षरों में दिये हैं अत पता ढूँढ़ने में
 अबकी बार ज्यादा परेशानी नहीं उठानी
 पड़ेगी।



भाग-द्वितीय

श्वेताम्बर स्थानकवासी सम्प्रदाएँ

श्रमण संघ

स्वतंत्र सम्प्रदाएँ

वृहद् गुजरात सम्प्रदाएँ

गुरु हस्ती के दो फरमान । सामायिक स्वाध्याय महान ॥

श्री रत्नवशीय सप्तम पट्टधर, मामयिक स्वाध्याय के प्रेरक, इतिहास मार्गण्ड,
चारित्र्य छूडामणि, परम पूज्य गुरुदेव स्व आचार्य प्रवर श्री हन्तीमलजी
म सा को कोटि-कोटि बन्दन हार्दिक श्रद्धा सुमन
एव

वर्तमान में रत्नवशीय के अष्टम् पट्टधर, आगमज्ञ, प रत्न, परम पूज्य गुरुदेव
आचार्य प्रवर श्री हीराचन्द्रजी म सा एव परम पूज्य उपाध्याय
श्री मानचन्द्रजी म सा एव रत्नवशीय के सभी सत-सतियों का
1993 वर्ष का चातुर्मास सभी धार्मिक प्रवृत्तियों से
सफल, यशस्वी, ऐतिहासिक बनने की
मंगल कामनाएं करते हुए -



कल्पतरु-ग्रुप

222888
222833
244123

KALPATARU GROUP OF COMPANIES

111, Maker Chambers IV, 11th Floor, 221, Nariman Point
BOMBAY-400 021 (MH)

-शुभेच्छुक-

श्रीफतराज सुजीत

अध्यक्ष

म मा श्री जैनरत्न हितंवी धायक सघ
(जोधपुर)

अ. भा. समग्र जैन चातुर्मास सूची
प्रकाशन परिषद बम्बई द्वारा प्रकाशित

जैन समाज रिकार्डस डायरेक्ट्री - 1993

सम्पादक - बाबूलाल जैन 'उज्ज्वल' - बम्बई

- श्रमण संघ के तृतीय पट्टधर आचार्य प्रवर श्री देवेन्द्र मुनिजी म.सा. के कुछ विश्व जैन रिकार्डस
- १) सम्पूर्ण जैन समाज में एकमात्र ऐसे आचार्य जिनके संघ में सर्वाधिक 1050 साधु-साध्वीयों हैं।
 - २) सम्पूर्ण जैन समाज में एक मात्र ऐसे आचार्य जिनके संघ में सर्वाधिक लगभग 300 स्थानों पर साधु-साध्वीयों के प्रतिवर्ष चातुर्मास सम्पन्न होते हैं।
 - ३) सम्पूर्ण जैन समाज में एक मात्र ऐसी समुदाय के आचार्य जिसमें सर्वाधिक 16 भूतपूर्व सम्प्रदाये विलिन हुईं।
 - ४) समग्र जैन समाज में एक मात्र ऐसी समुदाय जिसमें सर्वाधिक 65 पद आचार्य युवाचार्य उपाध्याय प्रवर्तक महामंत्री मंत्री सलाहकार प्रवर्तक उपप्रवर्तक प्रवर्तिनीया उपप्रवर्तिनीया विद्यमान हैं।
 - ५) सम्पूर्ण जैन समाज के सभी 165 आचार्यों में एक मात्र ऐसे आचार्य जिन्होंने वर्तमान समय में सर्वाधिक लगभग 350 साहित्य की रचना स्वयं ने की हो।
 - ६) सम्पूर्ण जैन समाज में एक मात्र ऐसे आचार्य जिनकी समुदाय में सर्वाधिक लगभग 30 साधु-साध्वीयों उच्च शिक्षा M A PHD. उत्तीर्ण हैं।
 - ७) सम्पूर्ण जैन समाज में एक मात्र ऐसे आचार्य जिनकी समुदाय में एक मात्र ऐसे युवाचार्य जो M A PHD हैं।
 - ८) सम्पूर्ण जैन समाज में एक मात्र ऐसे आचार्य जिसके आज्ञानुवर्ती साधु-साध्वीयों में महा श्री चरित्र प्रभाजी म.सा. ने एक दिन में सर्वाधिक 58 कि.मी. का पद विहार किया हो।
 - ९) सम्पूर्ण जैन समाज के 165 जैन आचार्यों में एक मात्र ऐसे आचार्य जिनको अपने गुरु से भी ऊंचा संघ सचालक का आचार्य पद प्राप्त हुआ हो। (उपाध्याय श्रीं पुष्कर मुनिजी म.सा. के शिष्य आचार्य बने हैं)

(विस्तृत जानकारी के लिए जैन रिकार्डस डायरेक्ट्री पुस्तक देखें)

श्रमण सघ समुदाय
श्रमण सघ के पदाधिकारीगण एव चातुर्मास स्थल

| नाम | चातुर्मास स्थल | पृष्ठ संख्या |
|--|-----------------------------|--------------|
| आचार्य श्री देवेन्द्रमुनिजी म | भीलवाडा (राजस्थान) | (3) |
| पुवाचार्य डॉ श्री शिवमुनिजी म | मद्रास (तमिलनाडू) | (9) |
| उपाध्याय (1) श्री केवल मुनिजी म | वैंगलोर तमिलनाडू (कर्नाटक) | (10) |
| (2) श्री मनोहर मुनिजी म 'कुमुद' | मालर कोटला (पंजाब) | (17) |
| (3) श्री विशाल मुनिजी म | सिकन्द्राबाद (आन्ध्रप्रदेश) | (11) |
| प्रवर्तक (1) श्री कल्याण ऋषिजी म | धुलिया (महाराष्ट्र) | (12) |
| (2) श्री अम्बालालजी म | मावली जक्शन (राजस्थान) | (3) |
| (3) श्री पदमचन्दजी म 'मण्डारी' | पानीपत (हरियाणा) | (16) |
| (4) श्री उमेश मुनिजी म 'अणु' | लिम्बडी (पंचमहाल) (गुजरात) | (23) |
| (5) श्री रमेश मुनिजी म 'शास्त्री' | डूंगला (राजस्थान) | (3) |
| (6) श्री रूपचन्दजी म 'रजत' | सेहवाज (राजस्थान) | (3) |
| (7) श्री महेन्द्र मुनिजी म 'कमल' | ब्यावर (राजस्थान) | (3) |
| महामंत्री श्री सौभाग्य मुनिजी म 'कुमुद' | मावली जक्शन (राजस्थान) | (3) |
| मनी (1) श्री सुमन मुनिजी म | मद्रास (तमिलनाडू) | (9) |
| (2) श्री कुन्दन ऋषिजी म | इचलकरजी (महाराष्ट्र) | (12) |
| सलाहकार (1) अ प श्री कन्हैयालालजी म 'कमल' | मदनगज (राजस्थान) | (4) |
| (2) वाणीभूषण श्री वान मुनिजी म | गोविन्दगढमडी (पंजाब) | (17) |
| (3) मधुरवक्ता श्री मूल मुनिजी म | निम्बाहेडा (राजस्थान) | (4) |
| (4) उपप्रवर्तक श्री चन्दन मुनिजी म पंजाबी | गिदडवाहा मडी (पंजाब) | (17) |
| (5) वाणीभूषण श्री रतन मुनिजी म | वणी (महाराष्ट्र) | (12) |
| (6) तपस्वी श्री सुमति प्रकाशजी म | सिकन्द्राबाद (आन्ध्रप्रदेश) | (11) |
| (7) उपप्रवर्तक श्री सुकन मुनिजी म | सेहवाज (राजस्थान) | (3) |

1

श्रमण संघ समुदाय
अखिल भारतवर्षीय श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रमण संघ के तृतीय पट्टघर
आचार्य प्रवर श्री देवेन्द्र मुनिजी म.सा.
के अज्ञानुवर्ती संत-सतियाँजी म.सां.

कुल चातुर्मास (214) संत (210) महासतीयाँजी (738) कुल ठाणा (948)

राजस्थान प्रान्त

(1) मुनिराज समुदाय

1 अ. भा. श्वे. स्था. जैन श्रमण संघके तृतीय पट्टघर आचार्य प्रवर श्री देवेन्द्र मुनिजी म. सा.

2 पं रत्न श्री रमेश मुनिजी म. सा. 'शास्त्री'

3 उपप्रवर्तक डॉ. राजेन्द्र मुनिजी म. सा. M A Phd

4 सेवाभावी श्री दिनेश मुनिजी म. सा.

"जैन सिद्धान्त विशारद" आदि ठाणा (7)

चातुर्मास स्थल - श्री व स्था जैन श्रावक संघ,
जैन स्थानक, शान्ति भवन,

मुख्य डाकघर के सामने, भूपालगंज

भीलवाड़ा (राजस्थान) 311001

सम्पर्क सूत्र - श्री नवरतनमलजी चौधरी मंत्री
मैसर्स वर्धमान ट्रेडर्स, चौधरी मार्केट,

मु पो भीलवाड़ा (राजस्थान) 311001

☎ 7219 एवं 7511

नोट - आचार्य प्रवर श्री के प्रत्येक सोमवार
को मौन रहता है।

रेल्वे स्टेशन के निकट भूवालगज मे मुख्य डाक
घर के सामने जैन स्थानक है

2. मावली जक्शन (राजस्थान)

1. प्रवर्तक श्री अम्बालालजी म. सा.

2 मधुर वक्ता श्री मगन मुनिजी म सा. 'रसिक'

3. महामंत्री श्री सौभाग्य मुनिजी म. सा.
'कुमुद' आदि ठाणा (6)

सम्पर्क सूत्र - श्री राजेन्द्र कुमारजी गोखरु,

श्री व. स्था. जैन श्रावक संघ, स्टेशन के पास,

मु. पो. मावली जक्शन जिला उदयपुर

(राजस्थान) (W Rly) फोन नं. 221

3. सेहवाज (राजस्थान)

1. प्रवर्तक श्री रुपचंदजी म. सा 'रजत'

2. उपप्रवर्तक सलाहकार श्री सुकन मुनिजी म सा

3. मधुरवक्ता श्री महेन्द्र मुनिजी म. सा 'दिनकर'

आदि ठाणा (8)

सम्पर्क सूत्र - श्री पारसमलजी कटारिया

मु. पो. सेहवाज वाया बगड़ी नगर (सोजत)

जिला पाली (राजस्थान)

(सोजत रोड से 6 कि.मी. दूरी पर सेहवाज है)

4. डूंगला (राजस्थान)

प्रवर्तक श्री रमेश मुनिजी म. सा. 'शास्त्री'

आदि ठाणा (6)

सम्पर्क सूत्र - श्री मोहनलालजी दक

सदर बाजार मु पो. डूंगला जिला चित्तौडगढ़

(राजस्थान) 312402 ☎ 234

चातुर्मास स्थल: श्री व. स्था. जैन श्रावक संघ,

जैन स्थानक, सदर बाजार डूंगला (राज.)

5 ब्यावर (राजस्थान)

प्रवर्तक श्री महेन्द्र मुनिजी म सा 'कमल'

आदि ठाणा (3)

सम्पर्क सूत्र - श्री जवरीलालजी सितोदिया अध्यक्ष

मै पावदान हीरालाल एण्ड क

महावीर बाजार, मु पो ब्यावर

जिला अजमेर (राजस्थान) 305902

☎ ऑफिस 21257 निवास 21437

चातुर्मास स्थल - श्री व स्या जैन श्रावक संघ,

पिपली बाजार ब्यावर (राज)

6 मदनगज-किशनगढ (राजस्थान)

1 अनुयोग प्रवर्तक, सलाहकार

श्री कन्हैयालालजी म सा "कमल"

2 आगम प्रिनीपी श्री तिलोक मुनिजी म सा

3 सेवाभावी श्री चादमलजी म सा

4 सेवारत्न श्री विनयमुनिजी म सा 'वागीश'

5 मधुर व्याख्यनी श्री गौतम मुनिजी म सा

आदि ठाणा (7)

सम्पर्क सूत्र - श्री चम्पालालजी पारसमलजी चौरेडिया

किराना के व्यापारी, मु पो मदनगज-किशनगढ

जिला अजमेर (राजस्थान) 305801

☎ STD 01463 दुकान 3158 निवास 3212

चातुर्मास स्थल - श्री व स्या जैन श्रावक संघ,

जैन स्थानक ओसवाली मोहल्ला,

मु पो मदनगज - किशनगढ, जिला अजमेर

(राज) 305801

(मदनगज रेल्वे स्टेशन एवं बस स्टेशन के समीप)

विशेष-अनुयाय प्रवर्तक श्री के प्रत्येक

मगळवार को मौन रहता है।

नाट-नवज्ञान गच्छ के प्रमुख आगम मनीपी

श्री तिलोक मुनिजी म सा आदि सत (7) एवं

महासतीर्यौजी (5) कुल ठाणा (12) भ्रमण सघ मे

सम्मिलित हो गये है। नवज्ञानगच्छ का समापन

हो गया है।

7 छण्डेता (सीकर) (राजस्थान)

उपप्रवर्तक श्री फूलचन्दजी म सा

आदि ठाणा (3)

सम्पर्क सूत्र - श्री व स्या जैन श्रावक सघ,

जैन स्थानक, मु पो छण्डेता

जिला सीकर (राजस्थान)

7-ए निम्वाड़ेडा (राजस्थान)

सलाहकार श्री मूलचदजी म सा आदि ठाणा (3)

सम्पर्क सूत्र - श्री नन्दलालजी महेन्द्र कुमारी तलेसा,

मेन बाजार, मु पो निम्वाड़ेडा जिला पितोडगढ

(राजस्थान) 312601

8 समदडी (राजस्थान)

तपस्वी श्री मंगल मुनिजी म सा

आदि ठाणा (2)

सम्पर्क सूत्र - श्री हरकचंदजी पालरेचा (वारीवाले)

मु पो समदडी जिला बाडनेर (राजस्थान) 344021

9 डोल (नान्देशमा) (राजस्थान)

पं रत्न श्री हीरामुनिजी म सा 'हिमकर'

आदि ठाणा (3)

सम्पर्क सूत्र - श्री नायूलालजी मादरेचा

मु पो डोल वाया नान्देशमा

जिला उदयपुर (राजस्थान)

10 बडी सादडी (राजस्थान)

1 धोर तपस्वी श्री वृद्धिचदजी म सा

2 मधुर वक्ता श्री चदन मुनिजी म सा

आदि ठाणा (3)

सम्पर्क सूत्र - श्री तेजसिंहजी भोगटा, स्टेशन रोड

मु पो बडी सादडी जिला चितौडागढ

(राजस्थान) 312403

चातुर्मास स्थल - श्री व. स्था. जैन श्रावक संघ,
जैन स्थानक, मु. पो. बड़ी सादड़ी,
जिला चित्तौडगढ़ (राज.), 312403

चातुर्मास स्थल - श्री जैन दिवाकर सामायिक भवन,
नीमच रोड, बड़ी सादड़ी
जिला चित्तौडगढ़ (राज.) 312403

1. माँडलगढ़ (राजस्थान)

उपप्रवर्तक श्री विनय मुनिजी म. सा. "भीम"
आदि ठाणा (2)

सम्पर्क सूत्र - श्री सुजानसिंहजी पोसवालिया अध्यक्ष
मु. पो. माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
311604 फोन नं. दुकान 2067 घर 2014

चातुर्मास स्थल - श्री व. स्था. जैन श्रावक संघ,
शीतल भवन, माण्डलगढ़ (राज.)
(भीलवाड़ा कोटा मार्ग पर)

12. भादसोड़ा (राजस्थान)

तपस्वी श्री अभय मुनिजी म. सा.
आदि ठाणा (3)

सम्पर्क सूत्र - श्री व. स्था. जैन श्रावक संघ,
जैन स्थानक मु. पो. भादसोड़ा
जिला चित्तौडगढ़ (राजस्थान)

13. देवगढ़ (मदारिया) (राजस्थान)

डॉ. राजेन्द्र मुनिजी म. सा. M.A Phd
आदि ठाणा (2)

सम्पर्क सूत्र - श्री व. स्था. जैन श्रावक संघ,
जैन स्थानक मु. पो. देवगढ़ (मदारिया)
वाया मदारिया जिला राजसमन्द
(राजस्थान) 313331

महासतियाँजी समुदाय

14. बड़ी सादड़ी (राजस्थान)

1 उपप्रवर्तिनी महासती श्री सज्जन कुंवरजी म. सा.
2 विदुषी महासती श्री बदाम कुंवरजी म. सा.
आदि ठाणा (8)

सम्पर्क सूत्र - श्री तेजसिंहजी मोगरा मंत्री, स्टेशन रोड,
मु. पो. बड़ी सादड़ी जिला चित्तौडगढ़
(राजस्थान) 312403

15. ढोल (नान्देशमा) (राजस्थान)

विदुषी महासती श्री शीलकुंवरजी म. सा.
सेवाभावी महासती श्री दया कुंवरजी म. सा.
आदि ठाणा (9)

सम्पर्क सूत्र - उपरोक्त क्रमांक 9 के अनुसार

16. गुलावपुरा (राजस्थान)

1 विदुषी महासती श्री कुसुमवतीजी म. सा.
2 विदुषी महासती डॉ. दिव्य प्रभाजी म. सा. M A Phd.
3 विदुषी महासती श्री गरिमाजी म. सा.
'Double M.A.'
4 विदुषी महासती श्री अनुपमाजी म. सा. B A
आदि ठाणा (5)

सम्पर्क सूत्र - श्री भीमसिंहजी संचेती
मु. पो. गुलावपुरा जिला भीलवाड़ा
(राजस्थान) 311021

17. भीलवाड़ा (राजस्थान)

1. शासनप्रभाविका विदुषी महासती
श्री जसकुंवरजी म. सा.
2 विदुषी महासती श्री सुगन कुंवरजी म. सा.
3 विदुषी महासती श्री शान्ति कुंवरजी म. सा.
4 विदुषी महासती श्री मनोहर कुंवरजी म. सा.
आदि ठाणा (20)

सम्पर्क सूत्र - उपरोक्त क्रमांक 1 अनुसार

18. किशनगढ़ शहर (मदनगंज) (राजस्थान)

1 विदुषी महासती श्री उमराव कुंवरजी म. सा.
"अर्चना"
2 विदुषी महासती श्री उम्मेद कुंवरजी म. सा.
"आचार्य"
3 विदुषी महासती डॉ. सुप्रभाजी म. सा. M.A.Ph.d.
आदि ठाणा (12)

- सम्पर्क सूत्र - श्री व स्या जैन श्रावक सघ,
जैन स्थानक, मु पो किशनगढ शहर (मदनगज)
जिला अजमेर (राजस्थान) 305801
श्री कालूसिंह वाफना अध्यक्ष
आफिस 2060 निवास 2323
(मदनगज रेल्वे स्टेशन-वस स्टेशन से
किशनगढ शहर २ कि मी दूर है)
- 19 भीलवाडा (राजस्थान)
विदुषी महासती श्री पुष्पावतीजी म सा
आदि ठाणा (5)
सम्पर्क सूत्र - उपरोक्त क्रमांक 1 अनुसार
- 20 भीलवाडा (राजस्थान)
विदुषी महासती श्री प्रकाशवतीजी म सा
आदि ठाणा (2)
सम्पर्क सूत्र - उपरोक्त क्रमांक 1 अनुसार
- 21 काकराली (राजस्थान)
विदुषी महासती श्री पुष्पावतीजी म सा
आदि ठाणा (4)
सम्पर्क सूत्र - श्री सतापजी बावेल, भीलवाडा राड,
मु पा काकराली जिला राजसमन्द (राजस्थान)
- 22 झडोल (राजस्थान)
विदुषी महासती श्री प्रेमवतीजी म सा
आदि ठाणा (6)
सम्पर्क सूत्र - श्री नेमीचदजी वाफना,
मु पा झडोल वाया कोशीपल
जिला भीलवाडा (राजस्थान)
- 23 जवाली (राजस्थान)
विदुषी महासती श्री तेज कुवरजी म सा
आदि ठाणा (6)
सम्पर्क सूत्र - श्री मूलचन्दजी गाधी
मु पो जवाली जिला पाली (राजस्थान)
(सोजत और पाली-मारवाड के समीप)
- 24 मावली जयशान (राजस्थान)
विदुषी महासती श्री सोहन कुवरजी म सा
आदि ठाणा (5)
सम्पर्क सूत्र - उपरोक्त क्रमांक 2 अनुसार
- 25 व्यावर (राजस्थान)
वयोवृद्धा महासती श्री प्रेमकुवरजी म सा
आदि ठाणा (4)
सम्पर्क सूत्र - उपरोक्त क्रमांक 5 के अनुसार
- 26 कुवारियाँ (राजस्थान)
1 विदुषी महासती श्री चारित्र प्रभाजी म सा
'साहित्यरत्न'
2 विदुषी महासती डॉ दर्शन प्रभाजी म सा
M A Phd
3 विदुषी महासती श्री रुचिकाजी म सा M A
4 विदुषी महासती श्री राजश्रीजी म सा M A
5 विदुषी महासती श्री प्रतिभाजी म सा B A
आदि ठाणा (7)
सम्पर्क सूत्र - श्री शकरलालजी चण्डालिया
मु पो कुवारियाँ जिला राजसमन्द (राजस्थान)
- 27 रायपुर (राजस्थान)
विदुषी महासती श्री रुप कुवरजी म सा
आदि ठाणा (2)
सम्पर्क सूत्र श्री पीरलालजी डगगी
मु पो रायपुर, जिला भीलवाडा (राजस्थान)
- 28 भोपाल सागर (राजस्थान)
1 विदुषी महासती श्री सोहन कुवरजी म सा
2 साध्वी रत्न महासती श्री कमलप्रभाजी म सा
आदि ठाणा (5)
सम्पर्क सूत्र - श्री बसतीलालजी का
C/o मैसर्स राजस्थान इण्डस्ट्रीज,
मु पो भोपालसागर, जिला चित्तौडगढ
(राजस्थान) 312204

- चातुर्मास स्थल - श्री व. स्था. जैन श्रावक संघ,
जैन स्थानक मु. पो. भोपालसागर
जिला चित्तौडगढ (राजस्थान) 312204
(चित्तौड उदयपुर वाया मावली से बसे उपलब्ध)
29. राजाजी का करेड़ा (राजस्थान)
विदुषी महासती श्री मनोहर कुंवरजी म.सा.
आदि ठाणा(3)
सम्पर्क सूत्र - श्री लादूलालजी वूरट
मु पो राजाजी का करेड़ा, जिला भीलवाड़ा (राज.)
30. उदयपुर (राजस्थान)
विदुषी महासती श्री श्रीमतिजी म. सा.
आदि ठाणा (3)
सम्पर्क सूत्र - श्री तारक गुरु जैन ग्रंथालय,
शास्त्री सर्कल उदयपुर (राजस्थान) 313001
(0294) 29733
31. उदयपुर (राजस्थान)
विदुषी महासती श्री प्रेमकुंवरजी म. सा. (मेवाड़)
आदि ठाणा (3)
सम्पर्क सूत्र - श्री अमर जैन, साहित्य संस्थान,
गणेश विहार, सेक्टर 11, हिरण मगरी,
उदयपुर - 313001 (राजस्थान)
32. उदयपुर (राजस्थान)
विदुषी महासती श्री कुशल कुवरजी म. सा.
आदि ठाणा (3)
सम्पर्क सूत्र - श्री जालमचंदजी जैन, तीज का चौक,
धानमण्डी, मु.पो. उदयपुर - 313001 (राजस्थान)
33. ताल (मेवाड़) (राजस्थान)
विदुषी महासती श्री जयमालाजी म सा.
आदि ठाणा (4)
सम्पर्क सूत्र - श्री प्रकाशचन्दजी दक
मु. पो. ताल वाया देवगढ (मेवाड़),
जिला राजसमन्द (राज.)
34. पाली-मारवाड़ (राजस्थान)
विदुषी महासती श्री रामकुंवरजी म. सा.
आदि ठाणा (5)
सम्पर्क सूत्र - श्री सायर चंदजी गांधी मंत्री
मैसर्स शाह उगमचंद मनमोहन चंद, कपडे के
व्यापारी, धाणेराव गली, पाली-मारवाड़
(राजस्थान) 306401
फोन दुकान 21641 निवास 21029
चातुर्मास स्थल - श्री व. स्था. जैन श्रावक संघ.
आचार्य श्री रघुनाथ स्मृति भवन, रुई कटला
पाली-मारवाड़ (राज.) 364001
35. जोधपुर (राजस्थान)
विदुषी महासती डॉ. अर्चनाजी म सा. M.A Phd.
आदि ठाणा (4)
सम्पर्क सूत्र - मैसर्स हरकचंद मेहता एण्ड कं.
कपडा बजार, जोधपुर - 342001 (राजस्थान)
चातुर्मास स्थल - श्री व. स्था. जैन श्रावक संघ,
महावीर भवन, निम्वाज की हवेली,
कपडा बाजार, जोधपुर - 342001 (राजस्थान)
36. बोरुन्दा (राजस्थान)
वयोवृद्धा महासती श्री विमल कुंवरजी म.सा.
विदुषी महासती श्री नवरत्न ज्योतिजी म.सा. 'B A.'
आदि ठाणा (3)
सम्पर्क सूत्र - श्री दीपचन्दजी कोठारी
मु.पो. बोरुन्दा जिला जोधपुर (राजस्थान)
37. बिलाड़ा (राजस्थान)
विदुषी महासती श्री धर्मप्रभाजी म.सा. M A
आदि ठाणा (3)
सम्पर्क सूत्र - श्री मोहनलालजी पारसमलजी भण्डारी
मु.पो. बिलाड़ा जिला जोधपुर (राजस्थान)
38. नन्दराय (भीलवाड़ा) (राजस्थान)
विदुषी महासती श्री रमिलाजी म.सा.
आदि ठाणा (4)

- सम्पर्क सूत्र - श्री तेजसिंहजी चौधरी
मु पो नन्दराय, जिला भीलवाडा (राजस्थान)
- 9 रुद्र (भीलवाडा) (राजस्थान)
विदुषी महासती श्री सज्जन कुवराजी म सा
आदि ठाणा (3)
- सम्पर्क सूत्र - श्री दीपचंदजी सिधवी
मु पो रुद्र, जिला भीलवाडा (राजस्थान)
- 0 आकडसादा (राजस्थान)
विदुषी महासती श्री सिद्धकुवराजी म सा
आदि ठाणा (7)
- सम्पर्क सूत्र - श्री हेमचन्दजी राकत,
मु पो आकडसादा, तहसील आसिन्द
जिला - भीलवाडा (राजस्थान)
- 41 राशमी (राजस्थान)
उप प्रवर्तिनी महासती श्री नानू कुवराजी म सा
आदि ठाणा (3)
- सम्पर्क सूत्र - श्री सोहनलालजी पोरखरना
मु पो राशमी जिला - चित्तौडगढ
(राजस्थान) 312203
चातुर्मास स्थल - श्री व स्या जैन श्रावक सघ
जैन स्थानक, मु पो राशमी जिला चित्तौडगढ
(राजस्थान) 312203
- 2 चित्तौडगढ (राजस्थान)
विदुषी महासती श्री अजव कुवराजी म सा
आदि ठाणा (6)
- सम्पर्क सूत्र - श्री माधवलालजी तरावत, दूचा बाजार,
मु पो चित्तौडगढ, 312001 (राजस्थान)
☎ (01472) ऑफिस 3040 2028
निवास 2613
- 3 अलीगढ - रामपुरा (टोक) (राजस्थान)
विदुषी महासती श्री बसत कुवराजी म सा
आदि ठाणा (3)
- सम्पर्क सूत्र - श्री बालचन्दजी जैन चौधरी अध्यक्ष,
सदर बाजार, अलीगढ - रामपुरा
जिला टोक (राजस्थान)
चातुर्मास स्थल - श्री व स्या जैन श्रावक संघ,
जैन स्थानक, मु पो अलीगढ - रामपुरा
जिला टोक (राजस्थान)
(टोक सवाई माधपुरा मार्ग पर)
- 44 बासवाडा (राजस्थान)
विदुषी महासती श्री मधुवालाजी म सा
आदि ठाणा (2)
- सम्पर्क सूत्र - श्री व स्या जैन श्रावक संघ,
जैन स्थानक, मु पो बासवाडा (राजस्थान)
- 45 प्रतापगढ (राजस्थान)
विदुषी महासती श्री दयाकुवराजी म सा
आदि ठाणा (4)
- सम्पर्क सूत्र - श्री शोभालालजी मागीलालजी लसोड
कमीशन एजेन्ट, धान मडी, मु पो प्रतापगढ
जिला - चित्तौडगढ (राजस्थान) 312605
- 47 गुरला (भीलवाडा) (राजस्थान)
विदुषी महासती श्री सुमित्राजी म सा
आदि ठाणा (2)
- सम्पर्क सूत्र - श्री जीवनसिंहजी लोडा
मु पो गुरला, जिला - भीलवाडा (राजस्थान)
(कांकरोली भीलवाडा मार्ग पर)
- 48 जयपुर - आदर्श नगर (राजस्थान)
विदुषी महासती श्री विजयश्री जी म सा 'M A
आदि ठाणा (3)
- सम्पर्क सूत्र - श्री प्रेम सागर जी जैन सहमत्री
51776 राजा पार्क, जयपुर - 302004 (राज)
☎ अध्यक्ष 48840 49296
उपाध्यक्ष 40796 मत्री 43282 सहमत्री 41557

चातुर्मास स्थल - श्री श्वेताम्बर स्थानकवासी जैन संघ,
महावीर भवन, 177, आदर्श नगर,
जयपुर - 302004 (राज.)

49. भीलवाड़ा (राजस्थान)

विदुषी महासती श्री सुमित्राजी म.सा.

आदि ठाणा (2)

सम्पर्क सूत्र - उपरोक्त क्रमांक 1 अनुसार

50. मदनगंज - किशनगढ (राजस्थान)

विदुषी महासती श्री केशर कुंवरजी म.सा. (न.ज्ञा.ग.)

आदि ठाणा (4)

सम्पर्क सूत्र - उपरोक्त क्रमांक 6 के अनुसार

नोट - यह महासतियोंजी पूर्व में नवज्ञान गच्छ
समुदाय में थी परन्तु नवज्ञान गच्छ के 7 संत एवं 5
साध्वियों अब श्रमण संघ में सम्मिलित हो गये हैं।

51. अलवर (राजस्थान)

विदुषी महासती श्री विमला श्री जी म.सा.

आदि ठाणा (4)

सम्पर्क सूत्र - श्री व. स्था. जैन श्रावक संघ

महावीर भवन, कलेक्टर रोड,

अलवर - 301001 (राजस्थान)

52. धाँवला (राजस्थान)

1. विदुषी महासति श्री राम कुंवरजी म.सा.

2. सेवाभावी महासति श्री इन्दुप्रभाजी म.सा.

आदि ठाणा (3)

सम्पर्क सूत्र - श्री नयमली सुराना

मु.पो. धाँवला, वाया मेडता सिटी

जिला - नागौर (राजस्थान) 305026

कुल चातुर्मास (52) मुनिराज (55)

महासतियोंजी (181) कुल ठाणा (236)

(2) तामिलनाडू प्रान्त
मुनिराज समुदाय

1. वेपेरी - मद्रास (तामिलनाडू)

युवाचार्य डॉ. शिवमुनिजी म.सा. M.A.PHD.

आदि ठाणा (4)

सम्पर्क सूत्र -

Shri Swetamber Sthanakwasi Jain Sangh
21, Brethapet Road, VEPERY,
MADRAS - 600 007 (T.N.) ☎ 585092
President - 580376, 5224824,
Secretary - 585320, 618240

युवाचार्य श्री जी के विराजने का स्थल:-

श्री विजय राजजी चौरडिया का बंगला

21, BRETHAPET ROAD

Opp. Chandan Bala Apartments,
VEPERY, Madras - 600007 (T.N.)

☎ Office - 588771, Resi - 585092

सम्पर्क सूत्र - Shri Uttam Chandji Jain,

4, Murugappa Street, Sowcarpet,

Madras - 600079 (T N)

2. माय्वलम् - मद्रास (तामिलनाडू)

सलाहकार, मंत्री श्री सुमन मुनिजी म. सा.

आदि ठाणा (2)

सम्पर्क सूत्र -

Shri Bhikamchandji Gadiya, Secretary
6 Barkit Road, Madras - 600 017 (T N)

☎ 440515, 445268

महासतियोंजी समुदाय

3. मद्रास - साहूकार पेठ (तामिलनाडू)

1. उज्ज्वल प्रमुखा विदुषी महासती

श्री प्रमोद सुधाजी म.सा.

2. विदुषी महासति डॉ. ज्ञान प्रनाजी म.सा. M A.PHD.

3. विदुषी महासति डॉ. प्रिय दर्शना जी म.सा. M.A PHD.

(5) महाराष्ट्र प्रान्त मुनिराज समुदाय

1 धुलिया (महाराष्ट्र)

प्रवर्तक श्री कल्याण ऋषी जी म सा

आदि ठाणा (5)

सम्पर्क सूत्र - श्री अमोल जैन ज्ञानालय, गली न 2

कल्याण स्वामी रोड, मु पो धुलिया

(महाराष्ट्र) 424001

2 लातूर (महाराष्ट्र)

स्वविर श्री जीवराजजी म सा

आदि ठाणा (3)

सम्पर्क सूत्र - श्री व स्या जैन श्रावक सघ,

जैन स्थानक, मु पो लातूर जिला अहमदनगर

(महाराष्ट्र) 413512

3 औरंगाबाद (महाराष्ट्र)

प रत्न श्री मिश्री मलजी म सा 'खदरदारी'

आदि ठाणा (2)

चातुर्मास स्थल - गुरु गणेश नगर,

बीबी के मकबरे के पास

औरंगाबाद (महाराष्ट्र) 431001

सम्पर्क सूत्र - श्री सुवालालजी छल्लानी,

मिथी चेम्बर्स, जालना रोड, कुशल नगर,

औरंगाबाद (महाराष्ट्र) 431001

4 इचलकरजी (महाराष्ट्र)

मत्री, प रत्न श्री कुन्दन ऋषीजी म सा

प्रज्ञाप्रदीप श्री प्रवीण ऋषीजी म सा

आदि ठाणा (4)

चातुर्मास स्थल - श्री व स्या श्रावक सघ

9/521 महावीर जैन भवन,

इचलकरजी (महाराष्ट्र) 416416

सम्पर्क सूत्र - श्री रुपराजजी बम्ब अध्यक्ष

श्री तेजराज रुपराज बम्ब, कपडे के व्यापारी

मेन रोड, मु पो इचलकरजी - 416416

जिला - कोल्हापुर (महाराष्ट्र)

☎ (02324) 22648 30388

(पूना, कोल्हापुर, सागती से बसे उपलब्ध)

5 अहमदनगर नवीपेठ (महाराष्ट्र)

तपस्वी श्री भगनमुनिजी म सा

सेवाभावी श्री सुन्दरलालजी म सा

प रत्न श्री राजेन्द्र मुनिजी म सा 'उपदेशाचार्य'

आदि ठाणा (5)

सम्पर्क सूत्र - श्री बसन्तलाल पूनमचद भण्डारी

2585 न्यू कापड बाजार, गांधी रोड,

अहमदनगर - 414001 (महाराष्ट्र)

चातुर्मास स्थल - श्री व स्या जैन श्रावक सघ

जैन स्थानक नवी पेठ,

अहमदनगर 414001 (महाराष्ट्र)

6 अहमदनगर पायडी बोर्ड (महाराष्ट्र)

1 महास्यवर वयोवृद्ध श्री पुष्पऋषीजी म सा

2 ओजस्वी वक्ता श्री आदर्श ऋषीजी म सा

आदि ठाणा (10)

सम्पर्क सूत्र - श्री तिलोक रत्न स्या जैन धार्मिक परीक्षा बोर्ड

आचार्य श्री जानन्द ऋषीजी मार्ग,

अहमदनगर - 414001 (महाराष्ट्र)

☎ 24938

(एस टी बस डिपो के समीप)

7 वर्णी (पवतमाल) (महाराष्ट्र)

सलाहकार प रत्न श्री रतन मुनिजी म सा

मधुरवक्ता श्री सतीष मुनिजी म सा

आदि ठाणा (5)

सम्पर्क सूत्र - श्री जीतमलजी मेहता

मु पो वर्णी जिला - वननाल (महाराष्ट्र) 445304

महासतियाँजी समुदाय

चातुर्मास स्थल - श्री व. स्था. जैन श्रावक संघ

जैन स्थानक, मु.पो. वणी

जिला यवतमाल (महाराष्ट्र) 445304

नोट - सलाहकार पं. रत्न श्री रतनमुनिजी म. को प्रत्येक सोमवार को मौन रहता है एवं मुनिश्री प्रतिदिन दिनमे 2 बजे बडी मांगलिक प्रदान करते है।

8. नांदगांव (महाराष्ट्र)

महास्थवर श्री बसंत मुनिजी म.सा.

सेवाभावी श्री कांति मुनिजी म.सा. आदि ठाणा (2)

सम्पर्क सूत्र - श्री लक्ष्मीचंदजी पारख

मु.पो नांदगांव तालुका - निफाड़,

जिला - नासिक (महाराष्ट्र)

9. बम्बई - भायन्दर (पूर्व) (महाराष्ट्र)

मधुरवक्ता, पं. रत्न श्री सुरेश मुनिजी म.सा. 'शास्त्री'
आदि ठाणा (3)

सम्पर्क सूत्र - श्री व. स्था. जैन श्रावक संघ (मेवाड)

साधना सदन, पार्श्वनाथ सोसायटी 1 ला माला,

बी.पी. रोड, भायन्दर (पूर्व) 401105

जिला ठाणा (महाराष्ट्र)

☎ 819 1095

10. बनोटी (महाराष्ट्र)

पं. रत्न श्री नेमीचन्दजी म.सा. आदि ठाणा (2)

सम्पर्क सूत्र - श्री रतनलालजी मिश्रीमलजी श्री श्रीमाल

मु.पो. बनोटी तालुका - सोयगाव

जिला - औरंगाबाद (महाराष्ट्र)

(चालीसगांव सोयगांव बस रुट पर)

11. चांदवड (महाराष्ट्र)

स्थविर श्री दातारामजी म.सा. (सकारण)

आदि ठाणा (1)

सम्पर्क सूत्र - श्री व. स्था. जैन श्रावक संघ

जैन स्थानक, मु.पो. चांदवड, वाया निफाड़

जिला नासिक (महाराष्ट्र) 423102

12. बम्बई - भांडुप (वेस्ट) (महाराष्ट्र)

स्थविरा महासती श्री सुन्दर कुंवरजी म.सा.

शास्त्र विशारद महासती श्री इन्द्रकुंवरजी म.सा.

आदि ठाणा (8)

सम्पर्क सूत्र - श्री व. स्था. जैन श्रावक संघ,

साधना सदन, 101/102, शक्ति आर्केड,

वड वाइज होस्पिटल के सामने, 1 ला माला,

लाल बहादुर शास्त्री मार्ग, आग्रा रोड,

भांडुप (वेस्ट), बम्बई - 400 078 (महाराष्ट्र)

☎ 5610792

13. नासिक सिटी (महाराष्ट्र)

1. विदुषी महासती श्री सुशील कुंवरजी म.सा.

2. विदुषी महासती श्री सुनन्दाजी म.सा. 'M.A.'

3. विदुषी महासती श्री यशाजी म.सा. M.A.

आदि ठाणा (6)

सम्पर्क सूत्र - श्री शांती लालजी दुगड़

मून्दडा हाउस, महात्मा गांधी मार्ग,

नासिक सिटी 422001 (महाराष्ट्र)

चातुर्मास स्थल - श्री व. स्था. जैन श्रावक संघ,

जैन स्थानक, रविवार कारंजा,

नासिक सिटी 422001 (महाराष्ट्र)

14. लासलगांव (महाराष्ट्र)

1. विदुषी महासती श्री सुदर्शनाजी म.सा.

2. विदुषी महासती श्री सन्मतिजी म.सा.

3. विदुषी महासती श्री सुमतिजी म.सा. M.A.

आदि ठाणा (5)

चातुर्मास स्थल - श्री व. स्था. जैन श्रावक संघ,

जैन स्थानक, मु.पो. लासलगांव,

जिला नासिक (महाराष्ट्र) 422302

सम्पर्क सूत्र - श्री खुशालचंदजी ब्रह्मेचा, अध्यक्ष

श्री व. स्था. जैन श्रावक संघ, मु.पो. लासलगांव

जिला नासिक (महाराष्ट्र) 422302

☎ (025536) ऑफिस 6061 निवास 6511

15 पूना - सिद्धाचलम् (महाराष्ट्र)

स्थविरा महासती श्री सुदर्शनाजी म सा आदि ठाणा (3)

सम्पर्क सूत्र - सिद्धाचलम् चेरीटेवल ट्रस्ट,
वाडे वोल्हाई, तालुका हवेली, पूना (महाराष्ट्र)

16 पायर्डे (महाराष्ट्र)

स्थविरा महासती श्री सज्जन कुवरजी म सा
आदि ठाणा (4)

सम्पर्क सूत्र - श्री व स्या जैन श्रावक सघ,
जैन स्थानक, मु पो पायर्डे
जिला अहमदनगर (महाराष्ट्र)

17 अहमदनगर (महाराष्ट्र)

स्थविरा महासती श्री पुष्पा कुवरजी म सा
आदि ठाणा (5)

सम्पर्क सूत्र - उपरोक्त क्रमांक 6 के अनुसार

18 पूना - आदिनाथ सोसायटी (महाराष्ट्र)

1 विदुषी महासती डॉ धर्मशीलाजी म सा M A Phd

2 विदुषी महासती श्री चारित्र प्रभाजी म सा B A

3 सेवाभावी महासती श्री पुष्प शीलाजी म सा B A

आदि ठाणा (5)

सम्पर्क सूत्र - श्री आदिनाथ स्थानकवासी जैन श्रावक सघ,
जैन मंदिरके सामने, आदिनाथ सोसायटी,

पूना सतारा रोड, पूना - 411037 (महाराष्ट्र)

नोट - डॉ धर्मशीलाजी म सा को प्रत्येक सोमवार
को मौन रहती है।

19 मालेगाव (महाराष्ट्र)

विदुषी महासती श्री किरण प्रभाजी म सा
आदि ठाणा (6)

सम्पर्क सूत्र - श्री व स्या जैन श्रावक संघ,
जैन स्थानक, मु पो मालेगाव केम्प
जिला नासिक (महाराष्ट्र)

20 खण्डाला (महाराष्ट्र)

विदुषी महासती श्री सुमन कुवरजी म सा
आदि ठाणा (2)

सम्पर्क सूत्र - मैसर्स मागीलाल वशीलाल सचेती,
मु पो खण्डाला तालुका वैजापुर
जिला औरंगाबाद (महाराष्ट्र)

21 पूना - सादडी सदन (महाराष्ट्र)

विदुषी महासती श्री कोसल्या कुवरजी म सा
सेवा भावी महासती श्री स्नेहप्रभाजी म सा 'B A
आदि ठाणा (5)

सम्पर्क सूत्र - श्री रतनचंद दलीचंद सराफ
406 रविवार पेठ, पूना - 411002 (महाराष्ट्र)

चातुर्मास स्थल - श्री व स्या जैन श्रावक सघ,
सादडी सदन, 155/2 गणेश पेठ, पूना (महाराष्ट्र)

नोट - महासती श्री विनयवतीजी म सा जो गत 10 वर्षों
से अस्वस्थ थे अब स्वास्थ्य सुधार पर है।

22 पूना - चिचवड स्टेशन (महाराष्ट्र)

विदुषी महासती श्री उज्ज्वल कुवरजी म सा
आदि ठाणा (2)

सम्पर्क सूत्र - श्री प्रेम राजजी वाफना
मैसर्स नेशनल ऐजेन्सीज, पूना बोम्बे रोड,
चिचवड स्टेशन, पूना - 411019 (महाराष्ट्र)

चातुर्मास स्थल - श्री व स्या जैन श्रावक सघ,
जैन स्थानक, आचार्य श्री आनन्द ऋषीजी मार्ग,
बोम्बे पूना रोड, चिचवड स्टेशन,
पूना - 411019 (महाराष्ट्र)

23 बोदवड (महाराष्ट्र)

विदुषी महासती श्री किरण सुधाजी म सा
आदि ठाणा (6)

सम्पर्क सूत्र - श्री ओसवाल जैन पंचायत
मु पो बोदवड, तालुका - भुसावल,
जिला जलगांव (महाराष्ट्र) 425310

24. परभणी (महाराष्ट्र)

विदुषी महासती श्री प्रतिभा कुंवरजी म.सा.

आदि ठाणा (5)

चातुर्मास स्थल - श्री व. स्था. जैन श्रावक संघ,
जैन स्थानक, मु. पो. परभणी
(महाराष्ट्र) 431401

सम्पर्क सूत्र - श्री गेंदमल सुरेन्द्रकुमार बांठीया,
बांठीया निवास महावीर मार्ग,
मु. पो. परभणी (महाराष्ट्र) 431401

25. कलम (महाराष्ट्र)

विदुषी महासती श्री धीरज कुंवरजी म.सा.

विदुषी महासती श्री प्रभाकुंवरजी म.सा.

आदि ठाणा (5)

चातुर्मास स्थल - श्री व. स्था. जैन श्रावक संघ,
जैन स्थानक, मु. पो. कलम - 413507
जिला उस्मानाबाद (महाराष्ट्र)

सम्पर्क सूत्र - श्री केशरीमल दिलीप कुमार लोढा,
कपडे के व्यापारी, मु. पो. कलम
जिला उस्मानाबाद (महाराष्ट्र) 413507

26. बालमटाकली (महाराष्ट्र)

विदुषी महासती श्री प्रकाश कुंवरजी म.सा.

आदि ठाणा (3)

चातुर्मास स्थल - श्री व. स्था. जैन श्रावक संघ,
जैन स्थानक, मु. पो. बालमटाकली तालुका
सेवगांव जिला - अहमदनगर
(महाराष्ट्र) 414504, 40213

27. पिपलगांव वसवंत (महाराष्ट्र)

विदुषी महासती श्री रोशन कुंवरजी म.सा.

आदि ठाणा (5)

सम्पर्क सूत्र - श्री व. स्था. जैन श्रावक संघ
जैन स्थानक, मु.पो. पिपलगांव - वसवंत
तालुका निफाड़, जिला - नासिक
(महाराष्ट्र) 422409

28. औरंगाबाद (महाराष्ट्र)

विदुषी महासती श्री विमल कुंवरजी म.सा.

आदि ठाणा (4)

सम्पर्क सूत्र - श्री व. स्था. जैन श्रावक संघ,
जैन स्थानक, महावीर भवन, कसारी बाजार,
औरंगाबाद (महाराष्ट्र) 431001

29. बम्बई - चेम्बूर (महाराष्ट्र)

विदुषी महासती श्री चन्दनाजी म.सा.

विदुषी महासती श्री अक्षय ज्योतिजी म.सा.

आदि ठाणा (6)

सम्पर्क सूत्र - श्री व. स्था. जैन श्रावक संघ,
जैन स्थानक, रुनवाल भवन, रुनवाल पार्क,
बिल्डिंग नं. 5, अकबरअली के बाजूमे,
चेम्बूर - बम्बई 400071
(महाराष्ट्र) 5523435

30. बम्बई - ठाकुरद्वार (महाराष्ट्र)

विदुषी महासती श्री सत्यसाधनाजी म.सा.

आदि ठाणा (3)

सम्पर्क सूत्र - श्री व. स्था. जैन श्रावक संघ,
सादडी सदन, पावसकर बिल्डिंग,
25 नवरोजी सेठ लेन, एस. के. पाटील उद्यान के
पिछे, ठाकुरद्वार, गिरगांव, बम्बई - 400 002
(महाराष्ट्र) 2610616

31. देवलाली केम्प (नासिक) (महाराष्ट्र)

विदुषी महासती श्री क्षमाजी म.सा.

आदि ठाणा (3)

सम्पर्क सूत्र - विरायतन ट्रस्ट,
महावीर सेवा केन्द्र के सामने, लाम रोड,
देवलाली केम्प वाया नासिक
(महाराष्ट्र) 422402

32. देवलाली केम्प (नासिक) (महाराष्ट्र)

वयोवृद्धा महासती श्री कमल प्रभाजी म.सा

आदि ठाणा (6)

सम्पर्क सूत्र - श्री वर्धमान महावीर सेवा केन्द्र,
ताम रोड, देवलाती केम्प, वाया नासिक
(महाराष्ट्र) 422402

33 सटाणा (महाराष्ट्र)

1 विदुषी महासती श्री पान कुवरजी म सा
2 धार तपस्विनी महासती श्री रमणीक कुंवरजी म सा
आदि ढाण (6)

सम्पर्क सूत्र - श्री शांतिलालजी राका
मैसर्स राका आयन मिल्स, मु पो सटाणा
जिला - नासिक (महाराष्ट्र)

34 जातना (महाराष्ट्र)

स्वविरा महासती श्री धन्नुकुवरजी म सा
विदुषी महासती श्री पुष्पकुवरजी म सा
आदि ढाणा (5)

सम्पर्क सूत्र - श्री चंपालालजी सकलेचा
रानी लक्ष्मीबाई के पुतले के पास, मु पो जालना
431203 (महाराष्ट्र)

35 आकोला (महाराष्ट्र)

1 विदुषी महासती श्री प्रिती सुधाजी म सा
2 विदुषी महासती डॉ अरुण प्रभाजी म सा M A Phd
आदि ढाणा (11)

सम्पर्क सूत्र - श्री व स्या जैन श्रावक संघ,
जैन स्थानक, ताजना पेठ, आकोला (महाराष्ट्र)

36 पूना (महाराष्ट्र)

विदुषी महासती डॉ ललित प्रभाजी म सा M A Phd
आदि ढाणा (1)

सम्पर्क सूत्र - डॉ सतीशचन्द्रजी जैन,
शरदा म्निनिक, 408/1 धारपडे पेठ,
पूना - 411042 (महाराष्ट्र)
☎ (0212) 438995

37 पूना (थेरगाव) (महाराष्ट्र)

विदुषी महासती श्री निर्मल कुवरजी म सा
आदि ढाणा (2)

सम्पर्क सूत्र - श्री सतोप चन्द्रजी तुकड
मैसर्स अरिहत डिपार्टमेंट्स स्टोर्स,
वेलठीका नगर, वस स्थप न 16 थेरगाव
पूना - 411033 (महाराष्ट्र)

38 पूना - थेरपूर (महाराष्ट्र)

विदुषी महासती श्री ज्योति सुधाजी म सा
आदि ढाणा (2)

सम्पर्क सूत्र - श्री व स्या जैन श्रावक संघ,
जैन स्थानक, मु पो थेरपूर, पूना (महाराष्ट्र)

कुल चानुर्मास (38) मुनिदान (42) महासतीजीयों (124)
कुल ढाणा (166)

(6) उत्तर भारत प्रान्त

(दिल्ली, पजाव, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, चण्डीगढ़,
उत्तर प्रदेश, जम्मु काश्मिर आदि प्रान्त)

मुनिराज समुदाय

- 1 गार्धी मढी, पानीपत - (हरियाणा)
 - 1 उत्तर भारतीय प्रवर्तक मण्डारी
श्री पदम चदजी म सा
 - 2 उपप्रवर्तक श्री अमर मुनिजी म सा
आदि ढाणा (4)

सम्पर्क सूत्र - प्रधान, श्री एस एस जैन सभा,
जैन स्थानक, गार्धी मढी, पानीपत
(हरियाणा) 132103

- 2 अम्बाला शहर (हरियाणा)
उपप्रवर्तक श्री सुदर्शनलालजी म सा
आदि ढाणा (3)

सम्पर्क सूत्र - श्री एस एस जैन सभा, महावीर श्रद्धा,
महावीर मार्ग, मु पो अम्बाला शहर
(हरियाणा) 134003

3. मालेर कोटला (पंजाब)
उपाध्याय श्री मनोहर मुनिजी म.सा. "कुमुद"
आदि ठाणा (2)
सम्पर्क सूत्र - श्री एस. एस. जैन सभा, मोती बाजार
मु. पो. मालेर कोटला जिला संगरूर
(पंजाब) 148023
4. गिदडवाहा मंडी (पंजाब)
उपप्रवर्तक कवि श्री चन्दन मुनिजी म.सा.
"पंजाबी" आदि ठाणा (2)
सम्पर्क सूत्र - श्री एस. एस. जैन सभा, जैन स्थानक
मु पो मडी गिहडवाहा, जिला फरीदकोट
(पंजाब) 152101
5. चण्डीगढ़
उपप्रवर्तक श्री जगदीश मुनिजी म.सा.
आदि ठाणा (3)
सम्पर्क सूत्र - श्री एस. एस. जैन सभा,
सेक्टर न. 18, चण्डीगढ़ - 160018
6. नालागढ़ (हिमाचल प्रदेश)
उपप्रवर्तक श्री राममुनिजी म.सा. आदि ठाणा (4)
सम्पर्क सूत्र - श्री एस एस. जैन सभा
मु पो. नालागढ़ (हिमाचल प्रदेश) 174101
7. गोविन्दगढ़ मंडी (पंजाब)
सलाहकार श्री ज्ञान मुनिजी म.सा. आदि ठाणा (2)
सम्पर्क सूत्र - श्री एस. एस. जैन सभा, शास्त्री नगर
मु पो गोविन्दगढ़ मण्डी
जिला - पटियाला (पंजाब) 147301
8. सहारनपुर (उत्तरप्रदेश)
उपप्रवर्तक श्री प्रेमसुखजी म.सा.
आदि ठाणा (4)
सम्पर्क सूत्र - श्री एस एस. जैन सभा, जैन स्थानक
मु. पो. सहारनपुर, (उत्तर प्रदेश) 247001
9. दिल्ली - शक्तिनगर
उपप्रवर्तक श्री हेमचन्द्रजी म.सा. आदि ठाणा (4)
- सम्पर्क सूत्र - प्रधान - श्री एस. एस. जैन सभा
14/24 शक्ति नगर, दिल्ली - 110007
नोट - यह संत पूर्वमे स्व. उपाध्याय
श्री अमरमुनिजी म.सा. के समुदाय मे थे इस वर्ष
आप श्रमण संघ मे सम्मिलित हो गये है एवं
आपको उपप्रवर्तक पद भी प्रदान किया है।
10. दिल्ली - न्यू शक्ति नगर
प्रखर वक्ता डॉ. सुव्रत मुनिजी म.सा. M A.Ph.D.
आदि ठाणा (2)
सम्पर्क सूत्र - श्री एस. एस. जैन सभा, जैन स्थानक
शक्ति नगर विस्तार, दिल्ली - 110052
11. दिल्ली - करोल बाग
प. रत्न श्री गणेश मुनिजी म.सा. "शास्त्री"
मधुरवक्ता श्री जिनेन्द्र मुनिजी म.सा. 'काव्यतीर्थ'
आदि ठाणा (3)
सम्पर्क सूत्र - लाला प्रकाश चंदजी जैन
B/2/41 दूसरा फेज, पिक मार्केट,
अशोक नगर, नई दिल्ली
चातुर्मास स्थल - श्री एस. एस. जैन सभा
प्रेम जैन भवन, 16 पार्क एरिया
करोल बाग, नई दिल्ली - 110005
12. लुधियाना (पंजाब)
पं. रत्न श्री रतन मुनिजी म.सा. आदि ठाणा (2)
सम्पर्क सूत्र - श्री एस एस. जैन सभा, जैन स्थानक
रुपा मिस्त्री गली, आत्म चौक,
लुधियाना - 141008 (पंजाब)
13. कालका (पंजाब)
मधुरवक्ता श्री नेमीचन्द्रजी म.सा. आदि ठाणा (2)
सम्पर्क सूत्र - श्री एस एस. जैन सभा
मु पो. कालका जिला अम्बाला (हरियाणा) 133301
14. होशियारपुर (पंजाब)
प्रखर वक्ता श्री कमल मुनिजी म.सा. "कमलेश"
आदि ठाणा (2)

सम्पर्क सूत्र - श्री एस एस जैन सभा,
मु पो होशियारपुर (पंजाब) 146001

15 पटियाला (पंजाब)

मधुर वक्ता श्री सरपंच मुनिजी म सा आदि ठाणा (3)
सम्पर्क सूत्र - श्री एस एस जैन सभा, कसेता चौक
मु पा पटियाला - 117001 (पंजाब)

16 मेरठ (उत्तर प्रदेश)

मधुर वक्ता श्री जिनेन्द्र मुनिजी म सा
आदि ठाणा (2)
सम्पर्क सूत्र - श्री एस एस जैन सभा, जैन स्थानक
भगवान महावीर मार्ग, जैन नगर,
मेरठ - 250001 (उत्तर प्रदेश)

17 शामली (उत्तर प्रदेश)

पं रत्न श्री छोटेलातजी म सा आदि ठाणा (2)
सम्पर्क सूत्र - श्री स्थानकवासी जैन श्वेताम्बर संस्था,
जैन मोहल्ला, बूडा बाबू, मु पो शामली,
जिला - मुजफ्फर नगर (उत्तर प्रदेश) 247776

18 दिल्ली - नागलोई

मधुर व्याख्यानी श्री आनन्द मुनिजी म सा
आदि ठाणा (2)
सम्पर्क सूत्र - श्री एस एस जैन सभा
नागलोई, दिल्ली - 110041

18 A वभात (पंजाब)

तपस्वी श्री जिनेशमुनिजी म सा आदि ठाणा (2)
सम्पर्क सूत्र - श्री एस एस जैन सभा,
मु पा वभात जिला रोपड (पंजाब)

18 B पंजाब म योग्य स्थल (पंजाब)

मधुरवक्ता श्री सुरेन्द्र मुनिजी म सा
आदि ठाणा (4)
सम्पर्क सूत्र -

महासतीयाँजी समुदाय

19 गन्नोरमण्टी (हरियाणा)

- 1 उपप्रवर्तिनी महासती श्री भगनश्री जी म सा
- 2 विदुषी महासती श्री शकुन्तलाजी म सा
- 3 विदुषी महासती श्री सुचेन्द्राजी म सा
- 4 विदुषी महासती श्री जिनेश्वरीजी म सा
आदि ठाणा (13)

सम्पर्क सूत्र - श्री एस एस जैन सभा
मु पो गन्नोर मंडी जिला - सोनीपत
(हरियाणा) 131101

20 करनाल (हरियाणा)

- 1 विदुषी महासती श्री राजमतिजी म सा
 - 2 उपप्रवर्तिनी महासती श्री उदयवती जी म सा
आदि ठाणा (10)
- सम्पर्क सूत्र - श्री एस एस जैन सभा, अर्बन इस्टेट
सेक्टर नं 14 करनाल (हरियाणा) 132001

21 हासी (हरियाणा)

- 1 उपप्रवर्तिनी महासती श्री कैलाशवतीजी म सा
 - 2 विदुषी महासती श्री कुसुम प्रभाजी म सा
आदि ठाणा (10)
- सम्पर्क सूत्र - श्री एस एस जैन सभा, ठडल मोहल्ला
मु पो हांसी जिला हिसार, (हरियाणा) 125033

22 अम्वाला शहर (हरियाणा)

- 1 विदुषी महासती श्री जिनेश्वरी देवीजी म सा
 - 2 उपप्रवर्तिनी महासती श्री स्वर्णकान्ताजी म सा
आदि ठाणा (8)
- सम्पर्क सूत्र - श्री एस एस जैन सभा, भूपण दीहदी,
सर्ताफा बाजार, अम्वाला शहर,
(हरियाणा) 143001
चातुर्मास स्थल - महिला जैन स्थानक,
अम्वाला शहर (हरियाणा)

23. अम्बाला छावनी (हरियाणा)

विदुषी महासति श्री मंजु ज्योतिजी म.सा.

आदि ठाणा (2)

सम्पर्क सूत्र - श्री एस. एस. जैन सभा, जैन स्थानक
काली वाडी मंदिर के सामने, अम्बाला छावनी
(हरियाणा) 134002

24. गुडगांव (हरियाणा)

उपप्रवर्तिनी महासती श्री रमेश कुमारीजी म.सा.

आदि ठाणा (5)

सम्पर्क सूत्र - श्री एस. एस. जैन सभा, रेल्वे रोड,
मु. पो. गुडगांव (हरियाणा) 122001

25. रानियों (हरियाणा)

1 तपसूर्या महासती श्री हेमकुंवरजी म.सा

2. उपप्रवर्तिनी महासती श्री रवि रश्मिजी म.सा.

आदि ठाणा (5)

सम्पर्क सूत्र - श्री एस. एस. जैन सभा, जैन स्थानक
मु. पो. रानियों जिला हिसार, (हरियाणा)

125076

26. गांधी मंडी - पानीपत (हरियाणा)

घोर तपस्विनी महासती श्री मोहनमालाजी म.सा.

आदि ठाणा (9)

सम्पर्क सूत्र - श्री एस. एस. जैन सभा,
जैन स्थानक, गांधी मंडी, पानीपत
(हरियाणा) 132103

27. समालखा मंडी (हरियाणा)

विदुषी महासती श्री भागवंतीजी म सा आदि ठाणा (7)

सम्पर्क सूत्र - श्री एस. एस. जैन सभा

मु. पो. समालखा मण्डी, जिला पानीपत
(हरियाणा) 132101

28. गोहाना (हरियाणा)

विदुषी महासती श्री शान्तिदेवीजी म.सा.

आदि ठाणा (4)

सम्पर्क सूत्र - श्री एस. एस. जैन सभा,

अनाज मंडी के पास, मु. पो गोहाना,

जिला - पानीपत (हरियाणा) 124301

29. लुधियाना (पंजाब)

उपप्रवर्तिनी महासती श्री अभय कुमारीजी म.सा.

आदि ठाणा (9)

सम्पर्क सूत्र - श्री एस. एस. जैन सभा, जैन बिरादरी,

जैन स्थानक, आत्म भवन, रुपा मिस्त्री गली,

लुधियाना - 141008 (पंजाब)

चातुर्मास स्थल आत्म भवन, सिवाला रोड,

लुधियाना (पंजाब)

30. लुधियाना (पंजाब)

उपप्रवर्तिनी महासती श्री सीताजी म.सा.

आदि ठाणा (5)

सम्पर्क सूत्र - श्री एस. एस. जैन सभा, जैन बिरादरी

रुपा मिस्त्री गली, लुधियाना - 141008 (पंजाब)

चातुर्मास स्थल - चन्दाजी ज्ञानश्राविकाश्रम,

करताराम गली, आत्म चौक - लुधियाना

31. लुधियाना (पंजाब)

विदुषी महासती श्री महेन्द्र कुमारीजी म.सा.

आदि ठाणा (5)

सम्पर्क सूत्र - श्री एस. एस. जैन सभा, जैन बिरादरी

रुपा मिस्त्री गली, लुधियाना 141008 (पंजाब)

चातुर्मास स्थल - चन्दाजी ज्ञान श्राविकाश्रम,

करताराम गली, लुधियाना (पंजाब)

32. लुधियाना - सिविल लाइन (पंजाब)

1 श्रुताचार्य महासती डॉ. मुक्ति प्रभाजी म.सा. M A Phd

2 अरिहंत प्रिया महासती

डॉ. दिव्य प्रभाजी म.सा. M A Phd.

3 विदुषी महासती

डॉ अनुपम साधनाजी म.सा. M A Phd

आदि ठाणा (11)

- सम्पर्क सूत्र - श्री एस एस जैन सभा
महावीर भवन, सिमिटी रोड, सिविल लाईन्स
(आत्म राड) फाउन्टेन के पास
फुव्वारा चौक, लुधियाना - 141005 पंजाब
☛ स्थानक 27151 प्रधानश्री जानकीराम 51440
- 33 बन्डू (पंजाब)
विदुषी महासती श्री चन्द्रप्रभाजी म सा
आदि ठाणा (5)
सम्पर्क सूत्र - श्री एस एस जैन सभा
मु पो बन्डू जिला - पटियाणा, (पंजाब) 140601
- 34 रोपड (पंजाब)
1 विदुषी महासती श्री सुधाजी म सा
2 विदुषी महासती श्री स्मृतिजी म सा M A
आदि ठाणा (10)
सम्पर्क सूत्र - श्री एस एस जैन सभा,
सदर बाजार, मु पा रोपड (पंजाब) 141001
- 35 नाभा (पंजाब)
1 विदुषी महासती श्री सुमित्राजी म सा
2 विदुषी महासती श्री सुनीताजी म सा
आदि ठाणा (5)
सम्पर्क सूत्र - श्री एस एस जैन सभा
मु पा नाभा (पंजाब) 147201
- 36 बलाचौर (पंजाब)
विदुषी महासती श्री संतोपजी म सा आदि ठाणा (4)
सम्पर्क सूत्र - श्री एस एस जैन सभा
मु पा बलाचौर जिला - जालंधर, (पंजाब) 144521
- 37 अमृतसर (पंजाब)
विदुषी महासती श्री किरणजी म सा आदि ठाणा (4)
सम्पर्क सूत्र - श्री एस एस जैन सभा,
चोरस्ती अदारी वी के, गर्ल हाई स्कूल के पास,
अमृतसर (पंजाब) 143001
☛ प्रधान - 42713 मंत्री - 51556
- 38 गोविन्दगढ मण्डी (पंजाब)
विदुषी महासती श्री पुष्पाजी म सा आदि ठाणा (4)
सम्पर्क सूत्र - श्री एस एस जैन सभा,
शाही नगर, गोविन्दगढ मण्डी,
जिला - पटियाणा (पंजाब) 147301
- 39 मातेरकोटला (पंजाब)
विदुषी महासती श्री कुसुम तवाजी म सा
आदि ठाणा (6)
- 40 जालंधर (पंजाब)
विदुषी महासती श्री दर्शन प्रभाजी म सा
आदि ठाणा (3)
सम्पर्क सूत्र - श्री एस एस जैन सभा,
जैन स्थानक, जालंधर (पंजाब) 144001
- 41 जालंधर छावनी (पंजाब)
विदुषी महासती श्री राजस्वरीजी म सा
आदि ठाणा (7)
सम्पर्क सूत्र - श्री एस एस जैन सभा
जालंधर छावनी (पंजाब) 144001
- 42 होशियारपुर (पंजाब)
1 विदुषी महासती श्री गुणमताजी म सा
2 विदुषी महासती श्री हर्षजी म सा M A
आदि ठाणा (3)
सम्पर्क सूत्र - श्री एस एस जैन सभा
मु पो होशियारपुर (पंजाब) 146001
- 43 मूलाना (हरियाणा)
विदुषी महासती श्री मंजुजी म सा 'शास्त्री'
आदि ठाणा (2)
सम्पर्क सूत्र - श्री एस एस जैन सभा
मु पो मूलाना जिला अम्बाला (हरियाणा)
☛ प्रधान श्री रुपलाल जैन 75335
मंत्री श्री श्यामलाल जैन 75316

44. दिल्ली - शास्त्री पार्क -

उपप्रवर्तिनी महासती श्री सत्यवतीजी म.सा.
आदि ठाणा (2)

सम्पर्क सूत्र - श्री एस. एस. जैन सभा,
बी-45 शास्त्री पार्क, दिल्ली - 110053

45. दिल्ली - अशोक विहार

1. उपप्रवर्तिनी महासती श्री केशर देवीजी म सा
2. विदुषी महासती श्री कौसल्या देवीजी म.सा.
3. विदुषी महासती डॉ. मजुश्रीजी म.सा. M.A Phd
आदि ठाणा (10)

सम्पर्क सूत्र - श्री एस. एस. जैन सभा,
ब्लाक 'एफ', फेज 1, अशोक विहार,
दिल्ली - 110052

46. दिल्ली - शालीमार बाग

उपप्रवर्तिनी महासती श्री सुन्दर देवीजी म.सा.
आदि ठाणा (7)

सम्पर्क सूत्र - श्री एस. एस. जैन सभा
ब्लाक बी. के. आर. (पश्चिमी) 11 ए
शालीमार बाग, दिल्ली - 110054
% 7129364

47. दिल्ली - राणा प्रताप बाग

1 उपप्रवर्तिनी महासती श्री सुभाषवतीजी म सा.
आदि ठाणा (3)

सम्पर्क सूत्र - श्री एस. एस. जैन सभा
ए-11. राणा प्रताप बाग,
दिल्ली - 110007

48. दिल्ली - शक्तिनगर

घोर तपस्विनी महासती श्री माया देवीजी म.सा
आदि ठाणा (5)

सम्पर्क सूत्र - श्री एस. एस. जैन सभा,
महिला जैन स्थानक, 18/31 शक्ति नगर,
दिल्ली - 110007

49. दिल्ली - धर्मपुरा

विदुषी महासती श्री हितश्रीजी म.सा. आदि ठाणा (2)
सम्पर्क सूत्र - श्री एस. एस. जैन सभा
धर्मपुरा, गांधी नगर, दिल्ली - 110031

50. दिल्ली - सदर बाजार

उपप्रवर्तिनी महासती श्री प्रेम कुमारीजी म.सा.
आदि ठाणा (7)
सम्पर्क सूत्र - श्री एस. एस. जैन सभा, डिप्टीगंज,
सदर बाजार, दिल्ली - 110006

51. दिल्ली - कोल्हापुर हाउस

विदुषी महासती श्री स्वर्णकुमारीजी म.सा
आदि ठाणा (3)
सम्पर्क सूत्र - श्री एस. एस. जैन सभा महिला जैन स्थानक
चन्द्रावल रोड, कोल्हापुर हाउस,
दिल्ली 110007

52. दिल्ली - पंजाबी बाग

विदुषी महासती श्री पवनकुमारीजी म.सा
आदि ठाणा (7)
सम्पर्क सूत्र - श्री एस. एस. जैन सभा
10/32 (पूर्वी) पंजाबी बाग,
दिल्ली - 110026

53. दिल्ली - चिराग

विदुषी महासती श्री वीरमतिजी म.सा. आदि ठाणा (4)
सम्पर्क सूत्र - श्री एस. एस. जैन सभा
727 चिराग, दिल्ली - 110017

54. दिल्ली - गौतमपुरी

विदुषी महासती श्री विजेन्द्रकुमारी म.सा.
आदि ठाणा (5)
सम्पर्क सूत्र - श्री एस. एस. जैन सभा
टी-12, गौतमपुरी, दिल्ली - 110053

- 55 दिल्ली - उत्तमनगर
विदुषी महासती श्री सुशील कुमारीजी म सा
आदि ठाणा (4)
सम्पर्क सूत्र - श्री एस एस जैन सभा
उत्तम नगर, दिल्ली
- 56 दिल्ली - वीर नगर
विदुषी महासती श्री प्रवीण कुमारीजी म सा
आदि ठाणा (5)
सम्पर्क सूत्र - श्री एस एस जैन सभा
वीर नगर, गुड मण्डी - दिल्ली - 110007
- 57 दिल्ली प्रीतमपुरा (गुजरात अपार्टमेंट्स)
विदुषी महासती श्री विमला देवीजी म सा
आदि ठाणा (4)
सम्पर्क सूत्र - श्री गुजरात अपार्टमेंट्स,
स्थानकवासी जैन सभा, बी-17 प्रीतमपुरा,
दिल्ली - 110034
☎ 7274877 7274002 P P
- 58 दिल्ली - आदर्श नगर
विदुषी महासती डॉ सरोज श्री जी म सा M A Phd
आदि ठाणा (3)
सम्पर्क सूत्र - श्री एस एस जैन सभा, गली न 5
मजलिस पार्क, आदर्श नगर,
दिल्ली - 110033
- 59 दिल्ली - नरेला मण्डी
विदुषी महासती श्री शशिप्रभाजी म सा
आदि ठाणा (3)
सम्पर्क सूत्र - श्री एस एस जैन सभा
नरेला मण्डी, दिल्ली - 110040
- 60 दिल्ली - रानीबाग
विदुषी महासती श्री सुमन कुमारीजी म सा
आदि ठाणा (6)
सम्पर्क सूत्र - श्री एस एस जैन सभा
WZ - 3353 महेन्द्रा पार्क, रानी बाग,
दिल्ली - 110034
- 61 दिल्ली - प्रशांत विहार
विदुषी महासती श्री सुशील कुमारी जी म सा
आदि ठाणा (5)
सम्पर्क सूत्र - श्री एस एस जैन सभा
ए-ब्लाक, प्रशांत विहार - दिल्ली - 110085
- 62 दिल्ली - कृष्ण नगर
विदुषी महासती श्री स्नेहाकुमारीजी म सा
आदि ठाणा (5)
सम्पर्क सूत्र - श्री एस एस जैन सभा
डी-4/1 लाल क्वाटर चौक, कृष्ण नगर
दिल्ली - 110051
- 63 दिल्ली - विश्वासनगर
1 विदुषी महासती श्री अनिल कुमारी जी म सा
Double M A
2 विदुषी महासती श्री चेतनाजी म सा M A
आदि ठाणा (4)
सम्पर्क सूत्र - श्री एस एस जैन सभा B 58 राम गली,
विश्वास नगर, दिल्ली - 110032
- 64 दिल्ली - कैलाशनगर
1 विदुषी महासती श्री अजय कुमारीजी म सा 'प्रभाकर'
2 विदुषी महासती श्री मीना कुमारीजी म सा M A
आदि ठाणा (7)
सम्पर्क सूत्र - श्री एस एस जैन सभा, गली न 2
कैलाश नगर, दिल्ली - 110031
- 65 मेरठ (उत्तर प्रदेश)
उपप्रवर्तिनी महासती श्री कौसल्या देवीजी म सा
आदि ठाणा (10)
सम्पर्क सूत्र - श्री एस एस जैन सभा जैन स्थानक
जैन नगर, भगवान महावीर मार्ग, मेरठ
(उत्तर प्रदेश) 250001

66. गाजियाबाद (उत्तर प्रदेश)

1. उपप्रवर्तिनी महासती श्री सरिताजी म.सा.
Double M A.

2. विदुषी महासती श्री शुभाजी म.सा. 'Double M A'
आदि ठाणा (5)

सम्पर्क सूत्र - श्री जे. डी. जैन प्रधान,
श्री एस. एस. जैन सभा,
के.वी. 45 कवि नगर, गाजियाबाद (उत्तरप्रदेश)
201001, फोन नं. 840001, 8712541

67. बागपत (उत्तर प्रदेश)

विदुषी महासती श्री कृष्णाजी म सा.
आदि ठाणा (2)

सम्पर्क सूत्र - श्री एस. एस. जैन सभा, जैन स्थानक,
मु पो बागपत जिला मेरठ (उत्तर प्रदेश)
205609

68. लुधियाना - शिवपुरी (पंजाब)

विदुषी महासती श्री संतोषजी म.सा. आदि ठाणा (5)
सम्पर्क सूत्र - श्री एस. एस. जैन सभा, जैन स्थानक
शिवपुरी, लुधियाना - 141008 (पंजाब)

कुल चातुर्मास (70) मुनिराज (54) महासतियाँजी (279)

कुल ठाणा (333)

(7) गुजरात प्रान्त

मुनिराज समुदाय

1. लिम्बडी (पंचमहाल) (गुजरात)

1. प. रत्न श्री रुपेन्द्र मुनिजी म.सा.
 2. प्रवर्तक श्री उमेश मुनिजी म.सा. "अणु"
 3. पं. रत्न श्री चेतन्य मुनिजी म.सा. आदि ठाणा (6)
- सम्पर्क सूत्र - श्री हसमुखलालजी पानाचन्द्रजी गोलेछा
मु. पो. लिम्बडी (पंचमहाल)
जिला पंच महाल (गुजरात) 389180
☎ 48, दाहोद (02673) 21431, 22762, 22738
दाहोद रेल्वे स्टेशन से 23 कि.मी. दूर वसे उपलब्ध)

2. उधना - सूरत (गुजरात)

तपस्वी राजश्री सहजमुनिजी म.सा.

आदि ठाणा (2)

सम्पर्क सूत्र - मैसर्स भगवती क्लोथ एम्पोरियम
पहला पेट्रोल पंपके सामने, तीसरा रास्ता मेन रोड,
मु. पो. उधना - सूरत (गुजरात) 394210
☎ 679171

चातुर्मास स्थल - श्री व. स्था. जैन श्रावक संघ,
चन्दन वन सोसायटी, जैन सोसायटी,
पेपर मिल के पिछे, मेन रोड,
उधना - सूरत (गुजरात)

3. अहमदाबाद (राजस्थान उपाश्रय) (गुजरात)

पं रत्न श्री अरुण मुनिजी म.सा. आदि ठाणा (2)
सम्पर्क सूत्र - श्री राजस्थान स्थानकवासी जैन संघ,
हठी भाई की वाडी के सामने, शाही बाग रोड
अहमदाबाद - 380004 (गुजरात)
☎ 24650

महासतियाँजी समुदाय

4. गांधी नगर (गुजरात)

विदुषी महासती श्री सत्यप्रभाजी म सा.

आदि ठाणा (4)

सम्पर्क सूत्र - श्री शैलेश एच. मेहता
3/70, श्री कुंज फ्लेट्स, ज्ञान ज्योति स्कूलके
सामने, घाटलोडिया, अहमदाबाद
(गुजरात) 380006

कुल चातुर्मास (4) मुनिराज (10) महासतिजीयों (4)

कुल ठाणा (14)

(8) मध्य प्रदेश प्रान्त

मुनिराज समुदाय

- 1 रतलाम (मध्यप्रदेश)
- 1 उपप्रवर्तक श्री मेघराजजी म सा
- 2 प रत्न श्री उदयमुनिजी म सा "सिद्धान्ताचार्य"
- 3 उपप्रवर्तक श्री प्रेमचन्दजी म सा
- 4 प्रखर वक्ता श्री धर्ममुनिजी म सा

आदि ठाणा (8)

सम्पर्क सूत्र - श्री व स्या जैन श्रावक सघ
जैन स्थानक, 31 नीम चौक, रतलाम
457001 (मध्यप्रदेश)
❧ अध्यक्ष - श्री इन्द्रमलजी जैन 21680 22337
मत्री - श्री मागीलालजी कटारिया
20288 22754 22681

2 नीमच सिटी (मध्यप्रदेश)

- 1 सघ सेवाभावी तपस्वी श्री मोहन मुनिजी म सा
- 2 सफलवक्ता श्री अजित मुनिजी म सा

आदि ठाणा (2)

चातुर्मास स्थल - श्री व स्या जैन श्रावक सघ,
जैन स्थानक, शीतला माता मंदिर के सामने,
चौधरी मोहल्ला, मु पो नीमच सिटी
(मध्यप्रदेश) 458441; ❧ 20723

सम्पर्क सूत्र -

3 रतलाम (मध्यप्रदेश)

घार तपस्वी श्री कमल मुनिजी म सा (मालव)

आदि ठाणा (3)

सम्पर्क सूत्र - श्री निहाल चन्दजी गाधी
78 बजाज खाना, रतलाम - 457001

(मध्यप्रदेश)

चातुर्मास स्थल - श्री धनदास जैन मित्र मंडल
जैन स्थानक, नौलाईपुरा, रतलाम (म प्र)

4 इन्दौर (इमली बाजार) (मध्यप्रदेश)

मधुरवक्ता श्री रविन्द्र मुनिजी म सा आदि ठाणा (4)
सम्पर्क सूत्र - श्री शान्तिमालजी मारु

73/74 बडा सर्राफा, इन्दौर - 452002 (म प्र)

चातुर्मास स्थल - श्री व स्या जैन श्रावक सघ,
महावीर भवन, इमली बाजार इन्दौर - 452002
(मध्यप्रदेश)

महासतियोंजी समुदाय

5 रतलाम (मध्यप्रदेश)

- 1 विदुषी महासती श्री सौभाग्यकुवरजी म सा
- 2 विदुषी महासती श्री मगनकुवरजी म सा

आदि ठाणा (5)

चातुर्मास स्थल - श्री कृष्ण कला केन्द्र, चादनी चौक
रतलाम (म प्र)

सम्पर्क सूत्र - श्री निहालचदजी गाधी,

78 बजाज खाना, रतलाम (मध्यप्रदेश)

457001

6 रतलाम (मध्यप्रदेश)

विदुषी महासती श्री प्रमोद सुधाजी म सा

आदि ठाणा (3)

सम्पर्क सूत्र - उपरोक्त क्रमांक 5 अनुसार

चातुर्मास स्थल - लाल स्थानक,
चौमुखी पुल, रतलाम (म प्र)

7 मन्दसौर (मध्यप्रदेश)

- 1 उपप्रवर्तिनी महासती श्री मानकुवरजी म सा
- 2 विदुषी महासती डॉ प्रभाश्रीजी म सा "कुसुम"
M A Phd
- 3 विदुषी महासती डॉ सुशीलजी म सा "शशी"
M A Phd

आदि ठाणा (6)

- सम्पर्क सूत्र - श्री चांदमलजी मुरडिया,
मैसर्स दिवाकर टेट हाउस, अशोक सम्राट रोड,
मु. पो. मन्दसौर - 458001 (मध्यप्रदेश)
- चातुर्मास स्थल - श्री व. स्था जैन
श्रावक सघ, महावीर भवन,
जाम्बु वाला स्थानक, किला,
रोड, मन्दसौर - 458001 (मध्यप्रदेश)
अध्यक्ष श्री अमरसिंहजी चौधरी 52412
मन्त्री - श्री चांदमलजी मुरडिया 52859
8. बदनावर (मध्यप्रदेश)
विदुषी महासती श्री वल्लभ कुंवरजी म सा.
आदि ठाणा (3)
- सम्पर्क सूत्र - श्री सुजानमलजी मुणत
मु पो बदनावर जिला धार, (मध्यप्रदेश) 454660
ब 2086
9. इन्दौर (राजमौहल्ला) (मध्यप्रदेश)
1 विदुषी महासती श्री चंपाकुंवरजी म.सा.
2 विदुषी महासती श्री रमणिक कुंवरजी म.सा.
आदि ठाणा (6)
- सम्पर्क सूत्र - श्री कृष्ण जैन स्मृति भवन, 37 साउथ
राजमौहल्ला, मु.पो. इन्दौर - 452002 (म.प्र)
10. इन्दौर (जानकीनगर) (मध्यप्रदेश)
विदुषी महासती श्री आदर्श ज्यौतिजी म सा.
आदि ठाणा (5)
- सम्पर्क सूत्र - श्री सागरमलजी बेताला,
जानकी नगर, इन्दौर - 452002 (मध्यप्रदेश)
चातुर्मास स्थल - जैन स्थानक, जानकी नगर,
नवलखा चौराहा इन्दौर (म.प्र.)
11. इन्दौर (परदेशीपुरा) (मध्यप्रदेश)
विदुषी महासती श्री सुगन कुंवरजी म.सा.
आदि ठाणा (3)
- सम्पर्क सूत्र - श्री अक्षय कुमार माणकलाल पोखरना
225, टेक्सटाइल क्लर्क कालोनी, परदेशी पुरा,
इन्दौर - 452003 (म.प्र.)
12. इन्दौर (चन्दनवाला) (मध्यप्रदेश)
विदुषी महासती श्री चंचल कुंवरजी म.सा.
आदि ठाणा (4)
- सम्पर्क सूत्र - श्री जीतमलजी जैन
मैसर्स जिनेन्द्र सेव भण्डार, बड़ा सर्राफा,
इन्दौर 452002 (मध्यप्रदेश)
13. ताल (मालवा) (मध्यप्रदेश)
विदुषी महासती श्री पुष्पलताजी म.सा.
आदि ठाणा (3)
- सम्पर्क सूत्र - श्री हजारीमलजी बख्तावरमलजी पितलिया,
मु.पो. ताल - 457118
जिला - रतलाम (मध्यप्रदेश)
14. महिदपुर (मध्यप्रदेश)
1 विदुषी महासती श्री मधुबालाजी म सा.
2 सेवाभावी महासती श्री धैर्यप्रभाजी म.सा.
आदि ठाणा (4)
- सम्पर्क सूत्र - श्री धनसुखलालजी कोठारी
मु पो. महिदपुर - 456443
जिला - उज्जैन (म.प्र)
15. जावरा (मध्यप्रदेश)
विदुषी महासती श्री कंचनकुंवरजी म सा
आदि ठाणा (2)
- चातुर्मास स्थल - श्री व. स्था जैन श्रावक सघ,
जैन स्थानक, सोमवारीया बाजार, मु पो. जावरा
जिला - रतलाम (म.प्र.) 457226
16. जावरा (मध्यप्रदेश)
विदुषी महासती श्री मुक्ति प्रभाजी म.सा
आदि ठाणा (3)

- सम्पर्क सूत्र - श्री रतनलालजी मेहता
बजाज खाना, मु पो जावरा जिला - रतलाम
(मध्यप्रदेश) 457226
- 17 मेघनगर (मध्यप्रदेश)
1 विदुषी महासतीश्री शान्तिकुवरजी म सा
2 विदुषी महासतीश्री कुसुम कुवरजी म सा
आदि ठाणा (10)
सम्पर्क सूत्र - श्री रणजीत सिंहजी वाफना
मु पो मेघनगर, जिला - झाबुआ
(मध्यप्रदेश) 457779
- 18 थादला (मध्यप्रदेश)
विदुषी महासतीश्री प्रवीणाजी म सा
आदि ठाणा (4)
सम्पर्क सूत्र - श्री कनकमलजी गादिया, नयापुर,
मु पो थादला, जिला झाँपुरा
(मध्यप्रदेश) 457777
- 19 देवास (मध्यप्रदेश)
1 विदुषी महासतीश्री मनोहर कुवरजी म सा
आदि ठाणा (4)
सम्पर्क सूत्र - श्री छोटूलालजी महाजन, अध्यक्ष
श्री स्थानकवासी जैन उपासनागृह,
बडी पाती, राजवाडे के सामने, मुक्ति मार्ग न 2
मु पो देवास (मध्यप्रदेश) 455001 ☪
5114
- 20 कोद (मध्यप्रदेश)
1 विदुषी महासती श्री शातिकुवरजी म सा
2 निमाड सौरभ महासतिश्री रमणिक कुवरजी म सा
आदि ठाणा (8)
सम्पर्क सूत्र - श्री इन्द्रमलजी भण्डारी
मु पो कोद, जिला - धार
(मध्यप्रदेश) 454669
- 21 उज्जैन (मध्यप्रदेश)
विदुषी महासतीश्री कचन कुवरजी म सा
आदि ठाणा (3)
- सम्पर्क सूत्र - श्री शान्तिलालजी मारु, मारु मेन्सन,
दौलतगज, उज्जैन (मध्यप्रदेश) 456001
- 22 करही (मध्यप्रदेश)
विदुषी महासतीश्री तारा कुवरजी म सा (सकारण)
आदि ठाणा (1)
सम्पर्क सूत्र - श्री मिश्रीमलजी सुराना
मु पो करही, जिला - खरगोन
(मध्यप्रदेश) 451220
- 23 उन्हेल (मध्यप्रदेश)
विदुषी महासती श्री सरस्वती कुवरजी म सा
आदि ठाणा (4)
सम्पर्क सूत्र - श्री शान्तिलालजी बम्ब
श्री व स्या जैन श्रावक सघ, जैन स्थानक
मु पो उन्हेल, जिला - उज्जैन (मध्यप्रदेश)
- 24 शाजापुर (मध्यप्रदेश)
1 स्यविरा महासतीश्री पानकुवरजी म सा
2 विदुषी महासतीश्री किर्तिसुधाजी म सा (जे शि आ)
आदि ठाणा (5)
सम्पर्क सूत्र - श्री हिम्मतमल भाणकचन्द नारोतिया,
आजाद चौक, शाजापुर (मध्यप्रदेश) 456001
- 25 जबलपुर (मध्यप्रदेश)
विदुषी महासतीश्री प्रमोदकुवरजी म सा
आदि ठाणा (6)
सम्पर्क सूत्र - श्री व स्या जैन श्रावक सघ
जैन स्थानक, मु पो जबलपुर,
(मध्यप्रदेश) 482001
- 26 बालाघाट (मध्यप्रदेश)
विदुषी महासतीश्री कचनकुवरजी म सा
आदि ठाणा (3)
चातुर्मास स्थल - श्री व स्या जैन श्रावक सघ
जैन स्थानक, सदर बाजार,
मु पो बालाघाट (मध्यप्रदेश) 481001

सम्पर्क सूत्र - श्री प्रसन्न चौरडिया,,
मैसर्स रतन टेक्सटाईल्स, मु. पो. बालाघाट
481001 (मध्यप्रदेश), ☎ 2412.

कुल चातुर्मास (26) संत (17) महासतियोंजी (95)
कुल ठाणा (112)

श्रमण संघ के अन्य एकलविहारी संत-सतियोंजी मुनिराज समुदाय

1. गाजियाबाद (उत्तर प्रदेश)
मधुरवक्ता श्री दीपचन्द्रजी म.सा आदि ठाणा (1)
सम्पर्क सूत्र - श्री जे. डी. जैन,
के. वी. - 45, कवि नगर, गाजियाबाद - 201001
(उत्तर प्रदेश), ☎ 840001.8712541
चातुर्मास स्थल - श्री एस. एस. जैन सभा,
जैन स्थानक, के.वी. 46, कवि नगर,
गाजियाबाद (उ.प्र.)

(नोट - श्रमण संघीय उपप्रवर्तिनी विदुषी महासती
श्री सरिताजी म.सा. Double M A आदि ठाणा (5)
का चातुर्मासभी कवि नगर गाजियाबाद में ही है।

2. कोट (हरियाणा)
मधुर वक्ता श्री पदम प्रकाशजी म.सा.
आदि ठाणा (1)
सम्पर्क सूत्र - श्री गुरु नेमचन्द्र भवन
मु.पो. कोट वाया, बरवाला,
जिला - अम्बाला (हरियाणा) 134118
3. पैची (मध्यप्रदेश)
वयोवृद्ध श्री मोहनमुनिजी म.सा (कोटा समुदाय)
आदि ठाणा (1)
सम्पर्क सूत्र - श्री महावीर प्रसादजी जैन
मु.पो. पैची जिला - गूना, (मध्यप्रदेश) 473115

4. भटिण्डा (पंजाब)
पं. रत्न श्री रोशनलालजी म.सा. "शास्त्री"
आदि ठाणा (1)

सम्पर्क सूत्र - श्री एस. एस. जैन सभा, जैन स्थानक
कीकर बाजार, भटिण्डा (पंजाब) 151001

5. सम्मैद शिखरजी (विहार)
पं. रत्न श्री नविन मुनिजी म.सा.
आदि ठाणा(1)





सम्पर्क सूत्र - श्री पार्श्व कल्याण केन्द्र,
मधुवन - शिखरजी,
जिला - गिरिडीह (विहार) 825229

6. पंजाब में योग्य स्थल
मधुर वक्ता श्री तिलोक मुनिजी म.सा
आदि ठाणा (1)
सम्पर्क सूत्र -


महासतियोंजी समुदाय

7. कोटा (राजस्थान)
वयोवृद्धा महासती श्री सूरजकुंवरजी म.सा. (सकारण)
आदि ठाणा (1)
सम्पर्क सूत्र - श्री दुलीचदजी जैन,
मैसर्स रतलामी सेव भण्डार, घंटाघर के पास,
कोटा - 324006 (राजस्थान)
8. मदनगंज - किशनगढ़ (राजस्थान)
वयोवृद्धा महासती श्री रतनकुंवरजी म.सा. (सकारण)
आदि ठाणा (1)
सम्पर्क सूत्र - श्री चंपालालजी पारसमलजी चौरडिया
किराना मर्चेन्ट, मु.पो. मदनगंज - किशनगढ़
जिला अजमेर (राजस्थान) 305801
☎ दुकान 3158 निवास 3212

**Anchor
BULBS / TUBES
FANS & SWITCHES**

Anchor[®]
DECOR SWITCHES FOR
SAFETY & ELEGANCE



SUPERAGE/304/89

Anchor Electronics & Electricals Pvt Ltd.

Krishna Chambers, 3rd Floor, New Marine Lines,

BOMBAY - 400 020 (India)

Telephone 2625115, 2625116, 2625117 Gram "HI-BRITE"

Fax (9122) 2626787 Telex 11 85214 VIJAY IN BOMBAY



स्वतंत्र सम्प्रदायें

श्री साधुमार्गी सम्प्रदाय

श्री साधुमार्गी जैन संघ के आचार्य प्रवर श्री हुकमीचंदजी म.सा. के संप्रदायके अष्टम् पदधर समता विभूति, आगम निधि, जिन शासन प्रद्योतक, धर्मपाल प्रतिबोधक, समीक्षण ध्यान योगी, विद्वद् शिरोमणी, चारित्र चूडामणि आचार्य प्रवर श्री नानालालजी म.सा. एवं भावी संघ नायक तरुण तपस्वी शास्त्रज्ञ मुनि प्रवर युवाचार्य प्रवर श्री रामलालजी म.सा. के आज्ञानुवर्ती संत-सतियोंजी

कुल चातुर्मास (53) संत (38) महासतियोंजी (259) कुल ठाणा (297)

मुनिराज समुदाय

1. देशनोक (राजस्थान)

1. समता विभूति, धर्मपाल प्रतिबोधक, समीक्षण ध्यान योगी, जिनशासन प्रद्योतक विद्वद् शिरोमणी, चारित्र चूडामणी आचार्य प्रवर श्री नाना लालजी म.सा.

2. तरुण तपस्वी मुनिप्रवर शास्त्रज्ञ, युवाचार्य प्रवर श्री रामलालजी म.सा.

3. सेवाभावी श्री प्रकाश मुनिजी म.सा.

आदि ठाणा (8)

चातुर्मास स्थल - समता भवन,
श्री जैन जवाहर मंडल देशनोक

सम्पर्क सूत्र - श्री रतनलाल जैन
C/o श्री चंपालालजी छल्लाणी
मु.पो. देशनोक जिला बीकानेर
(राजस्थान) 334801 फोन नं.

नोट - आचार्यश्री के प्रत्येक सोमवार को मौन रहता है।

2. बीकानेर (राजस्थान)

शासन प्रभावक घायमातृ पदालंकृत संघ संरक्षक
श्री इन्द्रचंदजी म.सा. आदि ठाणा (5)

चातुर्मास स्थल - सेठीया कोटड़ी, ठेरा बाजार,
बीकानेर (राज.)

सम्पर्क सूत्र - श्री नथमलजी तांतेड़
दस्सानीयो का चौक,
बीकानेर - 334005 (राज.)

3. प्रतापगढ़ (राजस्थान)

विद्वदर्य शासनप्रभावक श्री सेवन्तमुनिजी म.सा.
आदि ठाणा (3)

चातुर्मास स्थल - समता भवन, प्रतापगढ़
सम्पर्क सूत्र - श्री गुलाबचंदजी दशोरिया
कपडे के व्यापारी सूरजपोल के अन्दर
मु.पो. प्रतापगढ़ जिला चित्तौड़गढ़
(राजस्थान) 312605

4. कानोड़ (राजस्थान)

स्थविर प्रमुख तरुण तपस्वी विद्वदर्य श्रमण प्रवर
श्री शान्तिमुनिजी म.सा. आदि ठाणा (4)

चातुर्मास स्थल - समता भवन, पंचायती नोहरा गांधी
चौक के पास, कानोड़
सम्पर्क सूत्र - श्री शान्तिलालजी धींग
धींगो की घाटी, मु.पो. कानोड़
जिला उदयपुर (राजस्थान) 313604

- 5 चिकारडा (राजस्थान)
आगम व्याख्यात श्री कवर चद्रजी म सा
आदि ठाणा (2)
चातुर्मास स्थल - समता भवन,
चिकारडा (राजस्थान)
सम्पर्क सूत्र - श्री देवीलालजी कोठारी,
मु पो चिकारडा जिला चित्तौडगढ
(राजस्थान) 312024
- 6 ब्यावर (राजस्थान)
स्थविर प्रमुख विद्वदर्य श्री प्रेमचन्दजी म सा
आदि ठाणा (2)
चातुर्मास स्थल - महावीर भवन, नया वास, ब्यावर
सम्पर्क सूत्र - श्री श्री जैन मित्र मडल, आनन्द भवन,
महावीर बाजार, ब्यावर जिला अजमेर
(राजस्थान) 305901
- 7 इन्दौर (मध्यप्रदेश)
स्थविर प्रमुख साधु प्रवर श्री पारस मुनिजी म सा
आदि ठाणा (2)
चातुर्मास स्थल - समता भवन, मोहनपुर
(जवाहर रोड के पास)
सम्पर्क सूत्र - श्री नन्धू कुमारजी आचनिया
२२, मण्डिया बाजार,
इन्दौर - 452002 (म ५)
- 8 लत्तानी (मेवाड़) (राजस्थान)
शासन प्रभावक आदर्श त्यागी श्री सम्मत मुनिजी म सा
आदि ठाणा (2)
चातुर्मास स्थल - श्री व स्या जैन श्रावक सघ,
जैन स्थानक लत्तानी (राज)
सम्पर्क सूत्र - श्री जेठमनजी मु पो लत्तानी
दादा देवाड जिला राजसमन्द
(राजस्थान) 313331
- 9 गगाशहर भीनासर (राजस्थान)
शासनप्रभावक आदर्श त्यागी श्री धर्मेश मुनिजी म सा
आदि ठाणा (4)
चातुर्मास स्थल - पोषण शाळा, बाठीया भवन,
(श्री जवाहर जैन विद्यापीठ) भीनासर (राज)
सम्पर्क सूत्र - श्री बालचन्द्रजी सेठीया
मु पो भीनासर जिला बीकानेर
(राजस्थान) 334403
- 10 सारोठ (राजस्थान)
आदर्श त्यागी श्री रणजीत मुनि जी म सा
आदि ठाणा (2)
चातुर्मास स्थल - समता भवन, सारोठ (राजस्थान)
सम्पर्क सूत्र - श्री कन्हैया लालजी राका,
मु पो सारोठ वाया - जवाजा,
जिला - राजसमन्द (राजस्थान) 305922
- 11 उज्जैन (मध्यप्रदेश)
स्थविर प्रमुख विद्वदर्य सपति प्रवर श्री विजयमुनिजी म सा
मधुर व्याख्याता श्री अजित मुनिजी म सा
आदि ठाणा (2)
चातुर्मास स्थल - महावीर भवन, नमक मढी,
उज्जैन (मध्यप्रदेश)
सम्पर्क सूत्र - श्री पारसमलजी चोरडिया मनी,
पारस भैय्या, कैलास टाकीज के सामने,
मु पो उज्जैन (मध्यप्रदेश) 456006
- 12 घादनी चौक, दिल्ली
स्थविर प्रमुख विद्वदर्य सतप्रवर श्री ज्ञानमुनिजी म सा
आदि ठाणा (2)
चातुर्मास स्थल - श्री एत एत जैन सभा महावीर
भवन, बारादरी, घादनी चौक, दिल्ली 110006
सम्पर्क सूत्र - श्री प्रमोद कुमारजी जैन मनी
श्री एत एत जैन सभा, महावीर भवन,
बारादरी घादनी चौक, दिल्ली 110006

महासतीयांजी समुदाय

3. मन्दसौर (नई आबादी) मध्य प्रदेश

- 1 शासन प्रभाविका स्थविरा महासती
श्री वल्लभ कुंवर जी म.सा.
- 2 शासन प्रभाविका, विदुषी महासती
श्री चन्दनबाला जी म.सा

आदि ठाणा (12)

चातुर्मास स्थल - समता भवन, दत्त मंदिर रोड न. 2,

नई आबादी मन्दसौर (म.प्र.)

सम्पर्क सूत्र - श्री सौभाग मलजी पामेचा

मैसर्स पामेचा स्टेशनरी मार्ट, नई आबादी
मन्दसौर (म.प्र.) 458001

14. जावरा (मध्य प्रदेश)

शासन प्रभाविका विदुषी महासती

श्री पानकुवर जी म.सा आदि ठाणा (6)

चातुर्मास स्थल - समता भवन, जवाहर पेड़,

जावरा (म.प्र.)

सम्पर्क सूत्र - श्री छगनलालजी पटवा

पुल बाजार, म.पो. जावरा जिला - रतलाम
(मध्य प्रदेश) 457226

15. ब्यावर (राजस्थान)

1 आदर्श सेवा समर्पिता विदुषी महासती

श्री सम्पत कुंवर जी म.सा

2 शासन प्रभाविका स्थविरा महाश्रमणी रत्ना
महासती श्री गुलाब कुवरजी म सा

आदि ठाणा 11

चातुर्मास स्थल - कांरिया का डेला,
नया वास,

ब्यावर (राजस्थान)

सम्पर्क सूत्र - श्री जैन मित्र मण्डल, आनन्द भवन,

महावीर बाजार,

ब्यावर जिला - अजमेर

(राजस्थान) 305901

16. देशनोक (राजस्थान)

1. शासन प्रभाविका स्थविरा पद विभूषिता महासती
श्री केशर कुंवर जी म.सा.
- 2 विदुषि महासती श्री सुलक्षणा जी म.सा.
- 3 विदुषि तपस्वीनी महासती
श्री विधावती जी म सा

आदि ठाणा (15)

चातुर्मास स्थल - भूरा गेस्ट हाऊस, देशनोक (राजस्थान)

सम्पर्क सूत्र - श्री रतनलालजी जैन, मार्फत

श्री चम्पालालजी छल्लाणी

मु.पो. देशनोक जिला - बीकानेर

(राजस्थान) 334801

17. उदयपुर (राजस्थान)

1 शासन प्रभाविका विदुषि महासती श्री धापू कुंवर
जी म.सा.

2 सेवा भाविनी महासती श्री गुलाब कुवरजी म सा.

आदर्श त्यागिनी विदुषी महासती

श्री जय श्री जी म.सा आदि ठाणा (12)

चातुर्मास स्थल - गणेश जैन भवन, भड भुजा घाटी,

उदयपुर(राजस्थान)

सम्पर्क सूत्र - श्री करण सिंह जी सिसोदिया

29 पोली ग्राऊन्ड, उदयपुर

(राजस्थान) 313001 फोन नं. 60397

18. चित्तोड़ गढ़ - मीरा नगर (राजस्थान)

1 धायमातृ पदालंकृत महाश्रमणी रत्ना,
महासती श्री पेप कुंवर जी म.सा.

2 कथा कोष महासती श्री फूल कुवर जी म.सा.

आदि ठाणा (6)

चातुर्मास स्थल - जैन भवन, मीरा नगर,

चित्तोड़गढ़ (राजस्थान)

सम्पर्क सूत्र - श्री भवर लालजी अब्बणी

8-ए मीरानगर, चित्तोड़ गढ़

(राजस्थान) 312001

१) नयागढ (महागढ)
 शान्त प्रजासत्ताक विद्युत् सप्लाय
 मन्त्रालयको तर्फबाट नयागढ नगर
 विद्युत् सप्लायको लागि अनुमति पत्र
 जारी गर्ने (१३)
 अनुमति पत्र - नयागढ नगर विकास, नयागढ (महागढ)
 नयागढ - नयागढ नगर विकास
 नयागढ, नयागढ नगर (महागढ) २५०११
 पत्र नं २३०११ २५०११

२) धौलागढ (महागढ)
 शान्त प्रजासत्ताक विद्युत् सप्लायको तर्फबाट धौलागढ नगर
 विद्युत् सप्लायको लागि अनुमति पत्र
 जारी गर्ने (१५)
 अनुमति पत्र - धौलागढ, धौलागढ, धौलागढ (महागढ)
 धौलागढ - धौलागढ नगर विकास
 धौलागढ नगर, धौलागढ
 (महागढ) ३३१११५

३) धौलागढ (महागढ)
 शान्त प्रजासत्ताक विद्युत् सप्लायको तर्फबाट धौलागढ नगर
 विद्युत् सप्लायको लागि अनुमति पत्र
 जारी गर्ने (५)
 अनुमति पत्र - धौलागढ, धौलागढ, धौलागढ (महागढ)
 धौलागढ - धौलागढ नगर विकास
 धौलागढ नगर, धौलागढ
 (महागढ) ३३१११५, पत्र नं ३३११५

४) धौलागढ (महागढ)
 शान्त प्रजासत्ताक विद्युत् सप्लायको तर्फबाट धौलागढ नगर
 विद्युत् सप्लायको लागि अनुमति पत्र
 जारी गर्ने (५)
 अनुमति पत्र - धौलागढ, धौलागढ, धौलागढ (महागढ)
 धौलागढ - धौलागढ नगर विकास
 धौलागढ नगर, धौलागढ
 (महागढ) ३३१११५, पत्र नं ३३११५

सामक सूत्र - श्री सुजानमनजी घवत
 मुपो धौलागढ नगरपालिका-विद्युत्
 (महागढ)
 २३) कानोडा (महागढ)
 शान्त प्रजासत्ताक विद्युत् सप्लायको तर्फबाट कानोडा नगर
 विद्युत् सप्लायको लागि अनुमति पत्र
 जारी गर्ने (५)
 अनुमति पत्र - कानोडा नगर, कानोडा (महागढ)
 सामक सूत्र - श्री शशीलालजी धीरा,
 धौलागढ नगर, मुपो कानोडा,
 जिला - उदयपुर (महागढ) ३३१६१५

२४) महागढ (महागढ)
 शान्त प्रजासत्ताक विद्युत् सप्लायको तर्फबाट महागढ नगर
 विद्युत् सप्लायको लागि अनुमति पत्र
 जारी गर्ने (७)
 अनुमति पत्र - श्री नयनजी, धौलागढ नगर,
 नयागढ नगर
 सामक सूत्र - श्री नयनजी कुमारी मिला,
 नयागढ, मुपो महागढ जिला - धौलागढ
 (महागढ) ३३१५०१

२५) नयागढ (महागढ)
 १) शान्त प्रजासत्ताक विद्युत् सप्लायको तर्फबाट नयागढ नगर
 विद्युत् सप्लायको लागि अनुमति पत्र
 जारी गर्ने (१०)
 अनुमति पत्र - धौलागढ नगर, धौलागढ,
 नयागढ (महागढ)
 सामक सूत्र - श्री नयागढ नगर विकास
 नयागढ, नयागढ नगर (महागढ)

२६) नयागढ (महागढ)
 शान्त प्रजासत्ताक विद्युत् सप्लायको तर्फबाट नयागढ नगर
 विद्युत् सप्लायको लागि अनुमति पत्र
 जारी गर्ने (१०)

- चातुर्मास स्थल - श्री व. स्था जैन श्रावक संघ,
जैन स्थानक, नाई (राज.)
सम्पर्क सूत्र - श्री सोहनलालजी सा. मेहता
मु.पो. नाई तहसील गिरवा
जिला - उदयपुर (राजस्थान)
27. श्रीगोन्दा (महाराष्ट्र)
विदुषी महासती श्री अनोखा कुवरजी म.सा.
विदुषी महासती श्री विजय लक्ष्मीजी म.सा.
आदि ठाणा (8)
चातुर्मास स्थल - श्री व. स्था जैन श्रावक संघ,
जैन स्थानक श्रीगोन्दा (महाराष्ट्र)
सम्पर्क सूत्र - श्री नवनीतलाल एम. मुणोत
C/o मैसर्स राजेन्द्र क्लाथ स्टोर्स,
कासार गली, मु.पो श्रीगोन्दा
जिला - अहमदनगर 413701
फोन. एस.टी.डी. (2414) 12547
28. बीजापुर (कर्नाटक)
विदुषी महासती श्री सूर्यकांताजी म.सा
आदि ठाणा (6)
चातुर्मास स्थल - श्री व. स्था जैन श्रावक संघ,
जैन स्थानक, बीजापुर (कर्नाटक)
सम्पर्क सूत्र - श्री मदनलालजी बोधरा,
मैसर्स - बोधरा ब्रदर्स, कॉटन सीड्स मर्चन्ट,
एस.एस रोड, बीजापुर (कर्नाटक) 586101
29. उदयपुर - भोपालपुरा (राजस्थान)
विदुषी महासती श्री सुशीला कुंवरजी म.सा.
आदि ठाणा (4)
चातुर्मास स्थल - मोहन ज्ञान मंदिर, भोपालपुरा,
उदयपुर (राज.)
सम्पर्क सूत्र - श्री तरवत सिंहजी पानगड़िया,
C/o मैसर्स - राजेन्द्र मशीनरी मार्ट,
हाथी पोल बाहर, उदयपुर (राजस्थान) 313001
30. कपासन (राजस्थान)
सेवाभावीनी महासतीश्री लीलावतीजी म.सा.
आदि ठाणा (5)
चातुर्मास स्थल - ओसवाल पंचायती नोहरा,
कपासन (राज.)
सम्पर्क सूत्र - श्री मोतीलालजी चण्डालिया,
C/o मैसर्स - दीपक मशीनरीज,
बस स्टेण्ड, मु.पो. कपासन जिला - चित्तोड़गढ़
(राजस्थान) 312202
31. रतलाम (मध्यप्रदेश)
शासन प्रभाविका विदुषी महासती श्री ज्ञान
कुंवरजी म.सा आदि ठाणा (6)
चातुर्मास स्थल - घासबाजार, जैन स्थानक,
रतलाम (म.प्र.)
सम्पर्क सूत्र - श्री रखबचन्दजी कटारिया
74, नोलाईपुरा, रतलाम
(मध्यप्रदेश) 457001
32. सूरत (गुजरात)
1 सेवाभावीनी महासती श्री गंगावतीजी म.सा.
2 विदुषी महासती श्री ललित प्रभाजी म.सा
आदि ठाणा (12)
चातुर्मास स्थल - श्री मेवाड साजनत
जैन भवन, रोड न. 15, उद्यना
उद्योग नगर, सूरत - 395002 (गुजरात)
सम्पर्क सूत्र - श्री इन्द्रचन्दजी बैद,
C/o मैसर्स - करणी प्रिन्टर्स, व. पेन्ट
बखारिया टेक्सटाइल मार्केट, रिग रोड
सूरत (गुजरात) 395002
33. भोपाल (मध्यप्रदेश)
विदुषी महासती श्री मगला कुंवरजी म.सा.
आदि ठाणा (4)

चातुर्मास स्थल - श्री व स्या जैन श्रावक सघ,
जैन स्थानक, मारवाडी बाजार, भोपाल (म प्र)

सम्पर्क सूत्र - श्री नरेन्द्र जी मेहता,
1 मेहता ट्रेडर्स, मलिक मार्केट,
हमीदिया रोड, भोपाल (मध्यप्रदेश) 462001

34 खरियार रोड (उडीसा)

सेवाभावीनी महासती श्री चन्द्रकान्ताजी म सा
आदि ठाणा (3)

चातुर्मास स्थल - जैन स्थानक खरियार रोड (उडीसा)
सम्पर्क सूत्र - Shri Rasiklalji Ramniklalji Dholkia
P O KHARIYAR ROAD
Distt Kala Handi (ORISSA)

35 पाटोदी (राजस्थान)

विदुषी महासती श्री कमल प्रभाजी म सा
आदि ठाणा (3)

चातुर्मास स्थल - औसवाल भवन, पाटोदी (राज)
सम्पर्क सूत्र - श्री घेलतराजजी अमीर चन्दजी बागमा
मु पो पाटोदी, जिला - वाडमेर (राजस्थान)

36 अक्कलकुआ (महाराष्ट्र)

विदुषी महासती श्री सुमति श्री जी म सा
आदि ठाणा (6)

चातुर्मास स्थल - श्री व स्या जैन श्रावक सघ,
जैन स्थानक, अक्कलकुआ (महाराष्ट्र)
सम्पर्क सूत्र - श्री सतीदानजी कोटडिया,
C/o मैसर्स - सतीदान चुन्नीलाल एण्ड क,
मु पो अक्कलकुआ, जिला - धूलिदा (महाराष्ट्र)

37 नीमच - छावनी (मध्यप्रदेश)

विदुषी महासती तपस्वीनी श्री विमला कुवरजी म सा
आदि ठाणा (7)

चातुर्मास स्थल - जैन स्थानक भवन,
जैन कालोनी, नीमच छावनी (म प्र)
सम्पर्क सूत्र - श्री कांतिलालजी मेहता
C/o मैसर्स - श्री वर्षमान कटपीस सेन्टर,

टैगोर मार्ग, नीमच छावनी
(मध्यप्रदेश) 458441

38 रायपुर (मध्यप्रदेश)

विदुषी महासती श्री ताराकुंवरजी म सा
आदि ठाणा (5)

चातुर्मास स्थल - समता धाडीवाल ज्ञान भवन,
सदर बाजार, रायपुर (म प्र)

सम्पर्क सूत्र - श्री अशोक कुमारजी सुराना,
मैसर्स - अगर एजेन्सीज, हलवाई लेन,
रायपुर (मध्यप्रदेश) 492001

39 दूनी (राजस्थान)

विदुषी महासती श्री चेतन श्री जी म सा
आदि ठाणा (3)

चातुर्मास स्थल - श्री व स्या जैन श्रावक सघ,
जैन स्थानक, दूनी (टोक)

सम्पर्क सूत्र - श्री महावीर चन्दजी गोखर
मु पो दूनी जिला - टोंक (राजस्थान)

40 नागदा जक्शन (मध्यप्रदेश)

विदुषी महासती श्री प्रभावतीजी म सा
आदि ठाणा (5)

चातुर्मास स्थल - श्री व स्या जैन श्रावक सघ,
जैन स्थानक, नागदा जक्शन (म प्र)

सम्पर्क सूत्र - श्री मायाचन्दजी काठेड
मैसर्स - कृष्ण जिनिंग फैक्ट्री, नागदा जक्शन,
जिला - उज्जैन (म प्र) (वे रेल्वे)

41 फलोदी (राजस्थान)

विदुषी महासती श्री सुशीला कुवरजी म सा
आदि ठाणा (5)

चातुर्मास स्थल - धर्मवाग, आसवाल न्याति
नोहरा के पास, फलोदी (राज)

सम्पर्क सूत्र - श्री रतनलालजी शिखरचन्दजी वैद,
त्रिपोलिया बाजार के अन्दर, मु पो फलोदी
जिला - जोधपुर (राजस्थान) 342301

42. बड़ी सादड़ी (राजस्थान)
विदुषी महासती श्री निरंजना श्री जी म.सा.
आदि ठाणा (5)
चातुर्मास स्थल - समता भवन, राज पेलेस,
बड़ी सादड़ी (राज.)
सम्पर्क सूत्र - श्री राजमलजी कंठालिया,
महादेवजी की गली, गणेश मार्ग, बड़ी सादड़ी,
जिला - चित्तोडगढ (राजस्थान) 312403
फोन नं. 260 P.P
43. जामखेड़ (महाराष्ट्र)
विदुषी महासती श्री पारसकुंवरजी म.सा.
आदि ठाणा (6)
चातुर्मास स्थल - श्री व. स्था. जैन श्रावक संघ,
जैन स्थानक, जामखेड़
सम्पर्क सूत्र - श्री चान्दमलजी निहाल चन्दजी कटारिया,
लोहखण्ड के व्यापारी, मु.पो. जामखेड़,
जिला - अहमदनगर (महाराष्ट्र)
44. खामगांव (महाराष्ट्र)
विदुषी महासती तपस्वीनी श्री रंजना श्री जी म सा.
आदि ठाणा (5)
चातुर्मास स्थल - श्री व. स्था. जैन श्रावक संघ
जैन स्थानक खामगांव (महा.)
सम्पर्क सूत्र - श्री नवीन भाई कमानी
मैसर्स कमानी ब्रदर्स, मेन रोड, खामगांव
(महाराष्ट्र) 444303
45. भीम (राजस्थान)
विदुषी महासती श्री ललिता श्री जी म सा.
आदि ठाणा (7)
चातुर्मास स्थल - जैन स्थानक, भीम (राज.)
सम्पर्क सूत्र - श्री छगनलालजी गन्ना,
सदर बाजार, भीम जिला - राजसमन्द (राजस्थान)
46. आकोला (राजस्थान)
विदुषी महासती तपस्वीनीश्री विचक्षणाश्री जी म.सा.
आदि ठाणा (5)
चातुर्मास स्थल - श्री व. स्था. जैन श्रावक संघ,
जैन स्थानक, आकोला (राज)
सम्पर्क सूत्र - श्री मीठालालजी हींगड़,
मु.पो. आकोला जिला - चित्तोडगढ (राजस्थान)
47. रालेगांव (महाराष्ट्र)
तपस्वीनी विदुषी महासती श्री मंजुला श्री जी म.सा.
आदि ठाणा (4)
चातुर्मास स्थल - श्री व. स्था. जैन श्रावक संघ,
जैन स्थानक, रालेगांव (महाराष्ट्र)
सम्पर्क सूत्र - श्री मोतीलालजी गाधी,
मेन रोड, रालेगांव, जिला - यवतमाल
(महाराष्ट्र) 445402
48. उदयरामसर (राजस्थान)
विदुषी महासतीश्री सुदर्शना श्री जी म.सा.
आदि ठाणा (4)
चातुर्मास स्थल - समता भवन, उदयरामसर (राज.)
सम्पर्क सूत्र - श्री बंसीलालजी सिपाणी,
मु.पो. उदयरामसर, वाया एवं जिला - ब.प. (राजस्थान) फोन न 225
49. चांगुटोला (मध्यप्रदेश)
विदुषी महासती श्री मनोरमा श्री जी म सा
आदि ठाणा ()
चातुर्मास स्थल - श्री व. स्था. जैन श्रावक संघ,
जैन स्थानक, चांगुटोला (म.प्र.)
सम्पर्क सूत्र - श्री गेन्दमलजी जितेन्द्र कुमारजी जैन
मु.पो. चांगुटोला पोस्ट - नगरवाड़ा,
जिला - बालाघाट (मध्यप्रदेश) 481554
50. गंगापुर (मेवाड़) (राजस्थान)
विदुषी महासती श्री अरुणाश्री जी म.सा.
आदि ठाणा ()

चातुर्मास स्थल - साधुमार्गी जैन सघ, जैन स्थानक,
महावीर भवन, कुड चौक, गगापुर (मवाह) (राज)
सम्पर्क सूत्र - श्री सुन्दरलालजी सिधवी, सर्पाफ
सदर बाजार, गगापुर, जिला - भीलवाडा
(राजस्थान) 311801

51 मन्दसौर शहर (मध्यप्रदेश)

तरुण तपस्वीनी महासती श्री प्रवीण श्री जी म सा
आदि ठाणा (4)

चातुर्मास स्थल - जैन स्थानक, मन्दसौर शहर (म प्र)

सम्पर्क सूत्र - श्री सागरमलजी जैन,
C/o मैसर्स - जैन ब्रदर्स, बस स्टेण्ड, मन्दसौर
(मध्यप्रदेश) 458002

52 रुण्डेडा (राजस्थान)

विदुषी महासती श्री वसुमतिजी म सा

आदि ठाणा (3)

चातुर्मास स्थल - जैन स्थानक, रुण्डेडा (राजस्थान)

सम्पर्क सूत्र - श्री देवीलालजी बोहरा, C/o मैसर्स

देवीलाल गणपत लाल बोहरा,

मु पो रुण्डेडा वाया वल्लभनगर

जिला - उदयपुर (राजस्थान) 313606

53 नोखा मण्डी (राजस्थान)

विदुषी महासती श्री शारदा श्री जी म सा

आदि ठाणा (4)

चातुर्मास स्थल - जैन जवाहर भवन, जैन चौक,

नोखा मण्डी (राज)

सम्पर्क सूत्र - श्री उदयचन्द्रजी डागा

गाधी चौक, मु पो नोरवा मण्डी,

जिला - बीकानेर (राजस्थान) 334803

कुल चातुर्मास (53) मुनिपत्र (38) महासतियाँजी (259)

कुल ठाणा (297)

सत - सति तुलनात्मक तात्तिका 1993

| विषय | सन | सतियाँ | कुल ठाणा |
|--------------------------|----|--------|----------|
| 1992 में कुल ठाणा ये | 40 | 254 | 294 |
| नई दीक्षाएं हुई | 1 | 8 | 9 |
| | 41 | 262 | 303 |
| महाप्रयाण हुए | 1 | 3 | 4 |
| | 40 | 259 | 299 |
| स्य निष्कृति (अज्ञा बरा) | 2 | | 2 |
| | 38 | 259 | 297 |
| कुल योग | 38 | 259 | 297 |

1 नई दीक्षाएं हुई सत 1 महासतियाँजी 8 कुल 9

2 महाप्रयाण हुए - मुनि श्री अमरमुनिजी म सा एव

3 महासतियाँजी

सघ की जैन पत्र-पत्रिकाएं

- (1) श्रमणोपासक (हिन्दी - पाक्षिक) बीकानेर
- (2) समता युवा सन्देश (हिन्दी पाक्षिक) रतलाम

आज्ञा बाहर - (1) श्री महेन्द्र मुनिजी म सा 26 6 93

(2) श्री सुमति मुनिजी म सा 27 6 93

श्री महेन्द्र मुनिजी म सा को संघ से निष्क्रांतित किया गया और श्री सुमति मुनिजी म सा अपनी स्वेच्छा से श्री महेन्द्र मुनिजी म के साथ चले गये इस तरह दोनों सतोंको आचार्य श्री ने आज्ञा बाहर घोषित किया।

नोट - आचार्य श्री के प्रत्येक सोमवार को मौन रहनी है।

विशेष - साधुमार्गी समुदाय के आचार्य श्री नानालान ती म सा ने पाच मुनिपत्रोंको स्ववर प्रमुख एव सातन प्रभावक श्री इन्द्रचन्द्र म सा को सघ का सापण पद प्रदान किया है।

हु शि ऊ चौ श्री ज ग ना ना ।

राम चमकती भानु समाना ॥

नाना गुरु का यह सदेश ।

समता मय हो सारा देश ॥

| | | | |
|------------------------|----|--------------|-----|
| कुल चातुर्मास सतिकाँ | 12 | कुल मुनिपत्र | 38 |
| कुल चातुर्मास सतियाँके | 41 | कुल सतियाँका | 259 |
| कुल | 53 | | 297 |

श्री ज्ञान गच्छ संप्रदाय

ज्ञान गच्छाधिपति, तपस्वीराज, अखंड बाल ब्रह्मचारी, चारित्र चूडामणि, प्रखर वक्ता, उत्कृष्ट संयम साधना मूर्ति, पं. रत्न, आगमज्ञ, सरल स्वभावी, श्रमण निर्माता
श्री चंपालालजी म.सा. के आज्ञानुवर्ती संत-सतियोजी म.सा.

कुल चातुर्मास (62) मुनिराज (42) महासतीयोजी (283) कुल ठाणा (325)

मुनिराज समुदाय

1. भावी (राजस्थान)

ज्ञान गच्छाधिपति, तपस्वीराज, अखंड बाल ब्रह्मचारी, सरल स्वभावी, श्रमण निर्माता, चारित्र चूडामणि, प्रखर वक्ता, उत्कृष्ट संयम साधना मूर्ति, पं. रत्न, आगमज्ञ श्री चंपालालजी म.सा.

आदि ठाणा (4)

सम्पर्क सूत्र - श्री कनकमल जी तलेसरा

मु.पो. भावी जिला जोधपुर (राजस्थान)

(जोधपुर नागौर के समीप बसे उपलब्ध)

2. सनवाड़ (राजस्थान)

सेवाभावी श्री सौभाग्य मुनिजी म.सा. आदि ठाणा (3)

सम्पर्क सूत्र - श्री नरेश चन्दजी चपलौत

मु.पो. सनवाड़ जिला उदयपुर

(राजस्थान) 313206

3. पाली - मारवाड़ (राजस्थान)

1 विद्वदर्य श्री सागरमलजी म सा

2 श्रुतधर प. रत्न श्री प्रकाश चन्द्रजी म सा

आदि ठाणा (10)

सम्पर्क सूत्र - श्री भंवरलालजी सुराना अध्यक्ष

श्री व. स्था. जैन श्रावक संघ,

जैन स्थानक, शाहजी का चौक,

पाली - मारवाड़ (राजस्थान) 306401

4. जोधपुर-शास्त्रीनगर (राजस्थान)

पं रत्न श्री धेवर चन्दजी म.सा. "वीरपुत्र"

आदि ठाणा (5)

सम्पर्क सूत्र - श्री मन्त्री, श्री सुधर्म जैन श्रावक संघ

ए-209 शास्त्री नगर,

जोधपुर (राजस्थान) 342003

5. कोपरगांव (महाराष्ट्र)

मधुर व्याख्यानी श्री उत्तम मुनिजी म.सा.

आदि ठाणा (5)

सम्पर्क सूत्र - श्री मिश्री लालजी अमोलखचंदजी

सिंधी, (अध्यक्ष), मैसर्स कोठारी ब्रदर्स

मु पो. कोपरगांव, जिला अहमदनगर (महाराष्ट्र)

दुकान 2240, निवास 2452

6. बालोतरा (राजस्थान)

विद्वदर्य श्री तेज मुनिजी म सा.

आदि ठाणा (4)

चातुर्मास स्थळ - श्री व स्था. जैन श्रावक संघ,

जैन स्थानक, जूना कोट, मु.पो. बालोतरा

जिला बाड़मेर (राजस्थान) 344022

सम्पर्क सूत्र - श्री धनराजजी चौपडा मन्त्री

मुकन भवन, महावीर चौक, मु पो. बालोतरा

जिला बाड़मेर (राजस्थान) 344022

7. बड़ोत (उत्तर प्रदेश)

महात्माजी श्री जयन्ती मुनिजी म.सा. आदि ठाणा (6)

सम्पर्क सूत्र - श्री वर्धमान मेडिकल स्टोर

मु पो बडोत - 250611

जिला - मेरठ (उत्तर प्रदेश)

8 रामगज मंडी (राजस्थान)

विद्वद्वर्य जोगराजजी म सा आदि ठाणा (3)

सम्पर्क सूत्र - श्री लालचंदजी अमोलक चंदजी बोहरा,

मु पो रामगज मंडी - 326519

जिला - कोटा (राजस्थान)

9 नाथद्वारा (राजस्थान)

विद्वद्वर्य श्री अमृत मुनिजी म सा आदि ठाणा (2)

सम्पर्क सूत्र - श्री कन्हैयालालजी सुराणा

लाल बाजार, मु पो नाथद्वारा - 313301

जिला राजसमन्द (राजस्थान)

महासतीयोंकी समुदाय

10 देशनोक (राजस्थान)

वयोवृद्धा महासती श्री मगन कुवरजी म सा

आदि ठाणा (5)

सम्पर्क सूत्र - श्री भवरलालजी भूरा

मु पो देशनोक - 334801

जिला बिकानेर, राजस्थान

11 भावी (राजस्थान)

वयोवृद्धा महासती श्री भीकम कुवरजी म सा

आदि ठाणा (6)

सम्पर्क सूत्र - श्री कनकमलजी तलेसरा

मु पो भावी - 342605

जिला जोधपुर (राजस्थान)

12 नोखामंडी (राजस्थान)

विदुषी महासतीश्री प्रेमकुवरजी म सा आदि ठाणा (4)

सम्पर्क सूत्र - श्रीमान दीपचंदजी पावूदानजी पींचा

मु पो नोखामंडी 334803

जिला - बिकानेर (राजस्थान)

13 मयानियों (राजस्थान)

विदुषी महासतीश्री विनयकुंवरजी म सा

आदि ठाणा (4)

सम्पर्क सूत्र - श्री तिलोकचंदजी गिडीया,

बस स्टेण्ड के पास, मु पो मयानियों

मारवाड 342305 जिला जोधपुर (राजस्थान)

14 समदडी (राजस्थान)

विदुषी महासतीश्री चचल कुवरजी म सा

आदि ठाणा (4)

सम्पर्क सूत्र - श्री मुलतानमलजी भण्डारी

मु पो समदडी, जिला - बाडमेर

(राजस्थान) 344021

15 पचपदरा (राजस्थान)

विदुषी महासती श्री पुष्प कुवरजी म सा

आदि ठाणा (5)

सम्पर्क सूत्र - श्री सिरोमलजी चपालालजी - तादानी

लादानियों का मौरस्ता, मु पो पचपदरा सिटी

जिला - बाडमेर (राजस्थान) 344032 81247

16 बालेसर सत्ता (राजस्थान)

विदुषी महासतीश्री मदनकुवरजी म सा

आदि ठाणा (6)

सम्पर्क सूत्र - श्री भीकमचंदजी मुन्नालालजी साखला

मु पो बालेसर सत्ता - जिला - जोधपुर

(राजस्थान) 342023

17 सोईन्तरा (राजस्थान)

विदुषी महासती श्री उर्मिला कुवर जी म सा

आदि ठाणा (3)

सम्पर्क सूत्र - सा वहराजजी पारसमलजी छाजेड

मु पो सोईन्तरा 342022 जिला जोधपुर (राजस्थान)

18 बालोतरा (राजस्थान)

विदुषी महासतीश्री फूलवतीजी म सा आदि ठाणा (3)

- सम्पर्क सूत्र - श्री व. स्था. जैन श्रावक सघ
जुना-कोट, मु.पो. बालोतरा - 344022
जिला - बाड़मेर (राजस्थान)
19. पाली - मारवाड (राजस्थान)
विदुषी महासतीश्री महेन्द्र कुंवरजी म.सा.
विदुषी महासतीश्री श्री प्रेमलताजी म.सा.
आदि ठाणा (21)
सम्पर्क सूत्र - श्री भंवरलालजी सुराणा (अध्यक्ष)
जैन स्थानक भवन, शाहजीका चौक,
मु.पो. पाली - मारवाड - 306401 (राजस्थान)
20. जोधपुर शास्त्रीनगर (राजस्थान)
विदुषी महासतीश्री महेन्द्रकुंवरजी म.सा.
आदि ठाणा (7)
सम्पर्क सूत्र - श्री सुधर्म जैन श्रावक संघ
ए - 209, , शास्त्री नगर,
मु.पो. जोधपुर - 342003 (राजस्थान)
21. जोधपुर पावटा (राजस्थान)
विदुषी महासतीश्री निर्मलकुंवरजी म.सा.
आदि ठाणा (5)
सम्पर्क सूत्र - श्री लक्ष्मीचंदजी बोहरा,
सी - 89, धर्मनारायणजी का हत्था, पावटा,
मु.पो. जोधपुर - 342003 (राजस्थान)
22. जोधपुर शहर (राजस्थान)
सम्पर्क सूत्र - जैन ज्ञान भवन, कपड़ा बाजार,
रायपुर हाऊस, मु.पो. जोधपुर
342002 (राजस्थान)
23. जोधपुर - सरदारपुरा (राजस्थान)
विदुषी महासतीश्री लक्ष्मीकुंवरजी म.सा.
आदि ठाणा (5)
सम्पर्क सूत्र - उपरोक्त क्रमांक 11 के अनुसार
24. बावड़ी (राजस्थान)
विदुषी महासतीश्री अरुणाजी म सा
- सम्पर्क सूत्र - श्री चंचलचंदजी भण्डारी,
मु.पो. बावड़ी, जिला - जोधपुर (राजस्थान)
25. सालावास (राजस्थान)
विदुषी महासतीश्री स्नेहलताजी म.सा.
आदि ठाणा (6)
सम्पर्क सूत्र - श्री सुकनराजजी रतनलालजी कवाड़,
मु.पो. सालावास जिला - जोधपुर
(राजस्थान) 342804
26. गंगाशहर (राजस्थान)
विदुषी महासतीश्री मनोहरकुंवरजी म सा.
आदि ठाणा (7)
श्री धेवरचंदजी रामलालजी बोथरा
बोथरा चौक, नईलेन, मु.पो. गंगाशहर
334401 जिला - बीकानेर (राजस्थान)
27. सांचौर (राजस्थान)
विदुषी महासतीश्री कमलावतीजी म.सा.
आदि ठाणा (5)
सम्पर्क सूत्र - श्री हरखचंदजी डोसी,
मु.पो. सांचौर, 343041
जिला - जालौर (राजस्थान)
28. कुचेरा (राजस्थान)
विदुषी महासतीश्री कुमुदप्रभाजी म.सा.
आदि ठाणा (4)
सम्पर्क सूत्र - श्री व. स्था. जैन श्रावक सघ,
जैन स्थानक, कुचेरा-341024
जिला - नागौर (राजस्थान)
29. जालौर (राजस्थान)
विदुषी महासतीश्री शशीप्रभाजी म.सा.
आदि ठाणा (5)
सम्पर्क सूत्र - श्रीमान वक्तावरमलजी पारख,
खानपुरा मौहल्ला, मु.पो. जालौर
3443001 (राजस्थान)

- 50 अहमदाबाद - नवरगपुरा (गुजरात)
विदुषी महासतीश्री कमलेश कुवरजी म सा
आदि ठाणा (6)
सम्पर्क सूत्र - श्री स्थानकवासी जैन सघ, जैन उपाश्रय
अचिता फ्लेट के पास, ड्राईव इन रोड,
नवरगपुरा, अहमदाबाद (गुज) 360009
- 51 जामनगर - रणजीतनगर (गुजरात)
विदुषी महासती श्री लामुकुवरजी म सा
आदि ठाणा (5)
सम्पर्क सूत्र - श्री चपकलाल वी महता
दीपीन कुज, पार्सी अग्यारी के पीछे
जामनगर (गुज) 361001
- 52 बडोद (मध्यप्रदेश)
विदुषी महासती श्री अरविन्द कुवरजी म सा
आदि ठाणा (7)
सम्पर्क सूत्र - श्री दौलतरामजी मोदी, मन्त्री
मु पो बडोद जिला - शाजापुर (म प्र)
- 53 आगर - माल्वा (मध्यप्रदेश)
विदुषी महासतीश्री त्रिशला कुवरजी म सा
आदि ठाणा (5)
सम्पर्क सूत्र - श्री सुजानमलजी कटारिया, जरदा वाले,
मु पो आगर मालवा
जिला - शाजापुर (म प्र) 465441
- 54 डग (राजस्थान)
विदुषी महासती श्री रंजनप्रभाजी म साआदि ठाणा (4)
सम्पर्क सूत्र - श्री मांगीलातजी गुदेचा
C/o शांति न्यूज एजेन्सीज मु पो डग
जिला झालावाड (राजस्थान) 326514
- 55 आवर (राजस्थान)
विदुषी महासतीश्री सुमनकुवरजी म सा
आदि ठाणा (5)
सम्पर्क सूत्र - श्री सरदारमलजी चौथमलजी हूगरवाल
मु पो आवर जिला - झालावाड (राज) 326512
- 56 रायपुर (झालावाड) (राजस्थान)
विदुषी महासती श्री कमलावतीजी म सा
आदि ठाणा (5)
सम्पर्क सूत्र - श्री गुलाबचंदजी पूनम चंदजी धूपिया
मु पो रायपुर (झालावाड)
(राजस्थान) 326036
- 57 रावटी (मध्यप्रदेश)
विदुषी महासती श्री सूर्यप्रभाजी म सा आदि ठाणा (6)
सम्पर्क सूत्र - श्री सागरमलजी मेहता
मु पो रावटी जिला - रतलाम (म प्र)
- 58 पोटला - मेवाड (राजस्थान)
विदुषी महासती श्री आसकुवरजी म सा
आदि ठाणा (5)
सम्पर्क सूत्र - श्री व स्या जैन श्रावक सघ
मु पो पोटला तहसील - सराडा
जिला - भीलवाडा (राज) 311810
- 59 कुवारिया (राजस्थान)
विदुषी मरासती श्री महेन्द्र कुवरजी म सा
आदि ठाणा (3)
सम्पर्क सूत्र - श्री रोशन प्रकाशजी ओस्तवाल
मु पो कुवारिया जिला - राजसमद (राजस्थान)
- 60 काफरोली (राजस्थान)
विदुषी महासती श्री ताराकुवरजी म सा
आदि ठाणा(5)
सम्पर्क सूत्र - श्री बापूलालजी ओम्तवाल एडवोकेट
C/o केश, कालानी, कांफरोली
जिला राजसमद (राजस्थान) 313324
- 61 सिन्दु (राजस्थान)
विदुषी महासतीश्री शाताकुवरजी म सा
आदि ठाणा (4)
सम्पर्क सूत्र - श्री हरकचंदजी लाटा
मु पो सिन्दु जिला - उदयपुर (राज)

62. मंगलवाड़ (राजस्थान)

विदुषी महासती श्री सूरजकंवरना म सा.

आदि ठाणा (3)

सम्पर्क सूत्र - श्री नानालालजी सुजानमलजी पोखरजा

मु. पो मंगलवाड़ जिला - चितोड़गढ़

(राजस्थान)

| | | | |
|-----------------------|----|-----------|-----|
| कुल चातुर्मास संतोके | 9 | कुल संत | 42 |
| कुल चातुर्मास सतियोके | 53 | कुल सतियो | 283 |
| कुल | 62 | | 325 |

कुल चातुर्मास (62) मुनिराज (42)

महासतियोजी (283) कुल ठाणा (325)

संत सती तुलनात्मक तालिका 1993

| विवरण | मुनिराज | सतियो | कुल ठाणा |
|---------------------|---------|-------|----------|
| 1992 मे कुल ठाणा थे | 39 | 280 | 319 |
| (+) नई दीक्षाए हुई | 3 | 6 | 9 |
| | 42 | 286 | 328 |
| (-) महाप्रयाणहुए | - | 3 | 3 |
| | 42 | 283 | 325 |
| 1993 मे कुल ठाणा | 42 | 283 | 325 |

विशेष (1) इस ज्ञान गच्छ समुदाय में आचार्य पद प्राप्त करने का रिवाज नहीं है परंतु संघ के नायक गच्छाधिपति ही है जो एक तरह से आचार्य पद के समान ही है। ज्ञान गच्छ के संघ नायक गच्छाधिपति के रूप में तपस्वी राज श्री चंपालालजी म.सा. ही विद्यमान है।

(2) इस वर्ष तीन संत एवं छ सतियोजी की नई दीक्षाए हुई एवं तीन सतियोजी महाप्रयाण को प्राप्त हुई

श्री ज्ञान गच्छ समुदाय की जैन पत्र-पत्रिकाए :-

- (1) सम्यग् दर्शन (मासिक हिन्दी) ब्यावर (राज.)
- (2) सुधर्म प्रवचन (मासिक हिन्दी) जोधपुर (राज.)

जैन विश्व रिकार्डस

जयपुर (राजस्थान) निवास

श्रीमति इचरज वाई लुणावल सम्पूर्ण

जैन समाज में वर्तमान में एक मात्र ऐसी

श्राविका है जिन्होंने सर्वाधिक 165

दिनों की उग्र तपस्या पूर्ण की है।

(जैन रिकार्डस डायरेक्ट्री से साभार)

सूचना

बूंद-बूंद से तालाव भरता है, उसी प्रकार आपकी छोटी-छोटी जानकारियाँ, जैसे दीक्षोत्सव, पट्टोत्सव, जयन्तियाँ, तपोत्सव, अंजनशाला, प्रतिष्ठाएँ, विहार समाचार, चातुर्मास की जानकारियाँ आदि समाचारों से यह पुस्तक तैयार हो जाती है। आप जिस प्रकार सभी मंदिरों, उपाश्रयों, देरासरो, श्री सघों को अपने महोत्सव की पत्रिकाएँ उन्हें भेजते हैं उसी तरह की पत्रिकाएँ इस परिषद् को भी भिजवाने की कृपा करावे। यह परिषद् भी समग्र जैन समाज की आपकी अपनी ही एकमात्र अद्वितीय संस्था है।

- चातुर्मास स्थल - श्री जैन रत्न हितेपी श्रावक सघ
घोडो का चौक, जोधपुर (राज) 342001
- सम्पर्क सूत्र - श्री अनराजजी बोधरा मंत्री
श्री जैन रत्न हितेपी श्रावक सघ
घोडो का चौक, जोधपुर-342001 (राज)
फोन कार्यालय - 24891 निवास 22123
तार - "जैन रत्न" जोधपुर
- 5 बाहमेर (राजस्थान)
साल हृदया महासती श्री सायर कुवरजी म सा
आदि ठाणा (3)
चातुर्मास स्थल - श्री व स्या जैन श्रावक सघ
महावीर भवन, तेलीयो की गली,
बाहमेर (राजस्थान) 344001
सम्पर्क सूत्र - श्री सुमेरजी सोलकी मंत्री
श्री व स्या जैन श्रावक सघ
167 अग्रवाल मोहल्ला, बाहमेर (राज) 344001
- 6 कानपुर (उत्तर प्रदेश)
1 शासन प्रभाविका विदुषी महासती
श्री मैना सुन्दरीजी म सा
2 व्याख्यात्री महासती श्री रतन कुवरजी म सा
आदि ठाणा (8)
चातुर्मास स्थल - 33 झणकार सदन, आनन्दपुरी
कानपुर - 208001 (उ प्र)
☎ 27 46 89
सम्पर्क सूत्र - श्री लुणकरणजी लोढा मंत्री
मैसर्स विकास उद्योग, 24 ए, धनस्याम बाग
ओमपुरवा, कानपुर - 208007 (उ प्र)
☎ प्रतिष्ठान-43338 42469 निवास 274015
(कानपुर सेट्रल रेल्वे स्टेशन से आनन्दपुरी जैन स्थानक 3
KM दूर है सिटी वसे आटोरिक्शा उपलब्ध)
- 7 जावला (राजस्थान)
सेवाभावी महासती श्री सतोष कुवरजी म सा
आदि ठाणा (5)
चातुर्मास स्थल - श्री व स्या जैन श्रावक सघ
जैन स्थानक मु पो जावला वाया डेगाना
जिला नागौर (राज) 341534
सम्पर्क सूत्र - श्री सोहनलालजी बरमेचा
मु पो-जावला वाया डेगाना
जिला नागौर (राजस्थान) 341534
- 8 सरवाड (राजस्थान)
शान्त स्वभावी महासती श्री शांति कुवरजी म सा
आदि ठाणा (4)
चातुर्मास स्थल - श्री व स्या जैन श्रावक सघ
जैन स्थानक मु पो सरवाड
जिला अजमेर (राजस्थान)
सम्पर्क सूत्र - श्री भवरलालजी कक्कड मंत्री
श्री व स्या जैन श्रावक सघ
मु पो सरवाड जिला अजमेर (राज)
फोन न 253
- 9 गगापुर सिटी (राजस्थान)
व्याख्यात्री महासती श्री तेज कुंवरजी म सा
आदि ठाणा (3)
चातुर्मास स्थल - जैन स्थानक
मु पो गगापुर सिटी जिला सर्वाई माधोपुर
(राज-) 322201 (वे रे)
सम्पर्क सूत्र - श्री रेवती प्रसादजी जैन
फक्वारा चौक, गगापुर सिटी
जिला सर्वाई माधोपुर (राज) 322201 (WR)
- 10 मसूदा (राजस्थान)
विदुषी महासती श्री सुशीला कुवरजी म सा
आदि ठाणा (5)
चातुर्मास स्थल - श्री व स्या जैन श्रावक सघ
मु पो मसूदा जिला अजमेर (राज) 305623
सम्पर्क सूत्र - श्री गजराजजी नाहर अध्यक्ष
श्री व स्या जैन श्रावक सघ, जैन स्थानक

मु पो मसूदा जिला अजमेर (राज) 305623
फोन प्रतिष्ठान - 84238 निवास 84219

| | | | |
|---------------------------|----|--------------|----|
| कुल चातुर्मास मुनिराजो के | 3 | कुल मुनिराज | 12 |
| कुल चातुर्मास सतियो के | 7 | कुल सतियाँजी | 34 |
| कुल | 10 | कुल | 46 |

कुल चातुर्मास (10) संत (12) सतियाँजी (34)
कुल ठाणा (46)

संत-सती तुलनात्मक तालिका 1993

| विवरण | मुनिराज | सतियाँ | कुल ठाणा |
|---------------------|---------|--------|----------|
| 1992 मे कुल ठाणा थे | 13 | 34 | 47 |
| (+) नई दीक्षा हुई | - | - | - |
| 13 | 34 | 47 | |
| (-) महाप्रयाण हुऐ | - | - | - |
| 13 | 34 | 47 | |
| (-) संयम त्याग किया | 1 | - | 1 |
| 12 | 34 | 46 | |
| 1993 मे कुल ठाणा है | 12 | 34 | 46 |

नोट-(1) संयम जीवन त्याग किया-सेवाभावी
श्री हरिशमुनिजी म.सा. गोटन के आस पास
दिनांक 8-11-92

(2) नई दीक्षा एवं महाप्रयाण कुछ नही

संघ पत्र-पत्रिकाएँ

- (1) जिनवाणी-(हिन्दी-मासिक) जयपुर (राज.)
- (2) स्वाध्याय सघ-मासिक बुलेटिन (हिन्दी-मासिक)
जोधपुर (राज.)
- (3) स्वाध्याय शिक्षा (हिन्दी द्विमासिक) जोधपुर (राज)

गुरु हस्ती के दो फरमान।
सामायिक-स्वाध्याय महान।।

सभी पूज्य आचार्यों
साधु-साधियों को वन्दन

हार्दिक शुभकामनाओं सहित

Tel 3444570/3435221

PANAMA STORES

Mfgs & Dealers In:
All Kinds of Ladies & Gents
Money Purses, Hand Bags, Air
Bags, File Cases & Air Pillows
and Compliments Articles ect.

196, Janjekar street,
Bombay - 400 003



शुभेच्छुक :

गांगजी भाई शाह

(सामखियारी-कच्छ) बम्बई

सभी पूज्य आचार्यों, संत-सतियो को कोटि-कोटि वन्दन
 हार्दिक शुभकामनाओं सहित-



फाल ऑफिस-4226375/4363071
 निवाम-4301376/4363072

पेगोडा प्लास्टिक्स

मैन्युफेक्चर्स—प्लास्टिक पी वी सी फाइलें, ऑफिस फाइलें, डायरी कवर्स, मनी पर्स,
 वीडियो कैसेट कवर, विजिटिंग कार्ड, फाइलें, एलबम फाइलें, पुस्तको के प्लास्टिक
 कवर्स, प्लास्टिक हेड (टोपियाँ), कैसेट एलबम, कवर एव
 अन्य उपहार की प्लास्टिक वस्तुएँ

204, जय गोपाल इन्स्ट्रियल इस्टेट, 2 माला, भवानी शंकर फ्रॉन्ट रोड,
 कोहिनूर टेंबनीकल के पास, दादर (वेस्ट), बम्बई-400 028 (महाराष्ट्र)

शुभेच्छुक

बाबूभाई लुंभाभाई गड्डा
 (साकडिया-कच्छ) बम्बई

5

श्री जयमल सम्प्रदाय

श्री मज्जैनाचार्य श्री जय मल जी म.सा. की समुदाय के आगम व्याख्याता
स्व. आचार्य प्रवर श्री लाल चंदजी म.सा. के पट्टधर वर्तमान जय
गच्छाधिपति प्रशान्त चेता आचार्य कल्प श्री शुभचन्द्रजी म.सा.

क आज्ञानुवर्ती संत सतियोजी म.सा.

कुल चातुर्मास (12) सत (7) महासतियोजी (36) कुल ठाणा (43)

मुनिराज समुदाय

1. नागौर (राजस्थान)
 1. जय गच्छाधिपति स्वामी प्रवर प्रशांतचेता
पं.रत्न आचार्य कल्प श्री शुभचन्द्रजी म. सा.
 - 2 आगम विवेचक श्री पार्श्वचन्द्रजी म. सा
 - 3 युवामनिषी डॉ पदममुनिजी म सा M A Phd
आदि ठाणा (3)
सम्पर्क सूत्र- श्री जयमल जैन पोषधशाला
सिंघवीयो की पोल के पास
मु. पो. नागौर - 341001 (राजस्थान)
2. विजयनगर (राजस्थान)
कर्मठ अध्यवसाय श्री गुणवन्त मुनिजी म सा
आदि ठाणा (2)
सम्पर्क सूत्र - श्री वर्धमान स्था जैन श्रावक संघ,
जैन स्थानक मु. पो. विजयनगर
जिला-अजमेर (राज.) 305624
3. केकड़ी (राजस्थान)
मधुर गायक श्री भद्रेश मुनिजी म सा.
आदि ठाणा (2)
सम्पर्क सूत्र - श्री वर्धमान स्था जैन श्रावक संघ
C/o.श्री जवाहरलालजी दीपचन्द्रजी नाहटा
मु. पो केकड़ी, जिला - अजमेर
(राज.) 305404

महासतियोजी समुदाय

4. पीपाड़ शहर (राज.)
वयोवृद्ध महासती श्री नन्द कुंवरजी म सा.
आदि ठाणा (4)
सम्पर्क सूत्र - श्री जयमल जैन श्रावक संघ
C/o श्री मांगीलालजी चौपडा
मु. पो. पीपाड़ शहर
जिला - जोधपुर (राज) 342601
5. ब्यावर (राजस्थान)
विदुषी महासती श्री सुगन कुंवरजी म सा. (सकारण)
आदि ठाणा (8)
सम्पर्क सूत्र - श्री जयमल जैन श्रावक संघ
C/o श्री श्रुताचार्य चौथ स्मृति भवन
39, विनोद नगर, ब्यावर
जिला - अजमेर (राज) 305902
6. नागौर (राजस्थान)
वयोवृद्ध महासती श्री पतास कुंवरजी म सा
(सकारण) आदि ठाणा ()
सम्पर्क सूत्र - श्री तेजराजजी तातेड
लोढे का चौक
मु. पो. नागौर (राज.) 341001
7. महामन्दिर जोधपुर (राजस्थान)
पंजाब सिंहनी विदुषी महासती श्री शारदा कुंवर
म. सा. आदि ठाणा ()

सम्पर्क सूत्र - श्री सुजानमलजी धारीवाल
धारीवालो का वास, मु पो मरामन्दिर
जोधपुर (राज) 342001

8 व्यावर (राजस्थान)

वयोवृद्ध महासती श्री अकल कुंवरजी म सा
(सकारण) आदि ठाणा (3)

सम्पर्क सूत्र - श्री हमीरमलजी दलीचन्दजी जैन
महावीर बाजार, मु पो व्यावर
जिला-अजमेरा (राज) 305902

9 जोधपुर (राजस्थान)

विदुषी महासती श्री शांति कुंवरजी म सा
आदि ठाणा (3)

सम्पर्क सूत्र - श्री चम्पातालजी बागरेचा
उपरतावास जोधपुर (राज) 342001

10 जायपुर (राजस्थान)

विदुषी महासती श्री शीलप्रभाजी म सा
आदि ठाणा (4)

सम्पर्क सूत्र - श्री जयमल जैन श्रावक सघ
C/o श्री चम्पातालजी बागरेचा
उपरतावास जोधपुर (राज) 342001
चातुर्मास स्थल - हुडका कालोनी,
कमला नेहरु नगर, जायपुर (राज)

11 सापीन (राजस्थान)

वयोवृद्ध महासती श्री दरियाव कुंवरजी म सा सकारण
आदि ठाणा (2)

सम्पर्क सूत्र - श्री जयमल जैन श्रावक सघ
C/o श्री पारसमलजी मुधा मु पो सापीन
वाया पीपाठ सिटी, जिला - जोधपुर (राज)

12 सोजत रोड (राजस्थान)

वयोवृद्ध महासती श्री धांपू कुंवरजी म सा (सकारण)
आदि ठाणा (1)

सम्पर्क सूत्र - श्री गोरोमलजी जतवन्नाराजजी कठारिया
मु पो सोजतराड, जिला - पाली
(राज -) 306103

| | | |
|------------------------|-------------|------|
| कुल चातुर्मास सता के | 3 कुल सत | 7 |
| कुल चातुर्मास सतियो के | 9 कुल सतिया | 36 |
| कुल | (12) कुल | (43) |

कुल चातुर्मास (12) सत (7) मरासतियाजी (36)
कुल ठाणा (43)

सत-सती तुलनात्मक तालिका 1993

| वियरा | सत | सतीयाजी | कुल ध्य |
|---------------------|----|---------|---------|
| 1992 म कुल ठाणा थे | 6 | 34 | 40 |
| (+) नई दीक्षाए हुईं | 1 | 2 | 3 |
| | 7 | 36 | 43 |
| (-) मराप्रयाग हुए | | - | |
| | 7 | 36 | 43 |
| 1993 मे कुल ठाणा है | 7 | 36 | 43 |

जैन पत्र-पत्रिकाये - स्वाध्याय संगम (मासिक-हिन्दी) जोधपुर
भारत का एक मात्र जैन कलेण्डर - पद्मोदय जैन कलेडर
(हिन्दी) जोधपुर

ताल गुरु का यह सन्देश।
आगम का हो स्वाध्याय हमेशा।।

जैन विश्व रिकार्डस
सम्पूर्ण भारत मे मध्य प्रदेश ही
एक मात्र ऐसा राज्य है जहाँ पर गौ
वश पर पूर्व प्रतिवध लगत हुआ है।
(जैन रिकार्डस डायरेक्ट्री से सामार)

6

श्री नानक सम्प्रदाय के स्व. श्री पन्नालालजी, म.सा. के सुशिष्य स्वाध्याय शिरोमणी आसुकवि, मरुधर छबि, मधुर प्रवक्ता पं. रत्न. आचार्य श्री सोहनलालजी म.सा. के आज्ञानुवर्ती संत-सतियोंजी,

कुल चातुर्मास (4) संत (6) महासतियोंजी (11) कुल ठाणा (17)

मुनिराज समुदाय

1. अजमेर (राजस्थान)

1. स्वाध्याय शिरोमणि, आसु कवि. मरुधर छबि, मधुर प्रवक्ता पं. रत्न. आचार्य श्री सोहनलालजी म.सा.

2 प्रवचन प्रभाकर श्री वल्लभ मुनिजी म.सा आदि ठाणा (6)

सम्पर्क सूत्र - श्री व. स्था. जैन श्रावक संघ महावीर भवन, पडाल, लाखन कोटड़ी

अजमेर-305001 (राजस्थान), फोन-मत्री 30509

महासतियोंजी समुदाय

2. विजयनगर (राजस्थान)

1 साध्वी प्रमुखा वयोवृद्धा महासती श्री जयवंतकुवरजी म सा

2 विदुषी महासती डॉ कमला कुवरजी म.सा M A Phd आदि ठाणा (4)

सम्पर्क सूत्र - श्री गुलाबचंदजी लुणावत अध्यक्ष श्री व. स्था. जैन श्रावक संघ, विजयनगर, सदर बाजार, विजयनगर - 305624 जिला - अजमेर (राजस्थान)

3. बडू (नागौर) राजस्थान

वयोवृद्धा महासती श्री घेवर कुंवरजी म.सा आदि ठाणा (2)

सम्पर्क सूत्र - श्री केशरीमलजी जैन मु.पो. बंडू जिला नागौर (राजस्थान)

4. अजमेर (राजस्थान)

1. मधुर व्याख्यात्री रत्नत्रयी महासती डॉ. ज्ञानलताजी म.सा. M A Phd

2 विदुषी महासती डॉ. दर्शन लताजी म.सा M A Phd.

3 विदुषी महासती डॉ. चरित्र

लताजी म.सा. M A Phd.

आदि ठाणा (5)

सम्पर्क सूत्र - श्री व. स्था. जैन श्रावक संघ, महावीर भवन, लाखन कोटड़ी,

अजमेर-305001 (राजस्थान), फोन-मत्री 30509

| | | | |
|-------------------------|---|--------------|----|
| कुल चातुर्मास संतो के | 1 | कुल संत | 6 |
| कुल चातुर्मास सतियों के | 3 | कुल सतियोंजी | 11 |
| कुल | 4 | | 17 |

कुल चातुर्मास (4) संत (6) सतियोंजी (11) कुल ठाणा (17)

संत - सती तुलनात्मक तालिका 1992 अनुसार

नई दीक्षा महाप्रयाण - नहीं

जैन पत्र - पत्रिकाएँ - स्वाध्याय सन्देश (मासिक - हिन्दी) गुलाबपुरा (राज.)

नोट इस समुदाय मे एक ही सिघाडे मे तीन साध्वी एम.ए.पी एच.डी डिग्री प्राप्त किये हुऐ है।

2 स्वाध्याय संघ गुलाबपुरा एक मात्र ऐसा संघ है जिसने सर्व प्रथम वार युवण स्वाध्यायियोंको भेजनेका कार्य प्रारंभ किया और वर्तमान मे भी चालू है।

3 प्रवर्तक श्री सोहनलालजी म.सा. को 25-7-को अजमेर मे आचार्य पद प्रदान किया गया है

जय महावीर

जय अन्नरामर

शासन प्रभावव, जिन शासन चंद्रमा, मधुरवक्ता प रत्न श्री भाववद्रजी म मा आदि ठाणाया (6) वा
 माटकोपरस्वाध्याय सप-बम्बई मे एव सुलेखन, मधुर वक्ता प रत्न श्री भास्वरमुर्जिजी म मा आदि
 ठाणाया (4) वा नगर सेठ वा वहा अहमदाबाद मे मन् 1993 वष वा चातुर्मास सात
 मफल एव ऐतिहासिक मयस्वी बनन की मगत वामनाएँ वरते हुए—

हादिक शुभकामनाओं सहित

टेली ऑफिस- 4113521, 4114211
 निवास- 5131677

LUCKY TIMBER MART

SULLY MANZIL, SHOP No 5-6
 208, Dr Ambedkar, Road, Near CHITRA CINEMA,
 DADAR (EAST)
 BOMBAY-400 014 (India)

—शुभेच्छुक—

शांतीभाई लालजीभाई फारोज़ा
 बम्बई



पूज्यपाद चारित्र चूडामणि व्याख्यान वाचस्पति नवयुग सुधारक,
स्व. श्री. मदन लालजी म.सा. के सुशिष्य शासन प्रभावक,
प्रसिद्ध वक्ता, संघ नायक, नवयुवक धर्म प्रेरक, महामहिम,
पं. रत्न श्री सुदर्शन लालजी म.सा. के आज्ञानुवर्ती मुनिराज

कुल चातुर्मास (6) मुनिराज (25) कुल ठाणा (25)

मुनिराज समुदाय

1. त्री-नगर - दिल्ली
1. शासन प्रभावक, प्रसिद्ध वक्ता, संघ नायक, नवयुवक, धर्म प्रेरक, व्याख्यान वाचस्पति, सामायिक प्रेरक, पं. रत्न महामहिम श्री सुदर्शनलालजी म.सा.
2. शान्तमूर्ति श्री शान्ति मुनिजी म सा
3. विद्वद्रत्न ओजस्वी वक्ता श्री जय मुनिजी म सा
आदि ठाणा (7)

सम्पर्क सूत्र - श्री एस. एस. जैन सभा,
तालाव के उपर, कम्युनिटी सेटर के पास,
त्रीनगर - दिल्ली - 110035

नोट - श्री सुदर्शनलालजी म सा के हर सोमवार को मौन रहती है।

2. रायकोट (पंजाब)
 1. प्रज्ञामहर्षि, प्रशान्त आत्मा सेठ श्री प्रकाश चन्द्रजी म.सा. (प्रथम)
 2. आगम ज्ञान रत्नाकर पं. रत्न श्री राम प्रसादजी म सा.
आदि ठाणा (4)

सम्पर्क सूत्र - श्री एस. एस. जैन सभा
रायकोट, जिला लुधियाना (पंजाब) 141109

3. गांधीनगर - दिल्ली
ओजस्वी वक्ता श्री प्रकाश मुनिजी म सा. (द्वितीय)
आदि ठाणा (4)

सम्पर्क सूत्र - श्री एस. एस. जैन सभा,
6367, नेताजी की गल्ली, गांधी नगर,
दिल्ली - 110031

4. जाखल मंडी एवं मूनक (हरियाणा-पंजाब) (संयुक्त)
 1. महाप्रभावी, ओजस्वी वक्ता, श्री ५५५५ म सा 'शास्त्री'
 2. विद्वदर्य श्री राकेश मुनिजी म.सा 'शास्त्री'
आदि ठाणा (4)

सम्पर्क सूत्र - (1) प्रथम अर्ध चातुर्मास
- जाखलमंडी (हरियाणा)
श्री एस एस. जैन सभा, मु.पो. जाखल मंडी,
जिला - हिसार (हरियाणा) 126001

(२) द्वितीय अन्तिम अर्ध चातुर्मास
मूनक (पंजाब) श्री एस एस जैन सभा
मु पो. मूनक जिला संगरूर (पंजाब)

नोट - मुनिश्रीका जाखलमंडी एव मूनक इन स्थानो पर संयुक्त चातुर्मास है दोनो स्थानो मे ४ का अन्तर है पहले आधा चातुर्मास जाखल मंडी हिसार हरियाणा मे एव फिर शेष चातुर्मास मूनक सगरूर पंजाब मे होगा दोनो जगह का सम्पर्क उपर्युक्त है।

5 शमली (उत्तर प्रदेश)

विनयमूर्ति पं रत्न श्री विनय मुनिजी म सा

आदि षा (3)

सम्पर्क सूत्र - श्री एस एस जैन सभा,

शूगर मिल रोड, मु पो शमली जिला मुजफ्फर नगर
(उत्तर प्रदेश)

6 पानीपत (हरियाणा)

मनोहर व्याख्यानी श्री नरेश मुनिजी म सा

आदि षा (3)

सम्पर्क सूत्र - श्री एस एस जैन सभा,

महावीर भवन, अट्वाल मधी, रेल्वे स्टेशन

के सामने, पानीपत (हरियाणा) 132103

ही हैं, इस समुदाय में न तो कोई साध्वियाँ हैं और न ही किसी साध्वी को दीक्षा प्रदान की जाती है इसलिये तानिका में केवल मुनिराजों का ही उल्लेख किया गया है।

(2) सम्पूर्ण जैन समाज में एक मात्र ऐसी समुदाय जिसमें सघनायक एवं सभी 25 मुनिराज वान-द्वंद्वचारी है जो सम्पूर्ण जैन समाज में एक रिकार्ड है।

(3) शासन प्रभावक प्रतिद्वंद्व वक्ता श्री सुदर्शनलालजी म सा के हर सोमवार को मौन रहती है।

(4) सम्पूर्ण जैन समाज में इस वर्ष यह एक मात्र प्रथम अवसर है जब किसी सत-सतियो का दो क्षेत्रों में बराबर का आधा आधा समय का दो शहरों में संयुक्त चातुर्मास हो। चातुर्मास काल के अर्ध समय में एक श्री संघ से दूसरे श्री संघ में चातुर्मास करने पधारेंगे। दोनों की दूरी 4 KM है।

कुन चातुर्मास (6) मुनिराज (25) कुल षाणा (25)

सत सति तुननात्मक तातिका 1992 अनुसार

नई दीक्षा एव महाप्रयाण - नहीं

नोट (1) भारतवर्ष के सम्पूर्ण जैन समाज में यही एक मात्र ऐसी समुदाय है, जहाँ समुदाय में केवल मुनिराज

॥ जय महावीर ॥

जैनाचार्य अजरामरजी विद्याधाम

अजरामरजी चौक, होस्पिटल रोड, P O भूज (कच्छ) 370001 दि(भुज, इतिहास स्कूल दन्ने सजातित

उपगणना सस्थान की विक्रामयात्र की मंगल कामना करते हुए

B D S

डॉ. हिम्मतभाई मोरवीआ

B D S

DENTAL SURGEON

Member D 1 Panchayat Kutch

Hon Jt Secretary St John Ambulance Association Gujarat State Branch

Hon Dental Kutch Port Hospital

Hon Secretary Kutch District Council

Kutch

The President St John Ambulance Association Kutch

॥ जय अजरामर ॥

Res: 1375

Clinic C/o 1051

Maharali Chowk,

Wariawad

BHUJ 370001

President Kutch Tabibi Mandal


Hon Secretary The Bhuj Eng'g School Trust

BHUJ

Hon Secretary Maharaja Boarding Bhuj

Addr: G.P. Gun Hospital Bhuj





श्री धर्मदास सम्प्रदाय

प्रमुख पूज्यपाद प्रवर्तक श्री उमेश मुनिजी म.सा. के आज्ञानुवर्ती
स्व. घोर तपस्वी रत्न, आदर्श त्यागी, पं.रत्न, श्री लालचंदजी म.सा.
के गण के संत-सतियोंजी वर्तमान में संघके प्रमुख संत-तरुण तपस्वी
पं. रत्न श्री मान मुनिजी म.सा.

कुल चातुर्मास (8) संत (5) महासतियोंजी (22) कुल ठाणा (27)

मुनिराज समुदाय

1. राजकोट (कालावड रोड) (गुजरात)
तरुण तपस्वी पं. रत्न श्री मान मुनिजी म.सा.
आदि ठाणा (2)
सम्पर्क सूत्र - श्री सुधीर जी उत्तमचंदजी ठोलिया
राजकोट (गुजरात) 360001
2. बड़वाह (मध्यप्रदेश)
मधुरवक्ता पं. रत्न श्री कानमुनिजी म.सा.
आदि ठाणा (3)
सम्पर्क सूत्र - श्री केशरीमलजी बोहरा
महेश्वर रोड, मु.पो. बड़वाह
तहसील निमाड जिला खरगौन (मध्यप्रदेश)

महासतियोंजी समुदाय

3. बदनावर (धार) (मध्यप्रदेश)
विदुषी महासती श्री मैना कुंवरजी म.सा.
आदि ठाणा (4)
सम्पर्क सूत्र - श्री समरथमलजी नाहर
मु.पो. बदनावर जिला धार (म.प्र.)
फोन नं. 2040
4. इन्दौर - स्नेहलतागंज (मध्यप्रदेश)
विदुषी महासती श्री कौसल्या कुंवरजी म.सा.
आदि ठाणा (4)

सम्पर्क सूत्र - श्री गुजराती स्थानकवासी जैन संघ,
जैन भवन, पत्थर गौदाम, 16/4 स्नेहलतागंज,
इन्दौर - 452003 (मध्यप्रदेश) फोन 7654

5. इन्दौर - महावीर नगर (मध्यप्रदेश)
विदुषी महासती श्री सुशीला कुंवरजी म.सा.
आदि ठाणा (3)
सम्पर्क सूत्र -

6. चेला (जामनगर) (गुजरात)
विदुषी महासती श्री कचन कुंवरजी म.सा.
आदि ठाणा (5)
सम्पर्क सूत्र - श्री लालजी लखमशी सावला
मु.पो. चेला जिला जामनगर
(गुजरात) 361012

7. पेटलावद (मध्यप्रदेश)
विदुषी महासती श्री जया कुंवरजी म.सा.
आदि ठाणा (3)
सम्पर्क सूत्र - श्री शेतानमलजी मोदी, झंडा बाजार,
मु.पो. पेटलावद जिला झाबुआ (म.प्र.)

8. कुशलगढ़ (राजस्थान)
विदुषी महासती श्री रंजना कुंवरजी म.सा.
आदि ठाणा (3)
सम्पर्क सूत्र - श्री व.स्था. जैन श्रावक सघ,
जैन स्थानक मु.पो. कुशलगढ़, जिला बासवाडा (राज.)

| | | | |
|--|---|--------------|----|
| कुल चातुर्मास सतोंके | 2 | कुल सत | 5 |
| कुल चातुर्मास सतियोंके | 6 | कुल सतियोंजी | 22 |
| कुल | 8 | | 27 |
| कुल चातुर्मास (8) सतियोंजी (22) कुल ठाणा (27) | | | |

सत-सती तुलनात्मक तालिका 1993

| विवरण | सत | सतियों | कुल ठाणा |
|----------------------|----|--------|----------|
| 1992 में कुल ठाणा थे | 5 | 21 | 26 |
| (+) नई दीक्षा हुई | | 1 | 1 |
| | 5 | 22 | 27 |
| (-) महाप्रयाग हुए | - | - | - |
| | 5 | 22 | 27 |
| 1993 मा कुल ठाणाओं | 5 | 22 | 27 |

नोट (1) यह समुदाय श्रमण सघ में नहीं है परन्तु स्थानकवासी श्री धर्मदासजी समुदाय के श्रमण सघीय प्रवर्तक श्री चमेश मुनिजी म सा से ही हमेशा चातुर्मास की आज्ञा मगवाते रहते हैं। इसलिए प्रवर्तकश्री जी का नाम आज्ञा के रूप में दिया गया है।

(2) इस समुदाय की जो सूची प्राप्त हुई उसमें सम्पर्क सूत्र सम्मिलित नहीं था हमने यहाँ जो सम्पर्क सूत्र दिया है वह गत वर्ष की सूचियों के आधार पर ही दिये हैं पाठक गण सुधारकर पढ़ें।

(3) जैन पत्र पत्रिकाएँ - नहीं

॥ जय महावीर ॥

॥ जय अजरामर ॥

अजरामर-सघ नायक की स्तुति
अजरामर जीवन-ध्येय बनो, मुनि-पुण्य प्रेरक प्राण बनो।
अम अतरदेव विद्यायक हो, अजरामर-सघ सुनायक हो ॥
ॐ चित्तमुनि

With Best Compliments From

देली न ऑफिस 23061 24669 निवास 24323

DEEP COTTEN CO.

Proprietor JITENDRA M SHAH

108, Mehta Chambers, Mehta Market, Surendra Nagar 363001 (Gujarat)

CHANDRAPRABHU TRADING CO.

Surendra Nagar (Gujarat)


Sister Concern

फोन आफिस 26 निवास 227

शाह मनसुखलाल मोहनलाल, बाजार में, मु पो सियाणी तालूका लिम्बडी, जिला सुरेन्द्रनगर (गुजरात)

शुभेच्छुक

जितेन्द्र मनसुखलाल शाह (सियाणी वाले), सुरेन्द्रनगर



श्री सन्मति तीर्थ संघ

प्रज्ञा महर्षि महामनिषी राष्ट्र संत कवि, जैन धर्म प्रचारक,
पं. रत्न उपाध्याय स्व. श्री अमर मुनिजी म.सा. एवं विश्वकेशरी आचार्य
श्री विमल मुनिजी म.सा. के सन्मति तीर्थ के प्रगति शील साधु-साध्वीयोंजी

कुल चातुर्मास (6) संत (10) महासतीयोंजी (10) कुल ठाणा (20)

साधु समुदाय

1. कलकत्ता (प. बंगाल)

विश्व केशरी सन्मति तीर्थ संघ के नायक आचार्य
श्री विमल मुनिजी म.सा.

आदि ठाणा (3)

सम्पर्क सूत्र - Shri Kamani Jain Bhuvan,
3-C, Roy Street, Bhavanipur
Calcutta - 700020 (W B)

2. आगरा (उत्तर प्रदेश)

प रत्न श्री विजय मुनिजी म.सा 'शास्त्री'

आदि ठाणा (2)

सम्पर्क सूत्र - श्री जैन भवन, मोती कटरा,
आगरा - 282003 (उत्तर प्रदेश)

3. उदयपुर (राजस्थान)

वाणी भूषण श्री ईश्वर मुनिजी म सा

आदि ठाणा (2)

सम्पर्क सूत्र - श्री वर्धमान श्वेताम्बर स्थानकवासी जैन स्थान

1 र 1 डूगला हाउस, हिरणमगरी, सेक्टर न 5,

गायत्री नगर, उदयपुर - 313001 (राजस्थान)

फोन न (0294)

83069 चातुर्मास स्थल

83034 अध्यक्ष

4. वाराणसी (उत्तर प्रदेश)

प. रत्न श्री जिनेश मुनिजी म.सा 'शास्त्री'

आदि ठाणा (2)

सम्पर्क सूत्र - श्री श्वेताम्बर स्था जैन संघ,
जैन स्थानक, बूपक्या नाला,
वाराणसी - 221003 (उत्तर प्रदेश)

5. राजगृही - विरायतन (विहार)

पं. रत्न श्री समदर्शी जी म सा

आदि ठाणा (1)

सम्पर्क सूत्र - श्री विरायतन कार्यालय

राजगृही, जिला नालन्दा (विहार)

पीन कोड - 803116 ☎ 230, 240, 259

साध्वीयोंजी समुदाय

6. राजगृही - विरायतन(विहार)

1 साध्वीरत्ना श्री सुमति कुंवरजी म .सा.

2. आचार्य श्री चन्दनाजी म.सा

आदि ठाणा(10)

सम्पर्क सूत्र - उपरोक्त क्रमांक 5 अनुसार

| | | | |
|--------------------------|---|--------------|----|
| कुल चातुर्मास साधुओं के | 5 | कुल साधु | 10 |
| कुल चातुर्मास साध्वीयोके | 1 | कुल साध्वीया | 10 |
| कुल | 6 | कुल | 20 |

कुल चातुर्मास (6) साधु (10) साध्वीया (10) कुल ठाणा (20)

सत-सती तुलनात्मक तालिका 1993

जैन पत्र - पत्रिकाए - अमर भारती (मासिक-हिन्दी)
पूना (महाराष्ट्र)

| विवरण | सत | सतियों | कुल ठाणा |
|------------------------------|----|--------|----------|
| 1992 में कुल ठाणा थे | 12 | 10 | 22 |
| (+) नई दीक्षा हुई | 12 | 11 | 23 |
| (-) महाप्रयाण हुए | 12 | 10 | 22 |
| (-) श्रमण सभमें सम्मिलित हुए | 4 | - | 4 |
| | 8 | 10 | 18 |
| (-) श्रमण सभमें सम्मिलित हुए | 2 | - | 2 |
| | 10 | 10 | 20 |
| 1993 में कुल ठाणा है | 10 | 10 | 20 |

- नोट (1) प- रत्न श्री हेमचन्द्रजी म सा आदि ठाणा 4 इस सभ से श्रमण सभमें सम्मिलित हो गये है। इस कारण उनका उल्लेख यहाँ नहीं किया गया है।
- (2) उपयुक्त सभी साधु-साध्वीया हवाई जहाज, कार, ट्रेन, गाड़ी घोड़े आदि सभी वाहनो का प्रयोग करते है देश-विदेशो में जैन धर्म का प्रचार करने हेतु वाहन का उपयोग करते है।
- (3) विश्वस्त सूत्रो से ज्ञात हुआ है कि प रत्न श्री विजय मुनिजी म सा "स्नेही" ठाणा (2) श्रमण सभ छोडकर शायद इस समुदाय में सम्मिलित हो गये है विस्तृत जानकारी की प्रतिक्षा है।

- सपादक

॥ जय महावीर ॥

॥ जय अजरामर ॥

पंडित श्री नवलचन्द्रजी महाराज सार्वजनिक लाइब्रेरी

मु पो सुवई (ता रापर) कच्छ (गुजरात) 370165

उपरोक्त पते पर निम्नोक्त साहित्य मंगाइये।

- | | |
|---|--------|
| 1 भवनामर स्तोत्र (पोकेट साइज) | 3 00 |
| 2 सामायिक सूत्र (इंग्लीश लिपि) | 5 00 |
| 3 सामायिक - प्रतिक्रमण सूत्र मुल (बडे टाईप) | 6 00 |
| 4 श्रावक व्रत-पत्रिका | अमूल्य |

सौजन्य

समाजरत्न रतनशी भीमशीभाई सावला
मु सुवई (ता रापर) कच्छ (गुजरात)

ड्रस्टी जेनाचार्य अजरामरजी विद्याधाम - भूज (कच्छ)

ड्रस्टी शुश्रूषा चैरीटेबल ट्रस्ट (सावला होस्पिटल) मु रापर (कच्छ)

चेअरमेन रापर तालुका सहकारी खरीद वेचाण सभ पो रापर (कच्छ)

श्री वाडीलाल रतनशी सावला, सारपच श्री सुवई ग्राम पचायत पो सुवई (ता रापर) कच्छ - 370165

स्वतंत्र संप्रदायो की नई (छोटी नई) संप्रदाए एवं अन्य संत - सतियोजी

कुल चातुर्मास (13) संत (24) महासतियोजी (3) कुल ठाणा (27)

1. महामुनि श्री मायारामजी म.सा. का समुदाय
समुदाय के प्रमुख संत.- जैन शासन सूर्य, विद्वदर्य,
पं रत्न श्री रामकृष्ण जी म.सा. के आज्ञानुवर्ती संत
मुनिराज

संत समुदाय

प्रीतमपुरा - दिल्ली

1. जैन शासन सूर्य, विद्वदर्य, पं. रत्न
श्री रामकृष्णजी म.सा.

2 जैन धर्म प्रभावक श्री सुभद्र मुनिजी म सा
आदि ठाणा (6)

सम्पर्क सूत्र - श्री एस. एस. जैन सभा, जैन स्थानक,
पी पी ब्लाक, शिवमदिर के पास, प्रीतमपुरा,
दिल्ली - 110034

कुल चातुर्मास (1) संत (6) कुल ठाणा (6)

नोट (1) महामुनि श्री मायारामजी म.सा. के समुदाय मे
शासन प्रभावक प्रसिद्ध वक्ता श्री सुदर्शन
लालजी म.सा. भी इसी समुदाय से संबंधित एक
ही शाखा के भाग है। इस समुदायमे भी कोई
महासतियोजी नहीं है।

(2) तुलनात्मक तालिका 1992 अनुसार

(3) नई दीक्षा - महाप्रयाण - नहीं

(4) जैन पत्र - पत्रिकाए - नहीं

(2) श्री वर्धमान वीतराग संघ समुदाय
समुदाय के प्रमुख संत:- सूत्रधार कुशल सेवा मूर्ति
पं. रत्न श्री शीतलराजजी म.सा.

संत समुदाय

1. उज्जैन (मध्य प्रदेश)

संघ सूत्रधार, कुशल सेवामूर्ति, पं.रत्न,
श्री शीतलराजजी म.सा. आदि ठाणा (2)
सम्पर्क सूत्र - अध्यक्ष, श्री जैन स्थानक, नयापुरा,
उज्जैन 456005 (मध्यप्रदेश)

कुल चातुर्मास (1) संत (2) कुल ठाणा (2)

संत मुनिराज तुलनात्मक तालिका

| विवरण | साधु | साध्वीयों | कुल ठाणा |
|--------------------------|------|-----------|----------|
| 1992 मे कुल ठाणा थे | 3 | - | 3 |
| (+) नई दीक्षा हुई | - | - | - |
| | 3 | - | 3 |
| (-) महाप्रयाण हुऐ | - | - | - |
| | 3 | - | 3 |
| संयम त्याग कर गृहस्थ बने | 1 | - | 1 |
| | 2 | - | 2 |
| 1993 मे कुल ठाणा है | 2 | - | 2 |

नोट (1) श्री वर्धमान वीतराग संघ के उपरोक्त सभी संत
पूर्व मे रत्नवंश समुदाय के स्व. आचार्य प्रवर

सम्पर्क सूत्र - जैन स्थानक महामत्र डेको वाजरे जैन भवन, सुभाष चौक, रातानाडा, जोधपुर (राजस्थान)

11 पजाब मे योग्य स्थल

प रत्न श्री विजय मुनिजी म सा 'स्नेही'

आदि ठाणा (2)

स्वतंत्र समुदायो के अन्य संत सतियाँजी

| | | | |
|------------------------|----|------------|----|
| कुल चातुर्मास संतो के | 11 | कुल सत | 24 |
| कुल चातुर्मास सतियो के | 2 | कुल सतियाँ | 3 |
| कुल | 13 | कुल | 27 |

कुल चातुर्मास (13) मुनिराज (24)

महासतियाँजी (3) कुल ठाणा (27)

जैन विश्व रिकार्डस

पोरवाल जैन समाज क्षेत्र सवाई माधोपुर (राजस्थान)

(कोटा - इन्दौर समिलित) सम्पूर्ण जैन समाज

मे एक मात्र ऐसा जैन समाज है जहा के

व्यक्ति सूर्यास्त पूर्व भोजन करते आये हैं और

आज भी कर रहे हैं यहाँ तक कि

सामुहिक भोजन भी सूर्यास्त पूर्व

सम्पन्न करते हैं

(जैन रिकार्ड डायटेक्ट्री से साभार)

॥ जय महावीर ॥

॥ जय अजरामर ॥

पुण्यवता आचार्य भगवत श्री रुपचन्द्रजी स्वामी के अन्तेवासी सत्त्वज्ञ प श्री नवलचन्द्रजी स्वामी के शिष्य मुनिश्री भास्करजी स्वामी द्वारा सम्पादित

- 1 इंग्लिश व हिन्दी लिपि मे सामायिक सूत्र
- 2 बडे टाईप म गुजराती सामायिक प्रतिक्रमण सूत्र
- 3 भक्तामर स्तोत्र (बडे टाईप)

अवश्य मंगावे।

फोन आफिस 49 निवास 21

सद्यपति श्री देवजी मुरजी सतरा
(अध्यक्ष श्री गुन्डाला स्थानकवासी छ कोटि जैन सघ)
मु पो गुन्डाला (कच्छ) 370410 (गुजरात)

10

બૃહદ ગુજરાત સંપ્રદાય

શ્રી ગોંડલ મોટી પક્ષ સમુદાય

સમુદાયના પ્રમુખ સંત:- તપ સમ્રાટ, તપસ્વી
શ્રી રતીલાલજી મ. સા.

કુલ ચાતુર્માસ (63) સંત (22) મહાસતીયોજી (250) કુલ ઠાણા (272)

સંત સમુદાય

આપઅવએઅ- ભથઝઝઝઝઠરુ
☎ 261858

1. વડિયા (ગુજરાત)

તપસમ્રાટ તપસ્વીશ્રી રતીલાલજી મ.સા.

આદિ ઠાણા (2)

સમ્પર્ક સૂત્ર - શ્રી સ્થાનકવાસી જૈન સંઘ,
જૈન ઉપાશ્રય, કેશવકુંજ, સુરંગપુરા,
મુ પો વડિયા (દેવલી) જિલ્લા ભાવનગર
(ગુજરાત) 364480

5. જામનગર (ગુજરાત)

શાસ્ત્રજ્ઞ શ્રી જનક મુનિજી મ.સા

આદિ ઠાણા (

સમ્પર્ક સૂત્ર - શ્રી સ્થાનકવાસી જૈન સંઘ,
જૈન ઉપાશ્રય, દેરાસર ચોક, ચાંદી બજાર,
મુ પો જામનગર - 361001 (ગુજરાત)

2. પેટરબાર (વિહાર)

પરમ દાર્શનિક શ્રી જયન્તિલાલજી મ સા

આદિ ઠાણા (1)

સમ્પર્ક સૂત્ર - શ્રી જૈન ભુવન, મુ પો પેટરબાર
જિલ્લા ગિરિડીહ (વિહાર) 829121

6. વીરપુર (ગુજરાત)

મધુર વ્યાખ્યાની શ્રી હરિશ મુનિજી મ સા.

આદિ ઠાણા (

સમ્પર્ક સૂત્ર - શ્રી સ્થાનકવાસી જૈન સંઘ,
જૈન ઉપાશ્રય, મુ પો વીરપુર (ગુજરાત)

3. ગોંડલ (ગુજરાત)

વાણી ભૂષણ શ્રી ગિરિશ મુનિજી મ સા

આદિ ઠાણા (2)

સમ્પર્ક સૂત્ર - શ્રી સ્થાનકવાસી જૈન સંઘ,
જૈન ઉપાશ્રય, નાની બજાર, મુ પો ગોંડલ,
જિલ્લા રાજકોટ (ગુજરાત) 360311

7. અમરાવતી (મહારાષ્ટ્ર)

સ્પષ્ટ વક્તા શ્રી જગદીશ મુનિજી મ સા

આદિ ઠાણા (

સમ્પર્ક સૂત્ર - શ્રી વ. સ્થા. જૈન શ્રાવક સંઘ
જૈન સ્થાનક, કૃષ્ણા પેઠ, મુ પો. અમરાવતી
(મહારાષ્ટ્ર) 444601

4. બેંગલોર (કર્નટક)

તત્વચિતક શ્રી જસરાજજી મ સા

આદિ ઠાણા (2)

સમ્પર્ક સૂત્ર - Shri Gujarati Sthanakvasi Jain Sangh
Jain Bhuwan, No 11, 4th Cross Lane,
Gandhi Nagar, Bangalore

8. અંકાઈ (મહારાષ્ટ્ર)

સ્થવર તત્વ જિજ્ઞાસુ શ્રી હંસમુખ મુનિજી મ સા.

આદિ ઠાણા (

સમ્પર્ક સૂત્ર - શ્રી નન્દકિશોર જયંતીલાલ જૈન
મુ પો અંકાઈ તાલુકા યેવલા
જિલ્લા - નાસિક (મહારાષ્ટ્ર) 423401

- 9 ગોડલ (ગુજરાત)
મધુર વ્યાખ્યાની શ્રી કાતિમુનિજી મ સા (થા કા.)
આદિ ઠાણા (2)
સમ્પર્ક સૂત્ર - શ્રી સ્થાનકવાસી જૈન સધ,
જૈન ઉપાશ્રય મુ પો ગોડલ,
જિલ્લા - રાજકોટ - 360311 (ગુજરાત)
- 10 રાજકોટ (શ્રમજીવી) (ગુજરાત)
તત્વચિંતક શ્રી ધીરજ મુનિજી મ.સા આદિ ઠાણા (1)
સમ્પર્ક સૂત્ર - શ્રી સ્થાનકવાસી જૈન સધ,
જૈન ઉપાશ્રય, શ્રમજીવી સોમ્યાપટી,
રાજકોટ - 360001 (ગુજરાત)
- 11 રાજકોટ (નાલદા સોસાપટી) (ગુજરાત)
મધુર વક્તા શ્રી રાજેશ મુનિજી મ સા
મધુર વક્તા શ્રી ભાવેશ મુનિજી મ.સા આદિ ઠાણા (5)
સમ્પર્ક સૂત્ર - શ્રી સ્થાનકવાસી જૈન સધ
જૈન ઉપાશ્રય, નાલદા સોસાપટી, કાલાવડ રોડ
રાજકોટ 360001 (ગુજરાત)
- 12 મીરા રોડ - મુબઈ (મહારાષ્ટ્ર)
સેવાભાવી શ્રી જીગ્નેશ મુનિજી મ સા આદિ ઠાણા (1)
સમ્પર્ક સૂત્ર - સેક્ટર નં.9 થાતી નગર,
મીરા રોડ, જિલ્લા - ઠાણા (મહારાષ્ટ્ર) (વે રેલ્વે)
- મહાસતીયાંજીનુ સમુદાય**
- 13 રાજકોટ (પ્રહલાદ પ્લોટ) (ગુજરાત)
ચારિત્ર જેઠ સ્થવિગ મહામતી શ્રી મમરથબાઈ મ.સા
આદિ ઠાણા (2)
સમ્પર્ક સૂત્ર - શ્રી સ્થાનકવાસી જૈન સધ,
જૈન ઉપાશ્રય 213 પ્રહલાદ પ્લોટ
રાજકોટ - 360001 (ગુજરાત)
- 14 રાજકોટ (ભકિતનગર) (ગુજરાત)
વિદુષી મહામતીશ્રી નવલબાઈ મ સા
આદિ ઠાણા (8)
સમ્પર્ક સૂત્ર - શ્રી સ્થાનકવાસી જૈન સધ,
જૈન ઉપાશ્રય, 1 ભકિત નગર, ગોડા ઉપાશ્રય
મુ પો રાજકોટ (ગુજરાત) 360001
- 15 જામનગર (ગુજરાત)
વિદુષી મહામતી શ્રી બરવતબાઈ મ સા.
આદિ ઠાણા (8)
સમ્પર્ક સૂત્ર - શ્રી સ્થાનકવાસી જૈન સધ,
જૈન ઉપાશ્રય, વારીયાનો ડેલો,
જામનગર (ગુજરાત) 361001
- 16 ઉપલેટા (ગુજરાત)
વિદુષી મહાસતીશ્રી દયાબાઈ મ.સા.
આદિ ઠાણા (6)
સમ્પર્ક સૂત્ર - શ્રી સ્થાનકવાસી જૈન સધ,
જૈન ઉપાશ્રય, મુ.પો. ઉપલેટા,
જિલ્લા - રાજકોટ (ગુજરાત) 360490
- 17 કાલાવડ (ચિતલા) (ગુજરાત)
વિદુષી મહાસતીશ્રી સાવિત્રી બાઈ મ.સા
આદિ ઠાણા (4)
સમ્પર્ક સૂત્ર - શ્રી સ્થાનકવાસી જૈન સધ,
જૈન ઉપાશ્રય, મુ પો કાલાવડ (ચિતલા)
જિલ્લા - જામનગર (ગુજરાત) 361160
- 18 બોરીવલી - મુબઈ (મહારાષ્ટ્ર)
વિદુષી મહાસતી, શ્રી હિરાબાઈ મ.સા
આદિ ઠાણા (10)
સમ્પર્ક સૂત્ર - શ્રી વ. સ્થા જૈન શ્રાવક સધ,
જૈન સ્થાનક, ડાયમડ ટોકીજની સામે,
એલ ટી રોડ, બોરીવલી (વેસ્ટ),
મુબઈ - 400092 (મહારાષ્ટ્ર)
ફોન નં. 805 11 39
- 19 કાદિવલી - (ડહાણુકર વાડી) - મુબઈ
વિદુષી મહાસતી શ્રી હસાબાઈ મ સા
આદિ ઠાણા (3)
સમ્પર્ક સૂત્ર - શ્રી વ. સ્થા જૈન શ્રાવક સધ,
નિકિતા અપાર્ટમેન્ટસ, એમ જી રોડ,
ડહાણુકર વાડી, કાદિવલી (વેસ્ટ)
મુબઈ - 400 067 (મહારાષ્ટ્ર)
ફોન નં. 8055936 પી.પી.
- 20 રાજકોટ (સરદાર નગર) (ગુજરાત)
વિદુષી મહાસતી શ્રી ઈન્દુબાઈ મ.સા.
આદિ ઠાણા (8)

- સમ્પર્ક સૂત્ર - શ્રી સ્થાનકવાસી જૈન સંઘ,
જૈન ઉપાશ્રય, 9, સરદાર નગર,
રાજકોટ - 360001 (ગુજરાત)
21. જામનગર (ગુજરાત)
વિદુષી મહાસતી શ્રી હંસાબાઈ મ સા
આદિ ઠાણા (2)
સમ્પર્ક સૂત્ર - શ્રી સ્થાનકવાસી જૈન સંઘ,
જૈન ઉપાશ્રય, 33 - દિગ્વિજય પ્લોટ,
જામનગર - 361001 (ગુજરાત)
22. ગોંડલ (ગુજરાત)
વિદુષી મહાસતી શ્રી લલિતાબાઈ મ સા
આદિ ઠાણા (3)
સમ્પર્ક સૂત્ર - શ્રી સ્થાનકવાસી જૈન સંઘ,
જૈન ઉપાશ્રય, સ્ટેશન રોડ, ગોંડલ,
જિલ્લા - રાજકોટ (ગુજરાત) 360311
23. રાજકોટ (માંડવી ચૌક) (ગુજરાત)
વિદુષી મહાસતી શ્રી જયાબાઈ મ સા (શા કા.)
આદિ ઠાણા (4)
સમ્પર્ક સૂત્ર - શ્રી સ્થાનકવાસી જૈન સંઘ,
જૈન ઉપાશ્રય, માંડવી ચૌક,
રાજકોટ - 360001 (ગુજરાત)
24. રાજકોટ (વિરાણી પોષધશાળા) (ગુજરાત)
વિદુષી મહાસતી શ્રી નર્મદા બાઈ મ સા
આદિ ઠાણા (8)
સમ્પર્ક સૂત્ર - શ્રી સ્થાનકવાસી જૈન સંઘ,
વિરાણી પોષધશાળા,
રાજકોટ - 360001 (ગુજરાત)
25. જેતપુર (ગુજરાત)
વિદુષી મહાસતી શ્રી નિર્મલા બાઈ મ સા
આદિ ઠાણા (3)
સમ્પર્ક સૂત્ર - શ્રી સ્થાનકવાસી જૈન સંઘ,
જૈન ઉપાશ્રય, મુ પો. જેતપુર (કાઠી)
જિલ્લા - રાજકોટ (ગુજરાત) 360 370
26. પાલિયાદ (ગુજરાત)
વિદુષી મહાસતી શ્રી અનુસયા બાઈ મ સા
આદિ ઠાણા (6)
- સમ્પર્ક સૂત્ર - શ્રી સ્થાનકવાસી જૈન સંઘ,
જૈન ઉપાશ્રય, મુ પો. પાલિયાદ,
વાયા બોટાદ જિલ્લા - ભાવનગર
(ગુજરાત) 364720
27. ઢસા જંકશન (ગુજરાત)
વિદુષી મહાસતી શ્રી લાભુબાઈ મ સા
આદિ ઠાણા ()
સમ્પર્ક સૂત્ર - શ્રી સ્થાનકવાસી જૈન સંઘ,
જૈન ઉપાશ્રય, બસ સ્ટોપની પાસે,
મુ પો. ઢસા જંકશન,
જિલ્લા - ભાવનગર (ગુજરાત) 394740
28. જામ ખંભાલિયા (ગુજરાત)
વિદુષી મહાસતી શ્રી હર્ષિદા બાઈ મ સા
આદિ ઠાણા (1)
સમ્પર્ક સૂત્ર - શ્રી સ્થાનકવાસી જૈન સંઘ,
જૈન ઉપાશ્રય, મુ.પો. જામ ખંભાલિયા, જિલ્લા-(ગુજરાત)
29. રાજકોટ - (આનન્દનગર) (ગુજરાત)
વિદુષી મહાસતી શ્રી તારાબાઈ મ સા
આદિ ઠાણા ()
સમ્પર્ક સૂત્ર - શ્રી સ્થાનકવાસી જૈન સંઘ,
જૈન ઉપાશ્રય, આનન્દનગર મોદી ઉપાશ્રય,
1, સાધના સોસાયટી,
રાજકોટ - 360001 (ગુજરાત)
30. ભાણવડ (ગુજરાત)
વિદુષી મહાસતી શ્રી પ્રફુલ્લાબાઈ મ સા
આદિ ઠાણા ()
સમ્પર્ક સૂત્ર - શ્રી સ્થાનકવાસી જૈન સંઘ,
જૈન ઉપાશ્રય, મુ પો ભાણવડ (ગુજરાત)
31. ગોરેગાંવ - (પૂર્વ) મુંબઈ (મહારાષ્ટ્ર)
વિદુષી મહાસતી શ્રી જયોતિબાઈ મ સા
આદિ ઠાણા ()
સમ્પર્ક સૂત્ર - શ્રી વ. સ્થા જૈન શ્રાવક સંઘ, જૈન સ્થાનક,
શ્રી નિવાસ, સેંટ પમ્પસ કોલેજની સામે, આરે રોડ,
ગોરેગાંવ (પૂર્વ); મુંબઈ - 400 063 (મહારાષ્ટ્ર)
ફોન નં 8731204 પી પી.

- 32 પૂના (મહારાષ્ટ્ર)
વિદ્યુષી મહાસતી શ્રી ભાનુભાઈ મ સા
આદિ ઠાણા (3)
સમ્પર્ક સૂત્ર - શ્રી સૌરાષ્ટ્ર સ્થાનકવામી જૈન સઘ,
જૈન ભવન, 27 વેલણકર ઓસાયટી,
વોલ્ગા ચોક, લક્ષ્મીનારાયણ સિનેમાની પાછળ,
પૂના - 411009 (મહારાષ્ટ્ર)
ફોન નં. 43 57 68
- 33 ઘાટકોપર - મુબઈ (મહારાષ્ટ્ર)
વિદ્યુષી મહાસતી શ્રી અંજલી બાઈ મ સા
આદિ ઠાણા (3)
સમ્પર્ક સૂત્ર - શ્રી શ્રમણી વિદ્યાપીઠ, હિંગવાલા લેન,
જૈન સ્થાનક ની પાસે, ઘાટકોપર (પૂર્વ)
મુબઈ - 400 077 (મહારાષ્ટ્ર)
- 34 ગોડલ (ગુજરાત)
વિદ્યુષી મહાસતી શ્રી કનુભાઈ મ સા આદિ ઠાણા (2)
સમ્પર્ક સૂત્ર -
- 35 પોરબન્દર (ગુજરાત)
વિદ્યુષી મહાસતી શ્રી વીણાબાઈ મ સા
આદિ ઠાણા (2)
સમ્પર્ક સૂત્ર - શ્રી સ્થાનકવાસી જૈન સઘ
જૈન ઉપાશ્રય મોટા બજાર વાડા
પોરબન્દર - 360573 (ગુજરાત)
- 36 રાજકોટ (માડવી ચોક) (ગુજરાત)
વિદ્યુષી મહાસતી શ્રી ચાતાબાઈ મ.સા (ચા કલ)
આદિ ઠાણા (1)
સમ્પર્ક સૂત્ર - શ્રી સ્થાનકવાસી જૈન સઘ,
માડવી ચોક (સોની બજાર) ઉપાશ્રય,
રાજકોટ - 360 001 (ગુજરાત)
37. રાજકોટ (વોઘાણી શેરી) (ગુજરાત)
વિદ્યુષી મહાસતી શ્રી ધીરજ બાઈ મ સા (ચા કલ)
આદિ ઠાણા (3)
સમ્પર્ક સૂત્ર - શ્રી સ્થાનકવાસી જૈન સઘ
વોઘાણી શેરી ઉપાશ્રય ઉપર,
રાજકોટ - 360 001 (ગુજરાત)
- 38 રાજકોટ (ગીત ગૂર્જરી) (ગુજરાત)
વિદ્યુષી મહાસતી શ્રી ઈંદુ બાઈ મ સા
આદિ ઠાણા (3)
સમ્પર્ક સૂત્ર - શ્રી સ્થાનકવામી જૈન સઘ,
ગીત ગૂર્જરી શ્રેયાસ સોસાયટી ઉપાશ્રય,
રાજકોટ (ગુજરાત) 360001
- 39 રાજકોટ (બોઘાણી શેરી) (ગુજરાત)
વિદ્યુષી મહાસતી શ્રી કાતાબાઈ મ સા
આદિ ઠાણા (3)
સમ્પર્ક સૂત્ર - શ્રી સ્થાનકવાસી જૈન સઘ,
વોઘાણી શેરી ઉપાશ્રય (નિચે)
રાજકોટ - 360001 (ગુજરાત)
- 40 રાજકોટ (જકશન) (ગુજરાત)
વિદ્યુષી મહાસતી શ્રી ભાનુભાઈ મ.સા
આદિ ઠાણા (3)
સમ્પર્ક સૂત્ર - શ્રી સ્થાનકવાસી જૈન સઘ,
12 જકશન પ્લોટ, ઉપાશ્રય,
રાજકોટ - 360 001 (ગુજરાત)
- 41 જામનગર (ગુજરાત)
વયોવૃદ્ધા મહાસતી શ્રી ધનકુવર બાઈ મ સા
આદિ ઠાણા (1)
સમ્પર્ક સૂત્ર - શ્રી સ્થાનકવાસી જૈન સઘ,
ચોડાન કલી, જામનગર - 361 001 (ગુજરાત)
- 42 મણીનગર - અમદાવાદ (ગુજરાત)
વિદ્યુષી મહાસતી શ્રી સવિતાબાઈ આદિ ઠાણા (10)
સમ્પર્ક સૂત્ર - શ્રી મણીનગર સ્થાનકવાસી
જૈન સઘ, ઉપાશ્રય બસ સ્ટેડ,
રાવજી ભાઈ ટાવર પાસે, મણીનગર,
અમદાવાદ (ગુજરાત) 380008
ફોન નં. 360371
- 43 ગોડલ (ગુજરાત)
વયોવૃદ્ધા મહાસતી શ્રી ચાતાબાઈ મ સા (ચા કલ)
આદિ ઠાણા (2)
સમ્પર્ક સૂત્ર - શ્રી સ્થાનકવાસી જૈન સઘ,
જૈન પોષધયાળા, સ્ટેશન પ્લોટ - ગોડલ
જિલ્લા - રાજકોટ 360311

44. રાજકોટ (જૈન ચાલ) (ગુજરાત)
વિદુષી મહાસતી શ્રી વિજયાબાઈ મ સા
આદિ ઠાણા (6)
સમ્પર્ક સૂત્ર - શ્રી સ્થાનકવાસી જૈન સંઘ,
જૈન ચાલ ઉપાશ્રય, ગોંડલ રોડ,
રાજકોટ - 360001 (ગુજરાત)
45. અમરેલી (ગુજરાત)
વિદુષી મહાસતી શ્રી ઈન્દુબાઈ મ સા આદિ ઠાણા (3)
સમ્પર્ક સૂત્ર - શ્રી સ્થાનકવાસી જૈન સંઘ, જૈન ઉપાશ્રય,
મુ પો અમરેલી, 364601 (ગુજરાત)
46. હૈદરાબાદ (આન્ધ્રપ્રદેશ)
વિદુષી મહાસતી શ્રી અનિલા બાઈ મ સા.
આદિ ઠાણા (3)
સમ્પર્ક સૂત્ર - Shri Sthanakvasi Jain Sangh,
3-5-141/3/12 - Gujarat Saving Jain Upashraya
Eden Bagh, Dr Sabu Galli, Ramkot,
Hyderabad - 500 001 (Andhra Pradesh)
☎ 557749 Telegram 'Vardhaman'
47. દેવલાલી નાસિક (મહારાષ્ટ્ર)
વિદુષી મહાસતી શ્રી તારાબાઈ મ સા (શા કા)
આદિ ઠાણા (1)
સમ્પર્ક સૂત્ર - શ્રી વર્ધમાન મહાવીર કેન્દ્ર,
392 લામ રોડ, દેવલાલી વાયા
જિલ્લા નાસિક (મહારાષ્ટ્ર)
48. દેવલાલી - નાસિક (મહારાષ્ટ્ર)
વિદુષી મહાસતી શ્રી જયા બાઈ મ સા આદિ ઠાણા (4)
સમ્પર્ક સૂત્ર - બંગલા મા
49. રાજકોટ (સદર) (ગુજરાત)
વિદુષી મહાસતી શ્રી ગુલાબ બાઈ મ સા
આદિ ઠાણા (5)
સમ્પર્ક સૂત્ર - શ્રી સ્થાનકવાસી જૈન સંઘ,
સદર ઉપાશ્રય, 15, પંચનાથ પ્લોટ,
રાજકોટ - 360 001 (ગુજરાત)
50. વડિયા (ગુજરાત)
1. વિદુષી મહાસતી શ્રી પ્રાણ કુંવર બાઈ મ સા
2. વિદુષી મહાસતી શ્રી વિમલા બાઈ મ સા.
મુક્ત લીલમ પરિવાર આદિ ઠાણા (60)
સમ્પર્ક સૂત્ર - ઉપરોક્ત ક્રમાંક 1 અનુસાર
51. દેવલાલી (નાસિક) (મહારાષ્ટ્ર)
વિદુષી મહાસતી શ્રી લલીતા બાઈ મ.સા
આદિ ઠાણા ()
સમ્પર્ક સૂત્ર - શ્રી વ. સ્થા. જૈન શ્રાવક સંઘ,
જૈન સ્થાનક, કાંદાવાડી જૈન સેનેટેરિયમ,
લામ રોડ, મુ પો. દેવલાલી કેમ્પ
નાસિક 422001 મહારાષ્ટ્ર)
52. કાંદાવાડી - મુંબઈ (મહારાષ્ટ્ર)
વિદુષી મહાસતી શ્રી જસુબાઈ મ.સા આદિ ઠાણા ()
સમ્પર્ક સૂત્ર - શ્રી વ સ્થા જૈન શ્રાવક સંઘ,
જૈન સ્થાનક, 170, કાંદાવાડી, ખાડીલકર રો
મુંબઈ - 400 004 (મહારાષ્ટ્ર)
ફોન નં 358817
53. મુંબઈ - ઘાટકોપર (રાજાવાડી) (મહારાષ્ટ્ર)
વિદુષી મહાસતી શ્રી વસુબાઈ મ સા આદિ ઠાણા ()
સમ્પર્ક સૂત્ર - શ્રી વ. સ્થા. જૈન શ્રાવક સંઘ,
જૈન સ્થાનક, કૃષ્ણ કુંજ, મહાત્મા ગાંધી રો
રાજાવાડી, ઘાટકોપર (પૂર્વ), મુંબઈ - 400 0
(મહારાષ્ટ્ર) ☎ 5136318 PP
54. ગોંડલ (ગુજરાત)
વિદુષી મહાસતી શ્રી સમજુબાઈ મ સા
આદિ ઠાણા
સમ્પર્ક સૂત્ર - શ્રી સ્થાનકવાસી જૈન સંઘ,
જૈન ઉપાશ્રય, પટેલની ડેલી - ગોંડલ જિ
રાજકોટ, (ગુજરાત) 360311
55. જૂનાગઢ (ગુજરાત)
વિદુષી મહાસતી શ્રી પ્રભાબાઈ મ સા
આદિ ઠાણા
સમ્પર્ક સૂત્ર - શ્રી સ્થાનકવાસી જૈન સંઘ,
જૈન ઉપાશ્રય, મુ પો. જૂનાગઢ (ગુજરાત)
56. ધારી (ગુજરાત)
વિદુષી મહાસતી શ્રી ઉર્મિબાઈ મ સા આદિ ઠાણા
સમ્પર્ક સૂત્ર - શ્રી સ્થાનકવાસી જૈન સંઘ,
જૈન ઉપાશ્રય, મુ.પો ધારી
જિલ્લા - રાજકોટ (ગુજરાત) 364640

- 57 રાજકોટ (નેમીનાથ સોસા) (ગુજરાત)
વિદુષી મહાસતી શ્રી સાધનાબાઈ મ સા
આદિ ઠાણા (2)
સમ્પર્ક સૂત્ર - શ્રી સ્થાનકવાસી જૈન સધ,
જૈન ઉપાશ્રય, નેમીનાથ સોસાપટ્ટી, રૈયા રોડ,
રાજકોટ 360 001 (ગુજરાત)
- 58 ગોંડલ (ગુજરાત)
વિદુષી મહાસતી શ્રી સન્મતિબાઈ મ સા
આદિ ઠાણા (5)
સમ્પર્ક સૂત્ર - શ્રી સ્થાનકવાસી જૈન સધ
જૈન ઉપાશ્રય, ભોજરાજવરા ગોંડલ
જિલ્લા - રાજકોટ (ગુજરાત) 360 311
- 59 સાવરકુડલા (ગુજરાત)
વિદુષી મહાસતી શ્રી નદાબાઈ મ.સા આદિ ઠાણા (4)
સમ્પર્ક સૂત્ર - શ્રી સ્થાનકવાસી જૈન સધ,
જૈન ઉપાશ્રય મુ પો સાવરકુડલા,
જિલ્લા - ભાવનગર (ગુજરાત) 364515
- 60 માગરોલ (ગુજરાત)
વિદુષી મહાસતી શ્રી લતાબાઈ મ સા. આદિ ઠાણા (3)
સમ્પર્ક સૂત્ર - શ્રી સ્થાનકવાસી જૈન સધ
જૈન ઉપાશ્રય, આયબિલ ભવન, સોની ફલીયા,
મુ પો માગરોલ જિલ્લા - જૂનાગઢ
(ગુજરાત) 362225 ફોન ન. (02878) 22637
- 61 ધનબાદ (વિહાર)
વિદુષી મહાસતી શ્રી દર્શનાબાઈ મ સા
આદિ ઠાણા (2)
સમ્પર્ક સૂત્ર - શ્રી સ્વેતામ્બર સ્થાનકવાસી જૈન સધ
જૈન સ્થાનક, મુ પો ધનબાદ (વિહાર)
- 62 લખનઉ (ઉત્તર પ્રદેશ)
વિદુષી મહાસતી શ્રી સવમિત્રાબાઈ મ સા.
આદિ ઠાણા (2)
સમ્પર્ક સૂત્ર - મેસર્સ શીતલ એન્ડ કમ્પની
79 હજરલ ગજ, લખનઉ - 226001 (ઉ પ્ર)
ચાતુર્માસ સ્થળ - ભગવાન મહાવીર સાધના કેન્દ્ર
81 F પટેલ નગર, આલમબાગ
લખનઉ - 226001 (ઉત્તરપ્રદેશ)

- 63 રાજકોટ (સદર) (ગુજરાત)
વિદુષી મહાસતી શ્રી દીક્ષિતાબાઈ મ સા.
આદિ ઠાણા (1)
સમ્પર્ક સૂત્ર - શ્રી સ્થાનકવાસી જૈન સધ,
સદર ઉપાશ્રય, સદર, રાજકોટ (ગુજરાત) 360001
- 64 દેવલાલી (નાસિક) (મહારાષ્ટ્ર)
વિદુષી મહાસતી શ્રી જયેશાબાઈ મ.સા.આદિ ઠાણા(2)
સમ્પર્કસૂત્ર- બગલા મા

| | | | |
|------------------------|--------|----------|-----|
| કુલ ચાતુર્માસ સતોના | 12 | કુલ મત | 19 |
| કુલ ચાતુર્માસ સતિજીઓનુ | 52 | કુલ સતીઓ | 250 |
| | કુલ 64 | | 272 |

કુલ ચાતુર્માસ (63) સત (22) સતિજીઓ (250)
કુલ ઠાણા (272)

સત-સતી તુલનાત્મક તાલિકા 1993

| વિવરણ | સત | સતિયાં | કુલ ઠાણા |
|----------------------|----|--------|----------|
| 1992 મા કુલ ઠાણા હતા | 21 | 246 | 267 |
| (+) નવી દીક્ષા ધર્મ | - | - | - |
| (-) કાલ ધર્મ પ્રાપ્ત | - | - | - |
| | 22 | 250 | 272 |
| 1993 મા કુલ ઠાણાઓ | 22 | 250 | 272 |


જૈન પત્ર-પત્રિકાએ - શાસન પ્રગતિ

(માસિક-ગુજરાતી) રાજકોટ

નોટ - આ સમુદાયની પૂર્ણ સૂચી નથી મળી આમા જે ઝોંસ લખેલા છે તે અનુમાનથી પ્રગટ કરવામા આવ્યા છે નવી દીક્ષા અને કાલધર્મની સૂચી પણ નથી મળી આ કારણે તાલિકા પણ અપૂર્ણ પ્રગટ કરેલી છે ચાતુર્માસ પ્રારંભ થયા પછી 30 દિન સ પછી પણ પૂર્ણ સૂચી પ્રાપ્ત નથી થઈ પાઠક ગણ સુધારીને વાચે.

- સમ્પાદક

ક્ષમા વિરસ્ય ભૂષણમ્



શ્રી છ: કોટી લિંબડી મોટા પક્ષ સમ્પ્રદાય

- સમુદાયના પ્રમુખ ગાદીપતિ :-
ગાદીપતિ. પં. રત્ન શ્રી નૃસિંહ મુનિજી મ.સા.

કુલ ચાતુર્માસ (61) સંત (18) મહાસતીયોજી (248) કુલ ઠાણા (266)

મુનિરાજ સમુદાય

1. ભયાઉ - કચ્છ (ગુજરાત)

- 1 ગાદીપતિ પં.રત્ન શ્રી નૃસિંહ મુનિજી મ.સા.
- 2 ઉગ્ર તપસ્વી શ્રી રામચન્દ્ર મુનિજી મ સા
- 3 મધુર વક્તા શ્રી પ્રકાશ મુનિજી મ સા.

આદિ ઠાણા (5)

સમ્પર્ક સૂત્ર - શ્રી સ્થાનકવાસી છ: કોટી જૈન સંઘ
છ: કોટી જૈન સ્થાનક, બજારમાં, માંડવી વાસ,
મુ પો ભયાઉ - કચ્છ જિલ્લા - ભુજ
(ગુજરાત) 370140
પ્રમુખ - શ્રી પાંચાલાલ શીવજી કારીઆ,
ફોન નં 2380

2. લિંબડી (સૌરાષ્ટ્ર) (ગુજરાત)

સરલ સ્વભાવી શ્રી લાભચંદ્રજી મ સા (શા કા.)
આદિ ઠાણા (1)
સમ્પર્ક સૂત્ર - શેઠશ્રી નાનજી ડુંગરસી સ્થાનકવાસી
મોટા ઉપાશ્રય જૈન સંઘ,
આચાર્ય શ્રી અજરામરજી સ્વામી માર્ગ,
મુ પો લિંબડી (સૌરાષ્ટ્ર), જિલ્લા - સુરેન્દ્ર નગર,
(ગુજરાત) 363421 ફોન નં 20235
પ્રમુખ - શેઠશ્રી છબીલદાસ ત્રીકમલાલ
સુરેન્દ્રનગર, ઘ ઓફીસ 24462, નિવાસ 22062

3. મુંબઈ - ઘાટકોપર (સ્વાધ્યાય સંઘ) (મહારાષ્ટ્ર)

1. શાસનપ્રભાવક, તપપ્રચારક, જીન શાસન
ચન્દ્રમા પં રત્ન શ્રી ભાવચન્દ્રજી મ સા.
- 2 મધુર વ્યાખ્યાની શ્રી વિમલ મુનિજી મ સા
આદિ ઠાણા (6)

સમ્પર્ક સૂત્ર - શ્રી વ સ્થા. જૈન સ્વાધ્યાય સંઘ,
સર્વોદય આરાધના કેન્દ્ર, ભીમનગર રોડ,
દોશીવાડીની સામે, એલ વી શાસ્ત્રી માર્ગ,
ઘાટકોપર (વેસ્ટ), મુંબઈ - 400 086
(મહારાષ્ટ્ર)

ઘ 515 2852 / 515 2819 P.P

પ્રમુખ - શ્રી હકુભાઈ ગાંધી

ફોન નં. 515 18 19 - 515 28 51

4. અમદાવાદ - નગરસેઠનો વંડો (ગુજરાત)

મધુરવક્તા સુલેખક, પં રત્ન શ્રી ભાસ્કર મુનિજી મ સા
આદિ ઠાણા (4)

સમ્પર્ક સૂત્ર - શ્રી સૌરાષ્ટ્ર સ્થાનકવાસી જૈન સંઘ,
ધી કાંટા, નગર શેઠ વંડામાં,
અમદાવાદ - 380001 (ગુજરાત)
ઘ 364234

પ્રમુખ - શ્રી ભરતભાઈ શાંતીલાલ શેઠ

ફોન નં. - 471819 નિવાસ

5. મનફરા - કચ્છ (ગુજરાત)

સેવાભાવી શ્રી નિરંજન મુનિજી મ.સા.આદિ ઠાણા (2)
સમ્પર્ક સૂત્ર - શ્રી મનફરા સ્થાનકવાસી છ કોટી જૈન સંઘ
છ કોટી જૈન સ્થાનક, મુ પો. મનફરા - કચ્છ
તાલુકો - ભયાઉ, જિલ્લા - ભુજ
(ગુજરાત) 370140
પ્રમુખ - શ્રી ગડા કાંધડ વાલજી

મહાસતીયોજી સમુદાય

6. રતાડિયા - કચ્છ (ગુજરાત)

સરલાત્મા મહાસતીજી શ્રી મણીબાઈ મ સા.

આદિ ઠાણા (5)

- સમ્પર્ક સૂત્ર - શ્રી સ્થાનકવાસી છ કોટી જૈન સઘ
છ કોટી જૈન ઉપાશ્રય, મુ પો રતાડિયા કચ્છ
(ગણેશવાલે) તાલુકો - મુન્દ્રા જિલ્લા - ભુજ
(ગુજરાત) 370410
પ્રમુખ - શ્રી દામજી મૂલજી દેવસી
- 7 સમાવોધા - કચ્છ (ગુજરાત)
વિદુષી મહાસતી શ્રી રુક્મણીબાઈ મ સા
વિદુષી મહાસતી શ્રી નિરજનાબાઈ મ સા
આદિ ઠાણા (9)
સમ્પર્ક સૂત્ર - શ્રી સમાવોધા સ્થાનકવાસી છ કોટી જૈન સઘ
છ કોટી જૈન સ્થાનક, મુ પો સમાવોધા - કચ્છ
વાયા - ભુજ (ગુજરાત) 370415
પ્રમુખ - શ્રી પ્રેમજીભાઈ ઓમાયા,
- 8 લિમ્બડી (સૌરાષ્ટ્ર) (ગુજરાત)
વિદુષી મહાસતી શ્રી ભાનુમતિબાઈ મ સા
આદિ ઠાણા (4)
સમ્પર્ક સૂત્ર - ઉપરોક્ત કમાક 2 અનુસાર
- 9 ચૂડા (સૌરાષ્ટ્ર) (ગુજરાત)
વિદુષી મહાસતી શ્રી ચંદનબાઈ મ સા (મોટા)
આદિ ઠાણા (6)
સમ્પર્ક સૂત્ર - શ્રી સ્થાનકવાસી જૈન સઘ,
જૈન ઉપાશ્રય, બજારમા, મુ પો ચૂડા (સૌરાષ્ટ્ર)
જિલ્લા - સુરેન્દ્રનગર (ગુજરાત) 363410
પ્રમુખ - શ્રી દલીચંદ મગનલાલ વોરા,
૪ 31 P P
- 10 ભુજ-કચ્છ (ગુજરાત)
વિદુષી મહાસતી શ્રી વિમલાબાઈ મ સા
આદિ ઠાણા (4)
સમ્પર્ક સૂત્ર - શ્રી ભુજ સ્થાનકવાસી છ કોટી જૈન સઘ
છ કોટી સ્થાનક, વાણિયાવાડ,
ડા મહિપતરાય મેહતા માર્ગ,
ભુજ - કચ્છ (ગુજરાત) 370001
૪ 20892 *
પ્રમુખ શ્રી ગુલાબચંદ પોપટભાઈ શાહ
૪ ઑફીસ - 23733 નિવાસ 22૪૪5
- 11 ત્રબો-કચ્છ (ગુજરાત)
વિદુષી મહાસતી શ્રી સૂરજબાઈ મ સા
આદિ ઠાણા (5)
- સમ્પર્ક સૂત્ર - શ્રી ત્રબો સ્થાનકવાસી છ કોટી જૈન સઘ,
છ કોટી સ્થાનક, મુ પો ત્રબો - કચ્છ
તાલુકો રાપર જિલ્લા - ભુજ
(ગુજરાત) 370165
પ્રમુખ - શ્રી રામજીભાઈ ભારમલ, ૪ 40
- 12 સુરેન્દ્રનગર (કેરી બજાર) (ગુજરાત)
1 વિદુષી મહાસતી શ્રી ઉજ્જવલકુમારીબાઈ મ સા
2 સ્વાધ્યાય પ્રેમી મહાસતી શ્રી મુક્તાબાઈ મ સા
આદિ ઠાણા (11)
સમ્પર્ક સૂત્ર - શ્રી શ્વેતામ્બર સ્થાનકવાસી જૈન સઘ,
જૈન ઉપાશ્રય, કેરી બજાર, જેલ રોડ
સુરેન્દ્ર નગર (ગુજરાત) 363001, ૪ 20065
પ્રમુખ શ્રી શાહ શાતિલાલ ચત્રભુજભાઈ,
૪ ઑફીસ - 22392 નિવાસ - 21692
- 13 માડવી - કચ્છ (ગુજરાત)
વિદુષી મહાસતી શ્રી ચન્દ્રાવતીબાઈ મ સા
આદિ ઠાણા (5)
સમ્પર્ક સૂત્ર - શ્રી સ્થાનકવાસી છ કોટી જૈન સઘ,
છ કોટી સ્થાનક, બારીવાલા નાડા પાસે,
મુ પો માડવી - કચ્છ (ગુજરાત) 370465
પ્રમુખ - શ્રી શયીકાતભાઈ મોરવીઆ,
ફોન ન. ઑફીસ 135 / 141 નિવાસ 495
- 14 ગોધરા (ગુજરાત)
વિદુષી મહાસતી શ્રી પુષ્પાબાઈ મ સા
આદિ ઠાણા (4)
સમ્પર્ક સૂત્ર - શ્રી ગોધરા સ્થાનકવાસી જૈન સઘ,
શ્રી રતીલાલ ગોસલીયા જૈન ઉપાશ્રય,
દેના બેંકની સામે ગોધરા - 389001
(ગુજરાત) (વે રે)
પ્રમુખ - શ્રી કાતિલાલ નાનચંદ
૪ 2845 3757 નિવાસ - 42845
- 15 વાકાનેર (ગુજરાત)
વિદુષી મહાસતી શ્રી દમયતીબાઈ મ સા
આદિ ઠાણા (5)
સમ્પર્ક સૂત્ર - શ્રી વાકાનેર દયાશીખાલી સ્થાનકવાસી જૈન સઘ,
બજારમા, ઉપાશ્રય શેરી,
મુ પો વાકાનેર-36૩621 જિલ્લા - રાજકોટ (ગુજરાત)

પ્રમુખ - શ્રી શાંતીલાલ હેમચંદ સંઘવી,
ફોન નં C/o 756 - 489

16. ભુજ (જૈન ભુવન) કચ્છ (ગુજરાત)
વિદુષી મહાસતી શ્રી કલાવંતીબાઈ મ સા (શા કા.)
આદિ ઠાણા (3)

સમ્પર્ક સૂત્ર - શ્રી કેશરબાઈ જૈન ભુવન,
હોસ્પીટલ રોડ, ભુજ-કચ્છ 370001 (ગુજરાત)
પ્રમુખ - શ્રી ગુલાબચંદ પોપટલાલ શાહ,
ઘ ઓફીસ 20892 નિવાસ 22885

17. તુમ્બડી - કચ્છ (ગુજરાત)
વિદુષી મહાસતી શ્રી પ્રભાવતીબાઈ મ સા.
આદિ ઠાણા (4)

સમ્પર્ક સૂત્ર - શ્રી તુમ્બડી સ્થાનકવાસી છ કોટી જૈન સંઘ,
છ: કોટી સ્થાનક મુ પો તુમ્બડી - કચ્છ
તાલુકો - મૂન્દ્રા, જિલ્લા - ભુજ
(ગુજરાત) 370435

18. રાપર - કચ્છ (ગુજરાત)
સરલસ્વભાવી મહાસતી શ્રી મંજુલાબાઈ મ સા
આદિ ઠાણા (9)

સમ્પર્ક સૂત્ર - શ્રી રાપર સ્થાનકવાસી છ: કોટી જૈન સંઘ,
છ: કોટી સ્થાનક, મુ.પો રાપર - કચ્છ (વાગડ)
જિલ્લા - ભુજ (ગુજરાત) 370165
ફોન નં (02830) 279
પ્રમુખ - મોરબીયા કલ્યાણજી સોમચંદ

19. મૂન્દ્રા - કચ્છ (ગુજરાત)
વિદુષી મહાસતી શ્રી કંચનબાઈ મ સા
આદિ ઠાણા (3)

સમ્પર્ક સૂત્ર - શ્રી મૂન્દ્રા સ્થાનકવાસી છ કોટી જૈન સંઘ,
છ કોટી સ્થાનક મુ.પો મૂન્દ્રા - કચ્છ
(ગુજરાત) 370435
પ્રમુખ - ગાંધી ખેતશીબાઈ નવીદાસ,
ફોન નં. 2269 - 2291

20. વાપી - (ગુજરાત)
વિદુષી મહાસતી શ્રી નિર્મલાબાઈ મ.સા.
આદિ ઠાણા (3)

સમ્પર્ક સૂત્ર - શ્રી સ્થાનકવાસી જૈન સંઘ,
જૈન ઉપાશ્રય પ્લોટ નં 345 - જી.આઈ.ડી.સી.
એરિયા, ગૂંજન સિનેમાની પાછળ, મુ.પો વાપી,
જિલ્લા - બલસાડ (ગુજરાત) 396191
પ્રમુખ - શ્રી દામજીભાઈ વી. છેડા

21. ધાણા (ચરઈ) (મુંબઈ) (મહારાષ્ટ્ર)
વિદુષી મહાસતી શ્રી વિજયાબાઈ મ.સા (શા.કા.)
આદિ ઠાણા (4)

સમ્પર્ક સૂત્ર - ગણેશ સોસાયટી 2/જી - 8
ગણેશ સિનેમાની સામે, 107, જોધાલીબાગ રોડ,
ધાણા - ચરઈ (વેસ્ટ) (મહારાષ્ટ્ર) 400 601
ઘ 5345207

22. ચોટીલા (ગુજરાત)
વિદુષી મહાસતી શ્રી લીલાવંતીબાઈ મ.સા
આદિ ઠાણા (3)

સમ્પર્ક સૂત્ર - શ્રી સ્થાનકવાસી જૈન સંઘ,
જૈન ઉપાશ્રય, મુ.પો. ચોટીલા - 363520
જિલ્લા - સુરેન્દ્રનગર, (ગુજરાત)
પ્રમુખ - શ્રી લાલુલાલ પી શાહ,
ફોન નં ઓફીસ - 203 નિવાસ - 244

23. સુરેન્દ્રનગર (સરદાર સોસાયટી) (ગુજરાત)
વિદુષી મહાસતી શ્રી રાજેમતીબાઈ મ.સા. (મોટા)
(શા કા) બ'આદિ ઠાણા (3)

સમ્પર્ક સૂત્ર - શ્રી સરદાર સોસાયટી વિભાગ,
સ્થાનકવાસી જૈન સંઘ, જૈન ઉપાશ્રય,
ચેતના સોસાયટી, સુરેન્દ્રનગર - 363001 (ગુજરાત)

24. મુંબઈ - માટુંગા (મહારાષ્ટ્ર)
વિદુષી મહાસતી શ્રી હંસાબાઈ મ સા.
આદિ ઠાણા (4)

સમ્પર્ક સૂત્ર - શ્રી વ. સ્થા જૈન શ્રાવક સંઘ
જૈન સ્થાનક, તેલંગ કોસ રોડ નં.2,
મહેશ્વરી ઉદ્યાન પાસે, માટુંગા (પૂર્વ),
મુંબઈ - 400019, (મહારાષ્ટ્ર) (સે રે) .
ફોન નં 4372015, 4371345
પ્રમુખ - શ્રી જયંતીલાલ અમૃતલાલ શાહ
ઘ 4091346, 4072940.

- 25 મુબઈ - મીરારોડ (મહારાષ્ટ્ર)
વિદુષી મહાસતી શ્રી મીનાબાઈ મ.સા.
આદિ ઠાણા (6)
સમ્પર્ક સૂત્ર - શ્રી વ સ્યા. જૈન શ્રાવક સઘ,
જૈન સ્થાનક એકટર ન.6 સી-9 કાવેરીની
સામે, યાતી નગર, મીરા રોડ (પૂર્વ),
જિલ્લા - યાણા (મહારાષ્ટ્ર) 401107
પ્રમુખ - શ્રી હિમ્મતલાલ મોહનલાલ ગોમ્લિયા
ફોન નં 811 17 83
- 26 નડિયાદ (ગુજરાત)
વિદુષી મહાસતી શ્રી હેમલતાબાઈ મ.સા.
આદિ ઠાણા (2)
સમ્પર્ક સૂત્ર - શ્રી સ્થાનકવાસી જૈન સઘ
ગતીલાલ ગોસલ્લીયા જૈન ધર્મ સ્થાનક
સજય હોસ્પીટલની પાસે, રેલ્વે સ્ટેશનની
પાછળ, નડિયાદ - 387001 (ગુજરાત)
પ્રમુખ - શ્રી ઘાંજલાલ મનજર્માઈ મહતા
ફાન નં બ્લૉક - 23258 નિવાસ - 36443
- 27 મુબઈ - ખાર રોડ (વેસ્ટ) (મહારાષ્ટ્ર)
વિદુષી મહાસતી શ્રી કવિતાબાઈ મ.સા.
આદિ ઠાણા (4)
સમ્પર્ક સૂત્ર - શ્રી પજાબ જૈન બ્રાહ્મણ
અહિઆ ભવન અહિસા માર્ગ,
ખાર રોડ (વેસ્ટ), મુબઈ - 400052
(મહારાષ્ટ્ર) ફોન નં 542509
પ્રમુખ - શ્રી સુદર્શન કુમાર જૈન
ફોન નં ઓફીસ - 4935041
નિવાસ - 6481925
- 28 મુબઈ - મૂલજીનગર - બોરીવલી (મહારાષ્ટ્ર)
વિદુષી મહાસતી શ્રી દિવ્યપ્રભાબાઈ મ.સા.
આદિ ઠાણા (5)
સમ્પર્ક સૂત્ર - શ્રી વ સ્યા. જૈન શ્રાવક સઘ,
જૈન સ્થાનક ડી-1 પરચરન સોમાયટી,
પ્લોટ નં-5 એમ.વી.રોડ, મૂલજી નગર,
વોતીવની (વેસ્ટ), નુર્ગ - 400092
અધ્યક્ષ - શ્રી ખોરીદાસ નાથાલાલ શાહ,
ફોન નં 8059635
- 29 રામાણીયા - કચ્છ (ગુજરાત)
વિદુષી મહાસતી શ્રી વિનોદપ્રભાબાઈ મ.સા.
આદિ ઠાણા (3)
સમ્પર્ક સૂત્ર - શ્રી રામાણીયા સ્થાનકવાસી
છ કોટી જૈન સઘ, છ કોટી સ્થાનક,
મુખે. રામાણીયા - કચ્છ તાલુકા - મૂલ્કા,
જિલ્લા - ભુજ (ગુજરાત) 370415
પ્રમુખ - શાહ માણજી તેજસી સાવલા,
ફોન નં 228
- 30 મુબઈ - વાથી - ન્યૂ મુબઈ (મહારાષ્ટ્ર)
વિદુષી મહાસતી શ્રી બસત પ્રભાબાઈ મ.સા.
(નાના) આદિ ઠાણા (4)
સમ્પર્ક સૂત્ર - શ્રી ન્યૂ બોમ્બે સ્થાનકવાસી જૈન સઘ
જૈન સ્થાનક, પ્લોટ નં 1
સેક્ટર નં 9-એ, લક્ષ્મીપ હોસ્પીટલની
બાજુમાં, બસ ડિપોની પાછળ, ન્યૂ બોમ્બે,
વાથી, જિલ્લા - યાણા (મહારાષ્ટ્ર) 400705
પ્રમુખ - શ્રી દીપચન્દલાઈ
- 31 અમદાવાદ - દૌલતખાના (ગુજરાત)
વિદુષી મહાસતી શ્રી કલ્પનાબાઈ મ.સા.
આદિ ઠાણા (4)
સમ્પર્ક સૂત્ર - શ્રી અમદાવાદ સ્થાનકવાસી
જૈન છ કોટી સઘ, જૈન ઉપાશ્રય
સારંગપુર - દૌલતખાના અમદાવાદ - 380001
(ગુજરાત) ફોન નં 345420
પ્રમુખ - શ્રી મણીલાલ પોચાબાઈ શાહ,
ફોન નં ઓફીસ - 348751
નિવાસ - 440737
- 32 ધોરાજી (ગુજરાત)
વિદુષી મહાસતી શ્રી કુસુમબાઈ મ.સા.
આદિ ઠાણા (4)
સમ્પર્ક સૂત્ર - શ્રી સ્થાનકવાસી જૈન લિખ્વી સંઘ
જૈન ઉપાશ્રય, સ્ટેશન રોડ પ્લાટ 4
ધોરાજી - 360410
જિલ્લા - રાજકોટ, (ગુજરાત)
પ્રમુખ - શ્રી મુકુન્દરાય વેલાભાઈ દોશી,
ફોન નં ઓફીસ - 20844 નિવાસ - 21144

33. રવ - કચ્છ (ગુજરાત)
વિદુષી મહાસતી શ્રી કુમુદપ્રભાબાઈ મ સા
આદિ ઠાણા (4)
સમ્પર્ક સૂત્ર - શ્રી રવ - સ્થાનકવાસી છ કોટી જૈન સંઘ
છ કોટી જૈન સ્થાનક, મુપો રવ - કચ્છ
તાલુકો રાપર, જિલ્લા-ભુજ
(ગુજરાત) 370165
પ્રમુખ - શ્રી કરસન દેવરાજ કારીઆ
34. લાકડિયા - કચ્છ (ગુજરાત)
વિદુષી મહાસતી શ્રી શીલપ્રભાબાઈ મ સા.
આદિ ઠાણા (8)
સમ્પર્ક સૂત્ર - શ્રી સ્થાનકવાસી છ કોટી જૈન સંઘ
છ કોટી સ્થાનક, મેડી પારો વાસ મુપો.
લાકડિયા-કચ્છ, જિલ્લા ભુજ (ગુજરાત)
(370145)
પ્રમુખ - શ્રી દામજીભાઈ, કારાભાઈ ગાળા
35. સુવઈ-કચ્છ (ગુજરાત)
વિદુષી મહાસતી શ્રી નીલમબાઈ મ.સા.
આદિ ઠાણા (3)
સમ્પર્ક સૂત્ર - શ્રી સુવઈ સ્થાનકવાસી છ કોટી જૈન સંઘ
છ કોટી સ્થાનક મુપો સુવઈ-કચ્છ
તાલુકો રાપર, જિલ્લા-ભુજ (ગુજરાત)
370165
પ્રમુખ - શ્રી વિજપાર ગુણસી છાડવા
36. સુરેન્દ્રનગર (પૂર્વ વિભાગ) (ગુજરાત)
વિદુષી મહાસતી શ્રી અનિલાબાઈ મ.સા
આદિ ઠાણા (8)
સમ્પર્ક સૂત્ર - શ્રી શ્વેતામ્બર સ્થાનકવાસી જૈન સમાજ
(પૂર્વ વિભાગ) મેઘાણી માર્ગ, ભારત
સોસાયટી પાસે, સુરેન્દ્ર નગર (ગુજરાત)
363001 ફોન: 23302
પ્રમુખ શ્રી ભાઈલાલ ગુલાબચંદ ડેલીવાલા
ફોન : ઑફીસ 21778, નિવાસ 20406
37. મુંબઈ - થાણા (મહારાષ્ટ્ર)
વિદુષી મહાસતીશ્રી કમલપ્રભાબાઈ મ સા
આદિ ઠાણા (6)
- સમ્પર્ક સૂત્ર - શ્રી વ. સ્થા. જૈન શ્રાવક સંઘ,
જૈન સ્થાનક લાલબાગ, નોકા વિહારની
સામે, ડૉ મૂસ રોડ, થાણા (વેસ્ટ)
400 602 (મહારાષ્ટ્ર) ફોન નં 506008
પ્રમુખ - શ્રી પોપટલાલ દેવરાજ વોરીઆ,
ફોન નં. 5340712
38. બીછીયા - (ગુજરાત)
વિદુષી મહાસતી શ્રી અરુણાબાઈ મ સા
આદિ ઠાણા (4)
સમ્પર્ક સૂત્ર - શ્રી સ્થાનકવાસી જૈન સંઘ,
જૈન ઉપાશ્રય, મુપો. બીછીયા (સૌરાષ્ટ્ર)
વોટાદ થઈને, જિલ્લા રાજકોટ (ગુજરાત)
360055, ફોન પ્રમુખ 30, 51
પ્રમુખ શ્રી હિમ્મતલાલ તલકશી અજમેરા
39. સાયલા (ગુજરાત)
વિદુષી મહાસતી શ્રી તરુલતાબાઈ મ સા
આદિ ઠાણા (2)
સમ્પર્ક સૂત્ર - શ્રી સાયલા સ્થાનકવાસી જૈન સંઘ,
લિંબડી છ કોટી ઉપાશ્રય, રામપરાશેરી
મુપો સાયલા, જિલ્લા-સુરેન્દ્રનગર
(ગુજરાત) 363430
પ્રમુખ - શ્રી મૂળચંદભાઈ વી શાહ,
ફોન નં 770
40. રતનપુર (સૌરાષ્ટ્ર) (ગુજરાત)
વિદુષી મહાસતીશ્રી પુનિતાબાઈ મ સા
આદિ ઠાણા (4)
સમ્પર્ક સૂત્ર - શ્રી રતનપર શ્વે સ્થાનકવાસી જૈન સંઘ
. 34, નમ્બર બસ સ્ટોપ પાસે, મુપો. રતનપર
(સૌરાષ્ટ્ર), વાયા જોરાવર નગર,
જિલ્લા - સુરેન્દ્ર નગર
(ગુજરાત) 363020
પ્રમુખ - ગાંધી અમૃતલાલ મોહનલાલ,
ફોન નં. 21162
41. મુંબઈ - અંધેરી - ભરડાવાડી (મહારાષ્ટ્ર)
વિદુષી મહાસતીશ્રી અમરલતાબાઈ મ સા
આદિ ઠાણા (3)

- સમ્પર્ક સૂત્ર - શ્રી વ સ્યા જૈન શ્રાવક સઘ,
જૈન સ્થાનક ઓબેરાય કમાઉડ,
ભટ્ટાવાડી, જેપી રોડ, અધેરી (વેસ્ટ),
મુંબઈ - 400 058 (મહારાષ્ટ્ર)
પ્રમુખ - શ્રી સૂરજવીરજી ગડા,
ફોન ન ઑફીસ 6285247 નિવાસ. 6286433
- 42 ગુન્દાલા - કચ્છ (ગુજરાત)
વિદુષી મહાસતી શ્રી તરુભતાબાઈ મ.સા.
આદિ ઠાણા (4)
સમ્પર્ક સૂત્ર - શ્રી સ્થાનકવામી છ કોટી જૈન સઘ
છ કોટી સ્થાનક, મુપો ગુન્દાલા - કચ્છ
જિલ્લા - ભુજ (ગુજરાત) 370410
પ્રમુખ - શ્રી દેવજી ભાઈ મૂજાભાઈ (બુદ્ધવાયા)
- 43 ભાવનગર (મેહતા ચેરી) (ગુજરાત)
વિદુષી મહાસતી શ્રી ગીતાબાઈ મ.સા.
આદિ ઠાણા (5)
સમ્પર્ક સૂત્ર - શ્રી સ્થાનકવામી જૈન સઘ,
પોષધથાલા, મેતા ચેરી ભાવનગર (સોરાષ્ટ્ર)
(ગુજરાત) 364001 ફોન ન. 23707
પ્રમુખ - શ્રી ધીરજલાલ છગનલાલ વદાણી
ફોન ન. ઑફીસ 22857, નિવાસ. 22856
- 44 અમદાવાદ - ઘાટલોડિયા (ગુજરાત)
વિદુષી મહાસતી શ્રી વૃદનાબાઈ મ.સા.
આદિ ઠાણા (4)
સમ્પર્ક સૂત્ર - શ્રી વર્ધમાન સ્થાનકવાસી જૈન સઘ,
10 મજુશ્રી સોસાયટી, રત્ના પાર્ક પાસે,
ઘાટલોડિયા અમદાવાદ (ગુજરાત)
360061 ફોન 462819
પ્રમુખ - શ્રી ભરતભાઈ ચાતીલાલ ચેક
ફોન ન. 471819
- 45 મુબઈ - કલ્યાણ (મહારાષ્ટ્ર)
વિદુષી મહાસતી શ્રી ઝખનાબાઈ મ.સા.
આદિ ઠાણા (6)
સમ્પર્ક સૂત્ર - શ્રી વ સ્યા જૈન શ્રાવક સઘ,
જૈન સ્થાનક ગાંધી ચોક, કલ્યાણ,
જિલ્લા - ઠાણે (મહારાષ્ટ્ર) 421301
ફોન ન. 25052
પ્રમુખ - શ્રી રમણિકલાલ વલ્લભદાસ જુઠાણી,
ફોન ન. 25942
- 46 આપોઈ-કચ્છ (ગુજરાત)
વિદુષી મહાસતી શ્રી હસાબાઈ મ.સા.
આદિ ઠાણા (3)
તમ્ક સૂત્ર - શ્રી આપોઈ સ્થાનકવાની છ કોટી જૈન સઘ,
છ કોટી જૈન સ્થાનક, મુપો આપોઈ -
કચ્છ, તાલુકો - ભયાઈ, જિલ્લા - ભુજ
(ગુજરાત) 370135
પ્રમુખ - શ્રી પોપટલાલ જગતી ગડા,
ફોન ન. 28378410
- 47 મુબઈ - વિકોલી (મહારાષ્ટ્ર)
વિદુષી મહાસતી શ્રી નયનાબાઈ મ.સા. (મોટા)
આદિ ઠાણા (3)
સમ્પર્ક સૂત્ર - શ્રી વ સ્યા જૈન શ્રાવક સઘ,
જૈન સ્થાનક ટેંગોર નગર, બિલિડગ ન. 4
ની સામે, ભારત નગરની બાજુમા,
વિકોલી (પૂર્વ), મુબઈ - 400083
(મહારાષ્ટ્ર) ફોન ન. 578 39 09 PP
પ્રમુખ - થાક દેવજી પૂનસી
ફોન ઑફીસ 578 13 63 578 10 25
- 48 મુબઈ - કલવા (થાના) (મહારાષ્ટ્ર)
વિદુષી મહાસતી શ્રી મૃગાવતીબાઈ મ.સા.
આદિ ઠાણા (4)
સમ્પર્ક સૂત્ર - શ્રી વ સ્યા જૈન શ્રાવક સઘ,
જૈન સ્થાનક ભારતી ચેમ્બર્સ, જૂના બેલાપૂર
રોડ, મુપો કલવા, જિલ્લા - થાણા
(મહારાષ્ટ્ર) 400605
પ્રમુખ - શ્રી ડાયાલાલ તેજસી ફરીઆ,
ફોન ન. 534 72 67
- 49 બરવાલા (વેલાશાહ) (ગુજરાત)
વિદુષી મહાસતી શ્રી દર્શનાબાઈ મ.સા.
આદિ ઠાણા (3)
સમ્પર્ક સૂત્ર - શ્રી સ્વેતામ્બર સ્થાનકવાસી જૈન સઘ
મુપો. બરવાલા (વેલાશાહ) તાલુકો - ધધુકા
જિલ્લા - ભાવનગર (ગુજરાત) 382450
- 50 સૂરત (ગુજરાત)
વિદુષી મહાસતી શ્રી સાધનાબાઈ મ.સા.આદિ ઠાણા (4)
સમ્પર્ક સૂત્ર - શ્રી જૈન સ્વેતામ્બર સ્થાનકવાસી સન્નામપુરા
છ કોટી સઘ, છ કોટી ઉપાશ્રય, સન્નામપુરા
પુતલી પાસે, સૂરત - 395002 (ગુજરાત)

ઘ 633435

પ્રમુખ - શ્રી દેવચન્દ્રભાઈ ફોજાલાલ શાહ
ફોન નં. 29057 નિવાસ

51. મુંબઈ - મલાડ (પૂર્વ) (મહારાષ્ટ્ર)

વિદુષી મહાસતી શ્રી કોકિલાબાઈ મ સા

આદિ ઠાણા (4)

સમ્પર્ક સૂત્ર - શ્રી વ. સ્થા. જૈન મંડલ (પૂર્વ)
પ્રહલાદ બિલ્લિંગ, દફતરી રોડ, શિવાજી નગર,
શિવાજી ચોક, મલાડ (પૂર્વ), મુંબઈ - 400 097
ઘ 8804559 P.P.

પ્રમુખ - શાહ ધીરજલાલ તલકચંદ,
ફોન નં 8070099, 8079119

52. મુંબઈ - મુલુન્ડ - ચેકનાકા (મહારાષ્ટ્ર)

વિદુષી મહાસતી શ્રી રાજેશ્વરીબાઈ મ સા.

આદિ ઠાણા (3)

સમ્પર્ક સૂત્ર - શ્રી વ સ્થા જૈન શ્રાવક સંઘ,
જૈન સ્થાનક બાગલે ઈસ્ટેટ,
સત્ય સંગમ બિલ્લિંગ, શિવાજી નગર,
પંજાબ બેંક સામે, મુલુન્ડ ચેક નાકા,
થાણા (મહા.), ઘ 5618486, 5610090
પ્રમુખ - શ્રી રમણભાઈ તેજસીભાઈ વોચા,
ઘ 561 84 86

53. લિંબડી (સૌરાષ્ટ્ર) (ગુજરાત)

વિદુષી મહાસતી શ્રી મેહુલાબાઈ મ સા.

આદિ ઠાણા (4)

સમ્પર્ક સૂત્ર - ઉપરોક્ત ક્રમાંક 2 અનુસાર

54. અમદાવાદ - બાસણા (ગુજરાત)

વિદુષી મહાસતી શ્રી વંદિતાબાઈ મ સા.

સમ્પર્ક સૂત્ર - શ્રી વ સ્થા જૈન શ્રાવક સંઘ

3 સેચુરી ફ્લેટ, બસ સ્ટેન્ડ પાસે,
વાસુકી સોસાયટીના પાછળ,
બાસણા, અમદાવાદ (ગુજરાત) 380007,
ફોન નં 417881

પ્રમુખ - શ્રી સારાભાઈ એચ શાહ,
ઘ ઓફીસ - 382152, નિવાસ 413445

55. આણન્દ (ગુજરાત)

વિદુષી મહાસતી શ્રી કૌમુદીબાઈ મ સા.

આદિ ઠાણા (3)

સમ્પર્ક સૂત્ર - શ્રી સ્થાનકવાસી જૈન સંઘ,

જૈન ઉપાશ્રય, મહાવીર માર્ગ,

આણન્દ - 388001, જિલ્લા - ખેડા (ગુજરાત)

પ્રમુખ - શ્રી દલસુખભાઈ એમ દેસાઈ,

ઘ ઓફીસ 23675, નિવાસ 20212

56. મુંબઈ - ગોરેગાંવ (વેસ્ટ) (મહારાષ્ટ્ર)

વિદુષી મહાસતી શ્રી જિજ્ઞાસાબાઈ મ સા

આદિ ઠાણા (3)

સમ્પર્ક સૂત્ર - શ્રી વ સ્થા. જૈન શ્રાવક સંઘ

જૈન સ્થાનક 214-એ, જવાહર નગર,

રોડ નં 12, એસ વી. રોડની બાજુમાં,

ગોરેગાંવ (વેસ્ટ), મુંબઈ - 400 104

(મહારાષ્ટ્ર) ફોન નં. 8725740

પ્રમુખ - શ્રી કાંતીલાલ નાગરદાસ શેઠ,

ઘ 872 2362, 873 7910

57. લખતર (સૌરાષ્ટ્ર) (ગુજરાત)

વિદુષી મહાસતી શ્રી વૈશાલી બાઈ મ સા

આદિ ઠાણા (3)

સમ્પર્ક સૂત્ર - શ્રી સ્થાનકવાસી છ કોટી જૈન સંઘ,

જૈન ઉપાશ્રય છ કોટી સ્થાનક,

મુ.પો. લખતર (સૌરાષ્ટ્ર) જિલ્લા - સુરેન્દ્ર નગર

(ગુજરાત) 382775

પ્રમુખ - શાહ અમૃતલાલ રતીલાલ

58. મુંબઈ - ડોમ્બીવલી (મહારાષ્ટ્ર)

વિદુષી મહાસતી શ્રી મધુસ્મિતાબાઈ મ.સા.

આદિ ઠાણા (6)

સમ્પર્ક સૂત્ર - શ્રી વ સ્થા. જૈન શ્રાવક સંઘ,

જૈન ઉપાશ્રય, શ્રીચાલ, પારસમણિ જૈન મંદિરની

બાજુમાં, લાલા લાજપતરાય માર્ગ, તિલકનગર,

ડોમ્બીવલી (પૂર્વ) જિલ્લા - થાણા

(મહારાષ્ટ્ર) 421201

ઘ 465120 P.P.

59. મુંબઈ - મરોલ (અંધેરી) (મહારાષ્ટ્ર)

વિદુષી મહાસતી શ્રી કિરણપ્રભાબાઈ મ.સા

આદિ ઠાણા (4)

સમ્પર્ક સૂત્ર - શ્રી.વ સ્થા. જૈન શ્રાવક સંઘ, જૈન સ્થાનક,

જલારામ અપાર્ટમેન્ટ્સ, એસ ટી ડિપોની બાજુમાં,

મરોડી રોડ, જે વી નગર, મરોલ, અધેરી (પૂર્વ)
મુબઈ - 400 069 (મહારાષ્ટ્ર),
ફોન નં. 632 3270 P P
પ્રમુખ - શ્રી પોપટલાલ વીશાભાઈ ગાળા,
૪ ઑફીસ - 834 17 95 નિવાસ - 8344157

- 60 પ્રાગપુર - કચ્છ (ગુજરાત)
વિદુષી મહાસતી શ્રી પ્રગતિબાઈ મ સા.
આદિ ઠાણા (4)
સમર્ક સૂત્ર - શ્રી પ્રાગપુર સ્થાનકવાસી છ કોટી જૈન સવ
છ કોટી સ્થાનક, મુ પો પ્રાગપુર - કચ્છ
તાલુકો - મૂન્દ્રા, જિલ્લા - ભુજ
(ગુજરાત) 370415
પ્રમુખ - શ્રી પ્રેમજી રામજી વોરા

- 61 સામખિયારી - કચ્છ (ગુજરાત)
વિદુષી મહાસતી શ્રી ચૈતન્યબાઈ મ સા
આદિ ઠાણા (3)
સમર્ક સૂત્ર - શ્રી સામખિયારી સ્થાનકવાસી છ કોટી જૈન સવ
છ કોટી સ્થાનક મુ પો. સામખિયારી - કચ્છ તાલુકો
ભચાઈ, જિલ્લા - ભુજ (ગુજરાત) 370150
પ્રમુખ - શ્રી મેવજીભાઈ માડલભાઈ ગડા

નોટ - એકલ વિહારી મુનિરાજ -

૫ રત્ન શ્રી જગદીશ મુનિજી મ સા ધાણા (1) એકલ
વિહારી હોવાને કારણે આ સૂચીમા તેઓનું નામ
સંમિલિત નથી કર્યું તેઓનું યાતુર્માસ નિચે પ્રમાણે છે

ચૂડા - (સૌરાષ્ટ્ર) (ગુજરાત)
૫ રત્ન શ્રી જગદીશ મુનિજી મ સા ધાણા (1)
સમર્ક સૂત્ર - શ્રી સ્થાનકવાસી જૈન સવ
જૈન ઉપાશ્રય, મુ પો ચૂડા - (સૌરાષ્ટ્ર),
તાલુકા - લિમ્બડી, જિલ્લા - સુરેન્દ્ર નગર
(ગુજરાત) 373410
પ્રમુખ - શ્રી દલીચંદ મગનલાલ વોરા, ૪ 31

કુલ યાતુર્માસ (61) સત (18) સતિજીઓ (248)
કુલ ઠાણા (266)

સત-સતી તુલનાત્મક તાલિકા 1993

| વિવરણ | સત | સતિયાં | કુલ ઠાણા |
|----------------------|----|--------|----------|
| 1992 મા કુલ ઠાણા હતા | 19 | 239 | 258 |
| (+) નવી દીક્ષા ધર્ષ | - | 10 | 10 |
| (-) કાલ ધર્મ પ્રાપ્ત | 19 | 249 | 268 |
| | - | 1 | 1 |
| એકલ વિહારી | 1 | - | 1 |
| | 18 | 248 | 266 |
| 1993 મા કુલ ઠાણા | 18 | 248 | 266 |

પ્રાત સેત્ર વાર તાલિકા - 1993

| ક | વિભાગ | યાતુર્માસ સ્થળ | સત | સતિજીઓ | કુલ ઠાણા |
|---|-------------|----------------|----|--------|----------|
| 1 | કચ્છ | 19 | 7 | 79 | 86 |
| 2 | સૌરાષ્ટ્ર | 15 | 1 | 68 | 69 |
| 3 | ગુજરાત અન્ય | 9 | 4 | 31 | 35 |
| 4 | મુબઈ શહર | 17 | 6 | 70 | 76 |
| | કુલ | 61 | 18 | 248 | 266 |

જૈન પત્ર-પત્રિકાએ - કોઈ નહી

વિશેષ - (1) ઇસ સમુદાય મેં સ્વ. આચાર્ય પ્રવર શ્રી રુપચન્દ્રજી
સ્વામી કે મહાપ્રયાણ કે પરચાત્ અભી તક કિસી કો ભી આચાર્ય
પદવી પ્રદાન નહી કિયા ગયા. ગાદીપતિ કા પદ સમુદાય મેં વરિષ્ઠ
દીક્ષા પર્યાય વર્ષ વાલે સત કો પ્રદાન કરને કા નિયમ હૈ. ઇસ કારણ
સમુદાય મેં સબસે વધોવુદ વરિષ્ઠ દીક્ષા પર્યાય શ્રી નરસિંહ મુનિજી
મ.સા. ગાદીપતિ પદ પર વિરાજમાન હૈ.

(2) ઇસ વર્ષ ઇસ સમુદાય કી વિદુષી મહાસતી શ્રી કવિતાબાઈ
મ.સા. આદિ ઠાણા કા યાતુર્માસ મુબઈ કે ખાર રોડ ઉપનગર મેં હો
રહા હૈ ખાર રોડ કી સ્થાનકમે એક રિકાર્ડ હૈ ખાર રોડ વિશેષકર
પજાબ પ્રાન્ત કા સ્થાનક હૈ જો હિન્દી ભાષી હૈ જબસે અહિસા હાલ
સ્થાનક કી સ્થાપના હુઈ તબસે અબ તક વહા યાતુર્માસ હિન્દી
ભાષી સત-સતિ કા હી હુઆ હૈ, ઇસ વર્ષ ગેર હિન્દી ભાષી
ગુજરાતી ભાષી સતિયોં કા યાતુર્માસ હો રહા હૈ જો ખાર રોડ પજાબ
જૈન માતૃમભા કે લિયે રિકાર્ડ હૈ

- સપાદક

| | | | |
|-----------------------|--------|-----------|-----|
| કુલ યાતુર્માસ સતોના | 5 | કુલ સત | 18 |
| કુલ યાતુર્માસ સતિયોના | 56 | કુલ સતીયો | 248 |
| | કુલ 61 | | 266 |

12

શ્રી દરિયાપુરી આઠ કોટી સમુદાય

સમુદાયના પ્રમુખ આચાર્ય:- આચાર્ય પ્રવર
પં. રત્ન શાસ્ત્રજ્ઞ શ્રી શાંતિલાલજી મ.સા.

કુલ ચાતુર્માસ (30) સંત (14) મહાસતીજીઓ (117) કુલ ઠાણા (131)

મુનિરાજ સમુદાય

1. બઢવાણ શહર (ગુજરાત)
આચાર્ય પ્રવર શાસ્ત્રજ્ઞ પં. રત્ન
શ્રી શાંતિલાલજી મ.સા. આદિ ઠાણા (4)
સમ્પર્ક સૂત્ર - શ્રી દરિયાપુરી આઠ કોટી
સ્થાનકવાસી જૈન સંઘ, મોટા દેરાસરની બાજુમાં,
બઢવાણ શહર, વાયા જિલ્લા - સુરેન્દ્ર નગર
(ગુજરાત) 363030

2. અમદાવાદ - નારાણપુરા (ગુજરાત)
પ્રખર વ્યાખ્યાતા પંરત્ન શ્રી વિરેન્દ્ર મુનિજી મ.સા.
સૌમ્યમૂર્તિ શ્રી રાજેન્દ્ર મુનિજી મ.સા.
આદિ ઠાણા (8)

સમ્પર્ક સૂત્ર - શ્રી સ્થાનકવાસી જૈન સંઘ
28/29 સ્થાનકવાસી જૈન સોસાયટી,
દેના બૈકની સામેની ગલીમાં,
નારાણપુરા રેલ્વે કોસિંગ, નારાણપુરા,
અમદાવાદ - 380013 (ગુજરાત), ઘ 465426

3. અમદાવાદ - વજયનગર (ગુજરાત)
મધુરવકતા શ્રી હર્ષદ મુનિજી મ.સા.
આદિ ઠાણા (2)

સમ્પર્ક સૂત્ર - શ્રી દરિયાપુરી આઠ કોટી .
સ્થા જૈન સંઘ, 89/29 વિજય નગર,
નારાણપુરા, અમદાવાદ 380013 (ગુજરાત)

મહાસતીજી સમુદાય

4. અમદાવાદ - સરસપુર (ગુજરાત)
વિદુષી મહાસતી શ્રી બસંતબાઈ મ.સા.
આદિ ઠાણા (3)

સમ્પર્ક સૂત્ર - શ્રી સરસપુર સ્થાનકવાસી જૈન સંઘ,
શારદા બેન હોસ્પિટલની સામે,
કુવારાની બાજુમાં, સરસપુર,
અમદાવાદ - 380018 (ગુજરાત),
ઘ મંત્રી - 339807

5. ઈંટોલા (ગુજરાત)
વિદુષી મહાસતી શ્રી અરુણાબાઈ મ.સા.
આદિ ઠાણા (2)
સમ્પર્ક સૂત્ર - શ્રી દરિયાપુરી સ્થાનકવાસી જૈન સંઘ
જૈન ઉપાશ્રય, નાની ભાગલ, મુ.પો. ઈંટોલા
વાયા મિયાગાંવ, કરજણ, જિલ્લા - બરોડા
(ગુજરાત)

6. વિરમગાંવ (ગુજરાત)
વિદુષી મહાસતી શ્રી જશવંતીબાઈ મ.સા.
આદિ ઠાણા (5)

સમ્પર્ક સૂત્ર - શ્રી વિરમગાંવ દશાશ્રીમાળી,
દરિયાપુરી સ્થા જૈન સંઘ, સંઘવી સ્થાનક
મુ.પો. વિરમગાંવ જિલ્લા - અમદાવાદ,
(ગુજરાત) 382157
ઘ અધ્યક્ષ - 160-75

7. બોદાલ (ગુજરાત)
વિદુષી મહાસતી શ્રી પ્રજ્ઞાબાઈ મ.સા.
આદિ ઠાણા (2)

સમ્પર્ક સૂત્ર - શ્રી દરિયાપુરી આઠ કોટી
સ્થાનકવાસી જૈન સંઘ, મુ.પો. બોદાલ
વાયા બોરસદ, જિલ્લા - ખેડા (ગુજરાત)

- 8 મુબઈ - અધેરી (વેસ્ટ) (મહારાષ્ટ્ર)
વિદુષી મહાસતી શ્રી વિમલાબાઈ મ સા.
આદિ કાણા (7)
સમ્પર્ક સૂત્ર - શ્રી વ સ્યા જૈન શ્રાવક સવ
જૈન સ્થાનક ઉપાશ્રય લેન, જુહુ ગલ્લી,
ઝાલાવાડ નગર, અધેરી (પશ્ચિમ)
મુબઈ 400 056 (મહારાષ્ટ્ર)
☎ 6210238
- 9 મુબઈ - વાલકેશ્વર (મહારાષ્ટ્ર)
વિદુષી મહાસતી શ્રી હસાબાઈ મ સા
આદિ કાણા (3)
સમ્પર્ક સૂત્ર - શ્રી વ સ્યા જૈન શ્રાવક સવ,
જૈન સ્થાનક જમનાદામ મેહતા માર્ગ,
તીન બતી પાસે, વાલકેશ્વર,
મુબઈ - 400006 (મહારાષ્ટ્ર),
☎ 3621642
- 10 મુબઈ - અધેરી (પૂર્વ) મહારાષ્ટ્ર)
વિદુષી મહાસતી શ્રી સુલોચનાબાઈ મ સા
આદિ કાણા (4)
સમ્પર્ક સૂત્ર - શ્રી વ સ્યા જૈન શ્રાવક સવ,
જૈન ભુવન વર્મા નગર બિલ્ડિંગ નં 6
ચિનોઈ કોલેજની પાછળ, જૂના નાગરદાસ
રોડ, અધેરી (પૂર્વ), મુબઈ - 400069
(મહારાષ્ટ્ર) ☎ 8326808
- 11 વડોદરા (ગુજરાત)
વિદુષી મહાસતી શ્રી ઈન્દુબાઈ મ સા
આદિ કાણા (3)
સમ્પર્ક સૂત્ર - શ્રી દરિયાપુરી આઠ કોટી
સ્યા જૈન મઘ,
ભોગીદાસ વિઠલ પોલના નાકા પાસે,
મામાની પોલ, રાવપુરા,
વડોદરા - 390001 (ગુજરાત)
☎ 550 314 - 55
- 12 અમદાવાદ - સરસપુર (ગુજરાત)
વિદુષી મહાસતી શ્રી સુશીલાબાઈ મ સા.
આદિ કાણા (4)
- સમ્પર્ક સૂત્ર - શ્રી સરસપુર સ્યા જૈન સવ,
જૈન ઉપાશ્રય, ચારદાબેન હોસ્પિટલની સામે,
કુવારા પાસે, સરસપુર,
અમદાવાદ - 380018 (ગુજરાત)
- 13 ઐંગલોર (કર્નટક)
વિદુષી મહાસતી શ્રી ઈન્દિરાબાઈ મ સા
આદિ કાણા (3)
સમ્પર્ક સૂત્ર - જયનગર ઐંગલોર
- 14 કલોલ (ગુજરાત)
1 વિદુષી મહાસતી શ્રી પ્રતિભાબાઈ મ સા.
2 વિદુષી મહાસતી શ્રી નારગીબાઈ મ સા
આદિ કાણા (5)
સમ્પર્ક સૂત્ર - શ્રી દરિયાપુરી આઠ કોટી જૈન
સવ, જૈન ઉપાશ્રય ઉમા સ્પ્રિંગ્સની બાજુમા,
ઉપાશ્રયવાલો ખાચો, બજારમા,
મુખો. કલોલ, જિલ્લા - અમદાવાદ
(ગુજરાત), 382721
☎ 2070 PP
- 15 અમદાવાદ - નવા વાડજ (ગુજરાત)
વિદુષી મહાસતી શ્રી દીક્ષિતાબાઈ મ સા
આદિ કાણા (7)
સમ્પર્ક સૂત્ર - શ્રી સ્થાનકવાસી જૈન સવ,
જૈન ઉપાશ્રય, ચપકનગર ફલેટ્સ; નવા વાડજ
અમદાવાદ - 380013 (ગુજરાત)
☎ 382499
- 16 અમદાવાદ - નારાણપુરા (ગુજરાત)
વિદુષી મહાસતી શ્રી હીરાબાઈ મ સા
આદિ કાણા (5)
સમ્પર્ક સૂત્ર - શ્રી સ્થાનકવાસી જૈન સવ,
જૈન ઉપાશ્રય, 4 સ્થાનકવાસી સોસાયટી
નારાણપુરા રેલ્વે કોલિંગ અમદાવાદ - 380013
(ગુજરાત) ☎ 465426
- 17 નવસારી (ગુજરાત)
વિદુષી મહાસતી શ્રી પ્રવીણાબાઈ મ સા.
આદિ કાણા (4)

- સમ્પર્ક સૂત્ર - શ્રી સ્થાનકવાસી જૈન સંઘ,
જૈન ઉપાશ્રય, આશા નગર, ભારત સોસાયટી
નવસારી, જિલ્લા - વલસાડ
(ગુજરાત) 396445
18. સૂરત (ગુજરાત)
વિદુષી મહાસતી શ્રી મીનાક્ષીબાઈ મ.સા
આદિ ઠાણા (3)
- સમ્પર્ક સૂત્ર - શ્રી દરિયાપુરી સ્થા. જૈન સંઘ
જૈન ઉપાશ્રય, રાંદેર - સૂરત 395003 (ગુજરાત)
19. પ્રાંતીજ (ગુજરાત)
વિદુષી મહાસતી શ્રી તરુલતાબાઈ મ સા
આદિ ઠાણા (5)
- સમ્પર્ક સૂત્ર - શ્રી પ્રાંતીજ સ્થા દરિયાપુરી આઠ કોટી
જૈન સંઘ, જૈન ઉપાશ્રય, બેજારમા
મુ પો પ્રાંતીજ, જિલ્લા - સાંવરકાંઠા
(ગુજરાત) 383205, ઘ 62 અને 12
20. પાલનપુર (ગુજરાત)
વિદુષી મહાસતી શ્રી પ્રફુલ્લાબાઈ મ.સા.
આદિ ઠાણા (4)
- સમ્પર્ક સૂત્ર - શ્રી લોકાગચ્છં-સ્થા જૈન સંઘ
જૈન ઉપાશ્રય, જીવનવાડી, પાલનપુર
જિલ્લા - વનાસકાંઠા (ગુજરાત) 385001
21. અમદાવાદ - ગિરધરનગર (ગુજરાત)
વિદુષી મહાસતીશ્રી જયોત્સનાબાઈમસા
આદિ ઠાણા (4)
- સમ્પર્કસૂત્ર - શ્રી દરિયાપુરી આઠકોટી સ્થા જૈન સંઘ
10 સુભાષ નગર, ગિરધર નગર,
અમદાવાદ 380010 (ગુજરાત)
22. અમદાવાદ - ઘાહપુર (ગુજરાત)
વિદુષી મહાસતી શ્રી ચન્દ્રિકાબાઈ મ.સા
આદિ ઠાણા (4)
- સમ્પર્ક સૂત્ર - શ્રી દરિયાપુરી આઠ કોટી
સ્થા. જૈન સંઘ, સુનારાનો ખાંચો, ઘાહપુર,
અમદાવાદ 380001 (ગુજરાત)
23. અમદાવાદ - છીપાપોલ (ગુજરાત)
વિદુષી મહાસતી શ્રી કરુણાબાઈ મ.સા.
- વિદુષી મહાસતી શ્રી આનન્દીબાઈ મ સા
વિદુષી મહાસતી શ્રી ખેરણાબાઈ મ.સા.
આદિ ઠાણા (9)
- સમ્પર્ક સૂત્ર - શ્રી દરિયાપુરી આઠ કોટી સ્થા જૈન સંઘ
જૈન સ્થાનક, સ્વામી નારાયણ મંદિર રોડ,
કાલુપુર - છીપાપોલ, અમદાવાદ - 380001
ગુજરાત ઘ 363941
24. મિયાગાંવ - કરજણ (ગુજરાત)
વિદુષી મહાસતી શ્રી મંજુલાબાઈ મ સા
આદિ ઠાણા (5)
- સમ્પર્ક સૂત્ર - શ્રી સ્થાનકવાસી જૈન સંઘ,
જૈન ઉપાશ્રય મુ પો મિયાગાંવ કરજણ,
જિલ્લા - બડોદા (ગુજરાત) 391240
25. વિસલપુર (ગુજરાત)
વિદુષી મહાસતી શ્રી જાગૃતિબાઈ મ સા.
આદિ ઠાણા (3)
- સમ્પર્ક સૂત્ર - શ્રી સ્થાનકવાસી જૈન સંઘ,
જૈન ઉપાશ્રય, મુ પો વિશલપુર,
જિલ્લા - અમદાવાદ (ગુજરાત)
26. મુંબઈ - ઘાટકોપર - સંઘાણી (મહારાષ્ટ્ર)
વિદુષી મહાસતી શ્રી મધુબાઈ મ સા
આદિ ઠાણા (6)
- સમ્પર્ક સૂત્ર - શ્રી વ સ્થા. જૈન શ્રાવક સંઘ
જૈન સ્થાનક, શ્રેયસ ટાકીજની બાજુમાં,
ગાર્ડન લેન, સંઘાણી ઈસ્ટેટ, ઘાટકોપર (વેસ્ટ),
મુંબઈ - 400 086, ઘ 515 20 27
27. પાટણ (ગુજરાત)
વિદુષી મહાસતી શ્રી લલિતાબાઈ મ સા
આદિ ઠાણા (2)
- સમ્પર્ક સૂત્ર - શ્રી દરિયાપુરી આઠ કોટીસ્થા જૈન સંઘ,
હિંગળા અમ્બર રોડ, ઘેલા ભાઈ માતાની ખડકી,
મુ પો પાટન, જિલ્લા - મેહસાના
(ગુજરાત) 384265
28. અમદાવાદ સારંગપુર (ગુજરાત)
વિદુષી મહાસતી શ્રી કાંતાબાઈ મ.સા.
આદિ ઠાણા (3)

સમ્પર્ક સૂત્ર - શ્રી દરિયાપુરી આઠ કોટી સ્થા. જૈન મઘ,
જૈન ઉપાશ્રય, તલિયાની ધોલ,
મહાદેવ વાલો ખાચો, સાગ-પુર,
અમદાવાદ - 380001 (ગુજરાત)

| | | | |
|------------------------|--------|----------|-----|
| કુલ ચાતુર્માસ સતોના | 3 | કુલ સત | 14 |
| કુલ ચાતુર્માસ મતિજીઓનુ | 27 | કુલ સતીઓ | 117 |
| | કુલ 30 | | 131 |

29 અમદાવાદ વીમાનગર (ગુજરાત)
વિદુષી મહાત્મતી શ્રી મોતીબાઈ મ.મ.

આદિ ઠાણા (4)

સમ્પર્ક સૂત્ર - શ્રી દરિયાપુરી આઠ કોટી સ્થા જૈન મઘ,
જૈન ઉપાશ્રય, ઠાકરસી મુગીલાલ હોમીટલની
સામે, સેટેલાઈટ, પ્રેમચન્દ નગર રોડ,
આમ્બાવાડી, અમદાવાદ (ગુજરાત) 380015

| | |
|---|----------------|
| કુલ ચાતુર્માસ (30) સત (14) સતિજીઓ (117) | કુલ ઠાણા (131) |
|---|----------------|

સત-સતી તુલનાત્મક તાલિકા 1993

| વિવરણ | સત | સતિયાં | કુલ ઠાણા |
|----------------------|----|--------|----------|
| 1992 મા કુલ ઠાણા હતા | 13 | 118 | 131 |
| (+) નવી દીક્ષા થઈ | 1 | 1 | 2 |
| | 14 | 119 | 133 |
| (-) કાલ ધર્મ પ્રાપ્ત | | 2 | 2 |
| | 14 | 117 | 131 |
| 1993 મા કુલ ઠાણાઓ | 14 | 117 | 131 |

30 અમદાવાદ - આમ્બાવાડી (ગુજરાત)
વિદુષી મહાત્મતી શ્રી સુલદ્રાબાઈ મ.સા.

આદિ ઠાણા (8)

સમ્પર્ક સૂત્ર - શ્રી સ્થાનકવાસી જૈન સઘ
શ્રી વૃદાવન વલ્લભદાસ મેહતા જૈન ઉપાશ્રય
2 આમ્રકુજ સોસાયટી,
સ્નેહકુજ બસ સ્ટેન્ડની બાજુમા,
નેહરુ નગર (આમ્બાવાડી)
અમદાવાદ - 380015 (ગુજરાત)
☎ 413735 463524

નોટ - સેવાભાવી મહાસતીજી શ્રી અનુપમાબાઈ મ.સા.નો
દિનાક 9 7 93 ના રોજ ચાતુર્માસ પ્રારંભ થયા પછી વાલકેસ્વર
મુબઈમા દેહાવમાન થયેલ છે
જૈન પત્ર પત્રિકાઓ - કોઈ નથી
આ સમુદાયમા આ વર્ષે ૨ સતિજીઓનો કાળધર્મ થયો હતો અને
એક સત અને એક સતિજીની નવી દીક્ષા થઈ હતી.

જૈન વિશ્વ રિકાર્ડસ

સમ્પૂર્ણ જૈન સમાજ મે આચાર્ય શ્રી વિજય ઇન્દ્રદિલ સૂરીશ્વરજી મ સા
એક માત્ર એસે આચાર્ય હૈ જિનકી નિશ્રા મે
इस वर्ष 1993 मे पालीताणा (सौराष्ट्र) मे एक साथ
22 साधु एव 103 साध्वीयाँ
कुल 125 ठाणाओ का चातुर्मास एक ही जगह हो रहा है।

(જૈન રિકાર્ડસ ડાયરેક્ટરી સે સામાર)

13

શ્રી લિમ્બડી ગોપાલ સમ્પ્રદાય

સમુદાયના પ્રમુખ સંત:-તપસ્વી રત્ન સરલ સ્વભાવી
પં.રત્ન વાત્સલ્ય વારિધિ શ્રી રામજી મુનિ મ.સા.

કુલ ચાતુર્માસ (26) સંત (13) મહાસતીજીઓ (123) કુલ ઠાણા (136)

મુનિરાજ સમુદાય

1. ધાંગધા (ગુજરાત)
તપસ્વીરત્ન વાત્સલ્ય વારિધિ સરલ સ્વભાવી
પં. રત્ન શ્રી રામજી મુનિ મ.સા.
આદિ ઠાણા (6)
સમ્પર્ક સૂત્ર - શ્રી શ્વેતામ્બર સ્થાનકવાસી જૈન મોટા સંઘ
જૈન ઉપાશ્રય, ગ્રીન ચૌક, ધાંગધા
જિલ્લા - સુરેન્દ્રનગર (ગુજરાત) 363310
પ્રમુખ - ટ્વ ઓફીસ(02754) 2404
ઘર - 2018 P P
2. મુંબઈ - ભાયન્દર (મહારાષ્ટ્ર)
આધ્યાત્મિક પ્રેમી શ્રી કેવલમુનિજી મ સા
આદિ ઠાણા (2)
સમ્પર્ક સૂત્ર - શ્રી વ સ્થા. જૈન શ્રાવક સંઘ
જૈન સ્થાનક, મહાવીર અપાર્ટમેન્ટસ, સબ્જી મડી,
સ્ટેશન રોડ, ભાયન્દર (વેસ્ટ) જિલ્લા - ધાણા
(મહારાષ્ટ્ર) 401101 ટ્વ 898 2418 P P
3. બઢવાણ શહર (ગુજરાત)
સરલ સ્વભાવી શ્રી રતનસી મ સા. આદિ ઠાણા (2)
સમ્પર્ક સૂત્ર - શ્રી સ્થાનકવાસી જૈન સંઘ,
ધોવીપોલ રોડ, મુ પો બઢવાણ શહર,
વાયા સુરેન્દ્રનગર (ગુજરાત) 363030
પ્રમુખ - ટ્વ ઓફીસ (02752) 20005
નિવાસ (2246) P.P.
4. દામનગર (ગુજરાત)
સેવાભાવી શ્રી દેવેન્દ્ર મુનિજી મ.સા આદિ ઠાણા (3)

સમ્પર્ક સૂત્ર - શ્રી સ્થાનકવાસી જૈન સંઘ,
જૈન ઉપાશ્રય, મુ પો. દામનગર,
જિલ્લા - અમરેલી (ગુજરાત)
ફોન પ્રમુખ ઓફીસ - 2001 ઘર 2034

મહાસતીજીઓનું સમુદાય

5. થાનગઢ (ગુજરાત)
તેજસ્વી મહાસતીશ્રી મંજુલાબાઈ મ.સા
આદિ ઠાણા (5)
સમ્પર્ક સૂત્ર - શ્રી સ્થાનકવાસી જૈન સંઘ,
જૈન ઉપાશ્રય, મહાલક્ષ્મી શેરી મુ પો. થાનગઢ
જિલ્લા - સુરેન્દ્રનગર (ગુજરાત) 363530
ટ્વ પ્રમુખ ઓફીસ 349 ઘર 370
6. ભાવનગર કૃષ્ણનગર (ગુજરાત)
મૌની આધ્યાત્મિક પ્રેમી મહાસતીશ્રી મુક્તાબાઈ
મ સા
આદિ ઠાણા (6)
સમ્પર્ક સૂત્ર - શ્રી કૃષ્ણ નગર સ્થાનકવાસી જૈન સંઘ
જૈન ઉપાશ્રય, જૈન ઉપાશ્રય મેઘાણી સર્કલ
કૃષ્ણ નગર સોસાયટી, ભાવનગર (ગુજરાત)
364001 ટ્વ ઓફીસ 20985 ઘર 26272
7. લિમ્બડી - (સૌરાષ્ટ્ર) (ગુજરાત)
શાંત સ્વભાવી મહાસતી શ્રી જસવંતીબાઈ મ.સા
આદિ ઠાણા (5)
સમ્પર્ક સૂત્ર - શ્રી સંઘવી ધારસી રવાભાઈ
સ્થાનકવાસી જૈન સંઘ સંઘવી જૈન ઉપાશ્રય,
છલીયાપરા, લિમ્બડી - 363421
જિલ્લા-સુરેન્દ્રનગર (ગુજરાત) ટ્વ (02753) 20456P P

- 8 અમદાવાદ - (એલિજબ્રીજ) (ગુજરાત)
તત્વપ્રેમી મહાસતી શ્રી તારાબાઈ મ.સા.
આદિ ઠાણા (7)
સમ્પર્ક સૂત્ર - શ્રી એલિજબ્રીજ સ્થાનકવાસી જૈન સખ
કામધેનુ સોસાયટી, પી ટી. ૬૬૬૨ કાલેજ રોડ
પાલડી, અમદાવાદ - 380007 (ગુજરાત),
☎ પ્રમુખ ઓફીસ - 799660 નિવાસ 411231
- 9 મુબઈ - ઘાટકોપર (પૂર્વ) (મહારાષ્ટ્ર)
દીર્ઘ તપસ્વી મહાસતી શ્રી કચનબાઈ મ.સા.
આદિ ઠાણા (9)
સમ્પર્ક સૂત્ર - શ્રી વ. સ્યા. જૈન શ્રાવક સખ
જૈન સ્થાનક ઉપાશ્રય લેન, હીંગવાલા લેન,
ઘાટકોપર (પૂર્વ) મુબઈ - 400077 (મહારાષ્ટ્ર)
☎ 512 22 60
- 10 હલવદ (ગુજરાત)
ઉગ્ર તપસ્વિની મહાસતી શ્રી રમાબાઈ મ.સા.
આદિ ઠાણા (4)
સમ્પર્ક સૂત્ર - શ્રી સ્થાનકવાસી જૈન સખ,
જૈન ઉપાશ્રય મુખો હલવદ વાયા ધ્રાગધ્રા,
જિલ્લા - સુરેન્દ્રનગર, (ગુજરાત) 363330
ફોન નં. (02758) 5107 PP
નગીનબાઈ કોઠારી ☎ ઓફીસ 5108 નિવાસ 5107
- 11 અમદાવાદ - શાહીબાગ (ગુજરાત)
પ્રખર વ્યાખ્યાત્રી મહાસતી શ્રી પ્રજાબાઈ મ.સા.
આદિ ઠાણા (10)
સમ્પર્ક સૂત્ર - શ્રી શાહીબાગ સ્થાનકવાસી જૈન સખ
રાજમીલ ગેસની પાછળ, માહેશ્વરી સમાજની
બાજુમા નર્મદા થકર મેહતા માર્ગ, શાહીબાગ
અમદાવાદ - 380004 (ગુજરાત)
દિલિપબાઈ ☎ 868465 મત્રી 376050
- 12 બડોદરા (ગુજરાત)
વિદુષી મહાસતી શ્રી મધુબાઈ મ.સા.
આદિ ઠાણા (4)
સમ્પર્ક સૂત્ર - શ્રી સ્થાનકવાસી જૈન સખ,
જૈન ઉપાશ્રય કોઠી ચાર રાસ્તા શાસ્ત્રીની
પોલ, બડોદરા (ગુજરાત) 390001
☎ (0265) 556413
- 13 મુબઈ - માલાડ - દશાશ્રીમાલીનગર (મહારાષ્ટ્ર)
વિદુષી મહાસતી શ્રી ભારતીબાઈ મ.સા.
આદિ ઠાણા (7)
સમ્પર્ક સૂત્ર - શ્રી વ. સ્યા. જૈન શ્રાવક સખ
જૈન ભુવન, નરસીંગ લેન, દશાશ્રીમાળી નગર,
મલાડ (વેસ્ટ), મુબઈ 400 064 (મહારાષ્ટ્ર),
☎ 807 34 08, 807 85 58 P P
- 14 મુબઈ - ઘાટકોપર - ગરોડિયા નગર (મહારાષ્ટ્ર)
વિદુષી મહાસતી શ્રી પ્રિયદર્શનાબાઈ મ.સા.
આદિ ઠાણા (6)
સમ્પર્ક સૂત્ર - શ્રી વ. સ્યા. જૈન શ્રાવક સખ,
જૈન સ્થાનક, નીબકક કુટીર, યશી ચોપની સામે,
પ્લાટ નં. 90 ગરોડિયા નગર, ઘાટકોપર (પૂર્વ),
મુબઈ - 400 077 (મહારાષ્ટ્ર)
☎ 513 37 00 512 25 29 P P
- 15 સરા (સૌરાષ્ટ્ર) (ગુજરાત)
વિદુષી મહાસતી શ્રી સુચાબાઈ મ.સા.
આદિ ઠાણા (9)
સમ્પર્ક સૂત્ર - શ્રી સ્થાનકવાસી જૈન સખ,
જૈન ઉપાશ્રય, મુખો સરા વાયા ધ્રાગધ્રા,
જિલ્લા - સુરેન્દ્રનગર, (ગુજરાત) 363330
☎ ઓફીસ 2088 નિવાસ 2090
- 16 મુબઈ - માણેકપુર - વસઈ (મહારાષ્ટ્ર)
વિદુષી મહાસતી શ્રી ચન્દ્રિકાબાઈ મ.સા.
આદિ ઠાણા (4)
સમ્પર્ક સૂત્ર - શ્રી વ. સ્યા. જૈન શ્રાવક સખ
જૈન સ્થાનક ગુજરાતી સ્કૂલની બાજુમા,
માણેકપુર, વસઈ (વેસ્ટ), જિલ્લા - થાણા
(મહારાષ્ટ્ર), ☎ (02523) 3730 P P
- 17 મુબઈ - વિલેપાર્લા (મહારાષ્ટ્ર)
સિદ્ધાન્ત પ્રેમી મહાસતી શ્રી નલિનબાઈ મ.સા.
આદિ ઠાણા (6)
સમ્પર્ક સૂત્ર - શ્રી વ. સ્યા. જૈન શ્રાવક સખ
જૈન સ્થાનક 65 રોડ, રેલ્વે સ્ટેશનની સામે,
વિલેપાર્લા (વેસ્ટ), મુબઈ - 400 056
(મહારાષ્ટ્ર), ☎ 612 13 92

18. મુંબઈ - મલાડ (વેસ્ટ) (મહારાષ્ટ્ર)
વિદુષી મહાસતી શ્રી જયશ્રીબાઈ મ સા
આદિ ઠાણા (7)

સમ્પર્ક સૂત્ર - શ્રી વ. સ્થા જૈન શ્રાવક સંઘ,
જૈન સ્થાનક મામલતદાર વાડી કોસ રોડ નં 1,
મલાડ (વેસ્ટ), મુંબઈ - 400 064 (મહારાષ્ટ્ર)
ઘ 8887027

19. મુંબઈ - મુલુન્ડ (વેસ્ટ) (મહારાષ્ટ્ર)
વિદુષી મહાસતી શ્રી કૌશલ્યાબાઈ મ સા
આદિ ઠાણા (6)

સમ્પર્ક સૂત્ર - શ્રી વ સ્થા જૈન શ્રાવક સંઘ
જૈન સ્થાનક, 137 - એ, સેવારામ લલવાણી માર્ગ,
મુલુન્ડ (વેસ્ટ), મુંબઈ - 400 080 (મહારાષ્ટ્ર)
ઘ 5617066 P.P.

20. વલસાડ (ગુજરાત)
વિદુષી મહાસતી શ્રી મૃદુલાબાઈ મ સા
આદિ ઠાણા (3)

સમ્પર્ક સૂત્ર - શ્રી વ સ્થા. જૈન શ્રાવક સંઘ
જૈન સ્થાનક છીપવાડ ભાઈલાલ પટેલ રોડ,
મુ પો વલસાડ (ગુજરાત) ઘ 2530, 2608 P P.

21. અમદાવાદ - બાપૂનગર (ગુજરાત)
વિદુષી મહાસતી શ્રી મનોરમાબાઈ મ સા
આદિ ઠાણા (3)

સમ્પર્ક સૂત્ર - શ્રી વ સ્થાનકવાસી જૈન સંઘ,
જૈન ઉપાશ્રય, 258/260 ગવર્મેન્ટ 'ઈ' કોલોની
અમ્બર સિનેમા પાસે, બાપૂનગર,
અમદાવાદ - 3800024 (ગુજરાત),
ઘ 373234 P P

22. મુંબઈ - ચિંચપોકલી (મહારાષ્ટ્ર)
વિદુષી મહાસતી શ્રી સરોજબાઈ મ સા
આદિ ઠાણા (6)

સમ્પર્ક સૂત્ર - શ્રી વ. સ્થા જૈન શ્રાવક સંઘ,
જૈન સ્થાનક, 64, ડૉ આમ્બેડકર રોડ,
ડી એલ જૈન કમ્પાઉન્ડ, વોલ્ટાજની સામે,
ચિંચપોકલી, મુંબઈ - 400012 (મહારાષ્ટ્ર)
ઘ 3725466

23. ધંધુકા (ગુજરાત)
શાંત સ્વભાવી મહાસતી શ્રી સાધનાબાઈ મ.સા.
આદિ ઠાણા (6)

સમ્પર્ક સૂત્ર - શ્રી શ્વેતામ્બર સ્થાનકવાસી જૈન સંઘ
જૈન ઉપાશ્રય, સ્ટેશન રોડ, જનતા રોડ,
જનતા બૅંકની પાછળ, ધંધુકા
જિલ્લા - અમદાવાદ, (ગુજરાત) 382460
ઘ પ્રમુખ ઑફીસ 72228 ઘર 72226

24. જામજોધપુર (ગુજરાત)
મધુરવકતા મહાસતી શ્રી સુનિતાબાઈ મ સા.
આદિ ઠાણા (4)

સમ્પર્ક સૂત્ર - શ્રી સ્થાનકવાસી જૈન સંઘ,
જૈન ઉપાશ્રય, મુ પો. જામજોધપુર
જિલ્લા - જામનગર (ગુજરાત), 360530
ઘ 2156 P P

25. ધાનેરા (ગુજરાત)
તત્વપ્રેમી મહાસતી શ્રી નમ્રતાબાઈ મ.સા
આદિ ઠાણા (3)

સમ્પર્ક સૂત્ર - શ્રી ધાનેરા સ્થાનકવાસી જૈન સંઘ
જૈન ઉપાશ્રય બજારમાં, ધાનેરા,
જિલ્લા - બનાસકાંઠા (ગુજરાત)
ફોન નં ઑફીસ 2088 ઘર 2090

26. અમદાવાદ (મેમનગર) (ગુજરાત)
વિદુષી મહાસતી શ્રી નિરાલીબાઈ મ સા.
આદિ ઠાણા (3)

સમ્પર્ક સૂત્ર - શ્રી મહાવીર સ્થાનકવાસી જૈન સંઘ
C/1 રાજવી કોમ્પલેક્ષ, ગુરુકુલ રોડ,
સુનિલ ચાર રાસ્તાની બાજુમાં,
મેમનગર અમદાવાદ, (ગુજરાત) 380052
ઘ C/o 492713.

| | | | |
|-------------------------|--------|----------|-----|
| કુલ ચાતુર્માસ સંતોના | 4 | કુલ સંત | 13 |
| કુલ ચાતુર્માસ સતિજીઓનું | 22 | કુલ સતીઓ | 123 |
| | કુલ 26 | | 136 |

કુલ ચાતુર્માસ (26) સંત (13) સતિજીઓ (125)

કુલ ઠાણા (136)

સત-સતી તુલનાત્મક તાલિકા ૧૯૯૩

| વિવરણ | સત | સતિયો | કુલ કાણા |
|-----------------------|----|-------|----------|
| ૧૯૯૨ માં કુલ કાણા હતા | ૧૩ | ૧૧૪ | ૧૨૭ |
| (+) નવી દીક્ષા થઈ | | ૧૦ | ૧૦ |
| | ૧૩ | ૧૨૪ | ૧૩૭ |
| (-) કાલ ધર્મ પ્રાપ્ત | - | ૧ | ૧ |
| | ૧૩ | ૧૨૩ | ૧૩૬ |
| ૧૯૯૩ માં કુલ કાણાઓ | ૧૩ | ૧૨૩ | ૧૩૬ |

જૈન પત્ર-પત્રિકાર્યો - કેવલ જીન દર્શન (માસિક - ગુજરાતી) મુબઈ

શ્રી લિંગ્બડી ગોપાલ સમુદાયના વાત્સલ્યવારીધીપૂ. રામજીમુની મ.સા. કાણા ૬ નુ ધ્યાગધા (સૌરાષ્ટ્ર) અધ્યાત્મિક યોગી પૂ. કેવલમુની મ.સા. કાણા ૨ નુ ભાવદર (વેસ્ટ) જિલા-ધાણા તથા સર્વે સતો સતીજીઓના સવત ૨૦૪૯ ના ચાર્તુમાસ સમ્યક જ્ઞાન દર્શન ચારિત્રની આરૂઢનામા અભી વૃધ્ધી કરતા તથા નવા વૃતધારી શ્રાવકો દઢ ધર્મી શ્રાવકો ધાય એવી મગળ ભાવના

હાટિક શુભ કામનાઓ સહિત

Tel Office 3426413/349092

Resi 372 52 62

A. K. TRADING CO.

IMPORTERS DEALER OF PAPER BOARD & GRAPHIC ART MATERIALS

44 Suryamani Centre 65/67 Sutar Chawl

Bombay 400 002

શુભેચ્છુક

અરવિન્દ ડી લુખી

* મત્રી ધાર્મિક શિક્ષણ બોર્ડ અ ભા શ્વે સ્થા જૈન કોન્ફેરન્સ મુબઈ

* મત્રી સુધર્મ પ્રચારક મહળ (અહમદાવાદ)

* કાર્યકારિણી સભ્ય અ ભા શ્વે સ્થા જૈન કોન્ફેરન્સ મુબઈ

14

શ્રી કચ્છ આઠ કોટી મોટી પક્ષ સમ્પ્રદાય

સમુદાયના પ્રમુખ સંત:- શાસ્ત્રજ્ઞ
શ્રી ધીરજ મુનિજી મ.સા.

- કુલ ચાતુર્માસ (31) સંત (15) મહાસતીજીઓ (80) કુલ-ઠાણા (95)

મુનિરાજ સમુદાય

1. સાંગલી (મહારાષ્ટ્ર)

શાસ્ત્રજ્ઞ શ્રી ધીરજમુનિજી મ.સા.

આદિ ઠાણા (2)

સમ્પર્ક સૂત્ર - શ્રી વ. સ્થા. જૈન શ્રાવક સંઘ,
જૈન સ્થાનક, 220 મહાવીર નગર,
ગુજરાતી સ્કૂલની બાજુમાં,
મુ.પો સાંગલી (મહારાષ્ટ્ર) 416416

2. કપાયા - કચ્છ (ગુજરાત)

વિદ્વદર્થશ્રી પ્રાણલાલજી મ.સા આદિ ઠાણા (2)
સમ્પર્ક સૂત્ર - શ્રી કપાયા આઠ કોટી મોટા સ્થાનકવાસી
જૈન સંઘ, જૈન ઉપાશ્રય, મુ.પો કપાયા - કચ્છ,
વાયા - મૂન્દ્રા (ગુજરાત)

3. મુંબઈ - ચિંચબન્દર (મહારાષ્ટ્ર)

આત્માર્થી શ્રી વિનોદ મુનિજી મ.સા આદિ ઠાણા (2)
સમ્પર્ક સૂત્ર - શ્રી વ. સ્થા. જૈન શ્રાવક સંઘ
માંડવી ગ્રેન ડીલર બિલ્ડિંગ, 1 લે માળે,
103, કેશવજી નાયક રોડ, ચિંચબન્દર,
મુંબઈ - 400 009. (મહારાષ્ટ્ર), ☎ 3723357

4. મુંબઈ - ભાંડુપ (વેસ્ટ) (મહારાષ્ટ્ર)

મધુરવકતા શ્રી ભાઈચન્દ્રજી મ.સા આદિ ઠાણા (4)
સમ્પર્ક સૂત્ર - શ્રી વ. સ્થા. જૈન શ્રાવક સંઘ,
જૈન સ્થાનક, ઈશ્વરનગર દેના બેકની સામે,
પોસ્ટ ઓફીસની બાજુમાં, ભાંડુપ (વેસ્ટ),
મુંબઈ - 400 078 (મહારાષ્ટ્ર)
☎ 5601150

5. બાંકી - કચ્છ (ગુજરાત)

મધુરવકતા શ્રી રમેશ ચન્દ્રજી મ.સા આદિ ઠાણા (2)
સમ્પર્ક સૂત્ર - શ્રી બાંકી આઠ કોટી મોટી
પક્ષ સ્થાનકવાસી જૈન સંઘ, જૈન ઉપાશ્રય,
મુ.પો. બાંકી - કચ્છ તાલુકા - મૂન્દ્રા,
જિલ્લા - ભુજ (ગુજરાત) 370425

6. પાવડાસણ (ગુજરાત)

મધુરવકતા શ્રી દિનેશ મુનિજી મ.સા આદિ ઠાણા (2)
સમ્પર્ક સૂત્ર - શ્રી સ્થાનકવાસી જૈન સંઘ,
જૈન સ્થાનક, મુ. પાવડાસણ પોસ્ટ કુવા
વાયા ધાનેરા, જિલ્લા - બનાસકાંઠા
(ગુજરાત) 385310

મહાસતીયોજી સમુદાય

7. કાંડાગરા - કચ્છ (ગુજરાત)

વિદુષી મહાસતીશ્રી લક્ષ્મીબાઈ મ.સા આદિ ઠાણા (4)
સમ્પર્ક સૂત્ર - શ્રી આઠકોટી મોટી પક્ષ
સ્થાનકવાસી જૈન સંઘ, મુ.પો કાંડાગરા - કચ્છ
તાલુકા - માંડવી (ગુજરાત)

8. જોરાવરનગર - (સૌરાષ્ટ્ર) (ગુજરાત)

વિદુષી મહાસતીશ્રી મણીબાઈ મ.સા (ભોજાય)
આદિ ઠાણા (10)
સમ્પર્ક સૂત્ર - શ્રી શ્વેતામ્બર સ્થાનકવાસી જૈન સંઘ,
જૈન ઉપાશ્રય, મુ.પો જોરાવરનગર,
વાયા-જિલ્લા, સુરેન્દ્ર નગર
(ગુજરાત) 363020
ફોન 22013

- 9 લાખાપુર - કચ્છ (ગુજરાત)
વિદ્યુષી મહાસતીશ્રી રુક્મણીબાઈ મ સા.
આદિ ઠાણા (3)
સમ્પર્ક સૂત્ર - શ્રી કચ્છ આઠ કોટી મોટા પક્ષ
સ્થાનકવાસી જૈન સઘ
જૈન ઉપાશ્રય, મુ.પો. લાખાપુર - કચ્છ - તાલુકા
- મૂન્દ્રા - કચ્છ જિલ્લા - ભુજ (ગુજરાત)
- 10 નવીનાર - કચ્છ (ગુજરાત)
વિદ્યુષી મહાસતીશ્રી મણીબાઈ મ સા (ટોડા)
આદિ ઠાણા (3)
સમ્પર્ક સૂત્ર - શ્રી નવીનાર મોટા પક્ષ સ્થાનકવાસી
જૈન સઘ, જૈન ઉપાશ્રય મુ.પો નવીનાર -
કચ્છ તાલુકા - માડવી (ગુજરાત)
- 11 મુબઈ - જોગેશ્વરી (પૂર્વ) (મહારાષ્ટ્ર)
વિદ્યુષી મહાસતીશ્રી દમપતીબાઈ મ સા
આદિ ઠાણા (6)
સમ્પર્ક સૂત્ર - શ્રી વ સ્થા જૈન શ્રાવક સઘ,
જૈન સ્થાનક, જૂની અનૂપૂર્ણા બિરિડગ
કૃષ્ણ નગર, ગૂફા રોડ, જોગેશ્વરી (પૂર્વ)
મુબઈ - 400 060 (મહારાષ્ટ્ર)
ફોન નં 832 4065 PP
- 12 મુબઈ - મુલુડ (પૂર્વ) (મહારાષ્ટ્ર)
વિદ્યુષી મહાસતીશ્રી પ્રભાવતીબાઈ મ સા
આદિ ઠાણા (4)
સમ્પર્ક સૂત્ર - શ્રી વ સ્થા જૈન શ્રાવક સઘ,
જૈન સ્થાનક, કેલાશધામ જીવી સ્કીમ રોડ,
નં 4 મુલુડ (પૂર્વ),
મુબઈ - 400 081 (મહારાષ્ટ્ર)
ફોન નં 561 2867 PP
- 13 પત્રી - કચ્છ (ગુજરાત)
વિદ્યુષી મહાસતીશ્રી ઈન્દુમતિબાઈ મ સા
આદિ ઠાણા (3)
સમ્પર્ક સૂત્ર - શ્રી પત્રી આઠકોટી મોટી પક્ષ
સ્થાનકવાસી જૈન સઘ, જૈન ઉપાશ્રય,
મુ.પો. પત્રી - કચ્છ, વાપા - મૂન્દ્રા,
જિલ્લા - ભુજ (ગુજરાત) 370425
- 14 મુબઈ - ઘાટકોપર - કામાગલ્લી (મહારાષ્ટ્ર)
વિદ્યુષી મહાસતીશ્રી તારાબાઈ મ સા
આદિ ઠાણા (4)
સમ્પર્ક સૂત્ર - શ્રી વ સ્થા. જૈન શ્રાવક સઘ,
36 વી. સર્વોન્નતિ સોમાપટી, ફિરોજ રોડ,
કામાગલ્લી, ઘાટકોપર (વેસ્ટ),
મુબઈ - 400 086 (મહારાષ્ટ્ર)
☎ 5134106 P P
- 15 મુબઈ - મઝગાવ (મહારાષ્ટ્ર)
વિદ્યુષી મહાસતીશ્રી લીલાવતીબાઈ મ સા
આદિ ઠાણા (2)
સમ્પર્ક સૂત્ર - તેજસી ખેરાજ સભાગૃહ,
પોરબન્દર વાળા ઈસ્ટેટ, બેંક ઓફ ઈન્ડિયાની
પાછળ, 141-વી - મઝગાવ,
મુબઈ - 400 010 (મહારાષ્ટ્ર)
☎ 3763333 P P
- 16 અમદાવાદ - ઘનશ્યામનગર (ગુજરાત)
વિદ્યુષી મહાસતીશ્રી મજુલાબાઈ મ સા
આદિ ઠાણા (4)
સમ્પર્ક સૂત્ર - શ્રી કચ્છ આઠ કોટી મોટા પક્ષ સ્થાનકવાસી
જૈન સઘ, જૈન સ્થાનક
Y/4 ઘનશ્યામ નગર સુભાષ બ્રીજ નાકા,
આશ્રમ રોડ, અમદાવાદ - 380027 (ગુજરાત)
☎ 482873
- 17 સિકન્દ્રાબાદ (આન્ધ્રપ્રદેશ)
વિદ્યુષી મહાસતીશ્રી ભાવનાબાઈ મ સા
આદિ ઠાણા (2)
સમ્પર્ક સૂત્ર - શ્રી શ્વેતાબર સ્થાનકવાસી જૈન સઘ,
જૈન સ્થાનક ભવન, 42 હેમ નિધી અપાર્ટમેન્ટ્સ,
ડી વી. કોલોની, મિનિસ્ટર રોડ,
સિકન્દરાબાદ - 500 003 (A P)
☎ અતુલબાઈ ધોલકીયા - ઓફીસ 824193
નિવાસ 842161 847779
- 18 બિદડા-કચ્છ (ગુજરાત)
વિદ્યુષી મહાસતી શ્રી નિર્મલાબાઈ મ સા
આદિ ઠાણા (2)

- સમ્પર્ક સૂત્ર - શ્રી કચ્છ આઠ કોટી મોટી પક્ષ
સ્થાનકવાસી જૈન સંઘ, જૈન ઉપાશ્રય, બજારમાં,
મુ.પો. બિદડા-કચ્છ, તાલુકા - માંડવી
(ગુજરાત) 370435
19. મુંબઈ - કોટ (મહારાષ્ટ્ર)
વિદુષી મહાસતી શ્રી નિરંજનબાઈ મ સા.
આદિ ઠાણા (4)
સમ્પર્ક સૂત્ર - શ્રી વ. સ્થા. જૈન શ્રાવક સંઘ,
જૈન સ્થાનક, 101/102 બજાર ગેટ સ્ટ્રીટ,
કોટ - મુંબઈ - 400 001, (મહારાષ્ટ્ર)
ઘ 2610997
20. ભુજ - કચ્છ (ગુજરાત)
વિદુષી મહાસતી શ્રી સુભદ્રાબાઈ મ સા
આદિ ઠાણા (4)
સમ્પર્ક સૂત્ર - શ્રી ભુજ આઠ કોટી મોટા પક્ષ
સ્થા. જૈન સંઘ વાણીયાવાડ, તલાવ શેરી,
મુ પો. ભુજ - કચ્છ, (ગુજરાત) 370 001
ઘ શ્રી ઈશ્વરલાલ દેસાઈ,
ઘ ઑફીસ - 23343, નિવાસ - 23991
21. નાના ભાડીયા - કચ્છ (ગુજરાત)
વિદુષી મહાસતી શ્રી કસ્તૂરબાઈ મ સા.
આદિ ઠાણા (4)
શ્રી નાના ભાડીયા આઠ કોટી મોટી પક્ષ સ્થા. જૈન સંઘ
જૈન ઉપાશ્રય, મુ પો. નાના ભાડીયા,
તાલુકા - માંડવી, કચ્છ (ગુજરાત) 370455
22. મુંબઈ - દહીસર (પૂર્વ) (મહારાષ્ટ્ર)
વિદુષી મહાસતી શ્રી કોકિલાબાઈ મ સા
આદિ ઠાણા (3)
સમ્પર્ક સૂત્ર - શ્રી વ સ્થા જૈન શ્રાવક સંઘ,
જૈન સ્થાનક, શિવશક્તિ કૉમ્પ્લેક્સ,
એસ વી રોડ, દહિસર (પૂર્વ),
મુંબઈ - 400 068 (મહારાષ્ટ્ર)
ઘ 8934878 શ્રી મહેન્દ્રભાઈ
23. માઘાપર - કચ્છ (ગુજરાત)
વિદુષી મહાસતી શ્રી વીરમણિબાઈ મ.સા.
આદિ ઠાણા (3)
- સમ્પર્ક સૂત્ર - શ્રી માઘાપુર આઠ કોટી મોટી પક્ષ
સ્થા. જૈન સંઘ જૈન ઉપાશ્રય,
મુ પો. માઘાપર - કચ્છ
વાયા જિલ્લા - ભુજ (ગુજરાત) 370020
24. મુંબઈ - કોટ (લોકાગચ્છ) (મહારાષ્ટ્ર)
વિદુષી મહાસતી શ્રી ગીતાબાઈ મ સા
આદિ ઠાણા (2)
સમ્પર્ક સૂત્ર - શ્રી મુંબઈ લોકાગચ્છ જૈન સંઘ,
125 વાલચન્દ હીરાચન્દ માર્ગ, વી ટી સ્ટેશનની
સામે, કોટ - મુંબઈ - 400001 (મહારાષ્ટ્ર)
25. મુંબઈ - કુર્લા (મહારાષ્ટ્ર)
વિદુષી મહાસતી શ્રી નીલાબાઈ મ.સા
આદિ ઠાણા (4)
સમ્પર્ક સૂત્ર - શ્રી કચ્છી વીશા ઓસવાલ જૈન
સેવા સમાજ, એલ વી શાસ્ત્રી માર્ગ,
પોસ્ટ ઑફીસની સામે, આગ્રા રોડ, કુર્લા (વેસ્ટ),
મુંબઈ - 400 070 (મહારાષ્ટ્ર), ઘ 5140326
26. મૂન્દ્રા - કચ્છ (ગુજરાત)
વિદુષી મહાસતી શ્રી સાધનાબાઈ મ સા
આદિ ઠાણા (2)
સમ્પર્ક સૂત્ર - શ્રી મૂન્દ્રા આઠ કોટી મોટા પક્ષ
સ્થા. જૈન સંઘ, જૈન ઉપાશ્રય, નવલખા બંગલાની
બાજુમાં, મુ પો મૂન્દ્રા-કચ્છ ૭70421
(ગુજરાત)
27. ભુજપર - કચ્છ (ગુજરાત)
વિદુષી મહાસતી શ્રી શોભનાબાઈ મ.સા
આદિ ઠાણા (3)
સમ્પર્ક સૂત્ર - શ્રી ભુજપુર આઠ કોટી મોટા
પક્ષ સ્થા. જૈન સંઘ, જૈન ઉપાશ્રય, મુ પો ભુજપુર
કચ્છ - તાલુકા-મૂન્દ્રા (ગુજરાત)
28. રેહા - કચ્છ (ચકાર) (ગુજરાત)
વિદુષી મહાસતી શ્રી કરુણાબાઈ મ સા
આદિ ઠાણા (2)
સમ્પર્ક સૂત્ર - શ્રી રેહા આઠ કોટી મોટા પક્ષ, સ્થા. જૈન સંઘ,
મુ પો રેહા (ચકાર) વાયા, ભુજ - કચ્છ (ગુજરાત)

સમ્પર્ક સૂત્ર - શ્રી સ્થાનકવાસી જૈન સઘ,
જૈન ઉપાશ્રય, મુ પો લુજપુર - કચ્છ,
જિલ્લા - ભુજ (ગુજરાત) 370405

- 11 દેશલપુર - કચ્છ (ગુજરાત)
વિદુષી મહાસતી શ્રી રતનબાઈ મ સા આદિ ઠાણા (4)
સમ્પર્ક સૂત્ર - શ્રી સ્થાનકવાસી જૈન સઘ,
જૈન ઉપાશ્રય, મુ પો દેશલપુર - કચ્છ
જિલ્લા - ભુજ (ગુજરાત) 370415

- 12 બારોઈ - કચ્છ (ગુજરાત)
વિદુષી મહાસતી શ્રી કમલાબાઈ મ સા
આદિ ઠાણા (4)
સમ્પર્ક સૂત્ર - શ્રી સ્થાનકવાસી જૈન સઘ,
જૈન ઉપાશ્રય, મુ પો બારોઈ - કચ્છ,
જિલ્લા - ભુજ (ગુજરાત) 370421

- 13 બીદડા - કચ્છ (ગુજરાત)
વિદુષી મહાસતી શ્રી નીનાબાઈ મ સા
આદિ ઠાણા (4)
સમ્પર્ક સૂત્ર - શ્રી સ્થાનકવાસી જૈન સઘ,
જૈન ઉપાશ્રય, મુ પો બીદડા - કચ્છ
જિલ્લા - ભુજ (ગુજરાત) 370435

- 14 મૂન્દ્રા - કચ્છ (ગુજરાત)
વિદુષી મહાસતી શ્રી હેમપ્રભાબાઈ મ સા
આદિ ઠાણા (4)
સમ્પર્ક સૂત્ર - શ્રી સ્થાનકવાસી જૈન સઘ,
જૈન ઉપાશ્રય, મુ પો મૂન્દ્રા - કચ્છ,
જિલ્લા - ભુજ (ગુજરાત) 370421

સત-સતી તુલનાત્મક તાલિકા 1993

| વિવરણ | સત | સતિયાં | કુલ ઠાણા |
|----------------------|----|--------|----------|
| 1992 મા કુલ ઠાણા હતા | 22 | 34 | 56 |
| (+) નવી દીક્ષા ધર્મ | - | 1 | 1 |
| | 22 | 35 | 57 |
| (-) કાલ ધર્મ પ્રાપ્ત | 1 | - | 1 |
| | 21 | 35 | 56 |
| 1993 મા કુલ ઠાણાઓ | 21 | 35 | 56 |

નોટ ૧) આ સમુદાયમા 100% ચાતુર્માસ યથા નામ યક્ષ ગુણ પ્રમાણે ફક્ત કચ્છ ક્ષેત્રમા દરેક વર્ષ ધાય છે અને ચાતુર્માસના સમય સિવાય શેષ કાલમા પણ આ સમુદાયના સાધુ-સાધ્વી કચ્છ ક્ષેત્રની બાહ્ય વિચરણ કરતા નથી

૨) ચાતુર્માસમા જેટલા સઘાડા છે તેના સાધુ સાધ્વીયોં દરેક વર્ષે એક બીજાની સાથે ચાતુર્માસ કરે છે એક સઘાડામા હમેશા એક સાથે રહતા નથી આજે એને સાથે છે તો આવતી વર્ષે બીજાના સાથે ચાતુર્માસ કરે છે આ મોટી ઉપલબ્ધી છે એવી વિશેષતા આખાયે જૈન સમાજમા નહી મળે દરેક સમુદાયમા દરેક સઘાડામા એવાને એવા સાધુ સાધ્વી એક સરખા રહે છે આમે દરેક વર્ષ બદલાયે છે

૩) કાલધર્મ પ્રાપ્ત યથા આચાર્ય પ્રવર શ્રી રામજી સ્વામી મ સા
27 3 93 વડાલા કચ્છ

૪) નવી દીક્ષા સમ્પન્ન ધર્મ મહાસતી શ્રી આશાબાઈ મ સા 16 11 93 કચ્છ ગુદાલા જૈન પરિકાઓ નથી

| | | | |
|------------------------|--------|----------|----|
| કુલ ચાતુર્માસ સતોના | 6 | કુલ સત | 21 |
| કુલ ચાતુર્માસ સતિજીઓનુ | 8 | કુલ સતીઓ | 35 |
| | કુલ 14 | | 56 |

કુલ ચાતુર્માસ (14) સત (21) મહા સતિજીઓ (35)
કુલ ઠાણા (56)

જૈનમ્

જયંતિ

શાસનમ્

16

શ્રી ખંભાત સમ્પ્રદાય

સમુદાયના પ્રમુખ આચાર્ય:- મહાન વૈરાગી,
આદર્શ ત્યાગી, આત્માર્થી આગમજ્ઞ મહાતપસ્વીરત્ન,
પં. રત્ન આચાર્ય પ્રવર શ્રી કાન્તિઋષીજી મ.સા.

કુલ ચાતુર્માસ (10) સંત (9) મહાસતીજીઓ (37) કુલ ઠાણા (46)

મુનિરાજ સમુદાય

1. ખંભાત (ગુજરાત)

1. મહાનવૈરાગી, આદર્શ ત્યાગી, આત્માર્થી
મહાતપસ્વી રત્ન, આગમજ્ઞ, પં. રત્ન
આચાર્ય પ્રવર શ્રી કાન્તિઋષીજી મ.સા.

2. મેઘુર વ્યાખ્યાતા પં. રત્ન શ્રી અરવિન્દ
મુનિજી મ.સા. આદિ ઠાણા (6)

સમ્પર્ક સૂત્ર - શ્રી ખંભાત સ્થાનકવાસી જૈન સંઘ,
શ્રી શારદાબાઈ મહાસતી સ્થા જૈન ઉપાશ્રય,
બોલ પીપલો, સંઘવીની પોળ, મુ.પો. ખંભાત,
જિલ્લા - ખેડા (ગુજરાત) 388620

2. મુંબઈ - બોરીવલી (યોગીનગર) (મહારાષ્ટ્ર)

તત્વજ્ઞ મધુર વ્યાખ્યાની પં રત્ન શ્રી નવીન ઋષીજી
મ સા આદિ ઠાણા (1)

સમ્પર્ક સૂત્ર - શ્રી વ. સ્થા જૈન શ્રાવક સંઘ,
જૈન સ્થાનક, ડી-26, યોગી નગર
બિલ્ડિંગ નં ડી - 26, એકસર રોડ, યોગી નગર,
બોરીવલી (વેસ્ટ), મુંબઈ - 400092
(મહારાષ્ટ્ર) ☎ 8016070

3. મદ્રાસ-કામ્પેટ (તામિલનાડુ)

પ્રિય વક્તા શ્રી કમલેશ મુનિજી મ સા.

આદિ ઠાણા (2)

સમ્પર્ક સૂત્ર - Shri Svetambar Sthanakvasi Jain Sangh,
Jain Sthanak, 4 A, South Street,
Radha Nagar, Crompter,
Madras - 600 044, (Tamilnadu)

મહાસતીજીઓનું સમુદાય

4. ખંભાત (ગુજરાત)

વિદુષી મહાસતી શ્રી સુભદ્રાબાઈ મ.સા.

આદિ ઠાણા (4)

સમ્પર્ક સૂત્ર - ઉપરોક્ત ક્રમાંક 1 અનુસાર

5. વિરમગાંવ (ગુજરાત)

વિદુષી મહાસતી શ્રી વસુમતિબાઈ મ સા

વિદુષી મહાસતી શ્રી શોભનાબાઈ મ.સા.

આદિ ઠાણા (11)

સમ્પર્ક સૂત્ર - શ્રી છ કોટી સ્થાનકવાસી જૈન સંઘ
જૈન ઉપાશ્રય, મોટો મોરવાડો, મુ પો વિરમગાંવ,
જિલ્લા - અમદાવાદ (ગુજરાત) 382150

6. સાણંદ (ગુજરાત)

વિદુષી મહાસતી શ્રી કાંતાબાઈ મ સા

આદિ ઠાણા (5)

સમ્પર્ક સૂત્ર - શ્રી નાનચંદ શાંતીદાસ

સ્થાનકવાસી જૈન સંઘ જૈન ઉપાશ્રય,

કાપડ બજાર, મુ પો. સાણંદ,

જિલ્લા - અમદાવાદ (ગુજરાત) 382110

7. અમદાવાદ - જીવરાજ પાર્ક (ગુજરાત)

વિદુષી મહાસતી શ્રી શાંતાબાઈ મ.સા.

આદિ ઠાણા (5)

સમ્પર્ક સૂત્ર - શ્રી જીવરાજપાર્ક સ્થાનકવાસી

જૈન ઉપાશ્રય આશાપુરી મંદિરની બાજુમાં, આશાપુરા

ફ્લેટની સામે, જીવરાજ પાર્ક

અમદાવાદ - 380007 (ગુજરાત)

8 અમદાવાદ - કૃષ્ણ નગર (ગુજરાત)
વિદ્યુષી મહાસતી શ્રી ચદનબાઈ મ સા
આદિ ઠાણા (4)

સમ્પર્ક સૂત્ર - શ્રી કૃષ્ણ નગર સ્થા. જૈન સઘ
બ્લોક 54/868 સેજપુર વોઘા, નરોડા રોડ,
કૃષ્ણ નગર - અમદાવાદ (ગુજરાત)
ઘ ઉપપ્રમુખ - 816016

9 અમદાવાદ સાવરમતિ (ગુજરાત)
વિદ્યુષી મહાસતી શ્રી રજનબાઈ મ સા
આદિ ઠાણા (5)

સમ્પર્ક સૂત્ર - શ્રી સ્થાનકવાસી જૈન સઘ,
હિરાણી નગર, રામનગર સાબરમતિ
અમદાવાદ (ગુજરાત) 380005
પ્રમુખ શ્રી વિજયરાજ વાલાવશજી
ઓફીસ - 48 67 35 48 65 85
નિવાસ - 36 10 69 36 91 81

10 પાટડી (ગુજરાત)
વિદ્યુષી મહાસતી શ્રી મદાકિનીબાઈ મ સા
આદિ ઠાણા (3)

સમ્પર્ક સૂત્ર - શ્રી સ્થાનકવાસી જૈન સઘ,
જૈન ઉપાશ્રય, મુ.પો પાટડી, વાયા વિરમગાવ,
જિલ્લા - અમદાવાદ (ગુજરાત)

| | | | |
|------------------------|--------|----------|----|
| કુલ ચાતુર્માસ સતોના | 3 | કુલ સત | 9 |
| કુલ ચાતુર્માસ સતિજીઓનુ | 7 | કુલ સતીઓ | 37 |
| | કુલ 10 | | 46 |

કુલ ચાતુર્માસ (10) સત (9) મહાસતીજીઓ (37)
કુલ ઠાણા (46)

સત-સતી તુલનાત્મક તાલિકા 1993

| વિવરણ | સત | સતિયાં | કુલ ઠાણા |
|-----------------------|----|--------|----------|
| 1992 માં કુલ ઠાણા હતા | 9 | 35 | 44 |
| (+) નવી દીક્ષા યઈ | | 2 | 2 |
| | 9 | 37 | 46 |
| (-) કાળ ધર્મ પ્રાપ્ત | - | - | - |
| | 9 | 37 | 46 |
| 1993 માં કુલ ઠાણાઓ | 9 | 37 | 46 |

નોટ 1 આ સમુદાયના આચાર્ય પ્રવર શ્રી કાતિશ્ચીજી
મ સા. ગત ૧૭ વર્ષથી (દરેક વર્ષે નિરનર) ૧૭
માસ ખમણની તપસ્યા પૂર્વ કરેલી છે વયોવૃદ્ધ
હોવા છતા પણ તે દરેક વર્ષે માસ ખમણની ઉચ્ચ
તપસ્યા કરે છે

2 આ સમુદાયમાં પૂર્વમાં ફક્ત સાધ્વીયાંજી મ.સા.
રહ્યા હતા એક પણ સાધુ ન હતો તે વખતે વિદ્યુષી
મહાસતીજીશ્રી ઘારદાબાઈ મ સા.ની
સદ્ગુરુશાથી સમુદાયના વર્તમાન આચાર્ય શ્રી
કાતિશ્ચીની મ.આ. જે જાતિના પટેલ જોહરી,
અને પ્રભાત સઘના પ્રમુખ હતા પ્રેરણા લેઈને
સસાર ત્યાગીને મુનિ બન્યા હતા અને આજે
આચાર્ય પદને સુશોભિત કરી રહ્યા છે

3 જૈન પત્ર - પત્રિકાઓ - કોઈ નથી

જૈન વિશ્વ રિકાર્ડસ

સમ્પૂર્ણ જૈન સમાજ મે દિગમ્બર સમુદાય
કે આચાર્ય શ્રી વિદ્યા સાગરજી મહારાજ
એક માત્ર એસે આચાર્ય હૈ જિનકે
સાનિધ્ય મે લગભગ 100 વૈરાગી ઘાઈ
બહિન સાધુ જીવન કે અભ્યાસ હેતુ
અધ્યાયન શીલ હૈ

સમ્પૂર્ણ જૈન સમાજ મે બમ્બઈ મહાનગર
હી એક માત્ર એસા સ્થાન હૈ જહોં પર જૈન
સમાજ કે સર્વાધિક ઘર હૈ એવ
મહાનુભાવ નિવાસ કરતે હૈ

(જૈન રિકાર્ડસ ડાયરેક્ટરી સે સામાર)

શ્રી બોટાદ સંપ્રદાય

શ્રી બોટાદ સંપ્રદાય

સમુદાયના પ્રમુખ મુનિરાજ:- આધ્યાત્મિક યોગી,
મધુર વ્યાખ્યાની, સંઘ નાયક, પં. રત્ન શ્રી નવીનચન્દ્રજી મ.સા.

કુલ ચાતુર્માસ (4) સંત (4) મહાસતીજીઓ (46) કુલ ઠાણા (50)

મુનિરાજ સમુદાય

1. બોટાદ (ગુજરાત)

1. આધ્યાત્મિક યોગી, મધુર વ્યાખ્યાની,
સંઘ નાયક પં. રત્ન શ્રી નવિનચન્દ્રજી મ.સા.
2. પ્રખર વ્યાખ્યાતા પં રત્ન શ્રી અમીચન્દ્રજી મ સા
આદિ ઠાણા (4)

સમ્પર્ક સૂત્ર - શ્રી શ્વેતામ્બર સ્થાનકવાસી જૈન સંઘ
જૈન ઉપાશ્રય, મેન બજારમાં,
રામમંદિરની બાજુમાં, ગાવમાં મુ પો બોટાદ,
જિલ્લા - ભાવનગર (ગુજરાત) 364710 ☎

મહાસતીજીઓનું સમુદાય

2. બોટાદ (ગુજરાત)

- 1 તપસ્વીની મહાસતી શ્રી ચંદાબાઈ મ સા
- 2 સ્વરકંઠી મહાસતી શ્રી સરોજબાઈ મ સા
- 3 વિદુષી મહાસતી શ્રી મધુબાઈ મ સા
- 4 વિદુષી મહાસતી શ્રી અનિલાબાઈ મ સા
- 5 વિદુષી મહાસતી શ્રી પ્રફુલ્લાબાઈ મ સા
- 6 વિદુષી મહાસતી શ્રી સુશીલાબાઈ મ સા

આદિ ઠાણા (34)

સમ્પર્ક સૂત્ર - શ્રી શ્વેતામ્બર સ્થાનકવાસી જૈન સંઘ
જૈન ઉપાશ્રય, મેન બજાર, રામ મંદિરની
બાજુમાં, ગાંવમાં મુ પો. બોટાદ (સૌરાષ્ટ્ર),
જિલ્લા - ભાવનગર, (ગુજરાત) 364710

3. મુંબઈ - કાંદિવલી (વેસ્ટ) (મહારાષ્ટ્ર)

વિદુષી મહાસતી શ્રી સવિતાબાઈ મ સા

આદિ ઠાણા (7)

સમ્પર્ક સૂત્ર - શ્રી વ સ્થા. જૈન શ્રાવક સંઘ,

જૈન સ્થાનક, સેન્ટ્રલ બેંકની બાજુમાં,

એસ વી રોડ, મહાજન વાડીની બાજુમાં,

કાંદિવલી (વેસ્ટ), મુંબઈ - 400 067,

(મહારાષ્ટ્ર), ☎ 807 19 12

4. મુંબઈ - સાયન (મહારાષ્ટ્ર)

વિદુષી મહાસતી શ્રી અરુણાબાઈ મ સા.

આદિ ઠાણા (5)

સમ્પર્ક સૂત્ર - શ્રી વ સ્થા જૈન શ્રાવક સંઘ,

જૈન ભુવન, જૈન સોસાયટી, રોડ નં 25,

પ્લાટ નં 79, સાયન (વેસ્ટ) મુંબઈ - 400 022

(મહારાષ્ટ્ર), ☎ 407 25 53

| | | | |
|-------------------------|---|------------|----|
| કુલ ચાતુર્માસ સંતોના | 1 | કુલ સંત | 4 |
| કુલ ચાતુર્માસ સતીજીઓનું | 3 | કુલ સતીજીઓ | 46 |
| કુલ | 4 | | 50 |

કુલ ચાતુર્માસ (4) સંત (4) સતીજીઓ (46) કુલ ઠાણા (50)

સંત - સતી તુલનાત્મક તાલિકા - 1992 અનુસાર

નવી દીક્ષા નથી મહાપ્રયાણ નથી

જૈન પત્ર - પત્રિકાઓ - કોઈ નથી.

નોટ - આ સમુદાયમાં આ વર્ષે અધિકાંશ
સાધુ-સાધ્વીજીઓનું ચાતુર્માસ આ સમુદાયના નામથી
પ્રસિદ્ધ નગરી બોટાદ શહર (સૌરાષ્ટ્ર)માં છે. એટલી
મોટી સમુદાયમાં ફક્ત ચાર ચાતુર્માસ આ વર્ષે છે.

जय आनन्द

जय देवद

जय अम्बे

श्रमण सघीय प्रवक्तव पूज्य गुरुदेव श्री अम्बालालजी म मा महामात्री श्री सौभाग्यमुनिजी म मा 'कुमुद' आदि
ठाणाओ का मावली जकगन म, परम पूज्य विदुषी महामती श्री प्रेमकुँवरजी म मा आदि ठाणाओ का
उदयपुर मे, परम पूज्य श्री सुरणामुनिजी म मा शास्त्री आदि ठाणाओ का भायदर बम्बई मे,
परम पूज्य विदुषी महामती श्री सुदरकुवरजी म मा श्री इन्द्रकुँवरजी म मा आदि ठाणाओ
का भाण्डुप बम्बई मे, परम पूज्य विदुषी महामति श्री चन्दनार्जी म सा आदि ठाणाओ
का चेम्बूर-बम्बई मे मन् 1993 वष का चातुर्मास मानद सम्पन्न होने की
मगल कामनाएँ करते हुए—

हादिक शुभकामनाओं सहित—

श्री वर्धमान स्थानकवासी जैन श्रावक संघ (मेवाड़)

(साधना सदन न 1 से साधना सदन न 7)

- | | |
|---|------------------------|
| (1) साधना सदन-ठाकुरदार-बम्बई | फोन न 3446594 |
| (2) साधना सदन भाण्डुप-बम्बई | फोन न 5613745, 5617823 |
| (3) साधना सदन शाताकुज-बम्बई | फोन न 6124547 |
| (4) साधना सदन विक्रीली-बम्बई | फोन न 5783908 |
| (5) साधना सदन गोवण्डी-बम्बई | फोन न 5515667 |
| (6) साधना सदन भायदर-बम्बई | फोन न 6092294 |
| (7) साधना सदन असलफा बिलेज, घाटकोपर-बम्बई | फोन न 5562935 |

—शुभेच्छुक—

श्री वर्धमान स्थानकवासी जैन श्रावक संघ (मेवाड़)

प्रधान कार्यालय —साधना सदन न 1, 178-बो, बंछवाडो, राममदिर,
बो जयकर मार्ग, ठाकुरदार, बम्बई-400002 (महाराष्ट्र)

शाकरलाल कोठारी
अध्यक्ष

बसतीलाल बोकडीया
कोषाध्यक्ष

मागीलाल मावरेवा
मन्त्री

18

શ્રી ગોંડલ સંઘાણી સંપ્રદાય

સમુદાયના પ્રમુખ સંત: શાસન દીપક, સંઘ નાયક,
ચતુર્થતીર્થ ઉદ્ધારક, પ્રવચન પ્રભાવક, પં. રત્ન
શ્રી નરેન્દ્ર મુનિજી મ.સા.

કુલ ચાતુર્માસ (7) સંત (1) મહાસતીજીઓ (32) કુલ ઠાણા (33)

મુનિરાજ સમુદાય

1. મોરબી (ગુજરાત)

શાસન દીપક, સંઘ નાયક, ચતુર્થ તીર્થ ઉદ્ધારક,
પ્રવચન પ્રભાવક, પં. રત્ન શ્રી નરેન્દ્ર મુનિજી
મ.સા. આદિ ઠાણા (1)

સમ્પર્ક સૂત્ર - શ્રી સ્થાનકવાસી જૈન સંઘ,
જૈન ઉપાશ્રય, સોની બજાર, મુ પો મોરબી
(સૌરાષ્ટ્ર), જિલ્લા - રાજકોટ (ગુજરાત) 363641

મહાસતીજીઓનું સમુદાય

1. ગોંડલ (ગુજરાત)

- 1 વિદુષી સાધક બેલડી મહાસતી શ્રી જયાબાઈ મ સા
- 2 સમતામૂર્તિ મહાસતી શ્રી વિજયાબાઈ મ સા
(જય - વિજય મ સા)

આદિ ઠાણા (8)

સમ્પર્ક સૂત્ર - શ્રી સંઘાણી સ્થાનકવાસી જૈન સંઘ,
જૈન પોષધશાળા, સંઘાણીશેરી,
મુ પો ગોંડલ (સૌરાષ્ટ્ર), જિલ્લા રાજકોટ
(ગુજરાત) 360311, વ 843

3. રાજકોટ - (દિવાનપર) (ગુજરાત)

વિદુષી મહાસતી શ્રી જયોત્સનાબાઈ મ સા
(શા કા) આદિ ઠાણા (2)

સમ્પર્ક સૂત્ર - શ્રી સ્થાનકવાસી જૈન સંઘ
પોષધશાળા, દિવાનપર, રાજકોટ (ગુજરાત) 360001

4. વિસાવદર (ગુજરાત)

વિદુષી મહાસતી શ્રી વનિતાબાઈ મ સા
આદિ ઠાણા (4)

સમ્પર્ક સૂત્ર - શ્રી સ્થાનકવાસી જૈન સંઘ,
જૈન ઉપાશ્રય, મુ પો વીસાવદર (સૌરાષ્ટ્ર) (ગુજરાત)

5. મોરબી (સૌરાષ્ટ્ર) (ગુજરાત)

વિદુષી મહાસતી શ્રી કિરણબાઈ મ.સા
આદિ ઠાણા (10)

સમ્પર્ક સૂત્ર - ઉપરોક્ત ક્રમાંક 1 અનુસાર

6. મેદરડા (ગુજરાત)

વિદુષી મહાસતી શ્રી પ્રભાબાઈ મ સા આદિ ઠાણા(3)
સમ્પર્ક સૂત્ર - શ્રી સ્થાનકવાસી જૈન સંઘ,
જૈન ઉપાશ્રય, મુ પો મેદરડા (સૌરાષ્ટ્ર) (ગુજરાત)

7. વેરાવલ (ગુજરાત)

વિદુષી મહાસતી શ્રી સાધનાબાઈ મ સા
આદિ ઠાણા (5)

સમ્પર્ક સૂત્ર - શ્રી સ્થાનકવાસી જૈન સંઘ,
જૈન ઉપાશ્રય, મુ પો વેરાવલ, જિલ્લા - જૂનાગઢ
(ગુજરાત) 362265

| | | | |
|-----------------------|---|------------|----|
| કુલ ચાતુર્માસ સંતોના | 1 | કુલ સંત | 1 |
| કુલ ચાતુર્માસ સતિઓનું | 6 | કુલ સતીજીઓ | 32 |
| કુલ | 7 | | 33 |

કુલ ચાતુર્માસ (7) સંત (1) મહા સતિજીઓ (32)

કુલ ઠાણા (33)

સંત સતી તુલનાત્મક તાલિકા - 1992 અનુસાર

નવી દીક્ષા નથી, મહાપ્રયાણ નથી

જૈન પત્ર પત્રિકાઓ - કોઈ નથી

श्रद्धेय पं. र. श्री विनय मुनि म. "खीचन" का वर्षावास

भारत की राजधानी दिल्ली (लक्ष्मीनगर) में

परमपिता तीर्थंकर महावीर की परम्परा के यशस्वी जैन सत बटुयुत ज्ञानी गुरुवत श्रमण-श्रेष्ठ स्व श्री समरथमलजी महाराज के पट्टघर घोर तपस्वीराज महास्वविर आचार्य श्री चम्पातालजी महाराज के मुशिय्य महाप्रभाविक, व्याख्यान वाचस्पति, ३ मंड संवामावी, धुन के पत्रके, उत्साही, आत्म्य मे कोसा दूर, निरन्तर स्वाध्याय शिक्षा मे रत रहने वाले, जैन शिक्षण शिविरा के प्रेरक, बालका का धम से सत्वगर्हित करने वाले, उत्तर भारत मे (दिल्ली मे) प्रथम प्रवेशक (ज्ञान गच्छीय परम्परा के) प रन युवा सत श्री विनय मुनिजी महाराज 'खीचन' के चरणो मे कीटि-कोटि वन्दना ।

सक्षिप्त जीवन परिचय श्री विनय मुनिजी म 'खीचन'

जाप ललवाणी ओसवाल जैन परिवार के कुल दीपक पिता श्री अनराज जी तथा माता श्रीमति पापा वैन के लाल-नव भाई बहिनो के लाडले भाई पुष्य भूमि, "खीचन" मे जमे। आप श्री की भगिनी पूज्य श्री धीरज कुवरजी म, जा अपनी गुरुणीजी पूज्या श्री वचन कुवरजी म सा के मानिय्य मे सयम-साधन तथा सतत् सेवा कर रही है। ललवाणी परिवार थावक घम के पालन का उत्कृष्ट उदाहरण है। इस परिवार को धन्य है जिसने दो दो अनमोल रत्न जिनवासन की मेवा म अपण कर दिये। यह परिवार घम भावना से ओतप्रोत सेवा भावना से ऐसे ही आगे बढ़ता रहे ऐसी हमारी मंगल कामना है।

मुनि श्री तीन वर्षो से दिल्ली से पधारे हैं तभी से जान सिखाने तथा जिनासु आत्माओ की सम्यक् तत्ति कर रहे हैं। अब तक आप 14 चातुमास कर चुके हैं तथा जिन जिन क्षेत्रा मे चातुर्मास विधा उन लोगो के हृदय मे अपना स्थान बना चुके हैं। इन वय राजस्थान म पधारे विद्वान श्री बल्लम मुनिजी म सा (वाई पास गजरी हेतु) पधारे मुनियो की चार महीने अगलाव भाव मे सेवा का प्रत्यक्ष दशन हमे हुआ।

विशेष — दिल्ली मे अब तक हुए तीन चातुर्मास जा सभी अपने आप म अनूठे के लेविन 1992 का रोहिणी दिल्ली का स्वाध्याय (मण्डल की स्थापना) की दृष्टि म अपुव धर्माचोत वाला रहा। वतमान पन्द्रहवा चातुर्मास 1993 का—हम दिल्ली वासियो के पुष्पोदय से लक्ष्मीनगर दिल्ली मे हो रहा है।

पुनश्च मुनि श्री दीर्घायु हो तथा चिरबाल तव जिन शासन की सयम-साधना मे उत्तरोत्तर वृद्धि करें।

चातुर्मास स्थल तथा सम्यक सूत्र
श्रीएस एम जैन समा, जैनस्थान
एम-87, जगताराम पाक
लक्ष्मी नगर, दिल्ली-110 092
फोन-2222203

सत दशनाय
पधारकर हमें
सेवा का मौका
अवश्य प्रदान
करें ।

आपके चरण बमलो म
कोटि-कोटि वन्दना
हम हैं आपके
अद्भुत भक्तजन, दिल्ली

20

શ્રી સાયલા સંપ્રદાય

સમુદાયના પ્રમુખ સંત:- વયોવૃદ્ધ, પં. રત્ન, સંઘનાયક
શ્રી બલભદ્રમુનિજી મ.સા.

કુલ ચાતુર્માસ (1) સંત (1) કુલ ઠાણા (1)

મુનિરાજ સમુદાય

1. ગોતા (અમદાવાદ) (ગુજરાત)
સંઘનાયક વયોવૃદ્ધ પં. રત્ન શ્રી બલભદ્ર મુનિજી
મ.સા. આદિ ઠાણા (1)
સમ્પર્ક સૂત્ર - શ્રી ગોતા (અમદાવાદ) સ્થાનકવાસી જૈન સંઘ
297/3554/3555 ગાંધી વસાહત કાશી
વિશ્વનાથ મહાદેવની પાસે, સરખેજ, ગાંધી
નગર હાઈવે રોડ, મુપો ગોતા જિલ્લા
અમદાવાદ (ગુજ) 382481

કુલ ચાતુર્માસ (1) સંત (1) કુલ ઠાણા (1)

સંત-સતી તુલનાત્મક તાલિકા 1993

| વિવરણ | સંત | સતિયો | કુલ ઠાણા |
|-----------------------|-----|-------|----------|
| 1992 માં કુલ ઠાણા હતા | 2 | - | 2 |
| (+) નવી દીક્ષા થઈ | - | - | - |
| | 2 | - | 2 |
| (-) કાલ ધર્મ પ્રાપ્ત | 1 | - | 1 |
| 1993 માં કુલ ઠાણાઓ | 1 | - | 1 |

- નોટ 1 એક જમાનો હતો જ્યારે આ સમુદાયમાં અનેક સાધુ - સાધ્વીજીઓ હતા પરંતુ વર્તમાનમાં આ સમુદાયમાં ફક્ત એકજ મુનિરાજ શેષ બચ્યા છે આખાએ ભારતના ચારો ફિરકાઓમાં આ એક માત્ર એવી સમુદાય છે જેમાં ફક્ત એકજ સાધુ-સાધ્વીજી વર્તમાનમાં હોય આ એક રેકોર્ડ છે
- 2 આ વર્ષનો ચાતુર્માસ પ્રારંભ થયા પછી સેવાભાવી શ્રી નિમોહી મુનિજી મ.સા નું 9-7-93 ના રોજ ગોતા (અમદાવાદ) ગાંવે વાયા અમદાવાદે મહાપ્રયાણ થયું છે
- 3 નવી દીક્ષાઓ થઈ - કોઈ નથી
- 4 જૈન પત્ર પત્રિકાઓ - કોઈ નથી

જૈન વિશ્વ રિકાર્ડસ

સમ્પૂર્ણ જૈન સમાજ કે લગભગ 10 હજાર જૈન સાધુ-સાધ્વીયો મે
શ્વે. મૂર્તિ તપાગચ્છ સમુદાય કે આચાર્ય શ્રી રામચન્દ્ર સૂરીજી મ.સા. કે સુશિષ્ય
શ્રી હિતરુચી વિજયજી મ. (ઢાયમંડ કિંગ શ્રી અતુલભાઈ)

કી દીક્ષા સવસે મહંગીં ખર્ચીલી દીક્ષા હુઈં જિસમે 2 લાખ લોગો ને એક સાથ ભોજન કિયા।

(જૈન રિકાર્ડસ ડાયરેક્ટ્રી સે સાભાર)

तपागच्छीय परम प्रभावक, परम पूज्य गुरुदेव आचाय प्रवर श्री विजय वनापूण सूरेश्वरजी म सा
आदि ठाणाओ वा मद्रास (तमिलनाडू) मे सन 1993 वा चातुर्मास
सानंद सम्पन्न होने की मंगल कामना करते हुए—

शुभकामनाओं के साथ—

Tel No 3449407

PLAZA TRADERS

TOBU BRAND

PEN, BALL PEN & REFILLS

Plaza Shopping Centre, Shop No 101,

76-78, Sutar Chawl, BOMBAY - 400002 (MH)

शुभेच्छुक—

लखमशी सूरजी गाला
बम्बई

धनजी सूरजी गाला
बम्बई

श्रमण सभ के पूज्य आचाय सम्राट श्री 1008 श्री देवेन्द्रमुनिजी म सा, युवाचाय डॉ शिवमुनिजी म सा,
उपाध्याय श्री केवलमुनिजी म सा, श्री विशालमुनिजी म सा, श्री मनोहरमुनिजी म सा, प्रवक्त श्री रमेशमुनिजी म सा,
श्री रूपचंदजी म सा, श्री कल्याणशुद्धिजी म सा श्री उमेशमुनिजी म सा, श्री महेशमुनिजी म सा एव सभी
मुनिवरो एव महामतियों वा वष 1993 के वर्षावास मे ज्ञान, दशन, चारित्र्य एव तप मे अभिवृद्धि हो ऐसी हार्दिक
मंगल कामना करते हुए ।

श्री वर्द्धमान स्थानकवासी जैन श्रावक संघ (रजिस्टर्ड)

(पञ्चम व्रमाव 11795)

20, नीमचोक, रतलाम (म प्र) 457 001

अध्यक्ष

इंद्रमल जन

358, मित्र निवास रोड, रतलाम
दूरभाष 30780 22337

उपाध्यक्ष

माणकलाल बाकना

धूलचंद वीरा

पञ्चाल कटारिया

कायकारिणी सवस्वगण

कोपाध्यक्ष

समरयमल कटारिया

सदस्य

मनोहरलाल धीमाल "बचल"

मानकलाल तरसिंग

मंत्री

माणोलाल कटारिया

19/3 पेलेस रोड, रतलाम

दूरभाष 20288, 22754, 30681

सहमंत्री

दलपतसिंह खीरधिया

शान्तीलाल रांका

श्रेयसलाल मालनी



શ્રી હાલારી સમ્પ્રદાય

સમુદાયના પ્રમુખ સંત - આગમ આગ્રહી, સંઘ પ્રમુખ
પં. રત્ન શ્રી કેશવ મુનિજી મ.સા.

કુલ ચાતુર્માસ (2) સંત (2) મહાસતિયોજી (4) કુલ ઠાણા (6)

મુનિરાજ સમુદાય

1. જામનગર (ગુજરાત)

સંઘ પ્રમુખ, આગમ આગ્રહી, પં. રત્ન
શ્રી કેશવમુનિજી મ.સા.

આદિ ઠાણા (2)

સમ્પર્ક સૂત્ર - શ્રી સ્થાનકવાસી જૈન પ્રવાસી ગૃહ ઉપાશ્રય,
લાલબંગલા ને પાસે,
જામનગર - 361001 (ગુજરાત)

મહાસતિયોજી સમુદાય

2. ગઢડા - સ્વામી નારાયણ (ગુજરાત)

વિદુષી મહાસતી શ્રી કમલાબાઈ.મ સા

આદિ ઠાણા (4)

સમ્પર્ક સૂત્ર - શ્રી સ્થાનકવાસી જૈન ઉપાશ્રય,
માણેક ચોક, મુ પો ગઢડા - સ્વામીનારાયણ
જિલા - ભાવનગર (ગુજરાત) 364 750

| | | | |
|-----------------------|---|-------------|---|
| કુલ ચાતુર્માસ સંતોના | 1 | કુલ સંત | 2 |
| કુલ ચાતુર્માસ સતિયોના | 1 | કુલ સતિયોજી | 4 |
| કુલ | 2 | | 6 |

કુલ ચાતુર્માસ (2) સંત (2) સતિયોજી (4) કુલ ઠાણા (6)

સંત સતી તુલનાત્મક તાલિકા 1992. અનુસાર

જૈન પત્ર-પત્રિકાએ - કોઈ નહી

અણુવ્રત પુરસ્કર્તા સૂચી

જય તુલસી ફાસન્ડેશન, અણુવ્રત ભવન,

210, દીન દયાલ ઉપાધ્યાય માર્ગ

નૈદિલ્લી - 110002

(પુરસ્કાર રાશિ રૂપયે 1,00,000 /-)

| | | |
|----|-------------------------|----------|
| 1 | શ્રી આત્માગમ | સન્ 1981 |
| 2 | શ્રી જિનેન્દ્ર કુમાર | સન્ 1982 |
| 3 | શ્રી શિવાજી ભાવે | સન્ 1984 |
| 4 | શ્રી ગુલજારીલાલ નન્દા | સન્ 1985 |
| 5 | શ્રી મોહનલાલ કઠોતિયા | સન્ 1986 |
| 6 | શ્રી સી. સુબ્રહ્મમણ્યમ્ | સન્ 1987 |
| 7 | ડૉ. રાધાનાથ રથ | સન્ 1988 |
| 8 | શ્રી પી સી સેન | સન્ 1989 |
| 9 | ડૉ. શંકરદયાલ શર્મા | સન્ 1990 |
| 10 | શ્રી શિવરાજ પાટીલ | સન્ 1991 |
| 11 | શ્રી | સન્ 1992 |

मुनि मायाराम सम्बोधि-प्रकाशन (दिल्ली) का

सुरुचिपूर्ण ललित-साहित्य

| | | | |
|--|-----------------------------------|-------------|-----------------|
| आगम- | महाप्राण मुनि मायाराम | मुमद्र मुनि | 20-00 |
| वीर-स्तुति (हिन्दी पद्यानुवाद एव व्याख्या) | तपोवेमरी मुनि केमरीगिह | मुमद्र मुनि | 5-00 |
| उपासना (म्वाध्याय सबलन) गुरुदेव मुनि रामहृष्ण | अद्भुत तपस्वी | मुमद्र मुनि | 5-00 |
| उत्तराध्ययनसूत्र (हिन्दी व्याख्या) मुमद्र मुनि | गुरुदेव योगिराज | मुमद्र मुनि | 20-00 |
| श्लोत्र- | श्रमण धर्म के मुकुट गुरुदेव (तपु) | मुमद्र मुनि | 5-00 |
| भक्तामर स्तोत्र (हिन्दी पद्यानुवाद एव व्याख्या) गुरुदेव मुनि रामहृष्ण | प्रभा पुरुपातम मुनि रामहृष्ण | मुमद्र मुनि | 50-00 |
| कल्याण मन्दिर स्तोत्र (हिन्दी पद्यानुवाद एव व्याख्या) गुरुदेव मुनि रामहृष्ण | कथा/कहानी- | | |
| चिन्तामणि पार्ष्वनाथ स्तोत्र (हिन्दी पद्यानुवाद एव व्याख्या) गुरुदेव मुनि रामहृष्ण | गुरुदेव योगिराज की कहानिया | मुमद्र मुनि | 10-00 |
| महावीरशब्द स्तोत्र (हिन्दी पद्यानुवाद एव व्याख्या) गुरुदेव मुनि रामहृष्ण | गुरुदेव योगिराज की बाध कथायें | | 5-00 |
| काव्य- | मुमद्र कथायें | | 10-00 |
| मन्दाकिनी (मुक्तक-संग्रह) गुरुदेव मुनि रामहृष्ण | बाल-साहित्य- | | |
| ऋतम्भरा (मुक्तक-संग्रह) गुरुदेव मुनि रामहृष्ण | बच्चों की धार्मिक कहानिया | मुमद्र मुनि | 8 00 |
| सम्बोधि (मुक्तक-संग्रह) गुरुदेव मुनि रामहृष्ण | धर्म नाव के बाल-यानी | | 8 00 |
| अन्तर्नाद (गीत-संग्रह) गुरुदेव अरुण मुनि | जैन कथामृतम् | | 8 00 |
| निबन्ध- | महावीर के उपासका | | 8-00 |
| तृतीय नेत्र गुरुदेव मुनि रामहृष्ण | मुमद्र शिक्षा (5 भाग) | | 5-00 (प्रत्येक) |
| भगवान महावीर गुरुदेव मुनि रामहृष्ण | नाटक- | | |
| चरित- | भोर-मई | मुमद्र मुनि | 20-00 |
| भगवान् पार्ष्वनाथ मुमद्र मुनि | सूचित- | | |
| विश्ववध महावीर मुमद्र मुनि | गुरुदेव योगिराज की देशना | मुमद्र मुनि | 5-00 |
| भगवान् महावीर (तपु) मुमद्र मुनि | स्मारिका- | | |
| | वन्दना | मुमद्र मुनि | 10-00 |
| | श्रद्धा | | 10-00 |
| | त्रिविध- | | |
| | जैन धर्म में प्रवेश | मुमद्र मुनि | 5-00 |
| | महामात्र नमोवार अखण्ड जाप | | 2-00 |

प्राप्ति स्थल

मंत्री मुनि मायाराम सम्बोधि प्रकाशन

के डी ब्लाक, पीतमपुरा, दिल्ली 110034

श्रीपाल जैन, न्यू इण्डिया बुक एण्ड पिरिओडिकल्स

2731, त्रिनगर दिल्ली-10035

22

શ્રી વર્ધમાન સમ્પ્રદાય

સમુદાયના પ્રમુખ સંત - સંઘ નાયક, મધુર વક્તા,
પં. રત્ન, તત્વજ્ઞ શ્રી નિર્મલ મુનિજી મ.સા.

કુલ ચાતુર્માસ (2) સંત (1) મહાસતિયોજી (5) કુલ ઠાણા (6)

મુનિરાજ સમુદાય

- મુંબઈ બોરીવલી (દૌલતનગર) (મહારાષ્ટ્ર)
સંઘ નાયક, તત્વજ્ઞ, મધુર વક્તા, પં. રત્ન
શ્રીનિર્મલ મુનિજી મ.સા. આદિ ઠાણા (1)
સમ્પર્ક સૂત્ર - શ્રી વ સ્થા જૈન શ્રાવક સંઘ, જૈન સ્થાનક
રોડ નં 9 દૌલતનગર, બોરીવલી (પૂર્વ)
મુંબઈ - 400 066 (મહારાષ્ટ્ર)
☎ 8057207 P P

મહાસતિયોજી સમુદાય

- મુંબઈ - શાન્તાકુઝ (વેસ્ટ) (મહારાષ્ટ્ર)
વિદુષી મહાસતીશ્રી રુક્મણીબાઈ મ.સા આદિ ઠાણા (5)
સમ્પર્ક સૂત્ર - શ્રી વ સ્થા જૈન શ્રાવક સંઘ, જૈન સ્થાનક
ફિરોજશા રોડ, રેલ્વે સ્ટેશન પાસે,
સાંતાકુઝ (વેસ્ટ) મુંબઈ - 400 054 (મહારાષ્ટ્ર)
☎ 6143465

| | | | |
|-----------------------|---|-------------|---|
| કુલ ચાતુર્માસ સંતોના | 1 | કુલ સંત | 1 |
| કુલ ચાતુર્માસ સતિયોના | 1 | કુલ સતિયોજી | 5 |
| કુલ | 2 | | 6 |

કુલ ચાતુર્માસ (2) સંત (1) સતિયોજી (5) કુલ ઠાણા (6)

સંત સતી તુલનાત્મક તાલિકા 1993. અનુસાર
જૈન પત્ર-પત્રિકાએ - આત્મ પ્રકાશ (માસિક-ગુજરાત) સુરેન્દ્રનગર

બૃહદ્ ગુજરાત સમુદાયોના અન્ય સંત-સતિયોજી

- નગરી (મધ્યપ્રદેશ)
સિદ્ધાંત પ્રેમી શ્રી ધર્મેન્દ્ર મુનિજી મ સા (ખંભાત)
આદિ ઠાણા (1)
સમ્પર્ક સૂત્ર - શ્રી મહેશ દિનેશ નાહટા C/o, શ્રી પુષ્પરાજજી નાહટા
મુ.પો. નગરી જિલા રાયપુર (મધ્ય પ્રદેશ) 493778
- મુંબઈ - નાલાસોપારા (પૂર્વ) (મહારાષ્ટ્ર)
મધુરવક્તા શ્રી જીતેન્દ્ર મુનિજી મ સા (કચ્છ)
આદિ ઠાણા (1)
સમ્પર્ક સૂત્ર - શ્રી કચ્છી વીલા ઓસવાલ જૈન સંઘ,
જૈન સ્થાનક, તુલીજ રોડ, નાલા સોપારા (પૂર્વ)
જિલા - ઠાણા (મહારાષ્ટ્ર) (વેરે)
- દેવલાલી (નાસિક) (મહારાષ્ટ્ર)
સેવાભાવી શ્રી શાંતિ મુનિજી મ.સા. (લિ ગો)
આદિ ઠાણા (1)
સમ્પર્ક સૂત્ર - શ્રી વર્ધમાન મહાવીર કેન્દ્ર
મહાવીર ભવન, 392 લામ રોડ, દેવલાલી કેમ્પ,
વાયા નાસિક રોડ, (મહારાષ્ટ્ર)
- (ગુજરાત)
સેવાભાવી શ્રી વિનોદિની બાઈ મ સા (લિ મો)
આદિ ઠાણા (2)

કુલ ચાતુર્માસ (4) સંત (4) સતિયોજી (3) કુલ ઠાણા (7)

બૃહદ્ ગુજરાત સમ્પ્રદાયો કા કુલ યોગ

| | | | |
|-----------------------|-----|-------------|------|
| કુલ ચાતુર્માસ સંતોના | 48 | કુલ સંત | 131 |
| કુલ ચાતુર્માસ સતિયોના | 215 | કુલ સતિયોજી | 991 |
| કુલ | 263 | | 1122 |

કુલ ચાતુર્માસ (263) સંત (131) સતિયોજી (991) કુલ ઠાણા (1122)

॥ ॐ श्री गुरुदेवाय नमः ॥

श्रमण सभ के पूज्य आचार्य मंत्राट 1008 श्री देवेन्द्रमुनिजी म सा आदि ठाणाओं का भीलवाड़ा में, पूज्य उपाध्याय श्री केवलमुनिजी म सा आदि ठाणाओं का बैंगलोर पूज्य प्रवर्तक श्री रमेश मुनिजी म सा आदि ठाणाओं का टूंगला शास्त्री श्री सुरेशमुनिजी म सा आदि ठाणाओं का भायदर, मभ सेवा भारती घोर तपस्वी श्री भीहन मुनिजी म सा का नीमच एव उपप्रवर्तक श्री मेघराजजी श्री प्रेममुनिजी श्री धम्ममुनिजी म सा आदि ठाणाओं का रतताम में वर्ष 1993 का वर्षावाम ज्ञान, दर्शन, धारिण एव तप की आगधनाओं से अतिप्रोत सफल बने ऐसी मंगल कामना करते हुए—

(एस टी डी 07412)

दूरभाष 20288, 22754

कटारिया मिश्रीलाल मांगीलाल

19/3 पेलेस रोड, रतताम (म प्र)-457001

सम्बन्धित प्रतिष्ठान

दूरभाष 20443 व 32543

फ्रेण्डस आटोमोबाईल्स, इंडियन आईल पेट्रोल पम्प

महू रोड, मातापेठी, जिला-रतताम (म प्र)

दूरभाष 22681

श्री शक्ति आटोमोबाईल्स

अधिकृत विक्रेता—टी वी एस मूजिकी मोटर गाईडिल मोपेड बायुनिक मशीनों एव नम्पनो द्वारा

प्रशिक्षित मेकेनिकों द्वारा रिपैरिंग व सर्विस

एस्वबायर बाम्पलेक्स, महू रोड, रतताम (म प्र) 457001

दूरभाष 20125 व 24944

दिवाकर मोटर्स

86, न्यू रोड, रतताम (म प्र)

दूरभाष 2062

श्री महावीर आटोमोबाईल्स, इंडियन आईल पेट्रोल पम्प

बदनावर, जिला-धार (म प्र)

दूरभाष 1679

श्री शक्ति आटोमोबाईल्स

अधिकृत विक्रेता—टी वी एस मूजिकी मोटर साईडिल मोपेड

आर. के जैन मार्केट नीमच, जिला-मदसौर (म प्र)-458341

शुभेच्छुव-

भागोलाल कटारिया

रतताम (म प्र)

जय आनन्द

जय देवेन्द्र

श्रमण सघ के द्वितीय पट्टधर स्व. आचार्य सम्राट पूज्य श्री आनन्दऋषीजी म. सा. के सुशिष्य श्रमण संघीय मंत्री, परम पूज्य गुरुदेव, मधुर व्याख्यानी श्री कुन्दनऋषीजी म. सा. आदि ठाणाओं (4) का इचलकरंजी (महाराष्ट्र) मे सन् 1993 वर्ष का चातुर्मास ज्ञान, दर्शन, चारित्र एवं तप की आराधनाओं से यशस्वी सफल बनने की मंगल कामनाएँ करते हुए—

हार्दिक शुभकामनाओं सहित—

फोन : दुकान 22259, 22479

निवास 22452

टेलीग्राम BUMB

तेजराज रूपराज बम्ब

धोती, मलमल, साड़ियों, सूटिंग, ब्लाउज पीसेज के. टी. के होलसेल व्यापारी

पोस्ट बाक्स नं. 70, मेनरोड, इचलकरंजी-416 416

जिला कोल्हापुर (महाराष्ट्र)

सम्बन्धित प्रतिष्ठान:-

- सूरज टेक्सटाईल्स कार्पोरेशन
- सागर कार्पोरेशन
- अरिहंत सिन्थेटिक्स
- सोनल कार्पोरेशन

—: शुभेच्छुक :—

| | | |
|-------------|---|--------------------|
| रूपराज बम्ब | 卐 | सौ. सायर देवी बम्ब |
| रमेश बम्ब | 卐 | सौ. ललिता बम्ब |
| महावीर बम्ब | 卐 | सौ. ममता बम्ब |

समस्त बम्ब परिवार, इचलकरंजी

प्रकाशित समग्र जन साहित्य का परिचय प्राप्त करने
साप हो, आपकी सभी समस्याओं, जिज्ञासाओं का जन आधार पर समाधान प्राप्त करने के लिये पढ़ें।

गाणसागर (the ocean of Jaina Knowledge)

नमूना 15 रु वार्षिक 60 रु आजीवन 500 रु सरण्य 2000 रु

(सरलक, आजीवन सदस्यों की पुराने उपलब्ध सभी अब निःशुल्क भेंट किये जाते हैं तथा सरलाको के नाम हर अब में प्रकट किये जाते हैं)

आदि आपको कितने भी जैनग्रन्थ, चित्रकथायें, बालोपयोगी साहित्य, जनेतर आध्यात्मिक, ज्योतिष, तन्त्र-मन्त्र साहित्य की आवश्यकता है। कसेटों, फोटोग्राफस, स्टीकरस आदि प्रचार सामग्री, उपहार योग्य सामग्री, जैन यंत्रों, मूर्तियों, प्रतिष्ठा-विधान के लिये आवश्यक उपकरणों की आवश्यकता हो तो लिखें

* अरिहन्त इन्टरनेशनल *

239, गली कुजस, दरौबा दिल्ली 110006,

फोन 3278761

जन लेखक, जन प्रकाशक ध्यान दें।

हम फरवरी 1994 में नईदिल्ली में आयोजित हो रहे विश्व पुस्तक मेले में भाग ले रहे हैं। यदि आप अपनी पुस्तकें इस मेले में प्रदर्शित करना चाहते हैं तो तुरन्त सूचना दें।

ॐ उपभू

श्रमण मघ के पूज्य आचार्य सम्राट 1008 श्री देवद्रुमनिजी म मा आदि ठाणाआ का भीलवाडा पूज्य उपाध्याय श्री वेवल मुनिजी म मा आदि ठाणाओ का बंगरार। पूज्य प्रवक्त श्री रमेगमुनि जी म आदि ठाणाआ का डूगला, शान्धी श्री सुरेस मुनिजी म आदि ठाणाआ का भायदर एव उपप्रवक्त श्री मेपराजजी, श्री प्रेममुनिजी, श्री घममुनिजी म मा आदि ठाणाओं का रतलाम में वष 1993 का वर्षावास यशस्वी बने ऐसी मगल कामना करते हुए।

श्री कस्तुर गुरु भोजनशाला ट्रस्ट बोर्ड

20, नीमचौक, रतलाम (मध्यप्रदेश) 457001

पजीपन क्रमांक 227 दिनांक 3-12-90

समस्त दशगार्थी बघुबा में सेवा करन का सुअवसर प्रदान करने का विनम्र निवेदन है।

न्यायीगण

सेठ केहारीमलजी चिबसरा

इ दरमल जन

मागीलाल कटारिया

बम्बई

रतलाम

रतलाम

स्तम्भ सदस्य

अध्यक्ष

मनी

रत्नबघुन्द कटारिया

मागीलाल गाविया

समरधमल कटारिया

बाबूलाल बोरा

मीठालाल मगललाल सघत्री

सुरेशकुमार मेहता

भोजनशाला व्यवस्थापन प्रमुख

भाजकलाल बाफना, शंतामल पटवा, नीमचौक रतलाम

श्री अमर जैन साहित्य संस्थान का जीवन प्रेरक साहित्य

प्रकाशन सूची-पत्र सन् 1993-94

धार्मिक, दार्शनिक उत्कर्ष, सामाजिक उत्थान, सांस्कृतिक एवं चारित्रिक विकास में सहयोगी, उत्कृष्ट साहित्य की प्रकाशन प्रवर्तिका-संस्था

श्री अमर जैन साहित्य संस्थान

'गणेश विहार' सेक्टर-11, उदयपुर-313001 (राज.)

शोध प्रबन्ध

| | |
|--|-------|
| * अहिंसा की बोलती मीनारे | 50 00 |
| * इन्द्रभूति गौतम : एक अनुशीलन | 25 00 |
| * श्री गणेश मुनि शास्त्री : साधक-सर्जक | 15.00 |
| * आचार्य श्री अमर : जीवन दर्शन | 2.00 |

आगम

| | |
|------------------------------|-------|
| * भगवान महावीर के हजार उपदेश | 45.00 |
|------------------------------|-------|

चिन्तन

| | |
|---------------------|-------|
| * प्रेरणा के विन्दु | 10 00 |
|---------------------|-------|

कहानी

| | |
|--------------------|-------|
| * आशीर्वाद | 10 00 |
| * वरदान | 10 00 |
| * अपना धर्म | 10 00 |
| * ढोलक कौन बजायेगा | 10 00 |
| * जिन्दगी के लिए | 10 00 |
| * मेरा भगवान | 10.00 |
| * पतझड के बाद | 10 00 |
| * सीख के मोती | 15 00 |
| * फिर से खिला बसंत | 15 00 |

उपन्यास

| | |
|---------------------|-------|
| * शीश महल | 10 00 |
| * विजय | 10 00 |
| * चरित्र का चमत्कार | 10 00 |
| * कुन्दन | 10 00 |
| * संजोग | 10.00 |
| * परदेशी | 10 00 |
| * अन्तर्यात्रा | 15 00 |
| * सुवह की धूप | 10 00 |
| * सागर के पार | 2 00 |
| * मेरी कहानी | 15.00 |
| * विश्वास | 10 00 |

नाटक

| | |
|-----------------------|-------|
| * परीक्षा | 15.00 |
| * मानवता का अन्तःस्वर | 10 00 |
| * ऑसू और आवाज | 10.00 |
| * भटकते कदम | 10 00 |
| * रत्न कम्बल | 10 00 |
| * किराये का मकान | 10.00 |
| * खून का रिश्ता | 10 00 |

कविता

| | |
|-----------------------|-------|
| * विश्व ज्योति महावीर | 15 00 |
| * सुवह के भूले | 15 00 |
| * सरल भावना बोध | 15 00 |
| * जीवित लक्ष्मी | 1 00 |
| * आनन्द कुमार | 25 00 |
| * राजकुमार रूपसेन | 40.00 |
| * शीलवती बहू | 50 00 |

मुक्तक

| | |
|--------------------------|-------|
| * अनगूजे स्वर | 10 00 |
| * प्रकृति के चौराहे पर | 10 00 |
| * महका उठा कवि सम्मेलन | 1.00 |
| * अपना आईना . अपना चेहरा | 10 00 |

क्षणिकाएँ

| | |
|------------------------|-------|
| * सच्चाई के पर्दे पर | 10 00 |
| * तालियों की गड़गड़ाहट | 10 00 |
| * यथार्थ की धरा पर | 10.00 |
| * हंसे ज्यारा घर बसे | 40.00 |

गीत

| | |
|-------------------------|-------|
| * पाँच कवि | 10.00 |
| * मगल प्रार्थना | 5.00 |
| * नये गीत | 1 00 |
| * प्रार्थना के मगल स्वर | 4 00 |

प्राप्ति केन्द्र : श्री अमर जैन साहित्य संस्थान सेक्टर-11, उदयपुर-313001 (राज.)

नोट.—वाचनालय, लाइब्रेरी, संस्थाओं को 15% बुक सेलर्स को 25% तथा व्यक्तिगत खरीदी पर 10% कमीशन देने का प्रावधान है। पैकिंग, डाक व्यय क्रेता को वहन करना होगा।

संस्थान का आजीवन सदस्यता शुल्क रु 2100/- है। फोन नं 83741

प्राकृत भारती, अकादमी जयपुर

महत्त्वपूर्ण प्रकाशन

| क्र | कृति नाम | मूल्य | क्र | कृति नाम | मूल्य |
|-----|--|--------|-----|-------------------------------|--------|
| 1 | कल्पसूत्र मञ्चित | 200 00 | 23 | आचारांग-चयनिका | 25 00 |
| 2 | राजस्थान का जैन साहित्य | 50 00 | 24 | वाक्पतिराज लोकानुभूति | 12 00 |
| 3 | प्राकृत स्वयं शिक्षक | 15 00 | 25 | प्राकृत गद्य मोपान | 16 00 |
| 4 | आगम तीर्थ | 10 00 | 26 | अपभ्रंश और हिन्दी | 30 00 |
| 5 | स्मरण कला | 15 00 | 27 | नीलाञ्जना | 12 00 |
| 6 | जैनगम दिग्दर्शन | 20 00 | 28 | चन्दनमूर्ति | 20 00 |
| 7 | जैन कहानियाँ | 4 00 | 29 | एस्ट्रोनोमी एण्ड कास्मोलोजी | 15 00 |
| 8 | जाति स्मरण ज्ञान | 3 00 | 30 | नोट फार फ्राम द रीवर | 50 00 |
| 9 | हाफ ए टेल (अध्वयानक) | 150 00 | 31 | उपमिति-भव-प्रपञ्च तथा भाग-1,2 | 15 00 |
| 10 | गणधरवाद | 50 00 | 32 | —, — | |
| 11 | जैन इन्फ्रिप्सन्स ऑफ राजस्थान | 70 00 | 33 | समणमुक्त चयनिका | 16 00 |
| 12 | वैदिक मथेमेटिक्स | 15 00 | 34 | मिले मन गीतर भगवान | 30 00 |
| 13 | प्राकृत काव्य मञ्जरी | 16 00 | 35 | जैन धर्म और दर्शन | 9 00 |
| 14 | महावीर का जीवन मन्देश | 20 00 | 36 | जैनज्म | 30 00 |
| 15 | जैन पोलिटिकल थोट | 40 00 | 37 | दशवैकालिक चयनिका | 12 00 |
| 16 | स्टडीज् ऑफ जैनज्म | 100 00 | 38 | रत्नरत्न समुच्चय | 15 00 |
| 17 | जैन, बौद्ध और गीता का साधना मार्ग | 20 00 | 39 | नीतियावधाम्त | 100 00 |
| 18 | जैन, बौद्ध और गीता का समाज दर्शन | 16 00 | 40 | सामायिक धर्म एक पूण योग | 10 00 |
| 19 | जैन, बौद्ध और गीता के | 140 00 | 41 | गीतमरास एव परिशीलन | 15 00 |
| 20 | आचार दर्शनों का तुलनात्मक - अध्ययन भाग 1, 2 | | 42 | अष्ट पाहुड चयनिका | 10 00 |
| 21 | जैन कर्म मिद्धान्त का तुलनात्मक अध्ययन | 14 00 | 43 | अहिंसा | 30 00 |
| 22 | हेम-प्राकृत व्याकरण शिक्षक | 16 00 | 44 | वृज्जालग्न में जीवन मूल्य | 10 00 |
| | | | 45 | गीता चयनिका | 16 00 |
| | | | 46 | ऋषिभाषित सूत्र | 100 00 |

| क्र | कृति नाम | मूल्य | क्र | कृति नाम | मूल्य |
|-----|-------------------------------|---------|-----|-----------------------------------|---------|
| 47. | नाड़ी विज्ञान एव नाड़ी प्रकाश | } 30 00 | 65. | सहजानन्दघनचरियम् | 20.00 |
| 48 | —, — | | 66 | आगम युग का जैन दर्शन | 100.00. |
| 49 | ऋषिभाषित · एक अध्ययन | 30 00 | 67 | खतर गच्छ दीक्षा नन्दी सूची | 50 00 |
| 50 | उववाड्य सुत्तम् | 100 00 | 68 | आगार सुत्तं | 40 00 |
| 51 | उत्तराध्ययन चयनिका | 12 00 | 69 | सूयगड सूत्तं | 30 00 |
| 52. | समयसार चयनिका | 16.00 | 70 | प्राकृत धम्मपद | 100.00 |
| 53 | परमात्मप्रकाश एव योगसार | 10.00 | 71 | नालडियार | 100.00 |
| | चयनिका | | 72 | नन्दीश्वर द्वीप पूजा | 10 00 |
| 54 | ऋषिभाषित · ए स्टेडी | 30 00 | 73 | पुनर्जन्म का सिद्धान्त | 50 00 |
| 55. | अर्हत् वन्दना | 3 00 | 74 | समवाय सुत्तं | 100 00 |
| 56. | राजस्थान मे स्वामी विवेकानन्द | 75 00 | 75 | जैन पारिभाषिक शब्द कोश | 10.00 |
| | भाग-1 | | 76 | जैन साहित्य मे श्रीकृष्ण, चरित्र | 100 00 |
| 57 | आनन्दघन चौबीसी | 30.00 | 77. | त्रिषष्टिशलाका पुरुष चरित्र भाग-2 | 60 00 |
| 58 | देवचन्द्र चौबीसी | 60 00 | 78. | राजस्थान मे स्वामी विवेकानन्द | 100 00 |
| 59 | सर्वज्ञ कथित परम सामायिक धर्म | 40.00 | | भाग-2 | |
| 60 | दु.ख मुक्ति · सुख प्राप्ति | 30 00 | 79. | त्रिषष्टिशलाका पुरुष चरित्र | 100 00 |
| 61 | गाथा सप्तशती | 100.00 | | भाग-3 | |
| 62 | त्रिषष्टि शलाका पुरुष चरित्र | 100 00 | 80. | दादा दत्त गुरु कामिक्स | 5 00 |
| | प्रथम पर्व | | 81 | दादा गुरु भजनावली | 100.00 |
| 63 | योग शास्त्र | 100 00 | 82. | भक्तासर : दिव्यदर्शन | 50 00 |
| 64. | जिन भक्ति | 30.00 | | | |

* चिन्हांकित 2, 4, 9, 30 अप्राप्त

पुस्तक प्राप्ति स्थान :

प्राकृत भारती अकादमी

3826, मोतीसिंह भोमियो का रास्ता,
जौहरी बाजार, जयपुर-302 003 (राज.)

कृषि गो सेवा ट्रस्ट

पंचवटी-नाशिक 422 003 (महाराष्ट्र)

ट्रस्ट रजि न इ 539 नाशिक दि 7-1-1989

(इनवमटेन्स पी न NSK/TECH/180/G-88 89/141-W E F 20 1-89)

विष्णु कोटि दूर टले वाछित फले तत्काल । गो सेवा सेवे सदा तस घर मंगल माल ॥

-0 ऑफिस 0-

शेठ डुंगरसी नागजी ट्रस्ट, तपोवन, वृद्धाश्रम, पंचवटी, नाशिक-422 003
हमें चाहिए । हमें चाहिए ।

फोन 76388

हमें चाहिए ।।

मूक, निःसहाय, बेचारिम, दद से जजित जीवो के पुनर्वसन हेतु ।

नासिन शहर में जीवदया गायनाय के निग मध्यवर्ती जगह

आपका आशीर्वाद, सहयोग एवं महामाग अनिनाय, अनुमोदनीय एवं जमिन दनीय है ।

आपकी संपत्ति (आयिव-अनुदान-ऊँह आदि) आपकी ममति (आशीर्वाद)

आपकी सतति (वायवर्ताण) उपरांत तीनों के सुगम मयोग से स्वप्न पूरा होगा ।

एक अद्वितीय आदर्श प्रेरणादायी नामिक वा जामूपण सिद्ध हानवाले

जीवदया मन्दिर का पशु-पक्षी पुनर्वसन केन्द्र (गो सदन)

जीवदया ।

-0 नम्र निवेदन 0-

जीव दया ।।

कृषि गो सेवा ट्रस्ट की आर म सभी दाताओं से नम्र निवेदन करते हैं कि "गाय हमारे भाग्न रूप की माता है एवं कृषिक्षेत्र की मजनवर्ताह । हम सभी की बहु रक्षणवर्ता है । ऋग्वेद, यजुर्वेद एवं सभी ऋथा मे गाय का अनन्य साधारण महत्व विषय किया गया है । "गो दान" वा सभी दानो म सर्वश्रेष्ठ ममथा जाता है ।

हम जीवदया के उदात्त हेतु म कमाईया मे मुक्त कराइ गई गायें बँल, बछडो वा पालन कर उनमें रखा वा काय ट्रस्ट की ओर से करते है । गो-मदन निर्माण हेतु दान शूर श्रीमती बनारसीबाई लक्ष्मीनारायण इदाणी, नासिन इन्होंने पंचवटी मे बडी कीमती 2 एकड जमीन ममथा को दान मे दी है । ममथा उनकी हमशा ऋणी रहेगी । आप भी इन मेवा मे यथाचित दान दकर शामिल हो सकते है । एवं पुण्य प्राप्त कर नवत ह । ट्रस्ट आज नासिन शहर की सर्वोत्तम आदर्श मेवाभावी ममथा मानी जाती है । आपके सहयोग पर ममथा वा भविष्य निमर है । सभी हिंदू मिथ, जैन भाईयो तथा जन माताओं से हम नम्रतापूर्वक प्रार्थना करत ह कि आप अपना मन-पूर्वक सहयोग देने की कृपा करें क्याकि यह धार्मिक वाय आप जैसे भाईया क और बहना के सहायता म ही चल रहा है । तथा आपके सहयोग मे ही इन वाय की वृद्धि हो सकेगी ।

दान का विवरण

- | | | | |
|-------------------------|------------|-----------------------|------------|
| (1) गो दान माता के लिये | 5001 रुपये | (3) एक बल के लिये | 2501 रुपये |
| (2) एक बछडे के लिये | 3501 रुपये | (4) कायम तिथि के लिये | 1111 रुपये |

उपरोक्त दाताओं वा नाम ममथा के नाम फत्र पर लिखा जावेगा एवं 'गो दान' करन वाचे दाताया वा फोटो कार्यालय मे लगाया जायेगा ।


इस ममथा के आश्रयदाता बनना चाहत है तो रुपये 1501 देवें रुपय 1001 दन पर प्राणिजा वा आपके नाम पर चारा खिलाना जायेगा, मा आपसे नम्र निवेदन है कि, आप जन शक्ति अनुसार अधिन मे अधिन दान देकर हम आपके मेवाभावी वाय से उपहत करें और ममथा के वाय का विकास कर देंगेगी आपके प्राथनाह । एक दिन के चारे के लिए रुपये 501/-

सभी दानदाताओं से नम्र विनती है कि गो सदन वाचना है उसके लिये मदद करने की कृपा करें ।

आपके विनीत,

कृषि गो सेवा ट्रस्ट के लिए भोजराज सोकुमल लोकवाणी
निधि प्रमुख नामिन

कृपया दान की राशि "कृषि गो सेवा ट्रस्ट-नासिक (रजि)" के नाम से नगद/चिक/डिमांड ड्राफ्ट/मनीआडर से भेजें ।
"तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र विरा दान । मन पवित्र हरिध्यान घर, होवे त्रिविध कल्याण ।"



श्याम-तृतीय

ए तेरापंथी सम्प्रदाय

जैन विश्व भारती

लाड़नू, (राजस्थान)

मानवीय मूल्यों के संरक्षण एवं समृद्धि के लिये परमेश्वर जैन विश्व भारती एक ऐसा मन्थान है जिसमें मानव शिक्षा, पाठ, माध्यामिक, मन्त्रिण, साहित्य और मन्त्रालय की शिक्षा में विरासतगत कथ्य युक्त है। इसका माध्यम, 'शास्त्रम मा' माध्यम है।

जैन विश्व भारती विशिष्ट विभागात्मक प्रवृत्तियों का केंद्र है। यहाँ सम्पूर्ण जैन वादस्य का मातृभूमि स्वरूप में अन्वेषण होता है। मन्त्रालय अनुवादक मन्त्रालय ज्ञान्या मन्त्रिण आगम ग्रंथों का तथा सामाजिक प्रवृत्तियों एवं साध्यात्मिक परिश्रेय में निहित मन्त्रों का पुस्तकालय एवं प्रवृत्तियों विद्वानों और वादकों के लिये विविष्ट महत्त्व रखता है। प्रवृत्तियों द्वारा व्यक्तिगत स्तरों पर प्रवृत्तियों में युक्त ज्ञानम मीडम जिनसे माता के जावकाल का केंद्र बना गया है। जैन विश्व भारती अनादमी, मन्त्र मन्त्रिण मन्त्राध्यक्ष विद्या विद्या, ब्राह्मण विद्यापीठ जैनी मुख्य प्रवृत्तियों मन्त्रालय मन्त्रालय का प्रवृत्तियों एवं मन्त्रिण है। मन्त्रालय ज्ञान्या केंद्र द्वारा लक्षण का स्वाम्य सुखा में निहित मन्त्रों उपलब्ध हैं।

जैन विश्व भारती मन्थान नक्षत्रियों, विद्यार्थियों, उच्च शिक्षा आदि विद्यापीठों के बाद उच्च शिक्षा में प्रवृत्तियों जैन विश्व विद्यालय में है, जहाँ अहिंसा मन्त्रिण मन्त्रालय और महत्त्वपूर्ण व प्रवृत्तियों की प्रायोगिक मन्त्रिण का अग्रिम मन्त्रालय दी जा रहा है। इसके सर्वप्रधानिक उच्चशिक्षा एवं मन्त्रालय आचार्यजी युक्त जैन विश्व भारती, जिनका आध्यात्मिक अनुभवों में यह मन्थान अनेक उच्च शिक्षा का केंद्र उपलब्ध देता। इसकी मुख्य तीन मन्त्रालयों हैं—

- 1 आध्यात्मिक विद्यालय अहिंसा का विभाग।
- 2 विश्व ज्ञान और अहिंसा के लिये मन्त्रिण शिक्षा पद्धति का विभाग।
- 3 अर्वाचल एव प्रवृत्तियों विद्याशा का मन्त्रालय।

प्रवृत्तियों के चार मन्त्रिण विभाग हैं—(1) जैन विद्या (2) प्राकृत (3) अहिंसा और मन्त्रिण, (4) जीव विज्ञान प्रवृत्तियों। यह विश्वविद्यालय अनादमीय विद्या का विभाग का जीवित जा रहा है। राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर ज्ञान का भेद में मुक्त मानव ज्ञान्या में जुड़े उच्च शिक्षा के लिये जैन विश्व भारती का आपन स्नेह महत्त्व महत्त्वपूर्ण एवं सुखा के लिये मादर आमरण है।

विनयावन्तु

श्रीचन्द्र रामपुरिया
पुस्तकपति

श्रीचन्द्र बंगानी
अध्यक्ष

श्रीमुरमल बंगानी
मन्त्री

श्री श्वेताम्बर तेरापंथी समुदाय

श्री जैन श्वेताम्बर तेरापंथी धर्म संघ के नवम् अधिष्ठाता, युग प्रधान आचार्य
श्री तुलसी एवं उनके आज्ञानुवर्ती श्रमण-श्रमणी वृद्ध के
विक्रम संवत् 2050 (गुजराती 2049) सन् 1993 वर्ष के चातुर्मासिक प्रवास की सूची

कुल चातुर्मास (127) श्रमण (147) श्रमणीयों (548) कुल ठाणा (695)

(1) राजस्थान प्रान्त

चातुर्मास स्थल (84) श्रमण (121) श्रमणीयों (383)
कुल ठाणा (504)

(क) बीकानेर संभाग

चातुर्मास स्थल (31) श्रमण (64) श्रमणीयों (203)
कुल ठाणा (267)

1. राजलदेसर (राजस्थान)

1. आध्यात्मिक जगत के उज्ज्वल नक्षत्र,
पुरषार्थ के प्रतीक, वाक्पति, अणुव्रत
अनुशास्ता, युग प्रधान आचार्य प्रवर
श्री तुलसी (डी. लिट्)

2. युवाचार्य आगमज्ञ, पं.रत्न श्री महाप्रज्ञजी
आदि श्रमण (33)

3. संघ महानिर्देशिका महाश्रमणी विदुषी
साध्वी प्रमुखा श्रमणी श्री कनक प्रभाजी
आदि श्रमणी (59)
कुल ठाणा (92)

सम्पर्क सूत्र - आचार्य श्री तुलसी चातुर्मास व्यवस्था
समिती, श्री जैन श्वेताम्बर तेरापंथी सभा,
मु.पो राजलदेसर जिला चूरु
(राजस्थान) 331802 ☎ 264 P.P. 313 P P*
(लाडनू, नागौर, चूरु, सरदारशहर, से वसे उपलब्ध)

2. रतनगढ़ (राजस्थान)

मुनिश्री गणेशमलजी आदि श्रमण (3)
सम्पर्क सूत्र - श्री जैन श्वेताम्बर तेरापंथी सभा,
मु.पो रतनगढ़ जिला चूरु (राजस्थान) 331022

3. बीकानेर (राजस्थान)

मुनिश्री डूंगरमलजी आदि श्रमण (4)
सम्पर्क सूत्र - श्री जैन श्वेताम्बर तेरापंथी सभा,
बोधरामोहल्ला, बीकानेर, (राजस्थान) 334001

4. सुजानगढ़ (राजस्थान)

मुनिश्री दुलीचन्दजी "दिनकर" आदि श्रमण (3)
सम्पर्क सूत्र - श्री जैन श्वेताम्बर तेरापंथी सभा,
मु.पो सुजानगढ़ जिला-चूरु
(राजस्थान) 331507

5. उदासर (राजस्थान)

मुनिश्री सोहनलालजी आदि श्रमण (6)
सम्पर्क सूत्र - श्री जैन श्वेताम्बर तेरापंथी सभा,
मु.पो. उदासर जिला-बीकानेर
(राजस्थान) 334022

6. छापर-सेवाकेन्द्र (राजस्थान)

मुनि श्री अगरचन्दजी 'गादाना' आदि श्रमण (7)
सम्पर्क सूत्र - श्री जैन श्वेताम्बर तेरापंथी सभा,
सेवा केन्द्र, मु.पो. छापर जिला-चूरु
(राजस्थान) 331502

- 7 सरदार शहर (राजस्थान)
मुनि श्री सागरमलजी 'श्रमण' आदि श्रमण (3)
सम्पर्क सूत्र - श्री जैन श्वेताम्बर तेरापथी सभा,
मु पो सरदारशहर जिला-चूरु
(राजस्थान) 331403
- 8 देशनोक (राजस्थान)
मुनि श्री भगनमलजी 'प्रमोद' आदि श्रमण (3)
सम्पर्क सूत्र - श्री जैन श्वेताम्बर तेरापथी सभा,
मु पो देशनोक जिला-बीकानेर
(राजस्थान) 344801
- 9 राजगढ (राजस्थान)
मुनि श्री विजय राजजी आदि श्रमण (2)
सम्पर्क सूत्र - श्री जैन श्वेताम्बर तेरापथी सभा,
मु राजगढ पो सादुलपुर जिला-चूरु
(राजस्थान) 331023
- 10 चाडवास (राजस्थान)
साध्वी श्री टमकूजी आदि श्रमणी (7)
सम्पर्क सूत्र - श्री जैन श्वेताम्बर तेरापथी सभा,
मु पो चाडवास जिला-चूरु
(राजस्थान) 313503
- 11 कालू (राजस्थान)
साध्वी श्री ठपाजी आदि श्रमणी (5)
सम्पर्क सूत्र - श्री जैन श्वेताम्बर तेरापथी सभा,
मु पो कालू जिला-बीकानेर (राजस्थान)
- 12 नाल (राजस्थान)
साध्वी श्री गुलावांजी आदि श्रमणी (4)
सम्पर्क सूत्र - श्री जैन श्वेताम्बर तेरापथी सभा,
मु पो नाल जिला-बीकानेर (राजस्थान)
- 13 भोमासर (राजस्थान)
साध्वी श्री पिस्ताजी आदि श्रमणी (4)
सम्पर्क सूत्र - श्री जैन श्वेताम्बर तेरापथी सभा,
मु पो भोमासर जिला-चूरु
(राजस्थान) 331801
- 14 भीनासर (राजस्थान)
साध्वी श्री मोहन कुमारीजी आदि श्रमणी (5)
सम्पर्क सूत्र - श्री जैन श्वेताम्बर तेरापथी सभा,
मु पो भीनासर जिला-बीकानेर
(राजस्थान) 334403
- 15 चूरु (राजस्थान)
साध्वी श्री रतनकुमारीजी आदि श्रमणी (4)
सम्पर्क सूत्र - श्री जैन श्वेताम्बर तेरापथी सभा,
मु पो चूरु (राजस्थान) 331001
- 16 पीली बगा (राजस्थान)
साध्वी श्री रायकुमारीजी (रतनगढ) आदि श्रमणी (4)
सम्पर्क सूत्र - श्री केशरीचन्दजी बाठिया
मु पो पीली बगा जिला-श्री गगानगर
(राजस्थान) 335803
- 17 गगा शहर (राजस्थान)
साध्वी श्री गोरजी (राजगढ) आदि श्रमणी (5)
सम्पर्क सूत्र - श्री जैन श्वेताम्बर तेरापथी सभा,
मु पो गगाशहर जिला-बीकानेर
(राजस्थान) 334401
- 18 सादूलपुर (राजस्थान)
साध्वी श्री सुखदेवाजी आदि श्रमणी (5)
सम्पर्क सूत्र - श्री जैन श्वेताम्बर तेरापथी सभा,
मु पो सादूलपुर जिला-चूरु
(राजस्थान) 331023
- 19 नोहर (राजस्थान)
साध्वी श्री जतन कुमारीजी आदि श्रमणी (5)
सम्पर्क सूत्र - श्री जैन श्वेताम्बर तेरापथी सभा,
मु पो नोहर जिला-श्री गगानगर
(राजस्थान) 335523
- 20 आडसर (राजस्थान)
साध्वी हर्षकुमारीजी आदि श्रमणी (4)

- सम्पर्क सूत्र - श्री जैन श्वेताम्बर तेरापंथी महिला मण्डल,
मु.पो. आड़सर जिला-चूरु (राजस्थान)
21. पड़िहारा (राजस्थान)
साध्वी श्री केशरजी आदि श्रमणी (6)
सम्पर्क सूत्र - श्री जैन श्वेताम्बर तेरापंथी सभा,
मु.पो. पड़िहारा जिला-चूरु
(राजस्थान) 331505
22. हनुमान गढ़ (राजस्थान)
साध्वी श्री चांदकुमारीजी आदि श्रमणी (5)
सम्पर्क सूत्र - डा. पारसमलजी जैन
मु.पो. हनुमानगढ़ टाउन जिला-श्री गंगा नगर
(राजस्थान) 335513
23. श्री गंगानगर (राजस्थान)
साध्वी श्री कंचन कुमारीजी आदि श्रमणी (5)
सम्पर्क सूत्र - श्री जैन श्वेताम्बर तेरापंथी सभा,
मु.पो. श्री गंगानगर (राजस्थान) 335001
24. तारानगर (राजस्थान)
साध्वी श्री मोहन कुमारीजी आदि श्रमणी (5)
सम्पर्क सूत्र - श्री जैन श्वेताम्बर तेरापंथी सभा,
मु.पो. तारानगर जिला-चूरु (राजस्थान)
331304
25. भादरा (राजस्थान)
साध्वी श्री भागवतीजी आदि श्रमणी (4)
सम्पर्क सूत्र - श्री जैन श्वेताम्बर तेरापंथी सभा,
मु.पो. भादरा जिला-श्री गंगानगर
(राजस्थान) 331304
26. रायसिंह नगर (राजस्थान)
साध्वी श्री जसवंतीजी आदि श्रमणी (4)
सम्पर्क सूत्र - (1) श्री मगलचन्दजी थानमलजी सुराणा
पो. बाक्स नं. 7, मु.पो. रायसिंह नगर
जिला-श्री गंगानगर (राजस्थान) 335051
- (2) श्री जैन श्वेताम्बर तेरापंथी सभा, मु.पो. रायसिंहपुर
जिला गंगानगर, (राजस्थान) 335051
27. बीदासर सेवाकेन्द्र (राजस्थान)
'साध्वी श्री सुमनजी आदि श्रमणी (25)
सम्पर्क सूत्र - श्री जैन श्वेताम्बर तेरापंथी सभा,
सेवा केन्द्र, मु.पो. बीदासर जिला-चूरु
(राजस्थान) 331501
28. नोखामंडी (राजस्थान)
'साध्वी श्री स्वयंप्रभाजी आदि श्रमणी (4)
सम्पर्क सूत्र - श्री जैन श्वेताम्बर तेरापंथी सभा,
मु.पो. नोखा मण्डी जिला-बीकानेर
(राजस्थान) 334803
29. लूणकरणसर (राजस्थान)
साध्वी श्री संयमश्रीजी आदि श्रमणी (5)
सम्पर्क सूत्र - श्री जैन श्वेताम्बर तेरापंथी सभा,
मु.पो. लूणकरणसर जिला-बीकानेर
(राजस्थान) 334603
30. श्री डूंगरगढ़ सेवा केन्द्र (राजस्थान)
साध्वी श्री विद्यावतीजी म.सा. आदि श्रमणी (22).
सम्पर्क सूत्र - श्री जैन श्वेताम्बर तेरापंथी सभा,
सेवा केन्द्र, मु.पो. श्री डूंगरगढ़ जिला-चूरु
(राजस्थान) 331803
31. सरदार शहर (राजस्थान)
साध्वी श्री सरोजकुमारीजी आदि श्रमणी (4)
सम्पर्क सूत्र - श्री जैन श्वेताम्बर तेरापंथी सभा,
मु.पो. सरदारशहर जिला - चूरु
(राजस्थान) 331403

(ख) जोधपुर संभाग

चातुर्मास स्थल (21) श्रमण (20) श्रमणी (95)
कुल ठाणा (115)

1. बोरावड़ (राजस्थान)
मुनि श्री जसकरणजी
मुनि श्री मिलापचन्दजी- आदि श्रमण (6)

- सम्पर्क सूत्र - श्री जैन श्वेताम्बर तेरापथी सभा
मु पो बोरावड जिला-नागौर
(राजस्थान) 341502
- 2 जोधपुर (राजस्थान)
मुनि सुनेरमलजी "सुमन" आदि श्रमण (3)
सम्पर्क सूत्र - श्री जैन श्वेताम्बर तेरापथी भवन,
जाटावास, जोधपुर (राजस्थान) 342001
- 3 जोजावर (राजस्थान)
मुनिश्री रिद्ध करणजी आदि श्रमण (3)
सम्पर्क सूत्र - श्री जैन श्वेताम्बर तेरापथी सभा,
मु पो जोजावर जिला-पाली,
(राजस्थान) 306022
- 4 वाडमेर (राजस्थान)
मुनिश्री मोहनलालजी "आमेट" आदि श्रमण (3)
सम्पर्क सूत्र - श्री जैन श्वेताम्बर तेरापथी सभा,
मु पो वाडमेर (राजस्थान) 344001
- 5 लाडनू (राजस्थान)
मुनिश्री हसरराजजी आदि श्रमण(5)
सम्पर्क सूत्र - श्री जैन विश्व भारती
मु पो लाडनू जिला-नागौर, (राजस्थान)
341306 = 25 एव 27
- 6 डीडवाना (राजस्थान)
साध्वी श्री रायकुमारीजी आदि श्रमणी (5)
सम्पर्क सूत्र - श्री जैन श्वेताम्बर तेरापथी सभा,
मु पो डीडवाना जिला-नागौर
(राजस्थान) 341303
- 7 पीपाडसिटी (राजस्थान)
साध्वी श्री चादकुमारीजी म सा आदि श्रमणी (4)
सम्पर्क सूत्र - श्री जैन श्वेताम्बर तेरापथी सभा,
मु पो पीपाड सिटी जिला-जोधपुर
(राजस्थान) 342601
- 8 खिवाडा (राजस्थान)
साध्वी श्री सिरेकुमारीजी आदि श्रमणी (6)
सम्पर्क सूत्र - श्री जैन श्वेताम्बर तेरापथी सभा,
मु पो खिवाडा जिला-जोधपुर (राजस्थान)
- 9 पचपदरा (राजस्थान)
साध्वी श्री पानकुमारीजी आदि श्रमणी (5)
सम्पर्क सूत्र - श्री जैन श्वेताम्बर तेरापथी सभा,
मु पो पचपदरा जिला-वाडमेर
(राजस्थान) 344032
- 10 ईडवा (राजस्थान)
साध्वी श्री पत्राजी आदि श्रमणी (5)
सम्पर्क सूत्र - श्री जयचन्दलाल प्रकाशचन्द जी कोठारी
मु पो ईडवा वाया डेगाना जिला-नागौर
(राजस्थान) 341503
- 11 पारलाक (राजस्थान)
साध्वी श्री राजकुमारीजी आदि श्रमणी (4)
सम्पर्क सूत्र - श्री मिश्रीमलजी बाफना मु पो पारलाक
जिला-वाडमेर, (राजस्थान) 344027
- 12 समदडी (राजस्थान)
साध्वी श्री रुपाजी आदि श्रमणी (4)
सम्पर्क सूत्र - श्री जैन श्वेताम्बर तेरापथी सभा,
जूनावास समदडी जिला-वाडमेर
(राजस्थान) 344021
- 13 सोजतरोड (राजस्थान)
साध्वी श्री मानकुमारीजी आदि श्रमणी (4)
सम्पर्क सूत्र - श्री जैन श्वेताम्बर तेरापथी सभा,
मु पो सोजत रोड जिला-पाली
(राजस्थान) 306103
- 14 जोधपुर सरदारपुरा (राजस्थान)
साध्वी श्री विनयश्री जी (प्रथम) आदि श्रमण (6)
सम्पर्क सूत्र - श्री जैन श्वेताम्बर तेरापथी सभा,
तातेड भवन, छठीपाल रोड, सरदारपुरा,
जोधपुर (राजस्थान) 342003

15. राणी (राजस्थान)

साध्वीश्री अजित प्रभाजी आदि श्रमण (4)
सम्पर्क सूत्र - श्री जैन श्वेतांबर तेरापंथी सभा,
मु.पो. राणी, स्टेशन फालना,
जिला - पाली (राजस्थान) 306115

16. बालोतरा (राजस्थान)

साध्वी श्री फूलकुमारी जी आदि श्रमण (5)
सम्पर्क सूत्र - श्री जैन श्वेतांबर तेरापंथी सभा,
सदर बाजार बालोतरा
जिला - वाड़मेर (राजस्थान) 344022

17. लाडनू सेवा केन्द्र (राजस्थान)

साध्वी श्री लक्ष्मी कुमारीजी (सेवा केन्द्र)
आदि श्रमणी (21)
साध्वी श्री विमलप्रज्ञाजी (शिक्षा केन्द्र)
आदि श्रमणी (5)
सम्पर्क सूत्र - श्री जैन विश्वभारती मु.पो. लाडनू
जिला - नागौर, (राजस्थान) 341306

18. पाली (राजस्थान)

साध्वी श्री मानकुमारी जी आदि श्रमणी (4)
सम्पर्क सूत्र - श्री जैन श्वेतांबर तेरापंथी सभा
मु पो पाली मारवाड़ (राजस्थान) 306401

19. अषाढ़ा (राजस्थान)

साध्वीश्री यशोमतीजी आदि श्रमणी (4)
सम्पर्क सूत्र - श्री जैन श्वेतांबर तेरापंथी सभा,
मु.पो. अषाढ़ा जिला - वाड़मेर
(राजस्थान) 344028

20. जसोल (राजस्थान)

साध्वी श्री अशोक श्री जी आदि श्रमणी (4)
सम्पर्क सूत्र - श्री जैन श्वेतांबर तेरापंथी सभा,
मु. पो. जसोल वाया नाकोडाजी,
जिला - वाड़मेर (राजस्थान) 344024

21. छोटी खाटू (राजस्थान)

साध्वीश्री जयप्रभाजी आदि श्रमणी (5)
सम्पर्क सूत्र - श्री जैन श्वेतांबर तेरापंथी सभा,
मु. पो. छोटी खाटू, जिला - नागौर
(राजस्थान) 341302

(ग) उदयपुर संभाग

चातुर्मास स्थल (24) श्रमण (29) श्रमणी (62)

कुल ठाणा (91)

1. गडबोर (चार भुजा) (राजस्थान)

मुनिश्री सोहनलालजी आदि श्रमण (3)
सम्पर्क सूत्र - श्री जैन श्वेतांबर तेरापंथी सभा,
मु.पो. गडबोर जिला - राजसमन्द (राजस्थान)

2. लाछूड़ा (राजस्थान)

मुनिश्री हनुमान मलजी आदि श्रमण (3)
सम्पर्क सूत्र - श्री जैन श्वेतांबर तेरापंथी सभा,
मु.पो. लाछूड़ा जिला - भीलवाडा (राजस्थान)

3. लोहारिया (राजस्थान)

मुनिश्री बालचन्दजी आदि श्रमण (3)
सम्पर्क सूत्र - श्री जैन श्वेतांबर तेरापंथी सभा,
मु.पो. लोहारिया जिला - भीलवाडा
(राजस्थान) 327605

4. कांकरोली (राजस्थान)

मुनिश्री जयचन्दलालजी आदि श्रमण (3)
सम्पर्क सूत्र - श्री जैन श्वेतांबर तेरापंथी सभा,
मु.पो. कांकरोली जिला - राजसमन्द
(राजस्थान) 313324

5. केलवा (राजस्थान)

मुनिश्री शुभकरणीजी आदि श्रमण (3)
सम्पर्क सूत्र - श्री जैन श्वेतांबर तेरापंथी सभा,
मु.पो. केलवा जिला - राजसमन्द
(राजस्थान) 313334

- 6 भीलवाड़ा (राजस्थान)
मुनिश्री वल्लाराजजी आदि श्रमण (3)
सम्पर्क सूत्र - श्री जैन श्वेतांबर तैरापंथी सभा
भूषातगंज, भीलवाड़ा (राजस्थान) 311001
- 7 लावा - सरदारगढ (राजस्थान)
मुनिश्री जतनमलजी आदि श्रमण (3)
सम्पर्क सूत्र - श्री जैन श्वेतांबर तैरापंथी सभा,
मु पो लावा सरदारगढ जिला - राजसमंद
(राजस्थान) 313330
- 8 चित्तामा (राजस्थान)
मुनिश्री देवीलानजी आदि श्रमण (3)
सम्पर्क सूत्र - श्री जैन श्वेतांबर
मु पो चित्तामा जिला - भीलवाड़ा (राजस्थान)
- 9 भीम (राजस्थान)
मुनिश्री मिश्रीलातजी आदि श्रमण (2)
सम्पर्क सूत्र - श्री जैन श्वेतांबर तैरापंथी सभा,
मु पो भीम जिला - उदयपुर
(राजस्थान) 313921
- 10 गोगुन्दा (राजस्थान)
मुनिश्री मोहनलालजी 'शार्दूल' आदि श्रमणी (3)
सम्पर्क सूत्र - श्री जैन श्वेतांबर तैरापंथी सभा
मु पो गोगुन्दा जिला - उदयपुर
(राजस्थान) 313705
- 11 राजसमंद (राजस्थान)
साध्वी श्री रायकुमारीजी आदि श्रमणी (5)
सम्पर्क सूत्र - श्री जैन श्वेतांबर तैरापंथी सभा
मु पो राजनगर, राजसमंद
(राजस्थान) 3133206
- 12 दवेर (राजस्थान)
साध्वी श्री संतोकाजी आदि श्रमणी (5)
सम्पर्क सूत्र - श्री जैन श्वेतांबर तैरापंथी सभा,
मु पो दवेर जिला - उदयपुर
(राजस्थान) 313331
- 13 बघर (राजस्थान)
साध्वी श्री जानकुमारी जी "प्रथम" आदि श्रमणी (4)
सम्पर्क सूत्र - श्री जैन श्वेतांबर तैरापंथी सभा,
मु पो बगर जिला - उदयपुर (राजस्थान)
- 14 नाथद्वारा (राजस्थान)
साध्वी श्री मोहनकुमारीजी आदि श्रमणी (4)
सम्पर्क सूत्र - श्री जैन श्वेतांबर तैरापंथी सभा
मु पो नाथद्वारा जिला - उदयपुर
(राजस्थान) 313301
- 15 उदयपुर (राजस्थान)
साध्वी श्री पानकुमारीजी "प्रथम" आदि श्रमणी (5)
सम्पर्क सूत्र - श्री जैन श्वेतांबर तैरापंथी सभा
भामाशाह मार्ग, मु पो उदयपुर
(राजस्थान) 313001
- 16 गंगापुर (मवाड) (राजस्थान)
साध्वी श्री भीटाजी आदि श्रमणी (4)
सम्पर्क सूत्र - श्री जैन श्वेतांबर तैरापंथी सभा
मु पो गंगापुर (मवाड) जिला - भीलवाड़ा
(राजस्थान) 311801
- 17 आसीद (राजस्थान)
साध्वी श्री कानकुमारीजी आदि श्रमणी (5)
सम्पर्क सूत्र - श्री जैन श्वेतांबर तैरापंथी सभा,
मु पो आसीद जिला - भीलवाड़ा
(राजस्थान) 311301
- 18 बोरज (राजस्थान)
साध्वी श्री पानकुमारीजी "द्वितीय" आदि श्रमणी (5)
सम्पर्क सूत्र - श्री जसराजजी परमार
मु पो बोरज जिला - उदयपुर
(राजस्थान) 312607
- 19 आसाटोली (राजस्थान)
साध्वी श्री रामकुमारीजी आदि श्रमणी (4)

- सम्पर्क सूत्र - श्री जैन श्वेतांबर तेरापंथी सभा
मु.पो. आशाहोली
जिला - भीलवाड़ा (राजस्थान)
20. देवगढ़ मदारिया (राजस्थान)
साध्वी श्री गुणवंतीजी आदि श्रमणी (4)
सम्पर्क सूत्र - श्री जैन श्वेतांबर तेरापंथी सभा,
मु.पो. देवगढ़ (मदारिया)
जिला - राजसमंद (राजस्थान) 313331
21. आमेट (राजस्थान)
साध्वी श्री कमलश्रीजी आदि श्रमणी (5)
सम्पर्क सूत्र - श्री जैन श्वेतांबर तेरापंथी सभा,
मु.पो. आमेट, स्टेशन चार भुजा रोड,
जिला - राजसमन्द (राजस्थान) 313332
22. सायरा (राजस्थान)
साध्वीश्री धन्नश्रीजी आदि श्रमणी (4)
सम्पर्क सूत्र - श्री जैन श्वेतांबर तेरापंथी सभा
मु.पो. सायरा जिला - उदयपुर
(राजस्थान) 313704
23. सिसोदा (राजस्थान)
साध्वी श्री विनयश्री जी "द्वितीय" आदि श्रमणी (4)
सम्पर्क सूत्र - श्री चतुर्भुजजी हजारीमलजी धाकड़ (जैन)
मु.पो. सिसोदा वाया नाथद्वारा
जिला - उदयपुर (राजस्थान)
24. पुर (राजस्थान)
साध्वी श्री भाग्यवंतीजी आदि श्रमणी (4)
सम्पर्क सूत्र - श्री जैन श्वेतांबर तेरापंथी सभा
मु.पो. पुर जिला - भीलवाड़ा
(राजस्थान) 311802
1. टमकोर (राजस्थान)
मुनि श्री जंवरीमलजी आदि श्रमण (3)
सम्पर्क सूत्र - श्री जैन श्वेतांबर तेरापंथी सभा
मु.पो. टमकोर जिला - झुन्झुनु
(राजस्थान) 331026
2. जयपुर सी स्कीम (राजस्थान)
मुनिश्री राकेश कुमारजी आदि श्रमणी (3)
सम्पर्क सूत्र - श्री मन्नालालजी सुराणा,
ग्रीन हाऊस, सी-स्कीम, जयपुर
(राजस्थान) 302001 72850
3. फतेहपुर (राजस्थान)
साध्वी श्री कमलूजी आदि श्रमणी (5)
सम्पर्क सूत्र - श्री जैन श्वेतांबर तेरापंथी सभा,
मु.पो. फतेहपुर जिला - सीकर
(राजस्थान) 332 103
4. सवाई माधोपुर - आदर्श नगर (राजस्थान)
साध्वीश्री हुलासांजी आदि श्रमणी (4)
सम्पर्क सूत्र - श्री जैन श्वेतांबर तेरापंथी सभा,
महावीर भवन, मु.पो. आदर्श नगर, 'ए' साहू
नगर, सवाई माधोपुर (राजस्थान) 322022
5. जयपुर (राजस्थान)
साध्वीश्री मधुस्मिताजी आदि श्रमणी (5)
सम्पर्क सूत्र - श्री जैन श्वे. तेरापंथी सभा,
मिलाप भवन, के.जी.बी. का रास्ता, जौहरी
बाजार, जयपुर (राजस्थान) 302003

(ड) अजमेर संभाग

चातुर्मास स्थल (2) श्रमण (2) श्रमणी (5)

कुल ठाणा (7)

1. ब्यावर (राजस्थान)
मुनिश्री नवरत्नमलजी आदि श्रमण (2)

चातुर्मास स्थल (5) श्रमण (6) श्रमणी (14)

कुल ठाणा (20)

(घ) जयपुर संभाग

सम्पर्क सूत्र - श्री जैन श्वेतावर तेरापथी सभा,
मु पो ब्यावर जिला - अजमेर
(राजस्थान) 305901

2 अजमेर (राजस्थान)

साध्वी श्री कचनकुमारीजी आदि श्रमणी (5)
सम्पर्क सूत्र - श्री मागीलालजी जैन, महावीर कालोनी,
पुष्कर रोड, अजमेर (राजस्थान) 305001
☎ 22860

(च) कोटा सभाग

चातुर्मास स्थल (1) श्रमण (-) श्रमणी (4)

कुल ठाणा (4)

1 कोटा (राजस्थान)

साध्वी श्री रायकुमारीजी आदि श्रमणी (4)
सम्पर्क सूत्र - श्री शिवलालजी धन्नालालजी बोधरा,
नया कटला, रामपुरा बाजार, कोटा
(राजस्थान) 324001

2 मध्य प्रदेश प्रान्त

चातुर्मास स्थल (4) श्रमण (-) श्रमणी (18)

कुल ठाणा (18)

1 इन्दौर (मध्यप्रदेश)

साध्वी श्री किस्तूराजी आदि श्रमणी (5)
सम्पर्क सूत्र - श्री जैन श्वेतावर तेरापथी सभा भवन,
19/1 चौधमल कालोनी, जगमपुरा, इन्दौर
(मध्यप्रदेश) 452002

2 रतलाम (मध्यप्रदेश)

साध्वी श्री धनकुमारीजी आदि श्रमणी (5)
सम्पर्क सूत्र - श्री जैन श्वेतावर तेरापथी सभा
4 सेठजी का बाजार, रतलाम
(मध्यप्रदेश) 457001

3 पेटलावद (मध्यप्रदेश)

साध्वी श्री रतनश्रीजी आदि श्रमणी (4)

सम्पर्क सूत्र - श्री जैन श्वेतावर तेरापथी सभा,
मु पो पेटलावद जिला - झाबुआ
(मध्यप्रदेश) 457773

4 झकनावद (मध्यप्रदेश)

साध्वी श्री सुबोध कुमारीजी आदि श्रमणी (4)
सम्पर्क सूत्र - श्री चांदमलजी मूलचन्दजी भाग
मु पो झकनावदा वाया वामनिया
जिला - झाबुआ (मध्यप्रदेश) 457779

3. महाराष्ट्र प्रान्त

चातुर्मास स्थल (5) श्रमण (-) श्रमणी (24)

कुल ठाणा (24)

1 बम्बई - मलाह (महाराष्ट्र)

साध्वी श्री सूरजकुमारीजी आदि श्रमणी (5)
सम्पर्क सूत्र - मैसर्स रत्न शैला ज्वैलर्स,
वालूभाई निवास, दफ्तरी रोड, मलाह (पूर्व)
बम्बई - 400097 ☎ 8885980

2 बम्बई - मरीन ड्राईव (महाराष्ट्र)

साध्वी श्री सोहनकुमारीजी आदि श्रमणी (5)
सम्पर्क सूत्र - श्री जैन श्वेतावर तेरापथी सभा,
अणुवत सभागार, राजहस विल्डिंग, ग्राउण्ड फ्लोर
अणुवत मार्ग, मरीन ड्राईव,
बम्बई - 400 002 (महाराष्ट्र)

3 जालना (महाराष्ट्र)

साध्वी श्री सध मित्राजी आदि श्रमणी (4)
सम्पर्क सूत्र - श्री मोहनलालजी विरदीचन्दजी सेठिया
नेहरू रोड, जालना (महाराष्ट्र) 431203

4 शाहदा (महाराष्ट्र)

साध्वी श्री नमीनाजी म सा आदि श्रमणी (5)
सम्पर्क सूत्र - श्री जमनालालजी रघुनाथमलजी गेलडा
मु पो शाहदा (महाराष्ट्र) 425409

5. अमलनेर (बीड) (महाराष्ट्र)

साध्वी श्री कमलप्रभाजी आदि श्रमणी (5)
सम्पर्क सूत्र - श्री जैन श्वेतांबर तेरापंथी सभा,
मु.पो. अमलनेर जिला बीड
(महाराष्ट्र) 413207

4. गुजरात प्रान्त

चातुर्मास स्थल (4) श्रमण (3) श्रमणी (16)
कुल ठाणा (19)

1. अहमदाबाद शाहीबाग (गुजरात)

मुनि श्री रविन्द्रकुमारजी आदि श्रमण (3)
सम्पर्क सूत्र - श्री जैन श्वेताम्बर तेरापंथी सभा,
तेरापंथ भवन, शाहीबाग पुलिस चौकी के पास,
शाहीबाग, अहमदाबाद (गुजरात) 380004

2. सूरत (गुजरात)

साध्वी श्री चांदकुमारीजी आदि श्रमणी (5)
सम्पर्क सूत्र - श्री रुपचन्दजी सेठिया
C/o मैसर्स भारत रिबिन्स 8-1526 मेन रोड,
गोपीपुरा सूरत (गुजरात) 395001

3. अहमदाबाद शाहीबाग (गुजरात)

साध्वी श्री रामकुमारीजी आदि श्रमणी (6)
सम्पर्क सूत्र - श्री जैन श्वेताम्बर तेरापंथी सभा,
तेरापंथी भवन, शाहीबाग पुलिस चौकी के
पास शाहीबाग, अहमदाबाद 380004 (गुजरात)

4. भुज - कच्छ (गुजरात)

साध्वी श्री कंचन प्रभा जी आदि श्रमणी (5)
सम्पर्क सूत्र - श्री माधवजी जयमलजी महेता,
भीड़ बाजार, भुज-कच्छ (गुजरात) 370001

5. तमिलनाडु प्रान्त

चातुर्मास स्थल (3) श्रमण (6) श्रमणी (6)
कुल ठाणा (12)

1. मद्रास साहूकार पेठ (तमिलनाडु)

मुनि श्री राजकरणजी आदि श्रमण (3)

सम्पर्क सूत्र -

Shri Jain Swetamber Terapanthi Sabha
Terapanth Bhawan
34, Murugan Street, Sowcarpet,
MADRAS - 600079 (Tamil Nadu)

2. गुडियात्तम (तमिलनाडु)

मुनि श्री धर्मचन्दजी 'पीयूष' आदि श्रमणी (3)
सम्पर्क सूत्र -
Shri Jain Swetamber Terapanthi Sabha
Terapanth Sabha Bhawan
No 5, THAMIYATHAM BAZAR
P O. GUDIYATTAM - 632602
(Tamil Nadu)

3. मदुराई (तमिलनाडु)

साध्वी श्री राजीमतिजी आदि श्रमणी (6)
सम्पर्क सूत्र -
Shri Jain Swetamber Terapanthi Sabha
9, Golechha Shopping Complex
80 Feet Road, Anna Nagar
MADURAI - 625020 (Tamil Nadu)

6. आन्ध्र प्रदेश प्रान्त

चातुर्मास स्थल (1) श्रमण (-) श्रमणी (5) कुल ठाणा (5)

1. हैदराबाद (आन्ध्रप्रदेश)

साध्वी श्री फूलकुमारीजी आदि श्रमणी (5)
सम्पर्क सूत्र -
Smt Kanta Baird
C/o Shri Kanhayalal Ji Baird
30, Sindhi Colony,
SECUNDERABAD - 500 003 (A P)

7. कर्नाटक प्रान्त

चातुर्मास स्थल (2) श्रमण (-) श्रमणी (10)

कुल ठाणा (10)

1. गंगावती (कर्नाटक)

साध्वी श्री जतनकुमारीजी "कनिष्ठा" आदि श्रमण (5)

सम्पर्क सूत्र -

M/s Shanti & Co P O Gangawati
Dist Raichur (KARNATAKA) 583227

2 बेंगलूर - यशवतपुरा (कर्नाटक)

साध्वी श्री यशोधराजी आदि श्रमणी (5)

सम्पर्क सूत्र -

Shri Jain Swetamber Terapanthi Sabha
Terapanthi Sabha Yasw utnpura
BANGALORE (Karnataka)

8 बंगाल प्रान्त

चातुर्मास स्थल (2) श्रमण (4) श्रमणी (3)

कुल ठाणा (9)

1 कलकत्ता - हावड़ा (प बंगाल)

मुनि श्री सुमेरमलजी आदि श्रमण (4)

सम्पर्क सूत्र -

Shri Jain Swetamber Terapanthi Sabha
No 13 Dr P K Banarjee Road (South)
Howrah (Calcutta) (W B) 711101

2 दीन हट्टा (प बंगाल)

साध्वी श्री जयश्रीजी आदि श्रमण (5)

9 आसाम प्रान्त

चातुर्मास स्थल (1) श्रमण (2) श्रमणी (-) कुल ठाणा (2)

1 तेजपुर (आसाम)

मुनिश्री ताराचन्द्र जी आदि श्रमण (2)

सम्पर्क सूत्र -

Shri Jain Swetamber Terapanthi Sabha
Terapanthi Sabha Bhawan
C R Market N B Road
P O TEJPUR (ASSAM) 784001
☎ 20075

10 बिहार प्रान्त

चातुर्मास स्थल (1) श्रमण (2) श्रमणी (-) कुल ठाणा (2)

1 गुलाब बाग (बिहार)

साध्वीश्री सूरजकुमारी जी आदि श्रमणी (5)

सम्पर्क सूत्र - श्री जैन श्वेतावर तेरापथी सभा,

सुनोली चौक, मुषो गुलाब बाग

जिला - पूर्णिया (बिहार) 854326

11 उत्तर प्रदेश

चातुर्मास स्थल (1) श्रमण (-) श्रमणी (5) कुल ठाणा (5)

1 कानपुर (उत्तर प्रदेश)

साध्वी श्री रतजश्रीजी आदि श्रमणी (5)

सम्पर्क सूत्र - श्री जैन श्वेतावर तेरापथी सभा,
कानपुर (उत्तर प्रदेश)

12 हरियाणा प्रान्त

चातुर्मास स्थल (10) श्रमण (6) श्रमणी (38)

कुल ठाणा (44)

1 हिसार (हरियाणा)

मुनिश्री दुद्धमलजी 'निकाय प्रमुख' आदि श्रमण (4)

सम्पर्क सूत्र - श्री जैन श्वेतावर तेरापथी सभा,

तेरापथ भवन, कटरा रामलीला, हिसार

(हरियाणा) 125001

2 रोहतक (हरियाणा)

मुनिश्री विनयकुमारजी 'आलोक' आदि श्रमण (2)

सम्पर्क सूत्र - श्री जैन श्वेतावर सभा,

प्रेक्षासाधना केन्द्र, कटरा भवन, शक्तिनगर,

ग्रीन रोड, रोहतक (हरियाणा) 124001

3 जींद (हरियाणा)

साध्वीश्री पान कुमारीजी आदि श्रमणी (5)

सम्पर्क सूत्र - श्री जैन श्वेतांबर तेरापंथी सभा,
C/o श्री पीरचन्द जैन
हेप्पी नर्सरी स्कूल के पास, जींद
(हरियाणा) 126102

4. हांसी (हरियाणा)

साध्वी श्री रतनकुमारीजी आदि श्रमणी (5)
सम्पर्क सूत्र - श्री ननियामल दिनेशकुमार जैन,
सर्राफा बाजार, मु.पो. हांसी
(हरियाणा) 125033

5. टोहाना (हरियाणा)

साध्वी श्री तीजांजी आदि श्रमणी (5)
सम्पर्क सूत्र - श्री जैन श्वेतांबर तेरापंथी सभा,
रेल्वे रोड, मु.पो. टोहाना जिला -हिसार
(हरियाणा) 126119

6. उकलाना मंडी (हरियाणा)

साध्वी श्री क्षमा श्री जी आदि श्रमणी (4)
सम्पर्क सूत्र - श्री जैन श्वेतांबर तेरापंथी सभा,
वजीर देवी कालोनी, मु. पो. उकलाना मंडी,
जिला - हिसार (हरियाणा) 126009

7. नरवाना (हरियाणा)

साध्वी श्री मेणरयाजी आदि श्रमणी (4)
सम्पर्क सूत्र - श्री जैन श्वेतांबर तेरापंथी सभा,
पतराम नगर, नरवाना
जिला - जिन्द (हरियाणा) 126116

8. उचाना मंडी (हरियाणा)

साध्वी श्री गुलाबकुंवरजी आदि श्रमणी (5)
सम्पर्क सूत्र - श्री जैन श्वेतांबर तेरापंथी सभा,
मु.पो. उचाना मंडी,
जिला - जीन्द (हरियाणा) 126115

9. सिरसा (हरियाणा)

साध्वीश्री चारित्र श्री जी
आदि श्रमणी (5)

सम्पर्क सूत्र - श्री जैन श्वेतांबर तेरापंथी सभा
भादरा बाजार, मु.पो. सिरसा
(हरियाणा) 125055

10. भिवानी (हरियाणा)

साध्वी श्री सोमलताजी आदि श्रमणी (5)
सम्पर्क सूत्र - श्री जैन श्वेतांबर तेरापंथी सभा,
तेरापंथ भवन, लोहड़ बाजार भिवानी
जिला - हिसार (हरियाणा) 125021

13. पंजाब प्रान्त

चातुर्मास स्थल (7) श्रमण (2) श्रमणी (28)

कुल ठाणा (30)

1. नाभा (पंजाब)

मुनिश्री रोशनलालजी आदि श्रमण (2)
सम्पर्क सूत्र - श्री जैन श्वेतांबर तेरापंथी सभा,
मु.पो. नाभा (पंजाब) 147201

2. रामामन्डी (पंजाब)

साध्वी श्री सोनाजी आदि श्रमणी (5)
सम्पर्क सूत्र - श्री भगवानदासजी गिरधारी लालजी जैन
मु.पो. रामा मण्डी जिला भटिण्डा
(पंजाब) 151301

3. लुधियाना (पंजाब)

साध्वी श्री सोहनाजी आदि श्रमणी (5)
सम्पर्क सूत्र - श्री जैन श्वेतांबर तेरापंथी सभा,
300, चौड़ी लड़क, लुधियाना
(पंजाब) 141001

4. धूरी (पंजाब)

साध्वीश्री भीखोजी आदि श्रमणी (5)
सम्पर्क सूत्र - श्री जैन श्वेतांबर तेरापंथी सभा,
मालगोदाम रोड, मु.पो. धूरी
(पंजाब) 148024

पूज्य साधु-साध्वीओने कोटी कोटी वन्दन

With Best Compliments

Tel 359521 / 3853497

NANDU DRAPERS

**Specialist for. Readymade Garments
& Fancy Hosiery**

* * *

268/70, V P Road,
Prathana Samaj,
Bombay 400 004 (India)

पूज्य साधु-साध्वीओने कोटी कोटी वन्दन

With Best Compliments

Tel No 834 0630

VISHAL GARMENTS

Specialist in Shirts & Babla's

Sai Sadan, C Bldg , Block No 3, Andheri Kurla Road,
Opp Vishal Road, Sir M V Road, Andheri (East)
Bombay 400 069 (India)

- शुभेच्छक -

N V. GALA & S. V. GALA
BHACHAU - BOMBAY

पूज्य साधु-साध्वीओने कोटी कोटी वन्दन

With Best Compliments

Tel. No. Shop. 385 0322 / Resi.: 386 0826

KESHAVJI HEMRAJ & CO.

**Specialized in: High Quality Food Grains,
Kirana & Dry Fruits**

Jaikar Building, Shadashiv Lane,
Opp. Shikka Nagar, Bombay 400 004

- शुभेच्छक -

लखमशी केशवजी ❁ किरण केशवजी

पूज्य साधु-साध्वीओने कोटी कोटी वन्दन

With Best Compliments

Tel No 388 7098/388 9993

Mehta Thakar & Co

Readymade Garments & Fancy Hosiery Merchants

Shop No.1.2.3, 273 Prathana Samaj
Bombay - 400 004

- शुभेच्छक -

प्रेमजीभाई ❁ मोतीभाई
(सामखियारी) बम्बई

पूज्य साधु-साध्वीओने कोटी कोटी वन्दन

Tel 344 1756 / 344 7223 / 342 8157

Khirani General Stores

Dealers for

All Kind of Electrical Goods

Tourches, Playing Cards, Presentation Articals etc

3/5 Gaya Building, Yusuf Meherali Road,
Veer Vithal Chandan Street,
Masjid Bunder, Bombay - 400 003

शुभेच्छक

* खिराणी विजपार राघवजी

* साकडियावाला, मुंबई

पूज्य साधु-साध्वीओने कोटी कोटी वन्दन

Tel No 344 4059 / Res: 830 0560

Rajdeep Traders


Dealers for: Eagle & Milton Flask, All types
of Iron, Fans, Wall Clocks, Bharat Acrylic
Presentation Articles, Leo & Other toys

123, Gaya Building, Ground Floor, Yusuf Meherali Road,
Masjid Bunder, Bombay 400 003

शुभेच्छक

मेघजी मालण गडा

सघपति श्री छ कोटी लिम्बडी स्था जैन सघ
(सामखियारी - कच्छ)



भाग-चतुर्थ

तपासच्छ समुदाय
अचलगच्छ समुदाय
खरतरगच्छ समुदाय
त्रिस्तुतिकगच्छ समुदाय
पार्श्वचन्द्रगच्छ समुदाय
दिसलगच्छ समुदाय
अन्य समुदाय

MANDVI BANK

OFFERS

- On-line computerised services
- Merchant Banking services
- Value-for-money deposit schemes
- One percent more interest on Savings Account


Timely Smiling Courteous
S E R V I C E S



MANDVI

Co operative Bank Ltd

Regd & Admn Office Nariman Point Tel 287 3724 287 3725 Loans & Advances Cell P O Mello Road Tel 375 9016 375 3630 Branches Masjid, Tel 372 1556 375 2027 Andheri (E), Tel 578 5844 578 5333 Kandivli (W), Tel 601 6182 601 1248 Mulund (W), Tel 560 5094 560 5570



तपागच्छ समुदाय

सिद्धान्त महोदधि, कर्म साहित्य निष्णात, आचार्य प्रवर श्रीमद् विजय प्रेमसूरीश्वरजी म.सा. का समुदाय

भाग प्रथम

शासन प्रभावक व्याख्यान वाचस्पति शासन शिरताज, सकल संघ हित चिंतक, संघ स्थविर स्व. आचार्य प्रवर श्रीमद् विजय रामचन्द्र सूरीश्वरजी म.सा. के समुदायवर्ती साधु साध्वीयोंजी वर्तमान में संघके प्रमुख गच्छाधिपति:- सुविशाल गच्छाधिपति आचार्य श्री विजय महोदय सूरीश्वरजी म.सा.

कुल चातुर्मास (164) मुनिराज (253) साध्वीयोंजी (637) कुल ठाणा (890)

साधु - मुनिराज समुदाय

सुभाष चौक, गोपीपुरा,
सुरत - 395001 (गुजरात)

1. अहमदाबाद - कालुपुर रोड (गुजरात)

- 1 सुदीर्घ संयमी आचार्य
श्री विजय सुदर्शन सूरीश्वरजी म.सा.
- 2 मुनिराज श्री जय दर्शन विजयजी म.सा.

आदि ठाणा (13)

सम्पर्क सूत्र - आचार्य श्री दान सूरीजी जैन
ज्ञान मन्दिर पोषध शाला, कालपुर रोड,
अहमदाबाद - 380001(गुज)

2. सूरत-गोपीपुरा (गुजरात)

- 1 आचार्य श्री विजय राज तिलक सूरीश्वरजी म.सा
- 2 सुविशाल गच्छाधिपति आचार्य प्रवर
श्री विजय महोदय सूरीश्वरजी म.सा
- 3 आचार्य श्री विजय पूर्णचन्द्र सूरीश्वरजी म.सा.

आदि ठाणा (32)

सम्पर्क सूत्र - श्री तपागच्छ रत्नत्रयी आराधक संघ
श्री विजय रामचन्द्र सूरीजी जैन आराधना भवन,

3. पोरबन्दर (गुजरात)

- 1 आचार्य श्री विजय प्रधोतन सूरीश्वरजी म.सा.
- 2 पन्यास श्री वज्रसेन विजयजी म.सा.

आदि ठाणा (8)

सम्पर्क सूत्र - श्री जैन देरासर पेढी पारेख चकला
मु.पो. पोरबन्दर - (सौराष्ट्र) 360575 (गुज.)

4. बम्बई - भायखला (महाराष्ट्र)

- 1 आचार्य श्री विजय मित्रानन्द सूरीश्वरजी म.सा.
आदि ठाणा (10)
- सम्पर्क सूत्र - शेठ मोतीशा श्री आदिश्वर जैन देरासर,
180, मोतीशा लेन, भायखला,
बम्बई - 400027, (महाराष्ट्र)

5. पालीताणा सौराष्ट्र (गुजरात)

- 1 आचार्य श्री विजय रवि प्रभ सूरीश्वरजी म.सा.
- 2 आचार्य श्री विजय महाबल सूरीश्वरजी म.सा.

- 3 आचार्य श्री विजय पुण्यापाल सूरीश्वरजी म सा
4 पन्यास श्री अजीत विजयजी म सा
आदि ठाणा (12)
सम्पर्क सूत्र - श्री महाराष्ट्र भुवन, जैन धर्मशाला,
तलेटी रोड, मु पो पालीताणा,
(सौराष्ट्र) (गुजरात) 364270
- 6 सुरेन्द्रनगर (गुजरात)
आचार्य श्री विजय नित्यानंद सूरीश्वरजी म सा
आदि ठाणा (5)
सम्पर्क सूत्र - जैन आराधना भुवन, 4 विट्टल प्रेस रोड,
सेनेटेरीयम, मु पो सुरेन्द्रनगर
363001 (सौराष्ट्र) (गुजरात)
- 7 गोकक (कर्नाटक)
आचार्य श्री विजय विचमण सूरीश्वरजी म सा
गणिवर श्री श्रेयास प्रभ विजयजी म सा
आदि ठाणा (7)
सम्पर्क सूत्र - Shri Swetamber Murtipujak
Jain Upasrya Jain Sangh Jain Temple
P O Gokak Distt Belgaon
(Karnataka) 591307
- 8 पूना (महाराष्ट्र)
आचार्य श्री विजय ललित शेखर सूरीश्वरजी म सा
आदि ठाणा (5)
सम्पर्क सूत्र - श्री मनमोहन पार्श्वनाथ जैन टेम्पल,
भवानी पेठ, टीम्बर मार्केट, मु पो पूना
411002 (महाराष्ट्र)
- 9 पूना (केम्प) (महाराष्ट्र)
आचार्य श्री विजय राजशेखर सूरीश्वरजी म सा
आचार्य श्री विजय वीर शेखर सूरीश्वरजी म सा
आदि ठाणा (4)
सम्पर्क सूत्र - श्री वासू पूज्य स्वामीजैन देरासर,
657 साचापीर स्ट्रीट, मु पो पूना केम्प,
411001 (महाराष्ट्र)
- 10 बम्बई - बोरीवली (महाराष्ट्र)
आचार्य श्री विजय प्रभाकर सूरीश्वरजी म सा
आदि ठाणा (3)
सम्पर्क सूत्र - श्री महावीर स्वामी जैन देरासर
वेनपुर अपार्टमेंट्स, म्यू गार्डन पासे,
चदावरकर लेन, बोरीवली (वस्ट)
बम्बई - 400092 (महाराष्ट्र)
- 11 बम्बई - बालकेश्वर (महाराष्ट्र)
आचार्य श्री विजय जय कुंजर सूरीश्वरजी म सा
आचार्य श्री विजय मुक्ति प्रभ सूरीश्वरजी म सा
आदि ठाणा (10)
सम्पर्क सूत्र - श्री श्रीपाननगर जैन देरासर उपाश्रय ट्रस्ट,
श्रीपाल नगर, 12 जमनादास मेहता मार्ग,
बालकेश्वर (मुंबई) 400006 (महाराष्ट्र)
- 12 बम्बई - ग्राट रोड (महाराष्ट्र)
आचार्य श्री विजय चन्द्रोदय सूरीश्वरजी म सा
पन्यास श्री कनक ध्वज विजयजी म सा
आदि ठाणा (3)
सम्पर्क सूत्र - बालाराम भवन जैन उपाश्रय, 1 माला
भारत नगर बालाराम गली, ग्रान्ट रोड,
बम्बई - 400007 (महाराष्ट्र)
- 13 अहमदाबाद - पालडी (गुजरात)
आचार्य श्री विजय अमरगुप्त सूरीश्वरजी म सा
पन्यास श्री चद्र गुप्त विजयजी म सा
आदि ठाणा (7)
सम्पर्क सूत्र - श्री लक्ष्मी वर्धक जैन सघ,
जैन उपाश्रय, जैन मन्दिर, शांतीवन बस स्टेण्ड पासे,
नारायण नगर रोड, पालडी,
अहमदाबाद - (गुजरात) 380007
- 14 सावर कुडला (गुजरात)
उपाध्याय श्री नर चन्द्र विजयजी म सा
आदि ठाणा (6)

- सम्पर्क सूत्र - श्री धर्मदास शांतीदासकी पेढी
जैन धर्मशाला, जैन मन्दिर, मु.पो. सावर,
कुडला - 364215 (सौराष्ट्र) (गुजरात)
15. नवाडीसा (बनासकांठा)
पन्यास श्री महायश विजयजी म.सा.
आदि ठाणा (2)
सम्पर्क सूत्र - श्री चंदन सोसायटी, हाइवे रोड,
मु पो नवाडीसा जिला बनासकाठ 385535 (गुजरात)
16. पालीताणा (गुजरात)
पन्यास श्री कीर्तीसेन विजयजी म सा
आदि ठाणा (2)
सम्पर्क सूत्र - रत्नत्रयी आराधना धाम,
मुक्ती निलय जैन धर्मशाला के सामने,
तलेटी रोड पालीताणा - 364270
(सौराष्ट्र) (गुजरात)
17. बम्बई - सीफेस चौपाटी (महाराष्ट्र)
पन्यास श्री रत्नभूषण विजयजी म. सा
आदि ठाणा (3)
सम्पर्क सूत्र - श्री कल्याण पार्श्वनाथ जैन देरासर
35 सीफेस, चौपाटी बम्बई - 400007
(महाराष्ट्र)
18. वापी (गुजरात)
पन्यास श्री हेम भूषण विजयजी म.सा.
आदि ठाणा (9)
सम्पर्क सूत्र - श्री लब्धि सूरीजी जैन ज्ञान मंदिर
नेहरु स्ट्रीट मु.पो. वापी जिला वलसाड
(गुजरात) 396191
19. जामनगर (गुजरात)
पन्यास श्री गुण शील विजयजी म.सा.
आदि ठाणा (3)
सम्पर्क सूत्र - श्री शान्ति भवन जैन उपाश्रय,
आणन्द बाबानो चकलो, मु.पो जामनगर
(गुजरात) 361001
20. बम्बई - भूलेश्वर (महाराष्ट्र)
गणि श्री नरवाहन विजयजी म.सा.
आदि ठाणा (2)
सम्पर्क सूत्र - शेठ मोतीशा लाल बाग जैन उपाश्रय,
212 एल पांजरा पोल लेन, माधव बाग के पास,
लाल बाग, भूलेश्वर बम्बई - 400004
(महाराष्ट्र)
21. बम्बई - कल्याण (महाराष्ट्र)
श्री पुण्योदय विजयजी म.सा. आदि ठाणा (3)
सम्पर्क सूत्र - जैन आराधना भवन, जैन देरासर के सामने,
बाजार पेठ, महावीर चौक, कल्याण
जिला ठाणा (महाराष्ट्र) 421301.
22. अहमदावाद - पालडी (गुजरात)
श्री पूर्णानन्द विजयजी म.सा. आदि ठाणा (3)
सम्पर्क सूत्र - श्री दान प्रेम रामचन्द्र सूरीजी आराधना भवन,
भाववर्धक जैन सध, रग सागर बस स्टेण्ड के पास,
पी टी कालेज रोड, पालडी,
अहमदावाद 380007 (गुजरात)
23. पाटन (गुजरात)
श्री जयध्वज विजयजी म सा आदि ठाणा (4)
सम्पर्क सूत्र - नगीनभाई पोषधशाला, पचासरजी के सामने,
मु.पो. पाटन (उत्तर गुजरात) 384265
24. जूनागढ (सौराष्ट्र) (गुजरात)
श्री कीर्ति कान्त विजयजी म सा.आदि ठाणा (2)
सम्पर्क सूत्र - शेठ हेमाभाई का वंडा,
ऊपर कोट धर्मशाला
जूनागढ, (सौराष्ट्र) (गुजरात) 362001
25. येवला (महाराष्ट्र)
श्री विनोद विजयजी म.सा आदि ठाणा (1)
सम्पर्क सूत्र - श्री जयन्तीलाल भोगीलाल पटनी,
पोस्ट बोकस नं. 11 मु पो येवला
जिला नासिक (महाराष्ट्र) 423401

- 26 राधनपुर (गुजरात)
श्री चारिपेण विजयजी म सा आदि ठाणा (7)
सम्पर्क सूत्र - सागर गच्छ जैन उपाश्रय,
मु पो राधनपुर, जिला वनासकावा,
(गुजरात) 385340
- 27 सिनोर (गुजरात)
श्री सिध्दाचल विजयजी म सा आदि ठाणा (3)
सम्पर्क सूत्र - श्री श्वे मूर्ति जैन सघ पेटी,
मु पो सिनार जिला बडौदा, (गुजरात) 391115
- 28 नासिक सिटी (महाराष्ट्र)
श्री अक्षय विजयजी म सा आदि ठाणा (2)
सम्पर्क सूत्र - जैन गुठ मंदिर पगडवध तैन,
दहीपुल, मु पो नासिक सिटी 422001
(महाराष्ट्र)
- 29 नवाखल (गुजरात)
श्री भुवन चन्द्र विजयजी म सा आदि ठाणा (1)
सम्पर्क सूत्र - श्वे मूर्ति जैन सघ, जैन उपाश्रय
वाजार मे मु पो नवाखल तालूका वोरसद,
जिला खेडा (गुजरात)
- 30 अहमदाबाद - पालडी (गुजरात)
श्री तपाधन विजयजी म सा आदि ठाणा (3)
सम्पर्क सूत्र - जैन मर्चेन्ट सोसायटी जैन उपाश्रय
सरवेज रोड, फतेहनगर, पालडी,
अहमदाबाद - 380007 (गुजरात)
- 31 तखतगढ (राजस्थान)
श्री कमल रत्न विजयजी म सा आदि ठाणा (4)
सम्पर्क सूत्र - जैन मन्दिर, जैन धर्मशाला
मु पो तखतगढ, रेल्वे स्टेशन फालना
जिला सिरौही (राज) 306912
- 32 सुमेरपुर (राजस्थान)
श्री मल्लिपेण विजयजी म सा आदि ठाणा (4)
- सम्पर्क सूत्र - जैन देरातर जैन धर्मशाला,
मु पो सुमेरपुर, स्टेशन जवाई बाघ,
जिला सिरौही (राजस्थान)
- 33 अहमदाबाद - शाहीवाग (गुजरात)
श्री रत्नशेन विजयजी म सा आदि ठाणा (2)
सम्पर्क सूत्र - गिरधर नगर जैन उपाश्रय,
गिरधरनगर शाहीवाग, अहमदाबाद,
(गुजरात) 380004
- 34 अहमदाबाद - मणीनगर (गुजरात)
श्री जिनयश विजयजी म सा आदि ठाणा (2)
सम्पर्क सूत्र - जैन उपाश्रय रेल्वे कोसिगके पास,
बस स्टैण्ड के पास, स्टेशन रोड,
मणीनगर, अहमदाबाद - 380008 (गुजरात)
- 35 सूरत (गुजरात)
श्री हर्ष वर्धन विजयजी म सा आदि ठाणा (3)
सम्पर्क सूत्र - श्रीमति ललितावेहन तल्लुभाई जवेरी,
पोयथ शाला, छापरीया शेरी, महीधरपुरा
सूरत- 395003 (गुजरात)
- 36 बम्बई - बालकेश्वर (महाराष्ट्र)
श्री नयवर्धन विजयजी म सा आदि ठाणा (1)
सम्पर्क सूत्र - शेठ भेरुलाल कर्नैयालाल क्रेवारी जैन उपाश्रय,
चन्दन वाला अपार्टमेन्ट,
आर आर ठक्कर मार्ग, रीझ रोड, बाळकेश्वर,
बम्बई - 400006 (महाराष्ट्र)
- 37 अहमदाबाद शाहपुर (गुजरात)
श्री चारित्र प्रथ विजयजी म सा
आदि ठाणा (3)
सम्पर्क सूत्र - जैन उपाश्रय, शाहपुर दरवाना का खाया,
शाहपुर अहमदाबाद - 380001 (गुजरात)
- 38 वीसनगर (गुजरात)
श्री मुक्तिधन विजयजी म सा आदि ठाणा (3)

सम्पर्क सूत्र - जैन उपाश्रय, पारेख पोल,
कंसारा बाजार, मु.पो. वीसनगर
जिला - मेहसाना (गुजरात) 384315

39. अहमदावाद - रिलिफरोड (गुजरात)

श्री विश्वसेन विजयजी म सा. आदि ठाणा (3)
सम्पर्क सूत्र - आराधना जैन भवन, पाष्ठीया की पोळ,
रिलिफ रोड, अहमदावाद (गुजरात) 380001

40. राजकोट (गुजरात)

श्री बोधिरत्न विजयजी म सा आदि ठाणा (5)
सम्पर्क सूत्र - नूतन जैन उपाश्रय, वर्धमान नगर,
हुजूर पेलेश रोड, राजकोट - 360001 (गुज.)

41. मालेगांव (महाराष्ट्र)

श्री भुवन रत्न विजयजी म सा. आदि ठाणा (2)
सम्पर्क सूत्र - आर्या चन्दन वाला जैन उपाश्रय,
तिलक रोड, मु.पो. मालेगाव
जिला नासिक (महाराष्ट्र) 423203

42. बोरसद (गुजरात)

श्री नयभद्र विजयजी म.सा. आदि ठाणा (2)
सम्पर्क सूत्र - श्री आदिनाथ स्वामी जैन मन्दिर जैन उपाश्रय,
काशीपुरा, मु.पो. बोरसद जिला खेडा,
(गुजरात) 388540

43. बम्बई - मालाड (महाराष्ट्र)

श्री जिन रक्षित विजयजी म.सा आदि ठाणा (2)
सम्पर्क सूत्र - जैन उपाश्रय रत्नपुरी गौशाला लेन,
दफतरी रोड, मालाड (पूर्व) बम्बई - 400097
(महाराष्ट्र)

44. धंधुका (गुजरात)

श्री चारित्र वर्धनजी म.सा. आदि ठाणा (3)
सम्पर्क सूत्र - श्री हेमचन्द्राचार्य जैन ज्ञान मंदिर
मु.पो. धंधुका जिला अहमदावाद
(गुजरात) 382460

45. खंभात (गुजरात)

श्री दिव्य कीर्ति विजयजी म.सा. आदि ठाणा (2)
सम्पर्क सूत्र - तपागच्छ अमर जैन शाळा टेकरी,
मु.पो. खंभात जिला खेडा (गुजरात) 388620

46. अहमदावाद - साबरमति (गुजरात)

श्री मोक्ष रति विजयजी म.सा. आदि ठाणा (3)
सम्पर्क सूत्र - श्री पुखराज रायचंद आराधना भवन,
सत्यनारायण सोसायटी, राम बाग रोड,
साबरमति अहमदावाद - 380005 (गुजरात)

47. नवसारी (गुजरात)

श्री तत्व रत्न विजयजी म.सा आदि ठाणा (2)
सम्पर्क सूत्र - श्री रमणलाल छगनलाल आराधना भुवन,
जैन बोर्डिंग के पास, के.जी. होस्पिटल के सामने,
साठ कुवा, शाता देवी रोड, नवसारी जिला वलसाड
(गुजरात) 396445

नोट :- निम्न लिखित समुदायो के पूज्य आचार्यों
मुनिराजो ने भी इस वषा आज्ञा प्राप्त की है।

1. आचार्य श्री विजय सिध्दी सूरीश्वरजी म.सा.
(बापजी म.) का समुदाय:-

1. अहमदावाद - कालुपुर रोड (गुजरात)

आचार्य श्री विजय विवुध प्रभ सूरीश्वरजी म.सा.
आदि ठाणा (3)

सम्पर्क सूत्र - शेठ सूवाजी रवचन्द्र जयचद विधा शाला,
दोशीवाडा की पोल कालुपुर रोड,
अहमदावाद - 380001 (गुजरात)

2. सरत (राजस्थान)

श्री मुक्ति विजयजी म.सा. आदि ठाणा (3)
सम्पर्क सूत्र - जैन उपाश्रय मु पो सरत वाया अमलसर
जिला जालोट (राजस्थान)

2. आचार्य श्री विजय अमृत सूरीश्वरजी म.सा.

का-समुदाय:-

- रतलाम (मध्य प्रदेश)
आचार्य श्री विजय जिनेन्द्र सूरीश्वरजी म सा
आदि ठाणा (3)
सम्पर्क सूत्र - श्री दान प्रेम रामचन्द्र सूरी आराधना भवन,
पोरवालो का बास मु पो रतलाम
(मध्य प्रदेश) 457001
- 3 आचार्य श्री विजय शक्तिचन्द्र सूरीश्वरजी म सा
का समुदाय
- 1 सूत्र (गुजरात)
आचार्य श्री विजय सोम सुन्दर सूरीश्वरजी म सा
आदि ठाणा (4)
सम्पर्क सूत्र - 67 जैन उपाश्रय, शांति निकेतन सोसायटी,
सुमुल डेरी रोड, सरदार नगर,
सूत्र - 395008 (गुजरात)
- 2 भाभर (गुजरात)
आचार्य श्री विजय जिनचन्द्र सूरीश्वरजी म सा
आदि ठाणा (7)
सम्पर्क सूत्र - जैन उपाश्रय, जैन मन्दिर,
मु पो भाभर जिला बनासकाठा
(गुजरात) 385320
- ### साध्वीयोंजी समुदाय
- 1 अहमदाबाद - पालडी (गुजरात)
पर्वतिनी साध्वी श्री जया श्री जी म सा
आदि ठाणा (14)
सम्पर्क सूत्र - सुकीता अपार्टमेंट्स,
अकुर स्कुल के बाजू में, फतेपुरा पालडी
अहमदाबाद - 380007 (गुजरात)
- 2 अहमदाबाद - पालडी (गुजरात)
साध्वी श्री कान्ता श्री जी म सा आदि ठाणा (5)
सम्पर्क सूत्र - दशा पोरवाल सोसायटी,
वगला न 10 पालडी बस स्टेण्ड के पास,
पालडी अहमदाबाद - 380007 (गुजरात)
- 3 अहमदाबाद - पालडी (गुजरात)
साध्वी श्री अनुपमा श्री जी म सा आदि ठाणा (3)
सम्पर्क सूत्र - श्री विठोदचन्द्र चन्दुलात शाह,
वगला न 12 गौतम बाग, पालडी
अहमदाबाद (गुजरात) 380007
- 4 अहमदाबाद पालडी (गुजरात)
साध्वी श्री मणिप्रभा श्री जी म सा आदि ठाणा (26)
सम्पर्क सूत्र - लक्ष्मीवर्धक जैन उपाश्रय,
गारायण नगर रोड, पालडी,
अहमदाबाद - 380007 (गुजरात)
- 5 बम्बई - ताडदेव (महाराष्ट्र)
साध्वी श्री पुण्यप्रभा श्री जी म सा आदि ठाणा (5)
सम्पर्क सूत्र - कुमुद मेन्तान, फोरजेट हिल स्ट्रीट
ताडदेव, बम्बई - 400034 (महाराष्ट्र)
- 6 राजकोट (गुजरात)
साध्वी श्री रत्नलता श्री जी म सा आदि ठाणा (3)
सम्पर्क सूत्र - वर्धमान नगर जैन उपाश्रय
हुजुर पेतेश राड, राजकोट
(गुजरात) 360001
- 7 सूत्र (गुजरात)
साध्वी श्री मेरु कीर्ति श्री जी म सा आदि ठाणा (5)
सम्पर्क सूत्र - श्री अमरचन्द्र जरीजाटा के मकाम म,
कायस्थ मोटल्ला गोपीपुरा, सूत्र - 395001
(गुजरात)
- 8 सूत्र (गुजरात)
साध्वी श्री इन्द्रप्रभा श्री जी म सा आदि ठाणा (8)
सम्पर्क सूत्र - श्रीमति प्रभावेहन लल्लुभाई सुघडिया,
आणसूर गच्छ जैन खाडी का उपाश्रय,
गोपीपुरा, सूत्र - 395001 (गुजरात)
- 9 बम्बई (महाराष्ट्र) (महाराष्ट्र)
साध्वी श्री धर्मलता श्री जी म सा आदि ठाणा (5)

- सम्पर्क सूत्र - तिरुपती अपार्टमेंट्स वार्डन रोड,
आदिनाथ ट्रस्ट, 1 माला भूला भाई देसाई रोड,
महालक्ष्मी बम्बई 400026 (महाराष्ट्र)
10. पालीताणा (गुजरात)
साध्वी श्री विमल कीर्ति श्री जी म.सा. आदि ठाणा (5)
सम्पर्क सूत्र - महाराष्ट्र भुवन, जैन धर्म शाला
तलेटी रोड, पालीताणा (गुजरात) 364270
11. नासिक सिटी (महाराष्ट्र)
साध्वी श्री हंस कीर्ति श्री जी म.सा. आदि ठाणा (7)
सम्पर्क सूत्र - सर्वोदय नगर जैन उपाश्रय,
मु पो नासिक सिटी (महाराष्ट्र) 422001
12. वेरावल (गुजरात)
साध्वी श्री पदमलता श्री जी म.सा आदि ठाणा (3)
सम्पर्क सूत्र - श्री वेरावल मूर्ति जैन सघ,
जगावाव रोड़, बहार कोट
वेरावल - 362265 (गुजरात)
13. अहमदाबाद पालड़ी (गुजरात)
साध्वी श्री तरुलता श्री जी म.सा आदि ठाणा (8)
सम्पर्क सूत्र - प्रतिष्ठा अपार्टमेंट्स ब्लोक नं. 19,
4 माला, गुजरात सोसायटी, पालड़ी अहमदाबाद
380007 (गुजरात)
14. जामनगर (गुजरात)
साध्वी श्री निर्मला श्री जी म.सा. आदि ठाणा (7)
सम्पर्क सूत्र - श्री दीपकभाई वी. जवेरी,
शत्रुखाना स्ट्रीट, शांति भुवन के पास आणन्द
वावा नो चकलो जामनगर - 361001 (गुज)
15. अमदावाद - पालड़ी (गुजरात)
साध्वी श्री दिव्य यशा श्री जी म सा
आदि ठाणा (3)
सम्पर्क सूत्र - दिवेक अपार्टमेंट्स,
दशा पोरवाळ सोसायटी के बाजू मे पालड़ी
अहमदावाद - 380001 (गुजरात)
16. पालीताणा (गुजरात)
साध्वी श्री यशोधना श्री जी म.सा. आदि ठाणा (2)
सम्पर्क सूत्र - महाराष्ट्र भुवन जैन धर्मशाला
तलेटी रोड, पालीताणा (गुजरात) 364270
17. पालीताणा (गुजरात)
साध्वी श्री लक्ष्मणा श्री जी म.सा. आदि ठाणा (3)
सम्पर्क सूत्र - ओसवाल यांत्रिक गृह तलेटी रोड,
पालीताणा (सौराष्ट्र) (गुजरात) 364270
18. खंभात (गुजरात)
साध्वी श्री चन्द्रमाला श्री जी म.सा. आदि ठाणा (5)
सम्पर्क सूत्र - शांति विहार जैन उपाश्रय टेकरी,
मु.पो. खंभात जिला खेडा
(गुजरात) 388620
19. सुरेन्द्रनगर (गुजरात)
साध्वी श्री सौम्यकीर्ति श्री जी म.सा. आदि ठाणा (3)
सम्पर्क सूत्र - जैन आराधना भुवन,
4 विठ्ठल प्रेस रोड, सेनेटेरियम
सुरेन्द्र नगर - 363001 (गुजरात)
20. विरार (बम्बई) (महाराष्ट्र)
साध्वी श्री सुयशप्रभा श्री जी म.सा. आदि ठाणा (2)
सम्पर्क सूत्र - श्री संभवनाथ जैन मंदिर,
स्टेशन के सामने, गु.पो. विरार (बम्बई)
जिला ठाणा (महाराष्ट्र) (W. Rly)
21. अहमदावाद - मणीनगर (गुजरात)
साध्वी श्री तत्व प्रज्ञा श्री जी म सा. आदि ठाणा (2)
सम्पर्क सूत्र - श्री हीराबेन मूलजीभाई जैन
उपाश्रय ए-1, पदमावती अपार्टमेंट्स,
स्टेशन के सामने मणीनगर
अहमदावाद - 380008 (गुजरात)
22. पूना केम्प (महाराष्ट्र)
साध्वी श्री हेम रत्ना श्री जी म.सा आदि ठाणा (3)

- सम्पर्क सूत्र - मै मोहनलाल एण्ड सस
270 महात्मागांधी रोड, मुपो पूना केम्प,
411001 (महाराष्ट्र)
- 23 नासिक सिटी (महाराष्ट्र)
साध्वी श्री सुलाचना श्री जी म सा आदि ठाणा (3)
सम्पर्क सूत्र - जैन उपाश्रय
पगड बघ लेन, दही पूल, नासिक सिटी
(महाराष्ट्र) 422001
- 24 सूरत (गुजरात)
साध्वी श्री दिव्यप्रज्ञा श्री जी म सा आदि ठाणा (5)
सम्पर्क सूत्र - जैन उपाश्रय कायस्य मौहल्ला
गांधीपुरा सूरत - 395001 (गुजरात)
- 25 अहमदाबाद - कालुपुर रोड (गुजरात)
साध्वी श्री पूर्वप्रभा श्री जी म सा आदि ठाणा (3)
सम्पर्क सूत्र - तोडा की पोल, जैन उपाश्रय
राज मेहता की पोल मे कालुपुर रोड,
अहमदाबाद (गुजरात) 380001
-
- कुल चातुर्मास (25) कुल साध्वीयों (138)
- स्व साध्वी श्री दर्शनश्रीजी म सा का परिवार
- 1 बम्बई - बोरीवली (महाराष्ट्र)
प्रवर्तिनी साध्वी श्री हसश्रीजी म सा आदि ठाणा (14)
सम्पर्क सूत्र - आनन्द मगल आराधना भवन,
श्री महावीर स्वामी जैन मंदिर
बेनहुर अपार्टमेंटस चदावरकर लेन,
गाडन के पास, बोरीवली (वेस्ट),
बम्बई - 400092 (महाराष्ट्र)
2. अच्छारी (गुजरात)
साध्वी श्री पियुष पूर्णा श्री जी म सा
आदि ठाणा (5)
सम्पर्क सूत्र - जैन मंदिर, जैन उपाश्रय
मुपो अच्छारी जिला बलसाड (गुजरात)
- 3 बम्बई - वालकेस्वर (महाराष्ट्र)
साध्वी श्री हर्ष रेखाश्रीजी म सा आदि ठाणा (3)
सम्पर्क सूत्र - श्रीपालनगर जैन देरासत
उपाश्रय ट्रस्ट, श्रीपालनगर 12 हार्कनेस रोड,
वालकेस्वर बम्बई - 400006 (महाराष्ट्र)
- 4 बम्बई - मलाड (महाराष्ट्र)
साध्वी श्री हेम ज्योति श्री जी म सा आदि ठाणा (3)
सम्पर्क सूत्र - रत्नपुरी जैन उपाश्रय गौशाला लेन,
दफतरी रोड, मलाड (पूर्व)
बम्बई - 400097 (महाराष्ट्र)
- 5 बम्बई - विक्रोली (महाराष्ट्र)
साध्वी श्री सम्यग् दर्शना श्री जी म सा
आदि ठाणा (5)
सम्पर्क सूत्र - हरियाली विलेज जैन श्वे मूर्ति ट्रस्ट
श्री आदिनाथ जैन मंदिर हजारी बाग
विक्रोली (वेस्ट) बम्बई - 400083 (महाराष्ट्र)
- 6 सूरत (गुजरात)
साध्वी श्री भव्य दर्शना श्री जी म सा आदि ठाणा (5)
सम्पर्क सूत्र - श्री विजय रामचन्द्र सूरीजी आराधना
भवन के बाजू मे सुभाष चौक गोपीपुरा
सूरत - 395001 (गुजरात)
- 7 अहमदाबाद - पालडी (गुजरात)
साध्वी श्री रजन श्री जी म सा आदि ठाणा (5)
सम्पर्क सूत्र - डीलक्स अपार्टमेंटस सावर फ्लेट
के बाजू मे, चन्द्रनगर नारायण नगर रोड,
पालडी अहमदाबाद - 380007 (गुजरात)
- 8 अहमदाबाद - शाहीबाग (गुजरात)
साध्वी श्री रतिप्रभा श्री जी म सा आदि ठाणा (8)
सम्पर्क सूत्र - गिरधर नगर जैन उपाश्रय शामल भुवन
गिरधर नगर, शाही बाग अहमदाबाद 380004
(गुजरात)

9. बम्बई-वालकेश्वर (महाराष्ट्र)

साध्वी श्री रम्यक् चन्द्रा श्री जी म.सा आदि ठाणा (3)
सम्पर्क सूत्र - विमल सोसायटी रीझरोड,
वालकेश्वर, बम्बई - 400006 (महाराष्ट्र)

10. येवला (महाराष्ट्र)

साध्वी श्री फाल्गुन चन्द्रा श्री जी म सा आदि ठाणा (4)
सम्पर्क सूत्र - श्री जयंतीलाल चन्दुलाल पटनी
पो.वा. नं. 11 मु.पो. येवला जिला नासिक
(महाराष्ट्र) 423401

11. पाटण (गुजरात)

साध्वी श्री त्रिलोचना श्री जी म.सा.
साध्वी श्री ज्योतिप्रभा श्री जी म.सा आदि ठाणा (14)
सम्पर्क सूत्र - श्री मोहनलाल उत्तमचंद जैन
धर्मशाला, पंचासराजीके सामने
मु पो पाटण (उ. गुजरात) 384265

12. अहमदावाद - पालडी (गुजरात)

साध्वी श्री भद्रपूर्णा श्री जी म.सा आदि ठाणा (7)
सम्पर्क सूत्र - ज्ञान गंगा फ्लेट,
महालक्ष्मी चार रास्ता के पास पालडी
अहमदावाद 380007 (गुजरात)

13. सावर कुंडला (गुजरात)

साध्वी श्री नित्योदया श्री जी म.सा. आदि ठाणा (5)
सम्पर्क सूत्र - श्री धर्मदास शातिदास की पेढी
देरासर रोड, सावर कुंडला (सौराष्ट्र)
(गुजरात) 364515

14. जूनागढ़ (गुजरात)

साध्वी श्री लब्ध गुणा श्री जी म सा आदि ठाणा (10)
सम्पर्क सूत्र - हेमाभाई का वडो ऊपर कोट धर्मशाला
जूनागढ़ (सौराष्ट्र) (गुजरात) 362001

15. अहमदावाद - पालडी (गुजरात)

साध्वी श्री धैर्यगुणा श्री जी म सा आदि ठाणा (5)

सम्पर्क सूत्र - सोनारी का अपार्टमेंटस् वसंत कुंज
बस स्टेंड के पास जैन नगर नवा शारदा मंदिर रोड,
पालडी अहमदावाद (गुजरात) 380007

16. वापी (गुजरात)

साध्वी श्री भव्यरत्ना श्री जी म.सा आदि ठाणा (12)
सम्पर्क सूत्र - जैन उपाश्रय नेहरु स्ट्रीट
मु.पो. वापी जिला वलसाड
(गुजरात) 396191

17. सूरत (गुजरात)

साध्वी श्री भव्य प्रज्ञा श्री जी म.सा. आदि ठाणा (7)
सम्पर्क सूत्र - बालोडिया का उपाश्रय केम्युरी का खांचा
गोपीपुरा सूरत- 395001 (गुजरात)

18. शिवगंज (गुजरात)

साध्वी श्री हेम प्रभा श्री जी म सा. आदि ठाणा (4)
सम्पर्क सूत्र - जैन उपाश्रय जैन मंदिर
मु पो. शिवगंज जिला जालौर (राजस्थान)

19. अहमदावाद - नवरंगपुरा (गुजरात)

साध्वी श्री सूर्यमाला श्री जी म.सा. आदि ठाणा (12)
सम्पर्क सूत्र - जैन ज्ञान मंदिर, नवरंग कालोनी
कासोना बाजु मे नवरंगपुरा, अहमदावाद
380009 (गुजरात)

20. बोरसद (गुजरात)

साध्वी श्री सूर्य रेखा श्री जी म.सा. आदि ठाणा (15)
सम्पर्क सूत्र - जैन उपाश्रय जैन मंदिर
काशीपुरा, आदिनाथ चौक, मु.पो. बोरसद
जिला खेडा (गुजरात) 388540

21. डभोई (गुजरात)

साध्वी श्री पियूष रेखा श्री जी म.सा आदि ठाणा (4)
सम्पर्क सूत्र - श्रीमाली वागो सागर गच्छ
जैन उपाश्रय श्राविका उपाश्रय मु.पो. डभोई
जिला बडौदा (गुजरात) 391110

- 5 अहमदावाद (रिलिफ रोड)
साध्वी श्री अर्हदज्योति श्री जी म सा आदि ठाणा (3)
सम्पर्क सूत्र - जवेरीवाड वाथण पोल
आर्यविल भुवन, ३ मजिल, रिलिफ रोड,
अहमदावाद (गुजरात) 380001
- 6 अहमदावाद - पालडी (गुजरात)
साध्वी श्री निर्मला श्री जी म सा
आदि ठाणा (6)
सम्पर्क सूत्र - श्री नेमचदभाई नानचद शाह
5-वी नवकल्प प्लेट नवा विकास गृह रोड,
पालडी - अहमदावाद - 380007
(गुजरात)
- 7 भीवडी (ठाणा) (महाराष्ट्र)
साध्वी श्री पुण्यप्रभा श्री जी म सा
आदि ठाणा (6)
सम्पर्क सूत्र - श्री भीड मजन पार्श्वनाथ जैन मन्दिर,
कनरी आग्रा रोड, कमला होटल के बाजू मे,
मु पो भीवडी जिला ठाणा (महाराष्ट्र) 421305
- 8 अहमदावाद - ऐलिस बीज (गुजरात)
साध्वी श्री चन्द्रनाथ श्री जी म सा आदि ठाणा (18)
सम्पर्क सूत्र - श्री केशवलाल प्रेमचन्द्र का बगला
जन शांति प्लेट के सामने एलीस बीज
अहमदावाद - 380006 (गुजरात)
- 9 अहमदावाद - सावरमति (गुजरात)
साध्वी श्री चारुलक्षणा श्री जी म सा आदि ठाणा (4)
सम्पर्क सूत्र - मणिभद्र सोसायटी बगला न 12
जवाहर रोड, रामवाग रोड,
सावरमति, अहमदावाद 380005 (गुजरात)
- 10 अहमदावाद - घी काटा - (गुजरात)
साध्वी श्री चन्द्रोज्वला श्री जी म सा आदि ठाणा (5)
सम्पर्क सूत्र - जैन उपाश्रय घी काटा नगर
सेठ का वडा अहमदावाद (गुजरात) 380001
- 11 अहमदावाद - पालडी (गुजरात)
साध्वी श्री भव्य रवा श्री जी म सा आदि ठाणा (5)
सम्पर्क सूत्र - श्राविका उपाश्रय जैन मर्चेट सोसायटी
फतेहपुर, पालडी, अहमदावाद
(गुजरात) 380007
- 12 सुरेन्द्रनगर (गुजरात)
साध्वी श्री चारु लता श्री जी म सा आदि ठाणा (9)
सम्पर्क सूत्र - जैन आराधना भवन
4 विट्टल प्रेस रोड, सेनेटेरियम सुरेन्द्रनगर
(गुजरात) 363001
- 13 नवा डीसा (गुजरात)
साध्वी श्री नित्यानदा श्री जी म सा आदि ठाणा (7)
सम्पर्क सूत्र - नेमनाथ नगर जैन उपाश्रय
नेमनाथ नगर ऐस टी स्टेण्ड के पास,
मु पो नवाडीसा जिला बनास काठा
(गुजरात) 385535
- 14 सूरत (गुजरात)
साध्वी श्री निर्मला श्री जी म सा आदि ठाणा (5)
सम्पर्क सूत्र - श्री विजय रामचन्द्र सूरीजी आराधना भवन,
सुभाष चोक गोपीपुरा सूरत - 395001
(गुजरात)
- 15 वीसनगर (गुजरात)
साध्वी श्री निर्वेद गुणा श्री जी म सा आदि ठाणा (3)
सम्पर्क सूत्र - जैन उपाश्रय पारेख पोल
कसार बाजार, मु पो वीस नगर
(गुजरात) 384315
- 16 भावनगर (गुजरात)
साध्वी श्री भव्य कल्या श्री जी म सा आदि ठाणा (3)
सम्पर्क सूत्र - 101 आकाश गंगा प्लेट
रूपाली सर्कल भावनगर - 364001 (गुजरात)
- 17 वर्णा (नासिक) (महाराष्ट्र)
साध्वी श्री दिव्य पुर्णा श्री जी म सा आदि ठाणा (8)

सम्पर्क सूत्र - जैन उपाश्रय जैन मन्दिर
मु पो. वणी जिला नासिक (महाराष्ट्र)

सम्पर्क सूत्र - 228, सत्यम अपार्टमेंट्स
26/28 सोला रोड, नाराणपुरा,
अहमदावाद - 380013 (गुजरात)

18. हलवद (गुजरात)

साध्वी श्री चदन बाला श्री जी म.सा. आदि ठाणा (4)
सम्पर्क सूत्र - जैन मन्दिर जैन उपाश्रय
बाजार मे मू.पो. हलवद वाया घागंधा
जिला सुरेन्द्र नगर (गुजरात) 363330

4. अहमदावाद पालडी (गुजरात)

साध्वी श्री चन्द्रोदया श्री जी म.सा. आदि ठाणा (7)
सम्पर्क सूत्र - पंचतीर्थ अपार्टमेंट्स, महालक्ष्मी चार रास्ता
पालडी अहमदावाद (गुजरात) 380006

19. अहमदावाद - साबरमति (गुजरात)

साध्वी श्री नयप्रज्ञा श्री जी म.सा. आदि ठाणा (2)
सम्पर्क सूत्र - मंगा बा उपाश्रय हीरा जैन सोसायटी
Opp मरुघर सोसायटी, रामनगर सावर मती
अहमदावाद - 380005 (गुजरात)

5. अहमदावाद - पालडी (गुजरात)

साध्वी श्री कैलाश श्री जी म सा. आदि ठाणा (5)
सम्पर्क सूत्र - दशा पोरवाल सोसायटी
आयबिल भुवन के सामने, पालडी बस स्टैण्ड के पास,
पालडी, अहमदावाद - 380007 (गुजरात)

6. अहमदावाद (गुजरात)

साध्वी श्री जित सेना श्री जी म.सा. आदि ठाणा (2)
सम्पर्क सूत्र - नाथी श्री जी का उपाश्रय
पताशा की पोल अहमदावाद
(गुजरात) 380001

कुल चातुर्मास (19) कुल साध्वीयों (111)

संघ स्थविर आचार्य श्री विजय सिद्धि सूरी श्वरजी

म.सा. (बापजी म.) के समुदाय के प्रशान्तमूर्ति आचार्य
प्रवर श्रीमद् विजय विवुध प्रभ सूरीश्वरजी म.सा. के
आज्ञानुवर्ती साध्वीयोंजी

1. अहमदावाद - माणक चौक (गुजरात)

प्रवर्तिनी साध्वी श्री कुमुद श्री जी म.सा
आदि ठाणा (4)

सम्पर्क सूत्र - श्राविका उपाश्रय खेतरपाल की पोल,
माणक चौक, अहमदावाद 380001 (गुजरात)

2. अहमदावाद - मेमनगर (गुजरात)

साध्वी श्री जितेन्द्र श्री जी म.सा आदि ठाणा (2)
सम्पर्क सूत्र - बी.कु. भगवती अपार्टमेंट्स
कमल सोसायटी के पीछे मेमनगर
अहमदावाद - 380052 (गुजरात)

7. अहमदावाद - कालुपुर (गुजरात)

साध्वी श्री कौशलया श्री जी म.सा आदि ठाणा (4)
सम्पर्क सूत्र - जैन उपाश्रय राजा मेहता की पोल मे
लक्ष्मीनारायण की पोल कालुपुर
अहमदावाद (गुजरात) 380001

8. अहमदावाद - शाहपुर (गुजरात)

साध्वी श्री चन्द्र कीर्ति श्री जी म.सा. आदि ठाणा (4)
सम्पर्क सूत्र - जैन उपाश्रय
सुनारो का खांचा शाहपुर,
अहमदावाद (गुजरात) 380001

3. अहमदावाद - सोलारोड (गुजरात)

साध्वी श्री कनक श्री जी म.सा. आदि ठाणा (2)

9. नरोडा (अहमदावाद) (गुजरात)

साध्वी श्री जयप्रभा श्री जी म.सा. आदि ठाणा (4)
सम्पर्क सूत्र - जैन उपाश्रय पलवनगर
नरोडा वाया अहमदावाद (गुजरात) 382325

- 10 अहमदाबाद - नवरम्पुरा (गुजरात)
साध्वी श्री विजय लता श्री जी म सा आदि ठाणा (3)
सम्पर्क सूत्र - श्री माती सासायटी,
जैन देगसर के पास, नवरम्पुरा
अहमदाबाद (गुजरात) 380009
- 11 अहमदाबाद - पालडी (गुजरात)
साध्वी श्री जयानंद श्री जी म सा आदि ठाणा (3)
सम्पर्क सूत्र - दशा पोरवाल सातायटी महावीर सोतायटी,
महालक्ष्मी चार रास्ता के पास पालडी अहमदाबाद
(गुजरात) 380007
- 12 अहमदाबाद (गुजरात)
साध्वी श्री हेमयशा श्री जी म सा आदि ठाणा (5)
सम्पर्क सूत्र - जैन उपाश्रय दाशीवाडा की पास
कसूवा वाड अहमदाबाद (गुजरात) 380001
- 13 अहमदाबाद (गुजरात)
साध्वी श्री निपुणा श्री जी म सा आदि ठाणा (8)
सम्पर्क सूत्र - श्राविका उपाश्रय, पीपरडी की पास,
केनीका डाम के पास, अहमदाबाद - 380001
(गुजरात)
- 14 अहमदाबाद (गुजरात)
साध्वी श्री सूर्य प्रभा श्री जी म सा आदि ठाणा (3)
सम्पर्क सूत्र - खारा कुवा की पास केलीका
डोम के पिछे, अहमदाबाद - 380001 (गुजरात)
- 15 मेहमदाबाद (गुजरात)
साध्वी श्री उदयप्रभा श्री जी म सा आदि ठाणा (2)
सम्पर्क सूत्र - जैन उपाश्रय जैन मन्दिर,
मु पा मेहमदाबाद जिला अहमदाबाद
(गुजरात) 387130
- 16 अहमदाबाद - प्रितमनगर (गुजरात)
साध्वी श्री सुरेन्द्रप्रभा श्री जी म सा आदि ठाणा (2)
सम्पर्क सूत्र - श्री मणिकलाल मोहनलाल झवेरी
प्रितमनगर अहमदाबाद - 380006 (गुजरात)
- 17 अहमदाबाद - सावरमति (गुजरात)
साध्वी श्री सुमगता श्री जी म सा आदि ठाणा (10)
सम्पर्क सूत्र - हीरा मोती पोषधशाला सावरमति
रामनगर अहमदाबाद - 380005 (गुजरात)
- 18 पाटण (गुजरात)
साध्वी श्री शतगुणा श्री जी म सा आदि ठाणा (4)
सम्पर्क सूत्र - रुक्मणीदाई पोषधशाला
Opp वी एम हाईस्कूल, मु पो पाटण
(गुजरात) 384265
- 19 कस्तूरुता (प बंगाल)
साध्वी श्री रविन्द्रप्रभा श्री जी म सा आदि ठाणा (3)
सम्पर्क सूत्र - Shri Bhawanipur Jain Sangh
Jain Upashra 11/22 Hai Sham Road,
Bhawanipur Calcutta - 700020 (W B)
- 20 सिहोर (गुजरात)
साध्वी श्री मदन रेखा श्री जी म सा आदि ठाणा (3)
सम्पर्क सूत्र - श्राविका उपाश्रय, भारवाडो
मु पो सिहोर 364240 (सौराष्ट्र) (गुजरात)
- 21 राजकोट (गुजरात)
साध्वी श्री पदम रेजा श्री जी म सा आदि ठाणा (11)
सम्पर्क सूत्र - श्राविका जैन उपाश्रय वर्धमान नगर
पेलेश रोड, राजकोट - 360001 (गुजरात)
- 22 वधली (गुजरात)
साध्वी श्री रत्नरेखा श्री जी म सा आदि ठाणा (4)
सम्पर्क सूत्र - जैन उपाश्रय जैन मन्दिर
मु पो वधली जिला जूनागढ
(गुजरात) 362610
- 23 ठाणा (सिहोर) (गुजरात)
साध्वी श्री भृगुन्द्र जया श्री जी म सा आदि ठाणा (2)
सम्पर्क सूत्र - जैन उपाश्रय जैन मन्दिर
मु पो ठाणा जिला सिहोर (गुजरात) 364260
- 24 राधनपुर (गुजरात)
साध्वी श्री इन्द्र जया श्री जी म सा आदि ठाणा (3)

सम्पर्क सूत्र - जैन धर्मशाला, सागर गच्छ जैन उपाश्रय,
पांजरापोल, राधनपुर
(उत्तर गुजरात) 385340

25. सूरत (गुजरात)

- 1 साध्वी श्री दक्षाश्री जी म.सा.
- 2 साध्वी श्री गीत पूर्णा श्री जी म.सा.

आदि ठाणा (24)

सम्पर्क सूत्र - श्री सूरचंद हीराचद का बंगला
चाल्ला गली, गोपीपुरा, सूरत - 395001 (गुज.)

26. सूरत (गुजरात)

साध्वी श्री जयलता श्री जी म.सा. आदि ठाणा (5)

सम्पर्क सूत्र - सोनी फलीया थोटी देसाई पोल,
नाना भाई रोड, ऐनी वी सेट गली,
सूरत 395001 (गुजरात)

27. सूरत (गुजरात)

साध्वी श्री मनोरंजना श्री जी म सा. आदि ठाणा (6)

सम्पर्क सूत्र - श्री रवीमचंद रतनचद जरीवाल
कायस्थ मोहल्ला, गोपीपुरा सूरत
395001 (गुजरात)

28. सूरत (गुजरात)

साध्वी श्री हित पूर्णा श्री जी म.सा आदि ठाणा (4)

सम्पर्क सूत्र - सागर उपाश्रय माली फलीया
गोपीपुरा सूरत - 395001 (गुजरात)

- नोट 1 दीक्षा सूची एव महाप्रयाण (काल धर्म सूची) प्राप्त नहीं हो सकी इसलिए तुलनात्मक तालिका अनुमान से ही दी गयी है।
- 2 इतना विशाल समुदाय होते हुए भी सूची का सारा कार्य व्यवस्थित ढंग से किया जाता है गत वर्ष की भांति इस वर्ष भी पूर्ण एव सही सूची प्राप्त हुई संख्या भी सभी में दी गयी है।
- 3 आचार्य श्री विजय सिद्धि सूरीश्वर जी म.सा. (बापजी म.) के समुदाय की कई साध्वीया इस समुदाय में सम्मिलित हो गयी है संभव है इस वर्ष ही सम्मिलित हुए हैं क्यो कि गत वर्ष की सूची में उस समुदाय की साध्वीयो का उल्लेख नहीं था।
- 4 यह समुदाय वेसे तो आचार्य श्री विजय प्रेम सूरी जी म.सा - का समुदाय कहलाता है लेकिन वर्तमान में अब इस समुदाय को आचार्य श्री विजय रामचन्द्र सुरीजी म सा. का समुदाय के नाम से अधिक प्रचलित हो गया है। आचार्य श्री जी का गत वर्ष महा प्रयाण हो गया था परन्तु आज भी सभी उन्ही की समुदाय के नाम से ही इसे पुकारने लगे हैं।
- 5 जैन पत्र-पत्रिकाएँ 1 जिनवाणी (गुजरात पाक्षिक) वढवाण शहर 2 जैन प्रवचन (हिन्दी मासिक) बम्बई

कुल चातुर्मास (28) कुल साध्वीयों (139)

- सम्पादक

| | | | |
|---------------------------|-----|---------------|-----|
| कुल चातुर्मास मुनिराजो के | 52 | कुल मुनिराज | 253 |
| कुल चातुर्मास साध्वीयो के | 112 | कुल साध्वीयों | 673 |
| कुल 164 | | कुल 890 | |

कुल चातुर्मास (164) मुनिराज (253) कुल साध्वीयों (673)
कुल ठाणा (890)

नोट 1 नई काल धर्म सूची प्राप्त नहीं होने के कारण तुलनात्मक प्रस्तुत नहीं कर सके.

जैन विश्व रिकार्डस

सम्पूर्ण जैन समाज में श्वे. स्थानकवासी स्वतंत्र समुदाय शासन प्रभावक प्रसिद्ध कला श्री सुदर्शनलालजी म.सा का एक मात्र ऐसा समुदाय है जिसमें केवल मुनिराजही है साध्वीयों नहीं है। समुदाय के सभी 25 मुनिराज बाल ब्रह्मचारी हैं।

(3 जैन रिकार्डस डायरेक्ट्री से साभार)

सभी पूज्य आचार्यों एवं साधु-साध्वियों को कोटि-कोटि वन्दन ।

Tel No Office 2052165, 2015172, 2067064
Resi 4125717
Cable LUCK SAREES

M. K. Textiles

FANCY SAREE MFG & WHOLESALE MERCHANT

105/107, Old Hanuman Lane, 2nd Floor, P B No 2865

Kalbadevi Road, BOMBAY - 400 002



OUR SISTER CONCERN

KISHORE TRADING CO BOMBAY

NAKODAJI TEXTILES PVT LTD BOMBAY



Tel No 678698, 677136

SHAILESH DYEING & PRINTING MILLS

Near Baroda Rayon, Bhestan Road, P O Baroda Rayon,

UDHNA (SURAT) 394 220

सिद्धान्त महोदधि, कर्म साहित्य निष्णात, आचार्य प्रवर
श्रीमद् विजय प्रेम सूरीश्वरजी म.सा. का समुदाय

भाग द्वितीय

वर्तमान में समुदाय के प्रमुख गच्छाधिपति:-
सुविशाल गच्छाधिपति स्व. विजय भुवनभानु सूरीश्वरजी. म.सा.
के पहालंकार सिद्धान्त दिवाकर सुविशाल गच्छाधिपति
आचार्य श्री विजय विजय विजय जयधोष सूरीश्वरजी म.सा.

कुल चातुर्मास (125) मुनिराज (209)साध्वीयोंजी (397) कुल ठाणा (606)

साधु - मुनिराज समुदाय

1. अहमदाबाद - बासणा (गुजरात)

- 1 समुदाय के वडिल आचार्य श्री विजय हिमाशु
सूरीश्वरजी म.सा
- 2 आचार्य श्री विजय नवरत्न सूरीश्वरजी म.सा.
- 3 पन्चास की कुल चन्द्र विजयजी म.सा.

आदि ठाणा (6)

सम्पर्क सूत्र - श्री वृद्धि सागर सूरि आराधना भवन,
नवकार फ्लेट के पास, बासणा
अहमदाबाद (गुजरात) 380007

2. बैल्लारी (कर्नाटक)

- 1 समुदाय के वडिल आचार्य श्री विजय धनपाल
सूरीश्वरजी म.सा.
- 2 पन्चास श्री चतुर विजयजी म.सा.

आदि ठाणा (4)

सम्पर्क सूत्र - Shri Parshanath Swetamber
Jain Temple, Jain Temple, Car Street
P O BELLARI - 583101
Dist Raichur (Karnataka) - 583101

3. बम्बई - मलाड (पूर्व) (महाराष्ट्र)

- 1 गच्छाधिपति सिद्धान्त दिवाकर आचार्य प्रवर
श्री विजय जय धोष सूरीश्वर जी म.सा.
- 2 पन्चास श्री जय सुन्दर विजयजी म.सा.

आदि ठाणा (12)

सम्पर्क सूत्र - श्री हीर सूरी जगतगुरु श्वे. मूर्तिपूजक
जैन संघ, देना बैंक के पास, दफतरी रोड,
मलाड (पूर्व) बम्बई - 400097 (महाराष्ट्र)

4. सेलवास (गुजरात)

आचार्य श्री विजय भद्रगुप्त सूरीश्वरजी म.सा.

आदि ठाणा (2)

सम्पर्क सूत्र - श्री जैन धर्म शाळा, मेन रोड, सेलवास
वाया वापी, दादरा नगर हवेली (गुजरात) 396230

5. बम्बई शान्ताक्रुझ (वेस्ट) (महाराष्ट्र)

आचार्य श्री विजय राजेन्द्र सूरीश्वरजी म.सा.

आदि ठाणा (3)

सम्पर्क सूत्र - श्री कुथुनाथ जैन देरासर, अेन्द्रुझ रोड,
शांता क्रुझ (वेस्ट) बम्बई (महाराष्ट्र) 400054

17. बड़ोदरा - निझामपुरा (गुजरात)
पन्यास श्री विद्यानंद विजयजी म.सा. आदि ठाणा (2)
सम्पर्क सूत्र - श्री श्वे. मूर्ति जैन संघ, जैन उपाश्रय,
निझाम पुरा, बड़ोदरा 390002 (गुजरात)
18. बम्बई - घाटकोपर (वेस्ट) (महाराष्ट्र)
पन्यास श्री जयतिलक विजयजी म.सा. आदि ठाणा (5)
सम्पर्क सूत्र - श्री मुनिसुव्रत स्वामी जैन देरासर
नवरोजी लेन, घाटकोपर, (वेस्ट),
बंबई - 400086 (महाराष्ट्र)
19. बम्बई - दादर (वेस्ट) (महाराष्ट्र)
पन्यास श्री जय सोम विजयजी म.सा. आदि ठाणा (3)
सम्पर्क सूत्र - श्री श्वे. मूर्ति जैन संघ
आराधना भवन, एस के बोले रोड,
दादर (वेस्ट) बम्बई 400028 (महाराष्ट्र)
20. बेलगांव (कर्नाटक)
पन्यास श्री जग वल्लभ विजयजी म.सा.
आदि ठाणा (3)
सम्पर्क सूत्र - Shri Chandraprabhu Swami-
Jain Temple P O Belgaon - 590002 (KARNATKA)
21. सांचौर (राजस्थान)
श्री अश्वसेन विजयजी म सा
2 पन्यास श्री वीर रत्न विजयजी म सा
आदि ठाणा (5)
सम्पर्क सूत्र - तपागच्छ जैन उपाश्रय, तपावास
मु पो सांचौर जिला - जालौर (राजस्थान) 343041
22. नवसारी धारागिरी (गुजरात)
श्री जय चंद विजयजी म.सा. आदि ठाणा (11)
सम्पर्क सूत्र - तपोवन संस्कार धाम, धारा गिरि
नवसारी, कवीर पोर - 396424 जिला वलसाड
(गुजरात)
23. बम्बई विक्रोली (पूर्व) (महाराष्ट्र)
श्री शील रत्न विजयजी म.सा. आदि ठाणा (2)
- सम्पर्क सूत्र - संभवनाथ जैन देरासर, टेगौर नगर,
हरियाली विलेज, विक्रोली (पूर्व),
बम्बई 400079 (महाराष्ट्र)
24. वारडोली (गुजरात)
1 श्री देव सुन्दर विजयजी म.सा.
2 पन्यास श्री रत्न सुन्दर विजयजी म.सा.
आदि ठाणा (3)
सम्पर्क सूत्र - सिसोदरावाला आरधना भवन
स्टेशन के सामने, महावीर नगर,
नगीन देसाई की चाल मु पो. वारडोली
जिला वडोदरा (गुजरात) 394602
25. बम्बई - गोवालिया टैंक (महाराष्ट्र)
पन्यास श्री हेम रत्न विजयजी म.सा. आदि ठाणा (5)
सम्पर्क सूत्र - श्री श्वे. मूर्ति जैन संघ,
आराधना भवन, खबाला हिल रोड होस्पिटल के
पास, गोवालिया टैंक, बम्बई 400036
(महाराष्ट्र)
26. पीं डवाड़ा (राजस्थान)
पन्यास श्री कनक सुन्दर विजयजी म.सा.
आदि ठाणा (5)
सम्पर्क सूत्र - श्री प्रेम सूरी गुरु मंदिर,
जैन उपाश्रय, मु पो पीं डवाड़ा
जिला सिरोही 307022 (राजस्थान)
27. अहमदाबाद (गुजरात)
श्री विश्वानंद विजयजी म.सा. आदि ठाणा (2)
सम्पर्क सूत्र - पगथीयानो उपाश्रय, रीलीफ रोड,
हाजी पटेल की पोल, अहमदाबाद 380001
(गुजरात)
28. सुरेन्द्र नगर (गुजरात)
श्री चन्द्रजीत विजयजी म.सा. आदि ठाणा (4)
सम्पर्क सूत्र - श्री वासु पूज्य स्वामी जैन देरासर,
अमीझरा चौक सुरेन्द्र नगर 3630001 (गुजरात)

- 29 **सूरत (गुजरात)**
श्री निपुणचन्द्र विजयजी म सा आदि ठाणा (5)
सम्पर्क सूत्र - श्री ओमकार सूरि आराधना भवन,
गोपीपुरा, सुभाष चौक, सूरत (गुजरात) 395001
- 30 **बम्बई - भायन्दर (वेस्ट) (महाराष्ट्र)**
श्री राजपाल विजयजी म सा आदि ठाणा (3)
सम्पर्क सूत्र - श्री शखेश्वर पार्श्वनाथ जैन श्वे मु सघ,
जैन मन्दिर, देवचद नगर, भायन्दर (वेस्ट)
जिला ठाणा 401101 (महाराष्ट्र)
- 31 **धुलिया (महाराष्ट्र)**
श्री इन्द्रयश विजयजी म सा आदि ठाणा (2)
सम्पर्क सूत्र - श्री शीतल नाथ जैन मन्दिर,
तेलगती, धुलिया 424001 (महाराष्ट्र)
- 32 **वोटाद (गुजरात)**
श्री वरवोधि विजयजी म सा आदि ठाणा (4)
सम्पर्क सूत्र - श्री लावण्य सूरि ज्ञान मंदिर,
जैन मंदिर, अबाजी चौक, मु पो वोटाद
जिला भावनगर (गुजरात) 364710
- 33 **अहमदाबाद (गुजरात)**
श्री भुवन सुन्दर विजयजी म सा आदि ठाणा
सम्पर्क सूत्र - श्री जैन श्वे मूर्ति सघ, जैन उपाश्रय,
सेजपुर विघा, कृष्ण नगर रोड,
अहमदाबाद 385345 (गुजरात)
- 34 **बम्बई - इर्लावीज (महाराष्ट्र)**
श्री मुक्ति दर्शन विजयजी म सा आदि ठाणा (2)
सम्पर्क सूत्र - श्री करमचन्द्र जैन पौष्य शाला,
106 एस वी रोड, ईला वीज, विलेपार्ल (वेस्ट),
बम्बई - 400056 (महाराष्ट्र)
- 35 **वार्शी (महाराष्ट्र)**
श्री दिव्यरत्न विजयजी म सा आदि ठाणा (3)
सम्पर्क सूत्र - श्री जैन श्वे मंदिर, सोमवार पेठ,
मु पा वार्शी जिला - सान्हापुर (महाराष्ट्र) 41401
- 36 **बम्बई - सायन (महाराष्ट्र)**
श्री नदीश्वर विजयजी म सा आदि ठाणा (2)
सम्पर्क सूत्र - श्री अभिनदन स्वामी जैन मंदिर,
सायन हास्तिटल के पास, सायन (वेस्ट),
बम्बई 400022 (महाराष्ट्र)
- 37 **पूना (महाराष्ट्र)**
श्री विश्वकल्याण विजयजी म सा आदि ठाणा (5)
सम्पर्क सूत्र - श्री गाडीजी, पार्श्वनाथ जैन मंदिर,
गुरुवार पठ, पूना 411002 (महाराष्ट्र)
- 38 **भीवडी (थाणा) (महाराष्ट्र)**
श्री अक्षय बाधि विजयजी म सा आदि ठाणा (2)
सम्पर्क सूत्र - जैन उपाश्रय, अजन्टा कम्पाऊड,
जैन देरासर, भीवडी,
जिला-थाणा 421302 (महाराष्ट्र)
- 39 **बम्बई - घाटकोपर (वेस्ट) (महाराष्ट्र)**
श्री नेमानद विजयजी म सा आदि ठाणा (2)
सम्पर्क सूत्र - जैन उपाश्रय, साईनाथ नगर,
सधाणी इस्टेट, घाटकोपर (वेस्ट),
बम्बई - 400086 (महाराष्ट्र)
- 40 **बम्बई - बोरीवली (वेस्ट), (महाराष्ट्र)**
श्री मुक्ति वलभ विजयजी म सा आदि ठाणा (4)
सम्पर्क सूत्र - श्री आदिनाथ जैन मंदिर,
मडपेश्वर मेन रोड, बोरीवली (वेस्ट)
बम्बई 400092 (महाराष्ट्र)
- 41 **नवसारी (गुजरात)**
श्री मलयकीर्ति विजयजी म सा आदि ठाणा (3)
सम्पर्क सूत्र - श्री घुडालाल मगनलाल जैन उपाश्रय,
कानजी वाडी, शता देवी रोड, नवसारी,
जिला बलसाड 396445 (गुजरात)
- 42 **बलसाड (गुजरात)**
श्री धर्मवोधि विजयजी म सा आदि ठाणा (3)

सम्पर्क सूत्र - श्री कोठारी जैन उपाश्रय,
शेठ फलिया, बलसाड़ 396001 (गुजरात)

43. बम्बई - मलाड़ (वेस्ट) (महाराष्ट्र)

श्री संयम बोधि-विजयजी म सा. आदि ठाणा (3)

सम्पर्क सूत्र - श्री देवकरन मूलजी जैन देरासर,
आनन्द रोड, Opp. रेल्वे स्टेशन मलाड़ (वेस्ट)
बम्बई 400064 (महाराष्ट्र)

44 दयाल शाह किला (राजस्थान)

श्री गुण वर्धनजी म.सा. आदि ठाणा (2)

सम्पर्क सूत्र - श्री श्वे. मूर्ति जैन संघ,
जैन मन्दिर मु.पो. दयाल शाह किल्ला
जिला राजसमन्द (राजस्थान) 313326

सौम्यमूर्ति आचार्य प्रवर श्री विजय धनपाल
सूरीश्वरजी म.सा. की आज्ञानुवर्ती साध्वीयॉजी:-

1. अहमदावाद - पालडी (गुजरात)

प्रवतिनी साध्वी श्री इन्दु श्री जी म सा आदि ठाणा (14)
सम्पर्क सूत्र - 25, दीपकुज सोसायटी,
भगवान नगर के टेकरे के पास, पालडी
अहमदावाद - 380007 (गुजरात)

2. जुन्नर (महाराष्ट्र)

साध्वी श्री विनयप्रभा श्री जी म.सा. आदि ठाणा (4)
सम्पर्क सूत्र - C/o श्री मणिकांत केशवलाल शाह
मैसर्स कीर्ति क्लोथ स्टोर्स, रविवार पेठ,
मु.पो. जुन्नर जिला पूना (महाराष्ट्र)

3. खंभात (गुजरात)

साध्वी श्री इन्दुयशा श्री जी म.सा. आदि ठाणा (4)
सम्पर्क सूत्र - रजन विहार, माणेक चौक,
मु.पो. खंभात जिला खेडा (गुजरात) 388620

4. बम्बई - मुलुण्ड (महाराष्ट्र)

साध्वी श्री वंसत श्री जी म सा. आदि ठाणा (10)

सम्पर्क सूत्र - श्री मुनिसुव्रत स्वामी जैन देरासर
जैन उपाश्रय, जवेर रोड, मुलुंड (वेस्ट),
बम्बई - 400080 (महाराष्ट्र)
फोन नं. 5618843

5. बम्बई - बालकेश्वर (महाराष्ट्र)

साध्वी श्री प्रियबंदा श्री जी म.सा. आदि ठाणा (3)
सम्पर्क सूत्र - बाबू अमीचन्द पन्नालाल
श्री आदिश्वर जैन मन्दिर, रीझ रोड, बालकेश्वर,
बम्बई - 400006 (महाराष्ट्र)

6. बम्बई - गोरेगांव (महाराष्ट्र)

साध्वी श्री सूर्ययशा श्री जी म.सा. आदि ठाणा (4)
सम्पर्क सूत्र - श्री धर्मनाथ जैन मन्दिर पेढी,
जवाहर नगर, गोरेगांव (वेस्ट),
बम्बई - 400062 फोन 8721289

7. बम्बई - विलेपार्ला (महाराष्ट्र)

साध्वी श्री सुशीलायशा श्री जी म.सा. आदि ठाणा (4)
सम्पर्क सूत्र - कृष्ण भवन, फिरोज शाह मेहता मार्ग,
विलेपार्ला (पूर्व), बम्बई - 400057 (महाराष्ट्र)

8. बम्बई - घाटकोपर (महाराष्ट्र)

साध्वी श्री यशोधना श्री जी म.सा. आदि ठाणा (3)
सम्पर्क सूत्र - श्री पार्श्वनाथ श्वे. मूर्ति जैन संघ
प्लोट नं. 13, सर्वोदय सोसायटी के पिछे
साईनाथ नगर, आग्रा रोड, संघाणी इस्टेट,
घाटकोपर (वेस्ट), बम्बई - 400086
(महाराष्ट्र) फोन नं. 514 8242

9. बम्बई - शांताक्रुझ (महाराष्ट्र)

साध्वी श्री गुणमाला श्री जी म.सा आदि ठाणा (4)
सम्पर्क सूत्र - श्री कुंथुनाथ जैन मन्दिर
ऐन्दुज रोड, Opp. पोद्दार स्कूल,
शांताक्रुझ (वेस्ट), बम्बई - 400054
(महाराष्ट्र) फोन नं. 6494234

- 10 बम्बई - मलाड (महाराष्ट्र)
साध्वी श्री स्वर्णप्रभा श्री जी म सा आदि ठाणा (4)
सम्पर्क सूत्र - श्री हीरसूरीजी जगद गुरु
श्वे मूर्ति जैन ट्रस्ट, जैन उपाश्रय दफ्तरी रोड,
मलाड (पूर्व) बम्बई - 400097 (महाराष्ट्र)
- 11 पीडवाडा (राजस्थान)
साध्वी श्री रोहिता श्री जी म सा आदि ठाणा (12)
सम्पर्क सूत्र - श्वे मूर्ति जैन उपाश्रय,
मु पो पिण्डवाडा स्टे सिरौही
जिला सिरौही (राजस्थान) 307022
- 12 पालीताणा (गुजरात)
साध्वी श्री हितसेना श्री जी म सा आदि ठाणा (4)
सम्पर्क सूत्र - शत्रुजय दर्शन, तलेटी रोड,
पालीताणा - (सौराष्ट्र) (गुजरात) 364270
- 13 अहमदावाद सावरमति (गुजरात)
साध्वी श्री महानन्दा श्री जी म सा आदि ठाणा (2)
सम्पर्क सूत्र - पूनम फलेट नं 1 सन्ध्यारायण सोसायटी,
सावर मति अहमदावाद - 380005
- 14 बम्बई - भायखला (महाराष्ट्र)
साध्वी श्री विमलप्रभा श्री जी म सा
आदि ठाणा (9)
सम्पर्क सूत्र - श्री मोतीशा जैन मन्दिर, मोतीशा लेन
- भायखला, बम्बई - 400027 (महाराष्ट्र)
- 15 अमलनेर (महाराष्ट्र)
साध्वी श्री भाग्योदया श्री जी म सा आदि ठाणा (6)
सम्पर्क सूत्र - श्री शीतलनाथ जैन सत्थान,
न्यू प्लोट, पोस्ट आफिस के सामने,
मु पो अमलनेर जिला जलगाव (महाराष्ट्र)
- 16 अहमदावाद - सावरमति (गुजरात)
साध्वी श्री हयपूर्णा श्री जी म सा आदि ठाणा (15)
श्राविका उपाश्रय, रामनगर, सावरमति,
अहमदावाद - 380005 (गुजरात)
- 17 अहमदावाद - सावरमति (गुजरात)
साध्वी श्री कीर्ति पूर्णा श्री जी म सा आदि ठाणा (6)

सम्पर्क सूत्र - 31 मणिचन्द्र सोसायटी,
केशव वाग के सामने, जवाहर चौक,
सावरमति, अहमदावाद 380005 (गुजरात)

- 18 वोरडी (गुजरात)
साध्वी श्री अनतकीर्ति श्री जी म सा आदि ठाणा (4)
सम्पर्क सूत्र - जैन उपाश्रय मु पो वोरडी,
स्टेशन धोलवड जिला थाना
महाराष्ट्र) 401 701
- 19 अहमदावाद - वासणा (गुजरात)
साध्वी श्री शुभदर्शना श्री जी म सा आदि ठाणा (4)
सम्पर्क सूत्र - लावण्य सोसायटी, जैन उपाश्रय
वासणा - अहमदावाद - (गुजरात)
- 20 सलवास (गुजरात)
साध्वी श्री राजरत्ना श्री जी म सा आदि ठाणा (4)
सम्पर्क सूत्र - त्रिभुवन कोम्प्लेक्स, जैन देवासर के सामने,
मु पो सेलवास 396230 (गुजरात)
- 21 पालीताणा (गुजरात)
साध्वी श्री मुक्ति रत्ना श्री जी म सा आदि ठाणा (2)
सम्पर्क सूत्र - महाराष्ट्र भुवन, तलेटी रोड,
पालीताणा (सौराष्ट्र) (गुजरात) 364270

कुल चातुर्मास (21) साध्वीयोंकी (123)

| आज्ञा - गच्छापति आचार्य श्री विजय जय घोष सूरीस्वराजी म सा | चातुर्मास स्थान | | कुल | |
|---|-----------------|-------------------|-----|-----------------------|
| | विद्यार्थनिस्रा | मुनिराज साध्वीयों | कुल | मुनिराज साध्वीया ठाणा |
| 1 आचार्य श्रीदेम- सूरीजी म सा का समुदाय भाग द्वितीय | 45 | 42 | 87 | 209 204 413 |
| 2 आचार्य श्री घननाथ सूरीजी म सा के आशानुवर्ती | | 21 | 21 | 123 123 |
| 3 आचार्य श्री त्रितेन्द्र सूरीजी म सा के अणुनुवर्ती | | - | 18 | 181 70 70 |
| कुल देय | 45 | 81 | 126 | 209 397 606 |

नोट - क्रमांक 1,3, के चातुर्मास की जानकारीया ज्ञात नहीं हुई लेकिन समुदाय में जितने साधु-साध्वीयों विद्यमान हैं उनके अनुमान से ही यह संख्या यहाँ दी गयी है। साध्वीयों की संख्या सही है लेकिन चातुर्मास स्थल की संख्या अनुमान से ही दी गयी है।

कुल चातुर्मास 126 मुनिराज 209 साध्वीयों 39 कुल ठाणा 606

साधु-साध्वीयों पद तालिका 1993

| | | | |
|----------------------------|-----|---------------|-----|
| कुल चातुर्मास मुनिराजों के | 45 | कुल मुनिराज | 209 |
| कुल चातुर्मास साध्वीयों के | 81 | कुल साध्वीयों | 397 |
| कुल | 125 | कुल | 606 |

कुल चातुर्मास (126) मुनिराज(209) साध्वीयों (397)
कुल ठाणा (606)

| क्र. पद | 1992 | 1993 | विशेष |
|-----------------|------|------|-------------------|
| 1 गच्छाधिपति | 1 | 1 | विजय भुवन भानु |
| 2 आचार्य | 13 | 12 | सूरी जी के निधन |
| 3 पन्थास | 11 | 15 | के कारण श्री |
| 4 उपाध्याय | 1 | 1 | विजय जयघोष |
| 5 प्रवर्तक | 3 | 3 | सूरीजी गच्छाधिपति |
| 6 गणि | - | - | बनाये गये |
| 7 प्रवर्तिनी | - | 2 | |
| 8 मुनिराज | 178 | 209 | |
| 9 साध्वीयों | 181 | 397 | |
| कुल साधु साध्वी | 354 | 606 | |

समुदाय की पूर्ण सूची प्राप्त नहीं होने के कारण तुलनात्मक तालिका प्रस्तुत नहीं कर सके। नई दीक्षा एवं काल धर्म सूची भी प्राप्त नहीं हो सकी।

नोट 1 इस समुदाय की पूर्ण सूची प्राप्त नहीं हो सकी जितनी प्राप्त हुई उतनी यहाँ दी गयी है।
2 यह समुदाय वैसे तो आचार्य श्री विजय प्रेम सूरेश्वरजी म.सा. का (भाग द्वितीय) समुदाय के नाम से जाना जाता है परंतु साधारण बोलचाल में आचार्य श्री विजय भुवन भानु सूरी जी म. का समुदाय के नाम से बहु चर्चित बोलचाल भाषा में नाम है।

3. गच्छाधिपति आचार्य संघ नायक श्री विजय भुवन भानु सूरेश्वर जी म.सा. का 19-4-93 को महाप्रयाण होने के कारण गच्छाधिपति के रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए समुदाय के ही आचार्य श्री विजय जयघोष सूरेश्वरजी म. को दिनांक 9-5-93 बम्बई में समुदाय का नूतन गच्छाधिपति बनाया गया है।
4. गत वर्ष भी साध्वीयों की पूरी सूची प्राप्त नहीं हुई थी इस वर्ष भी पूरी सूची प्राप्त नहीं हुई सिर्फ साध्वीयों की संख्या प्राप्त हो सकी कुछ साध्वीयों दूसरे समुदायों से इस समुदाय में सम्मिलित हुई है इस लिए इस वर्ष की अधिक हो गयी है।
5. मुनिराजों की सूची में पहले नाम पन्थासका आना चाहिए जब कि सूची में पन्थास का नाम मुनिराजों के निचे है संभव है वय या दीक्षा पर्याय वर्ष के अनुसार ऐसा किया है।
6. जैन पत्र पत्रिकाएँ (1) तीर्थकर दिव्य दर्शन (हिन्दी - पाक्षिक) धोलका (गुजरात)
2 दिव्य दर्शन (गुजराती-साप्ताहिक) धोलका गुजरात
- 3 मुक्ति दूत (गुजराती-मासिक)
- 4 अरिहंत (हिन्दी-मासिक)
- 5 प्रेरणाका (गुजराती-मासिक)

- संपादक

किसी भी सामायिक शुभ प्रसंग पर परिषद को सहयोग अवश्य प्रदान करे।

सभी पूज्य सत-सतियो को कोटि-कोटि वन्दन

N C

Quality Umbrella

हार्दिक शुभकामनाओं के साथ

Gram SUNSHADE BOMBAY
Telex 11-73948 UMB IN, BOMBAY (INDIA)
Fax 91 (22) 3630790

Tel Offi —2010691, 2086303,
2064263
Rest —3681506, 3681510

M/s NAGRAJ CHANDAMAL & CO
M/s. NEO EXPORTS (PALGHAR)

MFGRS—FOLDING UMBRELLAS
Office 39, Vithalwadi, Bombay-400 002 (India)

Fact 5, Tiwari Industrial Estate,
Boisar Road, Palghar, Dist Thana-401 404 (India)

2

शासन सम्राट, तपागच्छाधिपति सूरी चक्रवर्ती, आचार्य प्रवर
श्रीमद् विजय नेमी सूरीश्वरजी म.सा. का समुदाय

वर्तमान में समुदाय के प्रमुख गच्छाधिपति:- गच्छाधिपति, निडरवक्ता,
शासन प्रभावक, आचार्य प्रवर श्रीमद् विजय मेरुप्रभसूरीश्वरजी म.सा.

कुल चातुर्मास (95) मुनिराज (190) साध्वीयोंजी (380) कुल ठाणा (570)

साधु-मुनिराज समुदाय

1. सिंहेर (सौराष्ट्र) (गुजरात)

- 1 गच्छाधिपति, निडरवक्ता, शासनप्रभावक,
आचार्य श्री विजय मेरुप्रभ सूरीश्वरजी म.सा.
- 2 पन्यास श्री मानतुंग विजयजी म सा
- 3 पन्यास श्री इन्द्रसेन विजयजी म सा

आदि ठाणा (16)

सम्पर्क सूत्र - श्री श्वेतांबर मूर्तिपूजक जैन सघ,
जैन उपाश्रय, कसारा बाल मु.पो. सिंहेर
(सौराष्ट्र) जिला भावनगर 364250 (गुजरात)

2. भावनगर (गुजरात)

1. आचार्य श्री विजय देव सूरीश्वरजी म.सा.
2. आचार्यश्री विजय हेमचन्द्र सूरीश्वरजी म.सा.

आदि ठाणा (4)

सम्पर्क सूत्र - श्री दादा साध्व जैन देरासर उपाश्रय,
कालानाल, भावनगर
(गुजरात) 364001

3. नाकोडाजी तीर्थ-मेवानगर (राजस्थान)

1. आचार्य श्री विजय सुशील सूरीश्वरजी म.सा.
- 2 पन्यास श्री जिनोत्तम विजयजी म सा.
- 3 गणि श्री रत्न शेखर विजयजी म सा.

आदि ठाणा (8)

सम्पर्क सूत्र - श्री श्वे. मूर्ति. जैन संघ,

श्री नाकोडाजी जैन तीर्थ पेढी, नाकोडाजी

पोस्ट मेवानगर वाया बालोतरा, जिला बाड़मेर
(राजस्थान) 344025

4. अहमदाबाद-वासणा (गुजरात)

आचार्य श्री विजय प्रियंकर सूरीश्वरजी म.सा.
आदि ठाणा (2)

सम्पर्क सूत्र - श्री प्रेमवर्धन देवास जैन श्वे. संघ

जैन उपाश्रय, ए-19/5 देवास आपार्टमेंट्स
तोलनाका के पिछे गुप्ता नगर, वासणा,
अहमदाबाद (गुजरात) 380005

5. अहमदाबाद - पालडी (गुजरात)

आचार्य श्री विजय सूर्योदय सूरीश्वरजी म.सा.
आदि ठाणा

सम्पर्क सूत्र - श्री श्वे. मूर्तिपूजक जैन उपाश्रय,

श्री नेमी सूटीज्ञान शाला, जैन मंदिर,
पांजरापोल, रिलिफ रोड, अहमदाबाद
380001, (गुजरात)

6. करमबेला (गुजरात)

आचार्य श्री विजय महिमा प्रभसूरीश्वरजी म.सा.
आदि ठाणा (3)

सम्पर्क सूत्र - श्री श्वे जैन उपाश्रय, जैन देरासर,
हाईवे रोड, मु.पो करमबेला, वाया वापी
जिला बलसाड (गुजरात)

7. सूरत (गुजरात)
आचार्य श्री विजय प्रद्योतन सूरीश्वरजी म सा
आदि ठाणा (6)
सम्पर्क सूत्र - श्री श्वे मूर्ति, जैन उपाश्रय, जैन देरासर
बहा चौडा, गोपीपुरा, सूरत - 395001 (गुजरात)
8. सूरत (गुजरात)
1 आचार्य श्री विजय चन्द्रोदय सूरीश्वरजी म सा
2 आचार्य श्री विजय अशोक चन्द्र सूरीश्वरजी म सा
आदि ठाणा (16)
सम्पर्क सूत्र - श्री श्वे मूर्ति जैन उपाश्रय, जैन देरासर,
उत्तम स्ट्रीट, सदैड रोड, सूरत - 395002
(गुजरात)
9. नवाडीसा (गुजरात)
1 आचार्यश्री जयचन्द्र सूरीश्वरजी म सा
2 श्री हर्ष विजयजी म सा
आदि ठाणा (5)
सम्पर्क सूत्र - श्री श्वेतावर जैन मूर्तिपूजक देरासर
जैन उपाश्रय, मु पो नवाडीसा,
जिला - बनासकाण्ठा (गुजरात)
10. अहमदाबाद - पालडी (गुजरात)
आचार्य श्री विजय किर्ती सूरीश्वरजी म सा
आदि ठाणा (2)
सम्पर्क सूत्र -
11. कोचीन (केरल)
आचार्य श्री विजय नयप्रभ सूरीश्वरजी म सा
आदि ठाणा (4)
सम्पर्क सूत्र - Shri Svetambar Jain Temple,
Jain Upasray 1 P O Kochine 682002
(KERALA)
12. बम्बई - मीरारोड (महाराष्ट्र)
आचार्यश्री विनय विशालसन सूरीश्वरजी म सा "विाट"
आदि ठाणा (2)
13. योग्य स्थल (राजस्थान)
उपाध्याय श्री विनोद विजयजी म सा
14. अहमदाबाद - पालडी (गुजरात)
पन्यास श्री अजीतचन्द्र विजयजी म सा
आदि ठाणा (2)
सम्पर्क सूत्र - श्री जैन श्वे देरासर उपाश्रय,
वीतराग सोसायटी, पी टी ठकर कालेज रोड,
पालडी अहमदाबाद 380007 (गुजरात)
15. बम्बई - दौलतनगर (महाराष्ट्र)
पन्यास श्री श्रेयांत विजयजी म सा आदि ठाणा (2)
सम्पर्क सूत्र - श्री शंखेश्वर पार्श्वनाथ जैन मंदिर,
जैन मंदिर रोड, दौलतनगर, बोरीवली (पूर्व)
बम्बई - 400 066 (महाराष्ट्र) ☎ 805 8144
16. कपडवज (गुजरात)
पन्यास श्री कुन्दकुन्द विजयजी म सा
आदि ठाणा (3)
सम्पर्क सूत्र - श्री मीठाभाई गुलावचद जैन उपाश्रय,
मु पो कपडवज, जिला - खेडा (गुजरात) 386720
17. अहमदाबाद (गुजरात)
पन्यास श्री शीलचन्द्र विजयजी म सा
आदि ठाणा (6)
सम्पर्क सूत्र - श्री श्वे मूर्तिपूजक जैन उपाश्रय,
ओपेरा सोसायटी, पालडी
अहमदाबाद - 380007 (गुजरात)
18. सूरत (गुजरात)
पन्यास श्री दान विजयजी म सा
आदि ठाणा (3)
सम्पर्क सूत्र - श्री श्वे मूर्तिपूजक जैन उपाश्रय,
मथुरा गेट, कैलाश नगर, नानपुरा, सूरत
(गुजरात) 395001
19. भावनगर (गुजरात)
पन्यासश्री चन्द्रसेन विजयजी म सा आदि ठाणा (3)

सम्पर्क सूत्र - श्री गोडीजी पार्श्वनाथ जैन मंदिर
वोरा वाजार भावनगर (गुजरात) 364001

20. लिम्बडी (गुजरात)

पन्यास श्री धर्मध्वज विजयजी म.सा
आदि ठाणा (3)

सम्पर्क सूत्र - श्री श्वे. मूर्ति जैन उपाश्रय,
लिम्बडी जिला सुरेन्द्र नगर (गुजरात) 363421

21. आगासी तीर्थ-विरार (बम्बई) (महाराष्ट्र)

पन्यास श्री प्रभाकर विजयजी म सा.
आदि ठाणा (4)

सम्पर्क सूत्र - श्री समवसरण जैन मंदिर, पार्श्वनगर
चाल पेठ, मेन रोड, मु.पो आगासी तीर्थ,
वाया विरार, जिला ठाणा (महाराष्ट्र)

22. भावनगर - कृष्णनगर (गुजरात)

पन्यास श्री प्रद्युम्न विजयजी म सा
आदि ठाणा (2)

सम्पर्क सूत्र - श्री श्वेतांबर मूर्तिपूजक, जैन देरासर,
जैन उपाश्रय, कृष्ण नगर, डायमड चौक के पास,
भावनगर (गुजरात) 364001

23. मोरवी (गुजरात)

पन्यास श्री हिंकार सूरीश्वरजी म सा
आदि ठाणा (3)

सम्पर्क सूत्र - श्री श्वे. मूर्तिपूजक जैन उपाश्रय,
दरवार गढ मु पो. मोरवी जिला राजकोट
363641 (गुजरात)

24. महुवा (भावनगर) (गुजरात)

पन्यास श्री स्थूलभद्र विजयजी म सा
आदि ठाणा (2)

सम्पर्क सूत्र - श्री श्वेतांबर मूर्तिपूजक, जैन देरासर
जैन उपाश्रय, मु पो. महुवा जिला - भावनगर
(गुजरात)

25. लिम्बडी (गुजरात)

पन्यास श्री सिंह सेन विजयजी म.सा आदि ठाणा (4)
सम्पर्क सूत्र - श्री श्वेतांबर मूर्तिपूजक, जैन देरासर
नूतन जैन उपाश्रय, राधनपुरी बाजार,
भावनगर - 364001 (गुजरात)

26. जामनगर (गुजरात)

पन्यास श्री पुंडरिक विजयजी म.सा. आदि ठाणा (4)
सम्पर्क सूत्र - श्री मोहन विजय पाठशाला माडवी
टावर रोड, जामनगर (गुजरात) 361004

27. बड़ौदा (गुजरात)

गणि श्री रत्न प्रभ विजयजी म.सा. आदि ठाणा (2)
सम्पर्क सूत्र - श्री श्वेतांबर मूर्तिपूजक जैन देरासर
जैन उपाश्रय, कारेली बाग, बड़ौदा (गुजरात)

28. अहमदाबाद (गुजरात)

प्रवर्तक श्री निरजन विजयजी म सा.
आदि ठाणा (2)
सम्पर्क सूत्र - श्री वर्धमान श्वेतांबर मूर्तिपूजक
जैन देरासर, जैन उपाश्रय, चौकसी पार्क,
जीवराज पार्क, अहमदाबाद - 380051
(गुजरात)

29. बिल्लीमोरा (गुजरात)

गणि श्री वाचस्पति विजयजी म सा
आदि ठाणा (1)
सम्पर्क सूत्र - श्री श्वेतांबर मूर्तिपूजक, जैन देरासर
जैन उपाश्रय, मु.पो बिल्लीमोरा,
जिला - बलसाड (गुजरात)

30. जामनगर (गुजरात)

श्री महायश विजयजी म.सा
आदि ठाणा (3)
सम्पर्क सूत्र - श्री श्वेतांबर मूर्तिपूजक जैन देरासर
जैन मंदिर, देववाग,
जामनगर (गुजरात) 361001

- सम्पर्क सूत्र – जैन उपाश्रय अठवा गेट, दिवाली बाग,
मु.पो. सूरत – 395001 (गुजरात)
21. पाटन (गुजरात)
पन्यास श्री निरंजन सागरजी म.सा. आदि ठाणा (4)
सम्पर्क सूत्र – सागर उपाश्रय कुमारीया वाडो,
मणियाली पाडो, धीमटो, मु.पो. पाटन
384265 (उत्तर गुजरात)
22. रतलाम (मध्य प्रदेश)
गाणि श्री जिनरत्न सागरजी म सा. आदि ठाणा (4)
सम्पर्क सूत्र – श्री श्वे मूर्ति जैन संघ
गुजरात उपाश्रय, मु.पो. रतलाम
(म.प्र.) 457001
23. जामनगर (गुजरात)
श्री अरुणोदय सागरजी म.सा. आदि ठाणा
सम्पर्क सूत्र – लक्ष्मी आश्रम, देवबाग,
मु.पो. जामनगर 361001 (गुजरात)
24. पालीताणा (गुजरात)
श्री अमरेन्द्र सागरजी म.सा. आदि ठाणा (2)
सम्पर्क सूत्र – जैन आगम मंदिर, तळेटी रोड,
पालीताणा – 364270 (गुजरात) (सौराष्ट्र)
25. आलोट (मध्य प्रदेश)
श्री जय धोष सागरजी म.सा. आदि ठाणा
सम्पर्क सूत्र – जैन उपाश्रय, गांधी रोड,
मु.पो. आलोट वाया रतलाम (मध्य प्रदेश)
26. सूरत (गुजरात)
श्री नन्दीबेण सागरजी म.सा. आदि ठाणा (2)
सम्पर्क सूत्र – जैन उपाश्रय, नेनूभाई की वाडी के पिछे
गोपीपुरा, सूरत – 395001 (गुजरात)
27. राजगढ़ (धार) (मध्य प्रदेश)
श्री नित्यवर्धन सागरजी म.सा. आदि ठाणा (2)
- सम्पर्क सूत्र – जैन उपाश्रय, जवाहर मार्ग,
मु.पो. राजगढ़ (धार) जिला धार
(मध्यप्रदेश) 454436
28. हिम्मतनगर (गुजरात)
श्री सुधर्म सागरजी म.सा. आदि ठाणा
सम्पर्क सूत्र – जैन उपाश्रय मु.पो. हिम्मत नगर,
जिला बनास कांठा (गुजरात) 383001
29. सूरत (गुजरात)
श्री पूर्णानन्द सागरजी म.सा. आदि ठाणा (2)
सम्पर्क सूत्र – जैन उपाश्रय, नानपुरा,
सूरत – 395001 (गुजरात)
30. पालनपुर (गुजरात)
श्री नरचन्द्र सागरजी म.सा. आदि ठाणा (2)
सम्पर्क सूत्र – नूतन जैन उपाश्रय, खोडा लिमडा,
मु.पो. पालनपुर जिला बनासकांठा
(गुजरात) 385001
31. अहमदावाद (गुजरात)
श्री कीर्ति वर्धन सागरजी म.सा. आदि ठाणा (2)
सम्पर्क सूत्र – देवास अपार्टमेंट्स
अहमदावाद (गुजरात)
32. इन्दौर (मध्य प्रदेश)
श्री अपूर्व सागरजी म.सा. आदि ठाणा (2)
सम्पर्क सूत्र – श्री श्वे. मूर्ति जैन संघ, अर्वूदा जैन संघ,
जैन मन्दिर उपाश्रय, पिपली बाजार,
इन्दौर – 452002 (म.प्र.)
33. सुखेड़ा (मध्य प्रदेश)
श्री मुक्ति रत्न सागरजी म.सा. आदि ठाणा
सम्पर्क सूत्र – श्री जैन उपाश्रय जैन श्री संघ
मु.पो. सुखेड़ा, जिला रतळाम (मध्य प्रदेश)
34. चाणस्मा (गुजरात)
श्री रत्न शेखर सागरजी म.सा. आदि ठाणा (2)

- सम्पर्क सूत्र - श्री श्वे मूर्ति जैन उपाश्रय, जैन दरभार पर्वी,
मु पो चागम्ना जिला महेशाना (गुजरात)
- 35 बनकोडा (राजस्थान)
श्री कुशल सागरजी म सा आदि ठाणा (3)
सम्पर्क सूत्र - जैन उपाश्रय मु पो बन कोडा
जिला डूंगरपुर (राजस्थान) 314023
- 36 जामनगर (गुजरात)
श्री दीपराल सागरजी म सा आदि ठाणा
सम्पर्क सूत्र - वीशा श्रीमती पाठशाला
मु पो जामनगर, (गुजरात) 362001
- 37 बम्बई (नवजीवन सोसायटी)
श्री गुणचन्द्र सागरजी म सा आदि ठाणा (2)
सम्पर्क सूत्र - श्री श्वे मूर्ति जैन सघ,
17/1 नवजीवन सासायटी, लेमिटेन रोड,
बम्बई - 400008 (महाराष्ट्र)
- 38 वाकानेर (गुजरात)
श्री कल्पपुण्य सागरजी म सा आदि ठाणा (4)
सम्पर्क सूत्र - श्री जैन उपाश्रय मु पो वाकानेर,
वाया धानगढ जिला सुरेन्द्र नगर 363621
(गुजरात)
- साध्वीयोंजी समुदाय**
- (1) स्व साध्वी श्री शिव श्री जी म सा एव
साध्वी श्री तिलक श्री जी म सा का परिवार
- 1 अहमदावाद (गुजरात)
साध्वी श्री रेवनी श्री जी म सा आदि ठाणा
सम्पर्क सूत्र - विमलनाथ सोसायटी 1 वी, बापूनगर
अहमदावाद - 380024 (गुजरात)
- 2 सूरत (गुजरात)
साध्वी श्री मृगेन्द्र श्री जी म सा आदि ठाणा
सम्पर्क सूत्र - लिमडा का नूतन उपाश्रय, माली फलीया,
गोपीपुरा, सूरत 395001 (गुजरात)
- 3 अहमदावाद (गुजरात)
साध्वी श्री निरुपमा श्री जी म सा आदि ठाणा
सम्पर्क सूत्र - त्वातिक अषाटमेटस 1 माला, बहाई सेंटर
खानपुर अहमदावाद - 380001 (गुजरात)
- 4 सूरत (गुजरात)
साध्वी श्री निर्जरा श्री जी म सा आदि ठाणा
सम्पर्क सूत्र - श्री धनाजी का उपाश्रय, आंतवाल मोहला,
गोपीपुरा सूरत - 395001 (गुजरात)
- 5 पाटन (गुजरात)
साध्वी श्री सुलशा श्री जी म सा आदि ठाणा
सम्पर्क सूत्र - चपा वाई का उपाश्रय, तम्बोली वाडो,
धी वटो मु पा पाटन (उत्तर गुजरात)
- 6 अहमदावाद (गुजरात)
साध्वी श्री मनोज्ञा श्री जी म सा आदि ठाणा
सम्पर्क सूत्र - पाजरापाल मेहा के रूपर
रिलिफ रोड, अहमदावाद (गुजरात)
- 7 अहमदावाद - पालढी (गुजरात)
साध्वी श्री राजेन्द्र श्री जी म सा आदि ठाणा
सम्पर्क सूत्र - लक्ष्मी वर्धक सोसायटी, विहार प्लेट,
पालढी, अहमदावाद - 380007 (गुजरात)
- 8 अहमदावाद - कालपुर रोड (गुजरात)
साध्वी श्री सुशीला श्री जी म सा आदि ठाणा
सम्पर्क सूत्र - जहापनाह की पोत, जैन उपाश्रय
कालपुर रोड अहमदावाद - (गुजरात) 380001
- 9 जोरावर नगर (गुजरात)
साध्वी श्री सुतारा श्री जी म सा आदि ठाणा
सम्पर्क सूत्र - जैन उपाश्रय मु पा जोरावर नगर
वाया सुरेन्द्र नगर (गुजरात)
- 10 मूरत (गुजरात)
साध्वी श्री सुयशा श्री जी म सा आदि ठाणा
सम्पर्क सूत्र - अमरी वाई का उपाश्रय, गोपीपुरा,
सूरत - 395001 (गुजरात)

11. अहमदावाद - पालडी (गुजरात)

साध्वी श्री निरंजना श्री जी म.सा. आदि ठाणा
सम्पर्क सूत्र - जैन नगर नया आगम मंदिर रोड,
पालडी अहमदावाद (गुजरात)

12. सूरत (गुजरात)

साध्वी श्री गुणोदय श्री जी म.सा. आदि ठाणा
सम्पर्क सूत्र - माली फलिया, लीमडा का नूतन-
जैन उपाश्रय, गोपीपुरा, सूरत-395001 (गुज.)

13. अहमदावाद (गुजरात)

साध्वी श्री नित्यानंद श्री जी म सा. आदि ठाणा
सम्पर्क सूत्र - आयविल खाता ऊपर जैन उपाश्रय
साबरमति, रामनगर, अहमदावाद-380005 (गुज.)

14. खंभात (गुजरात)

साध्वी श्री सुरेन्द्र श्री जी म सा. आदि ठाणा
सम्पर्क सूत्र - पायचन्द्र गच्छ का उपाश्रय
तीन दरवाजा. मु पो. खभात,
जिला खेडा (गुजरात) 388620

15. बीसनगर (गुजरात)

साध्वी श्री सुजेष्ठा श्री जी म.सा. आदि ठाणा (5)
सम्पर्क सूत्र - जैन उपाश्रय मु.पो बीसनगर
जिला मेहसाना (गुजरात)

16. पालीताणा (गुजरात)

साध्वी श्री शुभंकरा श्री जी म.सा. आदि ठाणा
सम्पर्क सूत्र - श्रमणी विहार, साडेराव भवन के पिछे,
तलेटी रोड, पालीताणा (गुजरात) 364270

17. जामनगर (गुजरात)

साध्वी श्री मोक्षानंदा श्री जी म.सा. आदि ठाणा
सम्पर्क सूत्र - विशा श्री माली मोटा उपाश्रय
लाल बाग, जामनगर (गुजरात)

18. सूरत (गुजरात)

साध्वी श्री मनोगुप्ता श्री जी म.सा. आदि ठाणा
सम्पर्क सूत्र - लीमडा नूतन उपाश्रय, माली फलीया,
गोपीपुरा सूरत - 395001 गुजरात

19. अहमदावाद (गुजरात)

साध्वी श्री अभ्युदया श्री जी म.सा. आदि ठाणा
सम्पर्क सूत्र - जैन उपाश्रय, आंयबिल खाता उपर,
नवरंग पुरा, अहमदावाद - 380009 (गुजरात)

20. पालीताणा (गुजरात)

साध्वी श्री भाग्योदया श्री जी म.सा. आदि ठाणा
सम्पर्क सूत्र - श्रमणी विहार, शत्रुंजय होस्पिटल के पीछे
तलेटी रोड, पाली ताणा (गुजरात) 364270

21. अहमदावाद (गुजरात)

साध्वी श्री मृदुला श्री जी म.सा. आदि ठाणा
सम्पर्क सूत्र - तीर्थरजन विहार, बहाई सेटर
शाहपुर, अहमदावाद - 380001 (गुजरात)

22. सुरेन्द्र नगर (गुजरात)

साध्वी श्री रत्नत्रया श्री जी म.सा. आदि ठाणा
सम्पर्क सूत्र - श्री कुंथुनाथ जैन देरासर,
सर्वोदय सोसायटी, सुरेन्द्र नगर (गुज.) 363001

23. पालीताणा (गुजरात)

साध्वी श्री धर्मोदय श्री जी म.सा आदि ठाणा
सम्पर्क सूत्र - श्रमणी विहार धर्म शाला, तलेटी रोड,
पालीताणा - (सोराष्ट्र) (गुजरात) 364270

24. पालीताणा (गुजरात)

साध्वी श्री सुशीमा श्री जी म.सा. आदि ठाणा
सम्पर्क सूत्र - ओसवाल यांत्रिक गृह, रुम नं. 4,
तलेटी रोड, पालीताणा (गुजरात) 364270

25. इन्दौर - पिपली बाजार (मध्य प्रदेश)

साध्वी श्री तत्त्वरुपा श्री जी म सा. आदि ठाणा
सम्पर्क सूत्र - सुन्दर वाई महिलाश्रम, पिपली बाजार
इन्दौर - 452002 (मध्य प्रदेश)

26. अहमदाबाद (गुजरात)

साध्वी श्री समरसा श्री जी म.सा.
साध्वी श्री पूर्णानन्द श्री जी म.सा. आदि ठाणा
सम्पर्क सूत्र -

- 27 बम्बई - (गवालिया टेक) (महाराष्ट्र)
साध्वी श्री केवल्य श्री जी म सा आदि ठाणा
सम्पर्क सूत्र - जैन मंदिर, जैन उपाश्रय,
गावालिया टैंक आगस्त वांति मैदान
बम्बई - 400036 (महाराष्ट्र)
- 28 पूना - (आदिनाथ सोसायटी) (महाराष्ट्र)
साध्वी श्री भव्यानंद श्री जी म सा आदि ठाणा
सम्पर्क सूत्र - श्री आदिनाथ जैन श्रे मूर्ति सभ,
जैन उपाश्रय, आदिनाथ सोसायटी,
पूना सतारा रोड, पूना - 411037 (महाराष्ट्र)
- 29 पालीताणा (गुजरात)
साध्वी श्री चारु व्रता श्री जी म सा आदि ठाणा
सम्पर्क सूत्र - श्रमणी विहार धर्मशाला, तलेटी रोड,
पालीताणा (सौराष्ट्र) गुजरात - 364270
- 30 बम्बई - (नवजीवन सोसायटी) (महाराष्ट्र)
साध्वी श्री पशमना श्री जी म सा आदि ठाणा
सम्पर्क सूत्र - नवजीवन सोसायटी, जैन उपाश्रय,
लेमिस्टन रोड, बम्बई - 400008 (महाराष्ट्र)
- 31 बम्बई - पायधुनी (महाराष्ट्र)
साध्वी श्री प्रशम वर्षा श्री जी म सा आदि ठाणा
सम्पर्क सूत्र - श्री गोडीजी जैन मंदिर, पायधुनी,
कीका स्ट्रीट के नाके पर, बम्बई - 400003
- 32 बम्बई - भायखला (महाराष्ट्र)
साध्वी श्री प्रशमरत्ना श्री जी म सा आदि ठाणा
सम्पर्क सूत्र - श्री जैन उपाश्रय, अरिहत टावर,
टी वी कदम मार्ग भायखला गुडस् के सामने,
भायखला बम्बई - 400027 (महाराष्ट्र)
- 33 नागेश्वर (राजस्थान)
साध्वी श्री कुसुम श्री जी म सा आदि ठाणा
सम्पर्क सूत्र - श्री नागेश्वर तीर्थ पेढी मु पो नागेश्वर,
उन्हेल जिला भालावाड (राजस्थान) 326515
- 34 नागेश्वर तीर्थ (राजस्थान)
साध्वी श्री धैर्यता श्री जी म सा आदि ठाणा
सम्पर्क सूत्र - श्री नागेश्वर तीर्थ पेढी मु पो नागेश्वर,
उन्हेल जिला भालावाड (राजस्थान) 326515
- 35 गुजरात मे योग्य स्वयं (गुजरात)
1 साध्वी श्री महेन्द्र श्री जी म सा
2 साध्वी श्री कल्पना श्री जी म सा आदि ठाणा
- 36 धागघा - (गुजरात)
साध्वी श्री पदम रक्षा श्री जी म सा आदि ठाणा
सम्पर्क सूत्र - ककावरी पोषण शाला महाशिला मन्दिर,
के पास मु पो धागघा जिला सुरेन्द्र नगर
(गुजरात) 363310
- 37 पालीताणा (गुजरात)
साध्वी श्री करुण्योदय श्री जी म सा आदि ठाणा
सम्पर्क सूत्र - वल्लभ विहार धर्मशाला
तलेटी रोड, पालीताणा (गुजरात) 364270
- 38 हुयली (कर्नाटक)
साध्वी श्री हेम प्रभा श्री जी म सा आदि ठाणा
सम्पर्क सूत्र - Shri Marudhar Jain Sangh
Kachagar Gali P O HUBLI
Dish Dharwar (Karnataka) 580028
- 39 इन्दौर (मध्यप्रदेश)
साध्वी श्री सूर्योदयाश्रीजी म सा आदि ठाणा
सम्पर्क सूत्र - जैन उपाश्रय, तोपखाना जैल रोड,
इन्दौर - 452002 (मध्यप्रदेश)
- 40 सूरत (गुजरात)
- साध्वी श्री समगुणाश्रीजी म सा आदि ठाणा
सम्पर्क सूत्र - शांति विला अपार्टमेंटस,
1 ला भाला काजी मैदान, गोपीपुरा
सूरत - 395001 (गुजरात)
- 41 कटोसण रोड (गुजरात)
साध्वी श्री सुमुणाश्रीजी म सा
आदि ठाणा

- सम्पर्क सूत्र - जैन उपाश्रय, मु.पो. कटोसण रोड,
जिला मेहसाणा (गुजरात)
42. सूरत (गुजरात)
साध्वीश्री विनयधर्माश्रीजी म.सा आदि ठाणा
सम्पर्क सूत्र - जैन उपाश्रय, छापरीया शेरी,
महिधरपुरा, सूरत - 395001 (गुजरात)
43. बिंछिया (गुजरात)
साध्वी श्री प्रिय धर्माश्रीजी म सा. आदि ठाणा
सम्पर्क सूत्र - जैन उपाश्रय, मु पो बिछिया
वाया - जसदण (सौराष्ट्र) (गुजरात)
44. अहमदाबाद (गुजरात)
साध्वीश्री जयरेखाश्रीजी म.सा. आदि ठाणा
सम्पर्क सूत्र - जैन उपाश्रय, जवेरी पार्क,
रेल्वे क्रोसिंग के पास, अहमदाबाद - 380013
(गुजरात)
45. अहमदाबाद (गुजरात)
साध्वीश्री हितज्ञाश्रीजी म.सा. आदि ठाणा
सम्पर्क सूत्र - नूतन जैन उपाश्रय, वहाई सेटर
खानपुर, अहमदाबाद - 380001 (गुजरात)
46. अहमदाबाद (गुजरात)
साध्वीश्री विनितयशाश्रीजी म.सा आदि ठाणा
सम्पर्क सूत्र - श्री लालभाई पारेख का बंगला,
एलीजब्रीज, अहमदाबाद (गुजरात)
47. अहमदाबाद - साबरमती (गुजरात)
साध्वीश्री महानन्दाश्रीजी म.सा आदि ठाणा
सम्पर्क सूत्र - जैन उपाश्रय, रामनगर, साबरमति
अहमदाबाद - 380005 (गुजरात)
48. नवसारी (गुजरात)
साध्वीश्री मोहजीताश्रीजी म.सा. आदि ठाणा
सम्पर्क सूत्र - जैन उपाश्रय, रायचंद रोड,
मु.पो नवसारी, जिला बलसाड
(गुजरात) 396445
49. जोधपुर (राजस्थान)
साध्वीश्री हिलेदयाश्रीजी म.सा. आदि ठाणा
सम्पर्क सूत्र - भेरुबाग जैन उपाश्रय,
सरदारपुरा 'ए' रोड, जोधपुर - 342001
(राजस्थान)
50. अहमदाबाद (गुजरात)
साध्वीश्री तत्त्वत्रयाश्रीजी म.सा. आदि ठाणा
सम्पर्क सूत्र - सेठ राजेन्द्रकुमार का बंगला,
खानपुर बहाई सेटर, अहमदाबाद -
380001 (गुजरात)
51. बांसवाडा (राजस्थान)
साध्वीश्री शशीप्रभाश्रीजी म.सा. आदि ठाणा
सम्पर्क सूत्र - जैन उपाश्रय, श्वेतांबर जैन मंदिर,
मु पो. बांसवाडा (राजस्थान)
52. बम्बई-प्रार्थना समाज (महाराष्ट्र)
साध्वीश्री प्रशमशीलाश्रीजी म.सा आदि ठाणा
सम्पर्क सूत्र - श्री चन्द्रप्रभू स्वामी जैन देरासर,
राजाराम मोहनराय मार्ग, प्रार्थना समाज,
बम्बई - 400 004 (महाराष्ट्र)
53. खिमाणा (गुजरात)
साध्वीश्री विरतीयशाश्रीजी म.सा. आदि ठाणा
सम्पर्क सूत्र - जैन उपाश्रय, मु.पो खिमाणा
जिला - मेहसाणा (गुजरात)
54. पालीताणा (गुजरात)
1) साध्वी श्री दमिताश्रीजी म.सा.
2) साध्वीश्री विनय प्रभाश्रीजी म.सा. आदि ठाणा
सम्पर्क सूत्र - राजेन्द्र भुवन, धर्मशाला, तलेटी रोड
पालीताणा (सौराष्ट्र) (गुजरात) 364270
55. सीतामऊ (मध्यप्रदेश)
साध्वीश्री गुणज्ञाश्रीजी म.सा आदि ठाणा
सम्पर्क सूत्र - श्वेतांबर जैन उपाश्रय, जैन मंदिर,
मु.पो. सीतामऊ जिला - मन्दसौर (मध्यप्रदेश)

- 88 पालीताणा (गुजरात)
साध्वीश्री तिलक श्रीजी म सा आदि ठाणा
सम्पर्क सूत्र - उपरोक्त अनुसार (गिरिविहार)
- 89 पालीताणा (गुजरात)
साध्वीश्री यशोधराश्रीजी म सा आदि ठाणा
सम्पर्क सूत्र - श्रमणी विहार पालीताणा (गुजरात)
- 90 कपडवज (गुजरात)
साध्वीश्री निरुपमाश्रीजी म सा आदि ठाणा
साध्वीश्री शुबोद्याश्रीजी म सा आदि ठाणा
सम्पर्क सूत्र - उपरोक्त क्रमांक 84 अनुसार
- 91 पालीताणा (गुजरात)
साध्वीश्री कनक प्रभाश्रीजी म सा आदि ठाणा
सम्पर्क सूत्र - हजारी निवास धर्मशाला, तलेटी रोड,
पालीताणा (गुजरात) 364270
- 92 अहमदाबाद (गुजरात)
साध्वीश्री अमितगुणाश्रीजी म सा आदि ठाणा
सम्पर्क सूत्र - नाथीश्रीका उपाश्रय, पतासाकी पोत,
अहमदाबाद (गुजरात) 380001
- 93 पालीताणा (गुजरात)
साध्वीश्री आत्मप्रभाश्रीजी म सा आदि ठाणा
सम्पर्क सूत्र - उपरोक्त क्रमांक 91 अनुसार
- 94 रिटोई (गुजरात)
साध्वीश्री विपुल यशाश्रीजी म सा आदि ठाणा
सम्पर्क सूत्र - जैन उपाश्रय, वाणीया शेरी,
मु पो रिटोई, जिला - बनासकाण (गुजरात)
- 95 विजयनगर (आन्ध्रप्रदेश)
साध्वीश्री चन्द्रयशाश्रीजी म सा आदि ठाणा
सम्पर्क सूत्र - Shri Pushpkrishna Kothan
Opp Jain Bhawan Akash Vidhu
Vijay Nagar (A P) 531201
- 96 नवसारी (गुजरात)
साध्वी श्री आत्मानन्दश्रीजी म सा आदि ठाणा
- सम्पर्क सूत्र - जैन उपाश्रय, रायचन्द्र रोड,
मु पो नवसारी जिला - बलसाड
(गुजरात) 396445
- 97 अमरोली (गुजरात)
साध्वीश्री हेमप्रभाश्रीजी म सा आदि ठाणा
सम्पर्क सूत्र - जैन उपाश्रय,
श्रीवासूपूज्य स्वामी जैन मंदिर के पास,
मु पो अमरोली, जिला सूरत (गुजरात)
- 98 बम्बई - (अधेरी) (महाराष्ट्र)
साध्वीश्री आत्मज्ञाश्रीजी म सा आदि ठाणा
सम्पर्क सूत्र - धर्मकृपा विल्डिग, जूना नागरदास रोड,
अधेरी (पूर्व) बम्बई - 400069 (महाराष्ट्र)
- 99 पालीताणा (गुजरात)
साध्वीश्री शुभकराश्री जी म सा आदि ठाणा
सम्पर्क सूत्र - श्रमणी विहार तलेटी रोड, पालीताणा
(गुजरात) 364270
- 100 जामनगर (गुजरात)
साध्वी श्री लावण्याश्रीजी म सा आदि ठाणा
सम्पर्क सूत्र - जैन उपाश्रय, मोरारवाग
जामनगर, (गुजरात) 36001
- 101 पालीताणा (गुजरात)
साध्वीश्री हिरण्यश्रीजी म सा आदि ठाणा
सम्पर्क सूत्र - गिरि विहार धर्मशाला, तलेटी रोड,
पालीताणा (गुजरात) 364270

| | | | |
|----------------------------|-----|---------------|-----|
| कुल चातुर्मास मुनिराजा के | 37 | कुल मुनिराज | 115 |
| कुल चातुर्मास साध्वीयों के | 106 | कुल साध्वीयों | 688 |
| | | कुल 143 | 803 |

कुल चातुर्मास (143) मुनिराज (115) साध्वीयों (688)
कुल ठाणा (803)

साधु-साध्वीया पद तालिका 1993

| क्रमांक | पद | 1992 | 1993 | विशेष |
|-----------------|------------|------|------|----------------------------------|
| 1 | गच्छाधिपति | 1 | 1 | पूर्वानुसार |
| 2 | आचार्य | 8 | 13 | 5 उपाध्यायो को आचार्य बनाया गया |
| 3 | पन्यास | 7 | 9 | दो गणि को पन्यास बनाया गया। |
| 4 | उपाध्याय | 6 | 2 | एक गणि को नया उपाध्याय बनाया गया |
| 5 | गणि | 2 | 1 | एक नया गणि बनाया |
| 6 | मुनिराज | 110 | 115 | - |
| 7 | साध्वीयों | 683 | 688 | संख्या अनुमानित 1992 अनुसार |
| साधु साध्वी कुल | | 794 | 803 | |

- नोट (1) नई दीक्षा एवं कालधर्म की सूची प्राप्त नहीं होने के कारण तुलनात्मक तालिका नहीं दे सके।
 (2) साध्वीयो के ठाणाओ की किसीकी भी संख्या ज्ञात नहीं हो सकी यहा जो संख्या दी है वह गत वर्षकी सूची की संख्या के अनुसार अनुमान से ही दी है।
 3) दो पन्यास एव कुछ मुनियोके बारे मे जानकारी ज्ञात नहीं हो सकी।
 4) समुदाय की जैन पत्रिकाए - कोई नहीं

जैन समाज पीछे क्यों?

- एम.एम.एस. जैन मद्रास

1 शिक्षा के क्षेत्र मे हम पिछे हुऐ है। 2 जैनो का कोई एक नेता नहीं है। 3 हमार कोई एक धर्म ग्रन्थ नहीं है। 4 अवकाश दिवस को राष्ट्रीय क्षेत्र मे मान्यता नहीं है 5 जैनो का कोई न्याय ग्रन्थ नहीं है। 6 जैनो का महापर्व सवत्सरी हक ही है।

पूज्य साधु साध्वीजीओने
कोटी कोटी वदन

Phone : Shop 3889256, 385 32 85

DREAMLAND STORES

Specialist In:
**READYMADE GARMENTS
& MEN'S WEAR**

165-167, Raja Ram Mohan
Roy Road, Opp. Ram Mohan
High School, Prathna Samaj,
Bombay - 400 004.

Date:

* शुभेच्छुक *

एम. के शाह 卐 जयेश एम. शाह
(भचाऊ वाला)
मुंबई

- 9 मध्यप्रदेश मे योग्य स्थान
श्री यतीन्द्र मुनिजी म सा आदि ठाणा (1)
- 10 बाकलिया - बडगाव (राजस्थान)
श्री बलभद्र विजयजी म सा आदि ठाणा (2)
सम्पर्क सूत्र - जैन उपाश्रय,
जैन मंदिर, मु पो बाकलिया - बडगाव,
जिला - जालौर (राजस्थान)
- 11 बम्बई - पायधुनी (महाराष्ट्र)
श्री राजचन्द्र विजयजी म सा आदि ठाणा (1)
सम्पर्क सूत्र - श्री आदिश्वर जैन धर्मशाला, पायधुनी
विजय वल्लभ चौक, बम्बई - 400 002 (महाराष्ट्र)
- 12 पालीताणा (गुजरात)
श्री काति विजययी म सा आदि ठाणा (2)
सम्पर्क सूत्र - जैन उपाश्रय, गिरिराज सोसायटी,
कच्ची भवन के पास, पालीताणा (सौराष्ट्र)
(गुजरात) 364270
- साध्वीयॉजी समुदाय**
- 13 दिओदर (गुजरात)
साध्वी श्री सरस्वती श्री जी म सा आदि ठाणा (8)
सम्पर्क सूत्र - जैन उपाश्रय, मु पो दिओदर
जिला बनासकाठ (गुजरात)
- 14 तलेगाव (डमढेरे) (महाराष्ट्र)
साध्वीश्री चन्द्रोदयाश्री जी म सा आदि ठाणा (7)
सम्पर्क सूत्र - श्री सुपाश्र्वनाथ जैन मंदिर
मु पो तलेगाव (डमढेरे) तालूका शिहर
जिला - पूना (महा) 412208
- 15 सूरत (गुजरात)
साध्वी श्री प्रसन्नप्रभाश्रीजी म सा आदि ठाणा (6)
सम्पर्क सूत्र - जैन उपाश्रय, मारवाडी मोहल्लो,
नानपुरा - सूत - 395002 (गुजरात)
- 16 मडार (राजस्थान)
साध्वी श्री पदमरेखाश्रीजी म सा आदि ठाणा (3)
सम्पर्क सूत्र - जैन उपाश्रय, मु पो मडार
वाया आवू रोड जिला सिरौही (राजस्थान)
- 17 दाठा (गुजरात)
साध्वी श्री रत्नकालाश्रीजी म सा आदि ठाणा (3)
सम्पर्क सूत्र - जैन उपाश्रय, मु पो दाठा
जिला भावनगर (गुजरात)
- 18 सूरत (गुजरात)
साध्वी श्री कीर्तिप्रभाश्रीजी म सा आदि ठाणा (6)
सम्पर्क सूत्र - मोटी देसाई पोत, सोनी फलीयु गोपीपुरा
सूरत 395001 (गुजरात)
- 19 पाटन (गुजरात)
साध्वी श्री प्रिययशाश्रीजी म सा आदि ठाणा (5)
-
सम्पर्क सूत्र - जैन उपाश्रय, खेतवशी मु पो पाटन
(उत्तर गुजरात)
- 20 पाटन (गुजरात)
साध्वी श्री स्नेहलताश्रीजी म सा आदि ठाणा (9)
सम्पर्क सूत्र - मारफतीया बहिनोका पाडो, गोल शेरी,
श्री जयतीभाई प्रोफेसर के मकान मे,
मु पा पाटन (उ गुजरात)
- 21 सिहोरी (गुजरात)
साध्वी श्री शारदपूर्णाश्रीजी म सा आदि ठाणा (2)
सम्पर्क सूत्र - जैन उपाश्रय, मु पो सिहोरी
तालूका काँकरेज जिला बनासकाठ (गुजरात)
- 22 पालीताणा (गुजरात)
साध्वी श्री इन्द्रपूर्णाश्रीजी म सा आदि ठाणा (2)
सम्पर्क सूत्र - केशर निवास धर्मशाळा रुम न 4
श्री विकाश्रम के सामने, तलेटी रोड,
पालीताणा (गुजरात) 364270

23. सिरोही (राजस्थान)
साध्वीश्री मंजुलाश्रीजी म.सा. आदि ठाणा (2)
सम्पर्क सूत्र - ओसवाल महिला जैन उपाश्रय,
सिंधीयो का वास, मु.पो. सिरोही (राजस्थान)
24. उदयपुर (राजस्थान)
साध्वीश्री सुदर्शनाश्रीजी म.सा. आदि ठाणा (9)
सम्पर्क सूत्र - अजीतनाथ जैन धर्मशाला,
मालदास स्ट्रीट, उदयपुर (राजस्थान) 313001
25. पालीताणा (गुजरात)
साध्वीश्री सयमपूर्णाश्रीजी म.सा. आदि ठाणा (4)
सम्पर्क सूत्र - हर्षविहार गिरिराज सोसायटी,
कच्छी भुवन के पिछे, तलेटी रोड,
पालीताणा, (गुजरात) 364270
26. नागपुर (महाराष्ट्र)
साध्वीश्री पदमप्रभाश्रीजी म.सा. आदि ठाणा (4)
सम्पर्क सूत्र - तपोगच्छ जैन उपाश्रय, इतवारी बाजार
गुलाब साव गली नागपुर - 440002
(महाराष्ट्र)
27. कुवाला (गुजरात)
साध्वीश्री शीलगुणाश्रीजी म.सा. आदि ठाणा (3)
सम्पर्क सूत्र - जैन उपाश्रय, मु.पो. कुवाला,
तालुका दिओदर, जिला - बनासकांठा (गुजरात)
28. धानेरा (गुजरात)
साध्वीश्री किर्तीपूर्णाश्रीजी म.सा. आदि ठाणा (3)
सम्पर्क सूत्र - जैन उपाश्रय, पारसनाथ सोसायटी,
मु.पो. धानेरा वाया नवा डीसा (गुजरात)
29. खीमत (गुजरात)
साध्वीश्री चारित्रपूर्णाश्रीजी म.सा. आदि ठाणा (6)
सम्पर्क सूत्र - जैन उपाश्रय, मु.पो. खीमत
जिला बनासकांठा (गुजरात)
30. पाटन (राजस्थान)
साध्वीश्री गुणदक्षाश्रीजी म.सा. आदि ठाणा (4)
सम्पर्क सूत्र - जैन उपाश्रय, खेतरवशी,
मु.पो. पाटन (उत्तर गुजरात)
31. छोटी सादडी (राजस्थान)
साध्वीश्री सुमलयाश्रीजी म.सा. आदि ठाणा (3)
सम्पर्क सूत्र - जैन उपाश्रय, जैन मंदिर, मु.पो. छोटी
सादडी, जिला - चित्तौडगढ़
(राजस्थान)
32. भीलडीयाजी (गुजरात)
साध्वीश्री शीलभद्राश्रीजी म.सा. आदि ठाणा (2)
सम्पर्क सूत्र - श्री शंखेश्वर पार्श्वनाथ जैन मंदिर,
स्टेशन रोड, मु.पो. भीलडीयाजी,
जिला बनासकांठा (गुजरात)
33. सिरोही (राजस्थान)
साध्वीश्री कल्पकला श्रीजी म.सा. आदि ठाणा (2)
सम्पर्क सूत्र - पोरवाल जैन उपाश्रय,
मु.पो. सिरोही, (राजस्थान)
34. नाडोल (राजस्थान)
साध्वीश्री प्रभाश्रीजी म.सा. आदि ठाणा (1)
सम्पर्क सूत्र - जैन उपाश्रय, मु.पो. नाडोल
जिला - सिरोही (राजस्थान)
35. जावाल (राजस्थान)
साध्वीश्री भद्रपूर्णाश्रीजी म.सा. आदि ठाणा (2)
सम्पर्क सूत्र - जैन उपाश्रय, मु.पो. जावाल,
जिला सिरोही (राजस्थान)
36. महेसाणा (गुजरात)
साध्वी श्री भव्यपूर्णाजी म.सा. आदि ठाणा (4)
सम्पर्क सूत्र - जैन उपाश्रय, आजाद रोड,
मु.पो. महेसाणा (गुजरात)
37. सांठबा (गुजरात)
साध्वीश्री महिमा श्रीजी म.सा. आदि ठाणा (1)
सम्पर्क सूत्र - जैन उपाश्रय, मु.पो. सांठबा
जिला सावरकांठा (गुजरात)

साधु-साध्वीया पद तालिका 1993

| क्रमांक | पद - | 1992 | 1993 | विशेष |
|---------|-----------------|------|------|----------------------------------|
| 1 | गच्छाधिपति | 1 | 1 | यथावत |
| 2 | आचार्य | 6 | 5 | एक आचार्य कालधर्म प्राप्त हुऐ |
| 3 | पन्थास | 1 | 1 | यथावत |
| 4 | गणि | 1 | 2 | ज्ञात नहीं |
| 5 | मुनिराज | 24 | 27 | |
| 6 | साध्वीयों | 190 | 197 | - |
| 7 | साधु-साध्वी कुल | 224 | 224 | |

- नोट (1) इस समुदाय एक आचार्य श्री अशोक चन्द्रसूरीजी म सा एव तीन साध्वीयोका महाप्रयाण हुआ एव एक साध्वीजी नई दीक्षा सम्पन्न हुइ।
- (2) मुनिराज 6 एव साध्वीयों 9 के बारेमे जानकारीया ज्ञात नहीं हो सकी।
- 3 जैन पत्र-पत्रिकाए - नरी

पूज्य साधु-साध्वीओने कोटी कोटी वन्दन

Phone 388 9256 / Shop 385 3285

Dreamland Stores

Specialists in
Readymade Garments & Men's Wear

165-167 Raja Ram Mohan Roy Road,
Opp Ram Mohan High School,
Prathna Samaj,
Bombay 400 004

5

पंजाब केशरी, युगवीर आचार्य प्रवर श्रीमद् विजय
वल्लभ सूरीश्वरजी म.सा. का समुदाय

वर्तमान में समुदाय के प्रमुख गच्छाधिपति:-
गच्छाधिपति परमार क्षत्रियोद्धारक, जिन शासन प्रभावक, मधुर वक्ता,
आचार्य प्रवर श्रीमद् विजय इन्द्रदन् -सूरीश्वरजी म.सा.

कुल चातुर्मास (62) मुनिराज (52) साध्वीयोंजी (215) कुल ठाणा (267)

साधु-मुनिराज समुदाय

1 पालीताणा (गुजरात)

1. जैन दिवाकर, परमार क्षत्रियोद्धारक, जिन
शासन प्रभावक, मधुर वक्ता, गच्छाधिपति
आचार्य प्रवर श्रीमद् विजय इन्द्रदिन्न
सूरीश्वरजी म.सा.

2 आचार्य प्रवर श्री विजय जगच्चन्द्र सूरीश्वरजी म.सा.
3. उपाध्याय श्री बसंत विजयजी म.सा.
4 पन्यास श्री विरेन्द्र विजयजी म.सा.

आदि ठाणा (22)

सम्पर्क सूत्र - श्री सौधर्म निवास जैन धर्मशाला,
तलेटी रोड, पालीताणा (सौराष्ट्र)
जिला - भावनगर (गुजरात) 364270

2. पालनपुर (गुजरात)

1. आचार्य श्री विजय जनकचन्द्र सूरीश्वरजी म.सा.
2. श्रुतभास्कर श्री धर्मधुरंधर विजयजी म.सा.

आदि ठाणा (4)

सम्पर्क सूत्र - श्री तपागच्छ जैन उपाश्रय, गढामण गेट,
हनुमान शेरी, पालनपुर - 385001
जिला - बनासकांठा (गुज.)

3. बम्बई - ठाणा (महाराष्ट्र)

आचार्य श्री विजय रत्नाकर सूरीश्वरजी म.सा.

आदि ठाणा (3)

सम्पर्क सूत्र - श्री मुनिसुव्रत स्वामी जैन देरासर,
आत्मवल्लभ उपाश्रय, टेम्बी नाका,
ठाणा (महाराष्ट्र) 400602

4. नागौर (राजस्थान)

आचार्य श्री विजय नित्यानंद सूरीश्वरजी म.सा.

आदि ठाणा (5)

सम्पर्क सूत्र - जैन उपाश्रय, बोरावाडी
मु.पो. नागौर - 304101 (राजस्थान)

5. सूरतगढ़ (राजस्थान)

पन्यास श्रीजयंत विजयजी म.सा. आदि ठाणा (2)
सम्पर्क सूत्र - श्री पार्श्वनाथ जैन श्वेतांबर मंदिर
जैन उपाश्रय, पुराना बाजार, मु.पो सूरतगढ़
जिला - श्री गंगानगर 335804 (राज.)

6. सादड़ी मारवाड (राजस्थान)

श्री राम विजयजी म.सा. आदि ठाणा (2)

सम्पर्क सूत्र - श्री जैन न्याती नोहरा
मु.पो. सादड़ी - मारवाड - 306702

जिला पाली (राजस्थान)

7. गोल उम्मेदावाद (राजस्थान)

श्री हरिहर विजयजी म.सा. आदि ठाणा (1)

सम्पर्क सूत्र - श्री जैन उपाश्रय,
मु.पो. गोल उम्मेदावाद

जिला - जालौर (राजस्थान)

- 8 वडौद (गुजरात)
श्री चन्द्रोदय विजयजी म सा आदि ठाणा
सम्पर्क सूत्र - 25 कृपा सोसायटी, मार्जलपुर रोड,
तालवाग, मु पो वडौदा (गुजरात) 390001
- 9 अम्बाला शहर (हरियाणा)
श्री जितेन्द्र विजयजी म सा आदि ठाणा
सम्पर्क सूत्र - श्री वल्लभ निकेतन,
हलवाई बाजार,
मु पो अम्बाला शहर (हरियाणा) 134001
- 10 लुधियाना (पंजाब)
श्री नयचन्द्र विजयजी म सा आदि ठाणा
सम्पर्क सूत्र - श्री आत्मानन्द जैन सभा,
श्री महावीर भवन, पुराना बाजार,
मु पो लुधियाना (पंजाब) 141008
- 11 हिम्मतनगर (गुजरात)
श्री भद्रबाहु विजयजी म सा आदि ठाणा
सम्पर्क सूत्र - श्री जैन उपाश्रय,
मु पो हिम्मतनगर (गुजरात)
- 12 गोपरा (गुजरात)
श्री गौतम विजयजी म सा आदि ठाणा
सम्पर्क सूत्र - श्री जैन उपाश्रय,
शान्ती नगर जैन देरासर,
मु पा गपरा 369001 (गुजरात)
- साध्वीयोंजी समुदाय
- 13 पालीताणा (गुजरात)
(अलग अलग सिंघाडोमे कुल 24 सिंघाडो)
1 प्रवर्तिनी साध्वी श्री विद्या श्रीजी सा
आदि ठाणा (5)
2 साध्वीश्री चरणश्रीजी म सा आदि ठाणा (2)
3 साध्वीश्री हेमेश्रीजी म सा आदि ठाणा (2)
4 साध्वी श्री कान्ताश्रीजी म सा आदि ठाणा (11)
- 5 साध्वी श्री सुशीमाश्रीजी म सा आदि ठाणा (3)
6 साध्वीश्री चितरंजन श्रीजी म सा आदि ठाणा (6)
7 साध्वीश्री कमल प्रभाश्रीजी म सा
आदि ठाणा (10)
8 साध्वीश्री जगतश्रीजी म सा आदि ठाणा (5)
9 साध्वीश्री पदमलताश्रीजी म सा आदि ठाणा (7)
10 साध्वीश्री निर्मलाश्रीजी म सा आदि ठाणा (6)
11 साध्वीश्री जितज्ञाश्रीजी म सा आदि ठाणा (6)
आदि कुल ठाणा (103)
सम्पर्क सूत्र - श्री सौर्यम निवास जैन धर्म शाला
तलेटी रोड, पालीताणा (सौराष्ट्र)
जिला भावनगर (गुजरात) 364270
- 14 वडौदा (गुजरात)
प्रवर्तिनी साध्वीश्री विनिताश्रीजी म सा आदि ठाणा (7)
सम्पर्क सूत्र - श्री महिला जैन उपाश्रय, जनी शेरी,
घडियाली पोत, मु पो वडौदा,
(गुजरात) 390001
- 15 अहमदाबाद (गुजरात)
साध्वीश्री सुधर्माश्रीजी म सा आदि ठाणा (5)
सम्पर्क सूत्र - श्री श्रेष्ठ का उपाश्रय, रतनपोत,
वाघन पाल, मु पो अहमदाबाद
(गुजरात) 390001
- 16 बर्वाई - वार्डेन रोड (महाराष्ट्र)
साध्वीश्री ओमकार श्रीजी म सा आदि ठाणा (5)
सम्पर्क सूत्र - श्री वासुपूज्य स्वामी जैन संघ उपाश्रय,
उमर पार्क, वार्डेन रोड, बम्बई - 4000036
(महाराष्ट्र)
- 17 अहमदाबाद (गुजरात)
साध्वीश्री सुभद्राश्रीजी म सा आदि ठाणा (2)
सम्पर्क सूत्र - जैन उपाश्रय, लुणसावाडी, मोटी पोत,
मु पो अहमदाबाद (गुजरात) 380001
- 18 अहमदाबाद - साधरमती (गुजरात)
साध्वीश्री सुज्ञान श्रीजी म सा आदि ठाणा (3)

- सम्पर्क सूत्र - श्री आत्मवल्लभ समुद्र स्वाध्याय मंदिर
चिंतामणि पार्श्वनाथ मंदिर के पीछे, राम नगर,
सांबरमती, मु.पो. अहमदाबाद - 380005
(गुजरात)
19. पालनपुर (गुजरात)
साध्वीश्री चन्द्रोदयाश्रीजी म.सा. आदि ठाणा (8)
सम्पर्क सूत्र - जैन उपाश्रय, हनुमान शेरी,
मोटा देरासर के सामने, मु.पो. पालनपुर
जिला - बनासकांठा (गुजरात) 385001
20. जंबुसर (गुजरात)
प्रवर्तनी साध्वीश्री वीरेन्द्रश्रीजी म.सा. आदि ठाणा (5)
सम्पर्क सूत्र - जैन उपाश्रय, श्रावक पोल,
मु.पो. जंबुसर, जिला - भरुच (गुजरात)
21. बम्बई - गोरगांव (महाराष्ट्र)
साध्वीश्री सुमतिश्रीजी म.सा. आदि ठाणा (4)
सम्पर्क सूत्र - श्री राजस्थान जैन हॉल, आरे रोड,
गोरगाव (वेस्ट), बम्बई (महाराष्ट्र) 400 062
22. सूरत (गुजरात)
साध्वीश्री अभयश्रीजी म.सा. आदि ठाणा (5)
सम्पर्क सूत्र - श्री महायशा आराधना भवन,
आगम अपार्टमेन्ट्स, तीन बत्ती,
मु.पो. गोपीपुरा सूरत (गुजरात) 395002
23. अम्बाला शहर (हरियाणा)
साध्वी श्री रंजनश्रीजी म.सा. आदि ठाणा (6)
सम्पर्क सूत्र - आत्मानन्द जैन सभा,
जैन उपाश्रय, हलवाई बाजार
मु.पो. अम्बाला शहर (हरियाणा) 134001
24. लुधियाना (पंजाब)
साध्वीश्री सुव्रताश्रीजी म.सा. आदि ठाणा (3)
सम्पर्क सूत्र - श्री आत्मानन्द जैन सभा,
श्री महावीर भवन, पुराना बाजार
मु.पो. लुधियाना (पंजाब) 141008
25. नागौर (राजस्थान)
साध्वीश्री सुमंगलाश्रीजी म.सा. आदि ठाणा (2)
सम्पर्क सूत्र - तपागच्छ जैन उपाश्रय, बोरावाड़ी,
मु.पो. नागौर (राजस्थान) 304 001
26. भुज-कच्छ (गुजरात)
साध्वीश्री दर्शनाश्रीजी म.सा. आदि ठाणा (3)
सम्पर्क सूत्र - जैन उपाश्रय, मोटा डेला, वाणिया वास,
तपागच्छ जैन बहनो का उपाश्रय,
मु.पो. भुज कच्छ (गुजरात) 370001
27. बम्बई दहीसर (महाराष्ट्र)
साध्वीश्री नरेन्द्रश्रीजी म.सा. आदि ठाणा (4)
सम्पर्क सूत्र - श्री शांतीनाथ जैन देरासर,
स्टेशन के पास, मु.पो. दहिसर (वेस्ट)
बम्बई - 400 068 (महाराष्ट्र)
28. कड़ोद (गुजरात)
साध्वीश्री चन्द्रयशश्रीजी म.सा. आदि ठाणा (3)
सम्पर्क सूत्र - श्री जैन उपाश्रय, सोनी बुलिया
मु.पो. कड़ोद तालुका - बारडोली,
जिला - सूरत (गुजरात)
29. बम्बई - चेम्बूर (महाराष्ट्र)
साध्वीश्री शीलपूर्णाश्रीजी म.सा. आदि ठाणा (3)
सम्पर्क सूत्र - श्री ऋषभदेवजी जैन देरासर,
10 वा रास्ता, चेम्बूर नाका, बम्बई 400 071 (महाराष्ट्र)
30. ताल (मध्यप्रदेश)
साध्वीश्री चन्दनबालाश्रीजी म.सा. आदि ठाणा (3)
सम्पर्क सूत्र - जैन उपाश्रय, सदर बाजार
मु.पो. ताल - 457118 जिला - रतलाम (मध्यप्रदेश)
31. बम्बई - मझगांव (महाराष्ट्र)
साध्वीश्री सुविरतिश्रीजी म.सा. आदि ठाणा (3)
सम्पर्क सूत्र - 103/1 सुमेर टावर, 108 शेठ मोतीशा रोड़,
मझगांव, बम्बई - 400 010 (महाराष्ट्र)

32 अजमेर (राजस्थान)

साध्वीश्री अमृतप्रभाश्रीजी म सा आदि ठाणा (3)
सम्पर्क सूत्र - श्री आत्मवल्लभ जैन उपागच्छ का बड़ा उपाश्रय
लाखनकोटडी, मु पो अजमेर (राजस्थान)
305001 C/O 23935 32897 24075

| | | | |
|---------------------------|----|-----------------|-----|
| कुल चातुर्मास मुनिराजो के | 12 | कुल मुनिराज | 52 |
| कुल चातुर्मास साध्वीयोके | 50 | कुल साध्वीयोंकी | 215 |
| कुल | 62 | | 267 |

33 कुचेरा (राजस्थान)

साध्वीश्री कुसुम प्रभाश्रीजी म सा आदि ठाणा (3)
सम्पर्क सूत्र - जैन उपाश्रय, मु पा कुचेरा,
जिला - नागौर (राजस्थान)

| | |
|---|----------------|
| कुल चातुर्मास (62) मुनिराज (52) साध्वीयोंकी (215) | कुल ठाणा (267) |
|---|----------------|

34 बिलाडा (राजस्थान)

साध्वीश्री चन्द्रयशाश्रीजी म सा आदि ठाणा (2)
सम्पर्क सूत्र - जैन उपाश्रय, मु पो बिलाडा
जिला - जोधपुर (राजस्थान)

साधु-साध्वीया पद तालिका 1993

| क्रमांक | पद | 1992 | 1993 | दिग्गज |
|---------|-----------------|------|------|----------------------------------|
| 1 | गच्छाधिपति | 1 | 1 | यथावन |
| 2 | आचार्य | 2 | 5 | उपन्यास को आचार्य पद प्रदान |
| 3 | उपन्यास | | 1 | 1 पन्यासको उपाध्याय पद प्रदान |
| 4 | पन्यास | 5 | 2 | एक गणि को पन्यास पद प्रदान |
| 5 | गणि | - | 1 | रिक्त स्थान |
| 6 | प्रवर्तिनी | 2 | 2 | यथावत |
| 7 | मुनिराज | 47 | 52 | अनुमानित |
| 8 | साध्वीयों | 208 | 215 | |
| 9 | कुल साधु साध्वी | 256 | 267 | |

35 बम्बई - वर्ली (महाराष्ट्र)

साध्वीश्री कमल प्रभाश्रीजी म सा आदि ठाणा (3)
सम्पर्क सूत्र - पकज मेन्शन, बौद्ध मंदिर के पिछ
वारी, बम्बई - 400 018 (महाराष्ट्र)

36 जयपुर (राजस्थान)

साध्वीश्री देवेन्द्रश्रीजी म सा आदि ठाणा (2)
सम्पर्क सूत्र - श्री आत्मानन्द जैन सभा भवन
धी वालो का रास्ता, जोहरी बाजार,
जयपुर - 302003 (राजस्थान)

37 खेरालु (गुजरात)

साध्वीश्री लक्ष्मणाश्रीजी म सा आदि ठाणा (3)
सम्पर्क सूत्र - जैन देरासर पेटी, मु पो खेरालु,
वाया-विसनगर, जिला - महेशाणा (गुजरात)

38 जोधपुर (राजस्थान)

साध्वीश्री सुशीला श्रीजी म सा आदि ठाणा
सम्पर्क सूत्र - श्री लखारा धर्मशाला, लखारा बाजार
मु पो जोधपुर (राजस्थान) 342001

39 बीकानेर (राजस्थान)

साध्वीश्री पूर्णप्रज्ञाश्रीजी म सा आदि ठाणा
सम्पर्क सूत्र - जैन उपाश्रय कोचरो का चोक
मु पो बीकानेर (राजस्थान) 334001

- नोट 1 नई दीक्षा एव काल धर्म की सूची प्राप्त नहीं होने से तुलनात्मक तालिका प्रगट नहीं कर सके।
2 कई मुनिराजो एव साध्वीया के आदि ठाणाओ की सख्या ज्ञात नहीं हो सकी इस कारण कुल योग की सख्या गत वर्ष की सूची के अनुमान से ही दी गयी है।
3 इस वर्ष तीन पन्यास को आचार्य पद एक पन्यास को उपाध्याय पद एव एक गणि को पन्यास पद प्रदान किया गया। गणि एव प्रवर्तक का पद खाली है।

- 4 सम्पूर्ण भारत के समग्र जैन समाज मे इस वर्ष एक ही स्थान पर एक ही समुदाय के सर्वाधिक 25 सिघांडो का चातुर्मास इसी समुदाय मे हो रहे है जो इस वर्ष का एक सर्वाधिक रिकार्ड है। लगभग 22 मुनिराज एवं 103 साध्वीया कुल ठाणा 125 का चातुर्मास पालीताणा मे आचार्य श्री के सानिध्यमे हो रहा है द्वितीय स्थान श्वे. तेरापथी समुदाय का राजसदेसर (राज.) का आत है।
- 5 यदि सूची मे पूरे सभी ठाणाओ की सख्या आजाती सम्पर्क सूत्र मे पिन कोड नम्बर एवं

फोन नम्बर आ जाता हो यह सूची बहुत अच्छी एव महत्व की बन जाती लेकिन कोई हमारी विनती को सुनता ही नहीं है अगर सम्पर्क सूत्र मे फोन नम्बर एवं पिन-कोड नम्बर हो तो काम आसान हो जाता है। आज कल फोन का जमाना है फोन नम्बर पते मे लिखना जरुरी है। कभी भी काम आजाते है। आशा है सभी समुदाय इस ओर अवश्व ध्यान देगे

— सपादक

हार्दिक शुभेच्छा

CREATIVE PAGE SETTERS

PHOTO TYPE SETTERS, PRINTERS & PUBLISHERS.

Specialist in: Books, Magazines, Balance Sheet,
Annual Reports, & Vasti Patrak

Laser Typesetting in: Eng, हिन्दी, गुजराती & मराठी

34, COWASJI PATEL STREET,
LAKHANI TERRACE, 1ST FLOOR, FORT, BOMBAY - 400001
TEL : OFF 22 57 84

यह बुक के कंपोज़ीटर और पेजसेटर—



CREATIVE
PAGE SETTERS

नानेशाचाय महान है, तप सयम गुण धान ।
ऐसे सुनानी आचार्य को, मेरे अनेक प्रणाम् ॥

समता विभूति, समीक्षण ध्यान योगी, परम पूज्य गुरुदेव आचार्य प्रवर श्री नानालालजी म सा आदि ठाणाओं के
देशनोत्र (राजस्थान) मे एव मरुधर सिंहनी विदुषी महासती श्री नानूकुवरजी म सा आदि ठाणाओ का जलगांध
(महाराष्ट्र) मे सन 1993 का चामति पान, दशन, चारित्र एव तप की आराधनाओ से ओत-प्रोत यशस्वी
बनने की मंगल वासनाएं करते हुए—

हाविक शुभकामनाओं सहित—

सुरेन्द्र दस्सानी

| | |
|-----------------|--|
| कायकारिणी सदस्य | —दि बम्बई डायमण्ड मर्चेण्ट एसासियेशन |
| मत्री | —श्र भा साधुमार्गी जैन समता युवा सभ, रतताम |
| कीयाध्यक्ष | —समता चैरीटिवल ट्रस्ट, बम्बई |
| सस्थापक | —वीकानेर ओसवाल मित्र मण्डल, बम्बई |
| सहमत्री | —साधुमार्गी जैन सभ, बम्बई |

फोन — ऑफिस-3860652, 3862915

निवास-354612, 3886575

P. P. JAIN & CO.

Mfg Exporters - Importers of Diamonds
901, MEJESTIC SHOPPING CENTRE, 9th FLOUR

244, Girgaon Road, J S Road,
BOMBAY-400004

— वीकानेर प्रतिष्ठान —

दीपचन्द दस्सानी एण्ड सन्स

प्रेमसुखदास प्रतापमल

सरफा बाजार, वीकानेर (राजस्थान)-334001 फोन न-28034

6

योगनिष्ठ आचार्य प्रवर श्रीमद बुद्धि सागर सूरीश्वरजी
म. सा. का समुदाय

वर्तमान में समुदाय के प्रमुख गच्छाधिपति :- गच्छाधिपति,
प्रखर वक्ता, शासन प्रभावक, आचार्य प्रवर श्रीमद सुबोध
सागर सूरीश्वरी जी म.सा.

कुल चातुर्मास (31) मुनिराज (48) साध्वीयॉजी (9) कुल ठाणा (145)

मुनिराज-समुदाय

1. बीजापुर (गुजरात)

1. गच्छाधिपति, प्रखर वक्ता, शासन प्रभावक,
आचार्य प्रवर श्रीमद सुबोधसागर सूरीश्वरजी म.सा.
2. आचार्य श्री दुर्लभसागर सूरीश्वरजी म.सा.
3. आचार्य श्री मनोहरकीर्ति सागर सूरीश्वरजी म.सा.
4. प्रवर्तक श्री यश कीर्ति सागर जी म.सा.

आदि ठाणा (12)

सम्पर्क सूत्र - श्रीमद बुद्धि सागर सूरी
जैन समाधि मंदिर, स्टेशन रोड,
मु.पो. बीजापुर, जिला-मेहसाणा
(उत्तर गुजरात) 382870
फोन नं. (STD 027637) 20209

2. अहमदाबाद-नारायणपुरा (गुजरात)

आचार्य श्री कल्याण सागर सूरीश्वरजी म.सा.
आदि ठाणा (2)

सम्पर्क सूत्र - श्री श्वे. मूर्ति जैन उपाश्रय.
श्री सिमंधरस्वामी जिनालय,
अंकुर सोसायटी, नारायणपुरा,
अहमदाबाद-380013 (गुजरात)

3. भीनमाल (राजस्थान)

1. आचार्य, राष्ट्रसंत, प्रखर वक्ता, तीर्थोद्धारक,
श्री पद्मसागर सूरीश्वरजी म.सा.

2. पन्यास श्री वर्धमान सागरजी म.सा.

3. गणि श्री अमृत सागर जी म.सा.

आदि ठाणा (14)

चातुर्मास स्थल :

श्री श्वेताम्बर तपागच्छ जैन उपाश्रय.
श्री महावीर स्वामी का मंदिर,
मु.पो. भीनमाल, जिला जालौर
(राजस्थान) - 343029

सम्पर्क सूत्र - श्री एस. एम. बाफना.

सूरज भवन, महावीर चौक, स्टेशन रोड,
मु.पो. भीनमाल, जिला - जालौर
(राजस्थान), पिन - 343029 फोन नं. 112.

4. अहमदाबाद - नवरंगपुरा (गुजरात)

आचार्य श्री भद्रसागर सूरीश्वरजी म.सा.
आदि ठाणा (2)

सम्पर्क सूत्र - श्री श्वे. मूर्ति जैन उपाश्रय.

श्री पुरिसादात्री पार्श्वनाथ जैन मंदिर,
देवकीनन्दन सोसायटी, नवरंगपुरा,
अहमदाबाद - 380009 (गुजरात)

5. जयपुर (राजस्थान)

उपाध्याय श्री धरणेन्द्र सागर जी म.सा.

आदि ठाणा (2)

- सम्पक सूत्र - श्री आत्मानन्द जैन सभा,
घी वालो का राम्ता, जोहरी बाजार,
जयपुर - 302003 (राजस्थान)
- 6 सूत्र (गुजरात)
पन्चास श्री सुदर्शन कीर्ति सागर जी म सा
आदि ठाणा (2)
सम्पक सूत्र - श्री मोहन लाल जा जैन उपाध्याय,
सुभाष चौक, गोपीपुरा,
सूत्र - 395 0002 (गुजरात)
- 7 भुजपुर - कच्छ (गुजरात)
प्रवर्तक श्री लावण्य सागर जी म सा
आदि ठाणा (2)
सम्पर्क सूत्र - श्री श्वे मूर्ति जैन उपाश्रय
मु पो भुजपुर - कच्छ (गुजरात)
- 8 बम्बई - मरीन ड्राईव (महाराष्ट्र)
पन्चास श्री कचन सागर जी म सा
आदि ठाणा (2)
सम्पक सूत्र - पाटण जैन मित्र मण्डल,
आराधना हॉल, 77 मरीन ड्राईव,
पाटण जैन मित्र मण्डल मार्ग,
बम्बई - 400 020 (महाराष्ट्र)
- 9 महेसाणा (गुजरात)
श्री नीति सागर जी म सा आदि ठाणा (2)
सम्पक सूत्र - श्री सीमधर स्वामी जैन तीर्थ
हाईवे राड, मु पो महेसाणा
(गुजरात) 384002.
- 10 विरमगाव (गुजरात)
श्री नीति सागर जी म सा आदि ठाणा (2)
सम्पर्क सूत्र - श्री श्वे मूर्ति जैन उपाश्रय
विरमगाव, जिला-अहमदाबाद (गुजरात)
- 11 कोवा - गाधीनगर (गुजरात)
श्री निवाण सागर जी म सा आदि ठाणा (2)
सम्पक सूत्र - श्री महावीर जैन आराधना केन्द्र
मु पो कोवा बाया गाधीनगर
(गुजरात) - 380001 फोन न हेमंत ब्रदर्स
अहमदाबाद 441444 406669
- 12 सिरौही (राजस्थान)
श्री निमल सागर जी म सा आदि ठाणा (2)
सम्पर्क सूत्र - श्री हीरसूरी जैन तपागच्छ उपाश्रय
मु पो सिरौही (राजस्थान)
- 13 निम्बज (सिरौही) (राजस्थान)
श्री विमल सागर जी म सा आदि ठाणा (2)
सम्पर्क सूत्र - श्री जैन श्वेताम्बर मूर्तिपूजक सव
मु पो निम्बज बाया दातारई स्टेशन
आरूरोड, जिला-सिरौही
(राजस्थान) 307512
- साध्वीयाँजी समुदाय
- 14 अहमदाबाद - जवेरीवाड (गुजरात)
साध्वी श्री जशवत श्री जी म सा
आदि ठाणा (8)
सम्पक सूत्र - आधली पाल उपाश्रय,
जवेरी वाड अहमदाबाद
(गुजरात) 380001
- 15 महेसाणा (गुजरात)
साध्वी श्री इन्द्र श्रीजी म सा आदि ठाणा (4)
सम्पर्क सूत्र - जैन उपाश्रय, सुधारा खाता की
पेढी, आजाद चौक, मु पो महेसाणा
(गुजरात) 384001
- 16 अहमदाबाद - नवरापुरा (गुजरात)
साध्वी श्री कुसुम श्रीजी म सा
आदि ठाणा (6)

- सम्पर्क सूत्र - जैन उपाश्रय, देवकी नंदन
सोसायटी, नवरंगपुरा, अहमदाबाद
(गुजरात) - 380009
17. अहमदाबाद ओढव (गुजरात)
साध्वी श्री बसंत श्रीजी म.सा.
आदि ठाणा (6)
सम्पर्क सूत्र - जैन उपाश्रय मु.पो. ओढव
जिला - अहमदाबाद (गुजरात)
18. पाटण (गुजरात)
साध्वी श्री पवित्र लता श्री जी म.सा.
आदि ठाणा (4)
सम्पर्क सूत्र - जैन उपाश्रय, डंख मेहता
का पाडा, घीमटो मु.पो. पाटन
जिला - बनासकांठा (गुजरात) - 384266
19. नारायणपुरा - अहमदाबाद (गुजरात)
साध्वी श्री संवेग श्री जी म.सा.
आदि ठाणा (3)
सम्पर्क सूत्र - जैन उपाश्रय मीरांविका स्कूल,
नारायणपुरा, अहमदाबाद, (गुजरात) 380013
20. अहमदाबाद - रतनपोल (गुजरात)
साध्वी श्री धर्मरत्न श्री जी म.सा.
आदि ठाणा (4)
सम्पर्क सूत्र : आंबली पोल जैन उपाश्रय,
जवेरी वाड, रतनपोल, अहमदाबाद
(गुजरात) 380001
21. पालीताणा (गुजरात)
साध्वी श्री सूर्यलता श्री जी म.सा.
आदि ठाणा (4)
सम्पर्क सूत्र - लावण्य विहार धर्मशाला,
तलेटी रोड, पालीताणा
(गुजरात) - 364270
22. भीनमाल (राजस्थान)
साध्वी श्री रत्नत्रया श्री जी म.सा.
आदि ठाणा (3)
सम्पर्क सूत्र - श्री एस. एम. बाफना.
सूरज भवन, महावीर चौक, स्टेशन रोड,
मु.पो. भीनमाल, जिला-जालौर,
राजस्थान पिन-3430329 फोन नं. 112
23. राजकोट (गुजरात)
साध्वी श्री स्नेहलता श्री जी म.सा.
आदि ठाणा (3)
सम्पर्क सूत्र - मणियार जैन देरासर जैन उपाश्रय,
मु.पो. राजकोट 360001 (गुजरात)
24. पाटण (गुजरात)
साध्वी श्री नयनप्रभा श्री जी म.सा.
आदि ठाणा (2)
सम्पर्क सूत्र - भाभानो पाडो-जैन उपाश्रय
मु.पो. पाटण (गुजरात)
25. वटवा - अहमदाबाद (गुजरात)
साध्वी श्री बिबोध श्री जी म.सा.
आदि ठाणा
सम्पर्क सूत्र - जैन आश्रम, महावीर नगर,
वटवा, अहमदाबाद (गुजरात) - 382440
26. जामनगर (गुजरात)
साध्वी श्री राजेन्द्र श्री जी म.सा. आदि ठाणा
सम्पर्क सूत्र - वीसा श्रीमाली तपागच्छ जैन
उपाश्रय, चांदी बाजार, लालवाग जामनगर
(गुजरात) 362001
27. महेसाणा (गुजरात)
साध्वी श्री सुमित्रा श्री जी म.सा.
आदि ठाणा (2)

- सम्पर्क सूत्र - जैन उपाश्रय, सुधारा खाता की पेटी, आजाद चौक, मु पो मेहसाणा (गुजरात) 384001
- 28 अहमदाबाद-ऐलीजब्रीज (गुजरात)
साध्वी श्री जयप्रभा श्री जी म सा
आदि ठाणा (6)
- सम्पर्क सूत्र - जैन उपाश्रय जैन सोसायटी प्रीतमनगर का पहला ढाल, ऐलिज ब्रीज, अहमदाबाद-380006(गुजरात)
- 29 पालीताणा (गुजरात)
साध्वी श्री कल्पेशीला श्री जी म सा
आदि ठाणा (2)
- सम्पर्क सूत्र - वल्लभ विहार, तलेटी रोड, पालीताणा (गुजरात) 364270
- 30 अहमदाबाद-ऐलिजब्रीज (गुजरात)
साध्वी श्री मजुला श्री जी म सा
आदि ठाणा (5)
- सम्पर्क सूत्र - जैन उपाश्रय, कल्याण सोसायटी, ऐजिल ब्रीज, अहमदाबाद-380006 (गुजरात)
- 31 बीजापुर (गुजरात)
साध्वी श्री तत्वगुणा श्री जी म सा
आदि ठाणा (6)
- सम्पर्क सूत्र - सागर श्रमणी विहार, गोथीआनो चौक, मु पो बीजापुर, जिता-मेहसाणा (गुजरात)

| | | | |
|---|---------|---------------|----------|
| कुल चातुर्मास मुनिराजो के | 13 | कुल मुनिराज | 48 |
| कुल चातुर्मास साध्वीयो के | 18 | कुल साध्वीयों | 97 |
| कुल | 31 | | 145 |
| कुल चातुर्मास (31) मुनिराज (48) साध्वीयोंजी (97) कुल ठाणा (145) | | | |
| साधु - साध्वी तुलनात्मक तालिका 1993 | | | |
| विवरण | मुनिराज | साध्वीयों | कुल ठाणा |
| 1992 मे कुल ठाणा थे | 52 | 97 | 149 |
| + नई दीक्षाए हुई | - | 1 | 1 |
| | 52 | 98 | 150 |
| कालधर्म प्राप्त हुए | - | 1 | 1 |
| | 52 | 97 | 149 |
| जानकारीया प्राप्त नही हुई | 4 | - | 4 |
| | 48 | 97 | 145 |
| 1993 मे कुल ठाणा है | 48 | 97 | 145 |


साधु साध्वी पद तालिका 1993

| क्र. पद | 1992 | 1993 | विशेष |
|--------------|------|------|--------------------------------------|
| 1 गच्छाधिपति | 1 | 1 | यथावत |
| 2 आचार्य | 6 | 6 | एक पन्यास आचार्य बने |
| 3 पन्यास | 4 | 3 | एक पन्यास उपाध्याय बने |
| 4 उपाध्याय | - | 1 | |
| 5 गणि | 1 | 1 | एक मुनि गणि बने |
| 6 प्रवर्तक | 7 | 2 | पांच प्रवर्तको की जानकारी ज्ञात नहीं |
| 7 मुनिराज | 52 | 48 | |
| 8 साध्वीयों | 97 | 97 | |
| कुल ठाणा | 145 | 145 | |

नोट -

- 1 पन्यास श्री सुभद्र सागर जी म.सा., चार अन्य मुनिराजो कुछ प्रवर्तको की जानकारी ज्ञात नहीं हो सकी इस कारण पद तालिका अधूरी रही है।
- 2 इस वर्ष एक साध्वी की नई दीक्षा हुई एवं एक साध्वी कालधर्म को प्राप्त हुई है।
- 3 साध्वीयो के कुछ सिंघाडो मे आदि ठाणाओ की संख्या ज्ञात नहीं हुई यहा कुल का जो जोड दिया है वह गत वर्ष के अनुमान से ही दिया गया है।
- 4 जैन पत्र पत्रिकाए - नहीं

SUNIL BAMB



Mohan Mill Compound, Ghodbandar Road,
Maji Wada Thane-400 607.
Office : 534 2141 : 534 0460 : 534 2169

जय अजरामर

जय मात्सा

जय आनंद

जय देवेन्द्र

तिम्बडी सम्प्रदाय के महान् मन्त्र परमभद्रेश्वरी श्री अजरामरजी ममा की सन्त-परम्परा के सन्त रत्न पूज्य माय मुनिजी ममा की प्रेरणा से महासती पूज्य रत्नमूषजी की प्रतिष्ठा, पू महा सुलोचनाबाई मसा की मुक्तिप्राप्ति पू महा वा द कविताबाई मसा, पू महा वा द विरतिबाई मसा, पू महा वा द छेवनाबाई मसा तथा पू महा वा द धराबाई मसा, ठाणे 4, का अहिंसा भवन, खार मा चातुर्मास ज्ञान, चरित्र, दान, तप की आराधना आदि सभी दृष्टियों से यशस्वी बने, यही शुभकामनाएँ।



पूज्य श्री काशीरामजी स. का उपदेश सार

कम खाओ

गम खाओ

नम जाओ

श्री पंजाब जैन भ्रातृ सभा

पूज्य काशीराम जैन स्मारक अहिंसा भवन,
अहिंसा मार्ग, (14-ए रास्ता), खार (पश्चिम)
बम्बई-400052 (महाराष्ट्र)

फोन 542509

7

तीर्थोद्धारक आचार्य प्रवर श्रीमद् विजय नीतिसूरीश्वर
जी म.सा. का समुदाय

वर्तमान में समुदाय के प्रमुख गच्छाधिपति :- गच्छाधिपति
आचार्य प्रवर श्री विजय अरिहंत सिद्ध सूरीश्वर जी
म.सा.

कुल चातुर्मास (87) मुनिराज (52) साध्वीयाँजी (383) कुल ठाणा (435)

मुनिराज-समुदाय

1. अहमदाबाद (गुजरात)

गच्छाधिपति आचार्य श्री विजय अरिहंत
सिद्ध सूरीश्वर जी म.सा. आदि ठाणा (4)

सम्पर्क सूत्र - डेहलानो उपाश्रय. दोशी वाडा
नी पोल, कालुपुर, अहमदाबाद
(गुजरात) 380 001

2. तवरी (राजस्थान)

आचार्य श्री विजय धर्म सूरीश्वर जी म.सा.
आदि ठाणा (4)

सम्पर्क सूत्र - जैन उपाश्रय. मु.पो. तवरी
जिला सिरोही (राजस्थान)

3. ऊण (कांकरेज) (गुजरात)

आचार्य श्री विजय हेमप्रभ सुरीश्वरजी म.सा.
आदि ठाणा (4)

सम्पर्क सूत्र - जैन उपाश्रय. मु.पो. ऊण तालूका
कांकरेज जिला-बनास कांठा
(गुजरात) 385060

4. अहमदाबाद (गुजरात)

पन्यास श्री सुबोध विजय जी म.सा.
आदि ठाणा

सम्पर्क सूत्र - भानुप्रभा जैन सेनेटेरियम,
रेल्वे गरनाला के पास, ऐलीज ब्रीज,
अहमदाबाद (गुजरात) 380006

5. अहमदाबाद - रायपुर (गुजरात)

श्री अनन्त भद्र विजयजी म.सा. आदि ठाणा
सम्पर्क सूत्र - जैन उपाश्रय. शामलानी पोल
रायपुर अहमदाबाद (गुजरात)

6. घानेरा (गुजरात)

श्री मणिप्रभ विजयजी म.सा. आदि ठाणा (3)
सम्पर्क सूत्र - जैन उपाश्रय. मु.पो. घानेरा
जिला बनासकांठा (गुजरात) - 385310

7. अहमदाबाद - माणेक चौक (गुजरात)

श्री ललित प्रभ विजयजी म.सा.
आदि ठाणा (3)

सम्पर्क सूत्र - जैन उपाश्रय, लुहारनी पोल.
माणेक चौक. अहमदाबाद
(गुजरात) 380001

8. मांडवला - (राजस्थान)

श्री रैवत विजय जी म.सा. आदि ठाणा (4)
सम्पर्क सूत्र - श्री रैवत विजय जी उपाश्रय
मु.पो. मांडवला जिला जालौर (राजस्थान)

9. गढ सिवाना (राजस्थान)

श्री राजतिलक विजय जी म.सा. आदि ठाणा (4)
सम्पर्क सूत्र - जैन उपाश्रय चैमुखा मंदिर के
पास. मु.पो. गढ सिवाना
जिला-बाडमेर (राजस्थान)

- 10 अहमदाबाद - साबरमति (गुजरात)
श्री तेजप्रभ विजयजी म सा आदि ठाणा (2)
सम्पर्क सूत्र - महावीर जैन आराधना भवन,
चादरवेडा नर्वेश्वर सोसायटी डी केविन,
साबरमति, अहमदाबाद (गुजरात) 380 005
- 11 पालीताणा (गुजरात)
श्री हस विजय जी म सा आदि ठाणा (2)
सम्पर्क सूत्र - हस्ती मोहन धर्मशाला,
साडेराव भुवन के पिछे, पालीताणा
(गुजरात) 364 270
- 12 काकीनाडा (आन्ध्र प्रदेश)
श्री अनन्त जिन विजयजी म सा आदि ठाणा
सम्पर्क सूत्र - Sri Keshrichand Mangilal
Jain Market Street P O KAKINADA. 533001 (A.P)
- 13 बढवाण शहर (गुजरात)
श्री हिरण्यप्रभ विजय जी म सा आदि ठाणा (2)
सम्पर्क सूत्र - लिम्बडावालो जैन उपाश्रय,
देरासर के पास, लाखू पोत,
मु पो बढवाण शहर जिला-सुरेन्द्रनगर
(गुजरात)
- 14 बीसलपुर (राजस्थान)
श्री देवेन्द्र विजय जी म सा आदि ठाणा (2)
सम्पर्क - जैन उपाश्रय मु पो विसलपुर स्टेशन
जवाई बाध जिला - सिरौही (राजस्थान)
- 15 पारसधाम - (राजस्थान)
श्री प्रवीण विजय जी म सा आदि ठाणा (2)
सम्पर्क सूत्र - जैन श्री सघ जैन उपाश्रय
मु पो पारस धाम श्री नाकोडाजी तीर्थ
के पास जिला बाडमेर (राजस्थान)
- 16 हिम्मत नगर (गुजरात)
श्री प्रमोद विजय जी म सा आदि ठाणा (2)
सम्पर्क सूत्र - जैन उपाश्रय हिम्मत नगर
जिला सावरकाठा (गुजरात)
- 17 चौहटन (राजस्थान)
श्री यशोहीर विजय जी म सा आदि ठाणा
सम्पर्क सूत्र - मेसर्स जोशी मेडीकल स्टोर्स
मु पो चौहटन जिला बाडमेर (राजस्थान)
- 18 गुजरात मे योग्य स्थळ
श्री विमल विजय जी म सा आदि ठाणा
साध्वीयॉजी समुदाय
- 19 अहमदाबाद - शाहपुर (गुजरात)
साध्वी श्री मणि श्री जी म सा आदि ठाणा (3)
सम्पर्क सूत्र - जैन उपाश्रय कुवावाली पोत
शाहपुर अहमदाबाद - 380 001 (गुजरात)
- 20 अहमदाबाद - गाधी रोड (गुजरात)
साध्वी श्री लावण्य श्री जी म सा
आदि ठाणा (14)
सम्पर्क सूत्र - सरकारी जैन उपाश्रय पतासा
पोत, गाधी रोड, अहमदाबाद
(गुजरात) 380001
- 21 अहमदाबाद - कालुपुर (गुजरात)
साध्वी श्री महानन्द श्री जी म सा
आदि ठाणा (14)
सम्पर्क सूत्र - जैन उपाश्रय कसूवाबाद,
दोशीवाडानी पोत, कालुपुर - दशा
पोरवाड सोसायटी, पालडी अहमदाबाद
(गुजरात) - 380 001
- 22 अहमदाबाद - पालडी (गुजरात)
साध्वी श्री नदीयशा श्री जी म सा आदि ठाणा
सम्पर्क सूत्र - दशा पोरवाड सोसायटी
पालडी अहमदाबाद - 380007
(गुजरात)
- 23 अहमदाबाद (गुजरात)
साध्वी श्री जयप्रभा श्री जी म सा
आदि ठाणा (7)

- सम्पर्क सूत्र - जैन उपाश्रय, सोमेश्वर,
अहमदाबाद (गुजरात)
24. पाटन (गुजरात)
साध्वी श्री चन्द्रकला श्री जी म.सा.
आदि ठाणा (5)-
सम्पर्क सूत्र - जैन उपाश्रय, कनासा नो पाडो,
मु.पो. पाटन जिला महेसाणा (गुजरात)
25. पाटन (गुजरात)
साध्वी श्री मृगलोचना श्री जी म.सा. आदि ठाणा
सम्पर्क सूत्र - नूतन जैन उपाश्रय, कनाशा
नो पाडो. मु.पो. पाटण जिला-महेसाणा
(गुजरात)
26. पाटण (गुजरात)
साध्वी श्री सुनितयशा श्री जी म.सा.
आदि ठाणा (8)
सम्पर्क सूत्र - आशीष सोसायटी.
मु.पो. पाटण जिला-महेसाणा (गुजरात)
27. दसाडा (गुजरात)
साध्वी श्री जयमाला श्री जी म. सा.
आदि ठाणा (5)
सम्पर्क सूत्र - जैन उपाश्रय मु.पो. दसाडा
जिला सुरेन्द्र नगर (गुजरात)
28. सरीयद (गुजरात)
साध्वी श्री महापदमा श्री म.सा. आदि ठाणा (3)
सम्पर्क सूत्र - जैन उपाश्रय. मु.पो. सरीयद,
तालूका-पाटण, जिला-महेसाणा (गुजरात)
29. विरमगांव (गुजरात)
साध्वी श्री प्रियकरा श्री जी म.सा.
आदि ठाणा (4)
सम्पर्क सूत्र - जीवी वाईनो उपाश्रय.
मोंटो भटवाडो मु. पो. विरमगांव
जिला-अहमदाबाद (गुजरात)
30. पालीताणा (गुजरात)
साध्वी श्री कनकप्रभा श्री जी म.सा.
आदि ठाणा (2)
सम्पर्क सूत्र - गिरिविहार धर्मशाला, तलेटी रोड,
पालीताणा (गुजरात) 364270
31. पालीताणा (गुजरात)
साध्वी श्री तरूण श्री जी म.सा.
आदि ठाणा (2)
सम्पर्क सूत्र - सांडेराव भुवन, तलेटी रोड.
पालीताणा (गुजरात) - 364270
32. पाटण (गुजरात)
साध्वी श्री स्नेहलता श्री जी म.सा.
आदि ठाणा (3)
सम्पर्क सूत्र - जैन उपाश्रय. मु.पो. पाटण
जिला महेसाणा (गुजरात)
33. पाटडी (गुजरात)
साध्वी श्री किरण माला श्री जी म.सा.
आदि ठाणा (4)
सम्पर्क सूत्र - जैन उपाश्रय. मु.पो. पाटडी,
जिला - सुरेन्द्र नगर (गुजरात)
34. भरूडिया (गुजरात)
साध्वी श्री जयशीला श्री जी म.सा.
आदि ठाणा (4)
सम्पर्क सूत्र - जैन उपाश्रय भरूडिया - कच्छ
जिला-भुज (गुजरात)
35. कांदिवली बम्बई (महाराष्ट्र)
साध्वी श्री नलीनीयशा श्री जी म.सा.
आदि ठाणा (2)
सम्पर्क सूत्र - श्री मुनिसुव्रत जैन देरासर,
भूलाभाई देसाई रोड, कांदिवली
(वेस्ट) बम्बई - 400 067 (महाराष्ट्र)

- 36 अहमदाबाद (गुजरात)
साध्वी श्री सुनन्दा श्री जी म सा
आदि ठाणा (4)
सम्पर्क सूत्र - जैन उपाश्रय, घाचीनी पोल
अहमदाबाद - 380 001 (गुजरात)
- 37 झंझूवाडा (गुजरात)
साध्वी श्री मनोहर श्री जी म सा
आदि ठाणा (7)
सम्पर्क सूत्र - जैन उपाश्रय मु पो झंझूवाडा
वाया विरमगाव जिला-अहमदाबाद
(गुजरात)
- 38 ऊण (गुजरात)
साध्वी श्री शुभकरा श्री जी म सा
आदि ठाणा (15)
सम्पर्क सूत्र - श्री श्वे मूर्ति जैन सघ
जैन उपाश्रय मु पो ऊण तालूका काकरेज
जिला बनासकाठा (गुजरात)
- 39 पाटण (गुजरात)
साध्वी श्री कैलाश श्री जी म सा आदि ठाणा
सम्पर्क सूत्र - उपरोक्त अनुसार
- 40 अहमदाबाद - सावरमति (गुजरात)
साध्वी श्री निर्मला श्री जी म सा आदि ठाणा
सम्पर्क सूत्र - जैन उपाश्रय, डी केवीन,
चादखेडा सावरमति, अहमदाबाद (गुजरात)
- 41 पालीताणा (गुजरात)
साध्वी श्री मोक्षयशा श्री जी म सा आदि ठाणा
सम्पर्क सूत्र - तखतगढ़ भुवन धर्मशाला,
तलेटी रोड, पालीताणा (गुजरात)
- 42 अहमदाबाद (गुजरात)
साध्वी श्री निर्मला श्री जी म सा
आदि ठाणा (6)
सम्पर्क सूत्र - जैन उपाश्रय, बावलीवी खाचो,
सामतानी पोल, अहमदाबाद (गुजरात)
- 43 भीनमाल (राजस्थान)
साध्वी श्री भास्वर यशा जी म सा
आदि ठाणा (6)
सम्पर्क सूत्र - जैन उपाश्रय नाहर होस्पीटल
के पास मु पो भीनमाल
जिला-जातीर (राजस्थान)
- 44 पालीताणा (गुजरात)
साध्वी श्री चारुयशा श्री जी म सा
आदि ठाणा (5)
सम्पर्क सूत्र - वल्लभ विहार धर्मशाला
तलेटीरोड पालीताणा (गुजरात) 364270
- 45 अहमदाबाद - सावरमति (गुजरात)
साध्वी नलिनीयशा श्री जी म सा
आदि ठाणा (2)
सम्पर्क सूत्र - जैन उपाश्रय, गीताजली नगर
49/50 जिनेश्वर सोसायटी डी केवीन,
सावरमति अहमदाबाद (गुजरात)
- 46 अहमदाबाद (गुजरात)
साध्वी श्री कैवत्यराला श्री जी म सा
आदि ठाणा (7)
सम्पर्क सूत्र - श्री सभवनाय नी चडकी
अहमदाबाद - 380001 (गुजरात)
- 47 अहमदाबाद माडवी पाल (गुजरात)
साध्वी श्री दशा श्री जी म सा आदि ठाणा (8)
सम्पर्क सूत्र - जैन उपाश्रय, सूदान सेटनी
पोल, माडवी पोल, अहमदाबाद
(गुजरात) 380 001
- 48 राधनपुर (गुजरात)
साध्वी श्री निरूपमा श्री जी म सा
आदि ठाणा (12)
सम्पर्क सूत्र - जैन उपाश्रय, चितामणी शेरी
मु पो राधनपुर जिला बनासकाठा (गुजरात)

- 61 गढ़ सिवाणा (राजस्थान)
साध्वी श्री इन श्री जी म सा आदि ठाणा (10)
सम्पर्क सूत्र - जैन उपाश्रय, मु पो गढसिवाना,
जिला-बाडमेर (राजस्थान)
- 62 माडवला (राजस्थान)
साध्वी श्री गुणप्रभा श्री जी म सा आदि ठाणा (6)
सम्पर्क सूत्र - जैन उपाश्रय
मु पो माडवला जिला-जालौर (राजस्थान)
- 63 तवरी (सिरोही) (राजस्थान)
साध्वी श्री सुलोचना श्री जी म सा आदि ठाणा (3)
सम्पर्क सूत्र - जैन उपाश्रय
मु पो तवरी जिला सिरोही (राजस्थान)
- 64 वेलागरी (राजस्थान)
साध्वी श्री दिव्य प्रभा श्री जी म सा आदि ठाणा
सम्पर्क सूत्र - जैन उपाश्रय मु पो वेलागरी
जिला-सिरोही (राजस्थान)
- 70 पाटण (गुजरात)
साध्वी श्री रत्न माला श्री जी म सा आदि ठाणा (3)
सम्पर्क सूत्र - जैन उपाश्रय
मु पो पाटण, जिला महेसाणा (गुजरात)
- 71 पालीताणा (गुजरात)
1 साध्वी श्री अजना श्री जी म सा आदि ठाणा (2)
2 साध्वी श्री चन्द्रलता श्री जी म सा आदि ठाणा (2)
सम्पर्क सूत्र - लुणावा मंगल भुवन धर्मशाला,
पालीताणा (गुजरात) 364270
- 72 पालीताणा (गुजरात)
साध्वी श्री कल्पलता श्री जी म सा आदि ठाणा (4)
सम्पर्क सूत्र - तटतगढ मंगल भुवन धर्मशाला,
तलेटी रोड, पालीताणा (गुजरात) 364270
- 73 पालीताणा (गुजरात)
1 साध्वी श्री मजुला श्री जी म सा आदि ठाणा (2)
2 साध्वी श्री ललिता श्री जी म सा आदि ठाणा (2)
सम्पर्क सूत्र - साडेराव जिनेन्द्र भुवन धर्मशाला,
तलेटी रोड पालीताणा (गुजरात) 364270
- 74 जवाला (राजस्थान)
साध्वी श्री रमणिक श्री जी म सा आदि ठाणा (3)
सम्पर्क सूत्र - जैन उपाश्रय मु पो जवाला,
जिला-सिरोही (राजस्थान)
- 75 अहमदावाद - साबरमती (गुजरात)
साध्वी श्री मित्र प्रभा श्री जी म सा आदि ठाणा (5)
सम्पर्क सूत्र - धनेश्वर फलेटस, धर्म नगर,
साबरमति अहमदावाद (गुजरात) 380005
- 76 विसलपुर (राजस्थान)
साध्वी श्री लक्ष गुणा श्री जी म सा आदि ठाणा (5)
सम्पर्क सूत्र - उमेदभवन मु पो विसलपुर
स्टेशन जवाइ बाध, जिला-सिरोही
(राजस्थान)
- 77 सूरत (गुजरात)
साध्वी श्री चन्द्रकला श्री जी म सा आदि ठाणा (3)
सम्पर्क सूत्र - प्लेडेंट पेलेस 1 माला, लाल
बागला के पास अदवा लाईन,
सूरत (गुजरात)

78. मेता (गुजरात)

साध्वी श्री तत्वशीला श्री जी म.सा.
आदि ठाणा
सम्पर्क सूत्र - जैन उपाश्रय मु.पो. मेता,
जिला-बनासकांठा (गुजरात)

79. तरवतगढ़ (राजस्थान)

साध्वी श्री शीलगुणा श्री जी म. सा.
आदि ठाणा
सम्पर्क सूत्र - श्री फूलचंदजी सरदारमलजी,
तलाव शेरी, मु.पो. तरवतगढ़ जिला-सिरोही
(राजस्थान)

80. नाकोडाजी - मेवानगर (राजस्थान)

साध्वी श्री स्नेहलता श्री जी म. सा.
आदि ठाणा
सम्पर्क सूत्र - श्री जैन श्वेताम्बर संघ.
श्री नाकोडाजी तीर्थ मु.पो. मेवानगर जिला
वाडमेर (राजस्थान) 344025

81. राणी स्टेशन (राजस्थान)

साध्वी श्री कल्पशीला श्री जी म.सा.
आदि ठाणा (4)
सम्पर्क सूत्र - जैन उपाश्रय मु.पो. राणी स्टेशन
वाया फालना जिला पाली (राजस्थान)

82. सेवाडी (राजस्थान)

साध्वी श्री लक्ष्मीतप्रज्ञा श्री जी म.सा.
आदि ठाणा (2)
सम्पर्क सूत्र - जैन उपाश्रय मु.पो. सेवाडी
स्टेशन फालना, जिला-पाली (राजस्थान)

83. पाबल (महाराष्ट्र)

साध्वी श्री सुलशाश्रीजी म.सा. आदि ठाणा (2)
सम्पर्क सूत्र - श्री जयंतीलाल शांतीलाल जैन,
किराणा की दुकान, मु.पो.पाबल तालूका
शिरूर जिला-पूना (महाराष्ट्र) 412403

84. खिवान्दी (राजस्थान)

साध्वी श्री अशोक कल्पलता श्री जी म.सा.
आदि ठाणा (2)
सम्पर्क सूत्र - ज्ञान मंदिर जैन उपाश्रय, मु.पो.
खिवान्दी, स्टेशन जवाईबांध, जिला-सिरोही
(राजस्थान)

85. बम्बई - घाटकोपर (गुजरात)

साध्वी श्री प्रज्ञप्ता श्री जी म.सा.
आदि ठाणा (10)
सम्पर्क सूत्र - C/37 पारस दर्शन जगडूसा नगर,
जैन उपाश्रय जगडूसा नगर, घाटकोपर
(वेस्ट), बम्बई - 400086 (महाराष्ट्र)

86: जूना डीसा (गुजरात)

साध्वी श्री ललित प्रभा श्री जी म.सा.
आदि ठाणा (1)
सम्पर्क सूत्र - जैन उपाश्रय, मु.पो. जूना डीसा
जिला बनासकांठा (गुजरात)

87. बाली (राजस्थान)

साध्वी श्री शासन दर्शिता श्री जी म.सा.
आदि ठाणा (3)
सम्पर्क सूत्र - जैन उपाश्रय, कितावतोकी वास,
मु.पो. बाली स्टेशन फालना जिला-पाली
(राजस्थान)

| | | | |
|------------------------------|----|-----------------|-----|
| कुल चातुर्मास मुनिराजो के | 18 | कुल मुनिराज | 52 |
| कुल चातुर्मास साध्वीयो के | 69 | कुल साध्वीयो | 383 |
| कुल | 87 | | 435 |

कुल चातुर्मास (87) मुनिराज (52) साध्वीयो
(383) कुल ठाणा (435)

साधु - साध्वी पद तालिका - 1993


| क्र | पद | 1992 | 1993 | विशेष |
|-----|------------|------|------|------------|
| 1 | गच्छापिपति | 1 | 1 | यथावत |
| 2 | आचार्य | 3 | 3 | यथावत |
| 3 | पन्यास | 1 | 1 | यथावत |
| 4 | गण | 1 | | ज्ञात नहीं |
| 5 | मुनिराज | 47 | 52 | |
| 6 | साध्वीयो | 374 | 383 | (अनुमानित) |
| | कुल ठाणा | 421 | 435 | |

नोट -

- 1 नई दीक्षा एव काल धर्म सूची प्राप्त नरी होने के कारण तुलनात्मक तालिका प्रगट नहीं कर सके
- 2 कई मुनिराजो एव साध्वीयो के सिपाडो के कुल ठाणाओ की सख्या ज्ञात नहीं हो सकी यहा जो कुलयोग सख्या दी गयी है वह गतवर्ष की सूचा के अनुमान से दी गयी है।
- 3 संभव है इस सूची मे और भी नाम रह गये है जितनी जानकारी प्राप्त हुई। यहाँ दी गयी है।
- 4 उच्चशिक्षा प्राप्त साधु-साध्वीयो की सूची यदि प्राप्त हो जाती तो वह भी यहाँ प्रकाशित कर देते परन्तु हमे प्राप्त ही नहीं हुई।

जैन पत्र - पत्रिकाए - नहीं सम्पादक

RITA



Products Renowned Sewing Machines
RITA Mechanical Works

416 Industrial Area A LUDHIANA 141003

Phones Office 62060 62061 62-65

Resd 40-287 40693-4 0861

Cable RITA Co (VI)

Telex 0386 3-014

8

कविकुल किरिट आचार्य प्रवर श्री विजय लब्धि सूरीश्वर
जी म.सा. का समुदाय

वर्तमान में समुदाय के प्रमुख आचार्य प्रवर श्री विजय
जिनभद्र सूरीश्वरजी म.सा.

कुल चातुर्मास (37) मुनिराज (54) साध्वीयॉजी-(185) कुल ठाणा (239)

मुनिराज-समुदाय

1. बम्बई-विलेपार्ला (पूर्व) (महाराष्ट्र) -

1 आचार्य प्रवर श्री विजय जिनभद्र सूरीश्वरजी
म.सा.

2 आचार्य श्री विजय यशोवर्म सूरीश्वरजी
म.सा. आदि ठाणा (15)

सम्पर्क सूत्र - श्री चिंतामणी पार्श्वनाथ जैन देरासर
जैन मंदिर, 80 महात्मा गांधी मार्ग,
विलेपार्ला (पूर्व), बम्बई - 400056 (महा.)

2 बम्बई - दादर (महाराष्ट्र)

1 आचार्य श्री विजय पूर्णानंद सूरीश्वरजी
म.सा.

2 आचार्य श्री विजय वीरसेन सूरीश्वरजी
म.सा. आदि ठाणा (5)

सम्पर्क सूत्र - श्री लब्धि सूरी ज्ञान मंदिर
जैन देरासर उपाश्रय, ज्ञान मंदिर रोड,
सदाशिव स्ट्रीट, दादर (वेस्ट),
बम्बई - 400028 (महाराष्ट्र)

3. दावणगिरी (कर्नाटक)

1 आचार्य श्री विजय अशोकरत्न सूरीश्वरजी
म.सा.

2 आचार्य श्री विजय अभयरत्न सूरीश्वरजी
म.सा. आदि ठाणा (5)

सम्पर्क सूत्र - Shri Deepchandji Bhikaji
Gandhi, M/s V K GANDHI
Pawn Broker, Belludi Galli,
DAVANGERE-577001 (Karnatka)

4. बैंगलौर - गांधीनगर (कर्नाटक)

आचार्य श्री विजय स्थूलभद्र सूरीश्वरजी
म.सा. आदि ठाणा (6)

सम्पर्क सूत्र - Swetamber Murti pujak
Jain Sangh, Jain Temple, 4th cross,
Gandhi Nagar, Bangalore - 560009
(Karnataka)

5. नवसारी (गुजरात)

आचार्य श्री विजय हिरण्यप्रभ सूरीश्वरजी
म.सा. आदि ठाणा (3)

सम्पर्क सूत्र - श्री चिंतामणी पार्श्वनाथ
जैन मंदिर, जैन देरासर, मधुमति, नवसारी,
जिला बलसाड (गुजरात) 396445

6. भरूच (गुजरात)

आचार्य श्री विजय राजयश सूरीश्वरजी म.सा.
आदि ठाणा (7)

सम्पर्क सूत्र - श्री श्वेताम्बर मूर्ति, जैन संघ,
भक्तामर मंदिर, जैन धर्म फंड पेढी,
श्रीमाली पोल, मु.पो. भरूच
(गुजरात) 392001 फोन नं. 32586
डॉ. सुरेशभाई फोन नं. 32482

7 कलकत्ता (प बंगाल)

आचार्य श्री विजय वारिषेण सूरीश्वरजी म सा
आदि ठाणा (4)

सम्पर्क सूत्र - Shn Swetamber Murti
Pujak Sangh Jain Temple
11 A Hesham Road Bhawnipur
Calcutta 700020 (W B)

8 इंडर (गुजरात)

पन्थास श्री पदम विजय जी म सा
आदि ठाणा (3)

सम्पर्क सूत्र - श्री श्वे मुर्ति जैन सघ,
श्री जयत सूरी पोपपशाला, कोठारी वाडो,
मु पो ईंडर सावकाठा (गुजरात) 383430

9 वम्बई मे योग्य स्थळ (महाराष्ट्र)

पन्थास श्री पदमयश विजय जी म सा
आदि ठाणा (2)

10 वम्बई - मालाड (महाराष्ट्र)

प्रवर्तक श्री हरिश भद्र विजय जी म सा
आदि ठाणा (2)

सम्पर्क सूत्र - श्री महावीर स्वामी जैन देासर,
जैन मंदिर, मामलतदार वाडी
रोड न 3 मालाड (वेस्ट)
वम्बई - 400064 (महाराष्ट्र)

11 राजस्थान मे योग्य स्थल

श्री जय कुन्वर विजय जी म सा आदि ठाणा

12 वम्बई - चूना भट्टी (महाराष्ट्र)

श्री जयभद्र विजय जी म सा आदि ठाणा
सम्पर्क सूत्र - श्री श्वे मुर्ति जैन उपाश्रय,
जैन श्री सघ, चुना भट्टी, वम्बई - (महाराष्ट्र)

साध्वीयोंजी समुदाय

13 भरूच (गुजरात)

साध्वी श्री सर्वोदया श्री जी म सा
आदि ठाणा (15)

सम्पर्क सूत्र - श्री श्वेताम्बर मूर्ति, जैन सघ,
भक्तामर मंदिर, जैन धर्म फड पेटी,
श्रीमाली पोल्, मु पो भरूच
(गुजरात) 392001

14 इंडर (गुजरात)

साध्वी श्री उमग श्री जी म सा
आदि ठाणा (3)

सम्पर्क सूत्र - कोठारी वालो गुरु मंदिर,
जैन मंदिर, मु पो इंडर,
जिला - (गुजरात) 383430

16 गदग (कनाटक)

साध्वी श्री जितेद्र श्री जी म सा
आदि ठाणा (8)

सम्पर्क सूत्र - Shn Swetamber Murti
Pujak Jain Sangh Jain Temple,
P O GADAG - 582101 (KRT)

17 अहमदाबाद - सोलारोड (गुजरात)

साध्वी श्री वाचयना श्री जी म सा
आदि ठाणा

सम्पर्क सूत्र - श्री श्वेताम्बर मूर्ति जैन
उपाश्रय,
सोलारोड, अहमदाबाद (गुजरात)

18 वेंगलूर (कनाटक)

श्री श्री कल्पगुणा श्री जी म सा
आदि ठाणा (3)

सम्पर्क सूत्र - Shn Adinath Jain Temple
Chickpet Bangalore-560053
(Karnataka)

19 वम्बई - विलेपार्ला (पूर्व) (महाराष्ट्र)

साध्वी श्री विपुल माला श्री जी म सा
आदि ठाणा

सम्पर्क सूत्र - श्री चितामणी पार्श्वनाथ
जैन देासर, जैन मंदिर, 80
महात्मा गांधी मार्ग, विलेपार्ला (पूर्व),
वम्बई - 400056 (महाराष्ट्र)

20. भावनगर (गुजरात)

साध्वी श्री उज्ज्वललता श्री जी म.सा.

आदि ठाणा (10)

सम्पर्क सूत्र - श्री श्वे. मूर्ति. जैन उपाश्रय,

दादा साहब उपाश्रय, भावनगर,
(गुजरात) 364001

21. अहमदाबाद - वासणा (गुजरात)

साध्वी श्री सुभद्रा श्री जी म.सा. आदि ठाणा

सम्पर्क सूत्र - श्री श्वे.मूर्ति. जैन उपाश्रय,

वासणा, अहमदाबाद (गुजरात)

22. गुजरात मे योग्य स्थल (गुजरात)

साध्वी श्री आत्मप्रभा श्री जी म.सा.

आदि ठाणा

23. सूरत (गुजरात)

साध्वी श्री जितेन्द्र श्री जी म.सा.

आदि ठाणा (3)

24. खंमात (गुजरात)

साध्वी श्री विराग माला श्री जी म.सा.

आदि ठाणा (15)

सम्पर्क सूत्र - श्री श्वे. मूर्ति. जैन उपाश्रय,

महिला उपाश्रय, मंडई के पास,
मु.पो. खंभात जिला-खेडा
गुजरात 388620

25. पालीताणा (गुजरात)

साध्वी श्री सूर्य प्रभा श्री जी म.सा.

आदि ठाणा (3)

26. बम्बई - मलाड (महाराष्ट्र)

साध्वी श्री पदम रेखा श्री जी म.सा.

आदि ठाणा

सम्पर्क सूत्र - श्री महावीर स्वामी जैन देरासर,
जैन मंदिर, मामलदतारवाडी, रोड नं. 3,
मालाड (वेस्ट), बम्बई - 400003 (महा.)

27. बम्बई - दादर - (महाराष्ट्र)

साध्वी श्री हर्षप्रभा श्री जी म.सा.

आदि ठाणा (5)

सम्पर्क सूत्र - श्री लब्धि सूरी ज्ञान मंदिर,
जैन देरासर उपाश्रय, 6 ज्ञान मंदिर रोड,
सदाशिव स्ट्रीट, दादर (वेस्ट),
बम्बई - 400028 (महाराष्ट्र)

| | | | |
|---|------|-----------|------------------------|
| कुल चातुर्मास | 12 | कुल | 54 |
| मुनिराजो के | | मुनीराज | |
| चातुर्मास साध्वी के | 25 | कुल | 185 |
| | | साध्वीयों | |
| कुल | 37 | | 239 |
| कुल चातुर्मास (37) मुनिराज (54) साध्वीयोंजी (185) कुल ठाणा (239) अनुमानित | | | |
| साधु - साध्वी पद तालिका 1993. | | | |
| क्र. पद | 1992 | 1993 | विशेष |
| 1 आचार्य | 11 | 10 | एक आचार्य का महाप्रयाण |
| 2 पन्यास | 2 | 2 | यथावत |
| 3 प्रवर्तक | 1 | 1 | यथावत |
| 4 मुनिराज | 50 | 54 | - |
| 5 साध्वीयों | 185 | 185 | अनुमानित |
| कुल ठाणा | 235 | 239 | अनुमानित |

नोट -

- 1 इस समुदाय की पूर्ण सूची चातुर्मास प्राप्त होने के 35 दिन पश्चात् तक भी प्राप्त नहीं हो सकी कई आचार्यों को कई स्मरण पत्र लिखे विलेपार्लार् वम्बई स्थित आचार्य श्री की सेवा में 4 - 5 वार चक्र काटने, विनती करने के पश्चात् भी खाली हाथ लोटना पड़ा अतः समाचार पत्रों के आधार पर जितनी सूची प्राप्त हो सकी यहाँ प्रस्तुत की गयी है। अगर उनकी सूची भी यहाँ प्रकाशित हो जाती तो सम्पूर्ण जैन समाज को जानकारीया ज्ञात हो जाती सभी लाभवित होते लेकिन निराशा ही मिली।
- 2 नई दिक्षा - एव कालधर्म की सूची भी प्राप्त नहीं हो सकी अतः तुलनात्मक तालिका प्रस्तुत नहीं कर सके।
- 3 इस समुदाय में अभी तक गच्छाधिपति का पद किसी को भी प्रदान नहीं किया गया है।
- 4 इस वर्ष साधु साध्वीयाँ एव चातुर्मास स्थलों की कुल सख्या जो यहाँ दी गयी है वह गतवर्ष की सख्या के आधार पर अनुमान से ही दी गयी है।
- 5 जैन पत्र - पत्रिकाएँ - लाब्धि सन्देश - (गुजराती मासिक) कोल्हापुर

सभी पूज्य आचार्यों, सत-सतियों को कोटि-कोटि वन्दन

VINODKANT HARILAL JAGGERY MERCHANTS

New Mandi, MUZAFFAR NAGAR-251 001 (U P)

PHONE 403122, 403522, 405939

卐 शुभेच्छक卐

विनोदकान्त गोसलिया

मुजफ्फर नगर

9

बम्बई नगरी उध्दारक, धर्म प्रभावक, बम्बई प्रथम प्रवेशक, तपागच्छीय जगतगुरू श्री मोहनलालजी म.सा. का समुदाय

वर्तमान में समुदाय कें प्रमुख आचार्य:- गण नायक पं.रत्न आचार्य श्री चिदानन्द सूरीश्वर जी म.सा.

कुल चातुर्मास (20) मुनिराज (15) साध्वीयाँजी (39) कुल ठाणा (54)

साधु-मुनिराज-समुदाय

1. बम्बई - बोरीवली (वेस्ट) (महाराष्ट्र)

1 गण नायक आचार्य पं. रत्न श्री चिदानन्द सूरीश्वरजी म.सा.

2 पन्यास श्री कीर्ति सेन मुनी जी म.सा.

आदि ठाणा (6)

सम्पर्क सूत्र - श्री संभवनाथ जैन देरासर.

जैन मंदिर रोड, जामली गली.

बोरीवली (वेस्ट) बम्बई - 400092

(महाराष्ट्र) फोन नं. 8053357

2. कलकत्ता (पश्चिम बंगाल)

पन्यास श्री सुयश मुनी जी म.सा.

आदि ठाणा (3)

सम्पर्क सूत्र - SHRI GUJARATHI JAIN

SWETAMBER MURTI PUJAK

SANGH, 96/98, KENNING STREET,

BIPLABI RASHBIHARI BABU Rd

CALCUTTA - 700 001(W B)

Tel No 255986, 255262

Gram - "MAHASANGH"

3. बम्बई - कांदिवली (महाराष्ट्र)

श्री जम्बू श्री जी म.सा.

आदि ठाणा (2)

सम्पर्क सूत्र - श्री श्वे. मुर्ति. जैन संघ,

जैन उपाश्रय, महावीर नगर, शंकर लेन, कांदिवली (वेस्ट) बम्बई - 400067 (महाराष्ट्र)

4. उज्जैन (मध्य प्रदेश)

श्री प्रिय दर्शन मुनि जी म.सा.

आदि ठाणा (1)

सम्पर्क सूत्र - जैन श्वेताम्बर मूर्ति. संघ,

मु.पो. उज्जैन (म.प्र.)

5. बम्बई - सांताक्रुझ (महाराष्ट्र)

श्री मृगेन्द्र मुनि जी म.सा.

आदि ठाणा (1)

सम्पर्क सूत्र - श्री कलिकुंड पार्श्वनाथ जैन

उपाश्रय रूप टाकीज के पास,

सांताक्रुझ (पूर्व) बम्बई - (महाराष्ट्र)

6. उज्जैन (मध्य प्रदेश)

श्री चन्द्रशेखर मुनि जी म.सा.

आदि ठाणा (1)

सम्पर्क सूत्र - जैन श्वे. संघ, जैनमन्दिर,

मु.पो. उज्जैन (म.प्र.)

7. उज्जैन (मध्य प्रदेश)

श्री तपोधन मुनि जी म.सा.

आदि ठाणा (1)

सम्पर्क सूत्र - उपरोक्त अनुसार

साध्वीयाँजी समुदाय

8. पालीताणा (गुजरात)

साध्वी श्री जम्बू श्री जी म.सा.

आदि ठाणा (5)

सम्पर्क सूत्र - 19 हजारी निवास धर्मशाला.

तलेटी रोड, पालीताणा (गुजरात) 364 270

9 आहोर (राजस्थान)

साध्वी श्री विजय श्री जी म सा
आदि ठाणा (8)

सम्पर्क सूत्र - जैन श्वे मूर्ति उपाश्रय,
मु पो आहोर जिला जालोर (राजस्थान)

10 शिवगज (राजस्थान)

साध्वी श्री कविन्द्र श्री जी म सा
आदि ठाणा (4)

सम्पर्क सूत्र - पीपली वाली धर्मशाला,
शिवगज जिला सिरौही (राजस्थान)

11 बम्बई-वाळकेश्वर (महाराष्ट्र)

साध्वी श्री प्रेमलता श्री जी म सा
आदि ठाणा (2)

सम्पर्क सूत्र - 10- ए-राजूल अपार्टमेंटस,
श्रीपाल नगर के बाजू में
वालकेश्वर, बम्बई - 400 006 (महाराष्ट्र)

12 शिवगज (राजस्थान)

साध्वी श्री सज्जन श्री जी म सा
आदि ठाणा (2)

सम्पर्क सूत्र - हनुवाई धर्मशाला, शिवगज
जिला-सिरौही (राजस्थान)

13 पाली-मारवाड (राजस्थान)

साध्वी श्री कमल श्री जी म सा
आदि ठाणा (3)

सम्पर्क सूत्र - जीनाक्रिया भवन,
राणा प्रताप चौक, पाली-मारवाड
(राजस्थान) 306401

14 अहमदाबाद-पालडी (गुजरात)

साध्वी श्री जयती श्री जी म सा
सम्पर्क सूत्र - अरुण सोसायटी, पालडी
अहमदाबाद (गुजरात)

15 अहमदाबाद (गुजरात)

साध्वी श्री सुमगला श्री जी म सा
सम्पर्क सूत्र - हठ्टी भाई की वाडी
अहमदाबाद (गुजरात)

16 मालवाडा (राजस्थान)

साध्वी श्री रवाती जी म सा
सम्पर्क सूत्र - जैन श्री सघ,
मु पो मालवाडा जिला-सिरौही (राजस्थान)

17 राणीवाडा (राजस्थान)

साध्वी श्री चन्द्रभा श्री जी म सा
सम्पर्क सूत्र - जैन उपाश्रय मु पो राणीवाडा
जिला-सिरौही (राजस्थान)

18 देसूरी (राजस्थान)

साध्वी श्री सयम श्री जी म सा
सम्पर्क सूत्र - श्री श्वे मूर्ति जैन उपाश्रय,
जैनसघ मु पो देसूरी जिला-पाली
(राजस्थान)

19 पालीताणा (गुजरात)

साध्वी श्री हेमरला श्री जी म सा
आदि ठाणा (3)

सम्पर्क सूत्र - आरीसा भवन, धर्मशाला
तलेटी रोड, पालीताणा - 364270 (गुजरात)

20 कलकत्ता (पश्चिमी बंगाल)

साध्वी श्री जिन रत्ना श्री जी म सा
आदि ठाणा (3)

सम्पर्क सूत्र - Shri GUJARATHI JAIN
SWETAMBER MURTI PUJAK
SANGH 96/98 KENNING STREET
BIPLABI RASHBIHARI BABU RD
CALCUTTA 700001(W B)
Tel No 255986 255262
Gram "MAHASANGH"

| | | | |
|--|----|-----------------|----|
| कुल चातुर्मास मुनिराजो के | 7 | कुल मुनिराज | 15 |
| कुल चातुर्मास साध्वीयो के | 13 | कुल साध्वीया | 39 |
| कुल | 20 | | 54 |
| कुल चातुर्मास (20) मुनिराज (15) साध्वीयाँ (39) कुल ठाणा (54). | | | |

नोट -

साधु-साध्वी पद तालिका-1992 अनुसार

समुदाय मे विद्यमान हे आचार्य (1)

पन्यास (2)

2 जैन पत्र-पत्रिकाए नही

3 यह समुदाय तपागच्छ समुदाय है। तपागच्छ समुदाय में मुनिवरो के नाम के आगे विजय या सागर लगाया जाता है वहा इस मे नाम के आगे केवल मुनि लगाते है।

साधु-साध्वी तुलनात्मक तालिका-1993.

| विवरण | मुनिराज | साध्वीयाँ | कुल ठाणा |
|-----------------------|---------|-----------|-------------|
| 1992 मे कुल ठाणा थे | 15 | 37 | 52 |
| + नई दीक्षाए हुई | - | 2 | 2 |
| | 15 | 39 | 54 |
| - कालधर्म प्राप्त हुए | - | - | - |
| | 15 | 39 | 54 |
| + संघ मे सम्मिलित हुए | 1 | - | 1 |
| | 16 | 39 | 55 |
| संयमजीवन त्याग किया | 1 | - | 1- |
| | 15 | 39 | 54 |
| 1993 मे कुल ठाणा है | 15 | 39 | 54 |

युग की आवाज-संवत्सरी एक हो

ॐ चित्रमय भव्य प्रकाशन ॐ

व्यक्ति व परिवार के सस्कार/भाव तथा वातावरण आदि में सहज किन्तु आश्चर्यजनक परिवर्तन लाने वाला सुरम्य, भावपूर्ण साहित्य पढ़िए तथा स्वजनों एवं मित्रों को उपहार दीजिए।

सचित्र भक्तामर स्तोत्र 250/-

४८ श्लोकों के ४८ भावपूर्ण सुरम्य मनमोहक चित्र, देखें तो देखने का ही मन करो। हिन्दी-अंग्रेजी अनुवाद के साथ।

सचित्र गणोकार महामंत्र 100/-

गणोकार महामंत्र के स्वरूप, साधना, वर्ण-विज्ञान तथा शरीर, मन एवं ग्रहों पर प्रभाव डालने वाली लाक्षणिक शक्ति का सुन्दर चित्रमय दिग्दर्शन।

अंग्रेजी संस्करण 125/-

सचित्र उत्तराध्ययन सूत्र 425/-

३६ अध्ययनों के प्रसंगानुसार सुन्दर ६० रंगीन रमणीय चित्र। शुद्ध मूलपाठ हिन्दी अंग्रेजी अनुवाद। विशेष टिप्पणी युक्त, पृष्ठ ६०० से अधिक। पढी जिल्द प्लास्टिक जैकेट के साथ।

सचित्र अन्तकृद्दशा सूत्र 400/-

पर्युषण पर्व के पावन आठ दिनों में पढ़ने/सुनने वाला पवित्र आगमा प्रसंग अनुसार ४० रंगीन रमणीय चित्र शुद्ध मूल पाठ हिन्दी अंग्रेजी अनुवाद।

सचित्र भावना आनुपूर्वी 35/-

प्रत्येक भावना का स्वरूप समझाने वाला एक-एक स्वतंत्र चित्र, देखने से ही भावना मन में रम जाती है। बड़े अक्षरों की आनुपूर्वी, चौबीस तीर्थंकर तथा २० विशिष्ट मुनिवरों के दुर्लभ भव्य चित्र। तप उत्सव, प्रभावना आदि में वाटने के लिए १०१ या अधिक प्रतियाँ एक साथ लेने पर नाम का एक पृष्ठ लगाने की निःशुल्क सुविधा।

सर्व सिद्धि-दायक मंगलमय गणोकार महामंत्र का चित्र 30/-

सात रंगों में गणोकार मंत्र, ४ तीर्थंकर, गणोकार मंत्र अधिपत्यायिका पाँच शासन देवियों, गणोकार-सहायक चार क्षेत्रपाल, ऋषिमंडल यत्र, तिजय-पहुतयत्र, धरणेन्द्र वेष्टित पार्श्वयत्र के चित्र चारों ओर मंडित हैं। १८×२२ के बड़े साईज में बढ़िया आर्ट पेपर पर लेमिनेटेड चित्र।

• कम से कम पांच चित्र मंगाने पर डाक छर्च फ्री। एक चित्र के लिए डाक छर्च १० रुपये अतिरिक्त

सहायक पुस्तकें

उत्तराध्ययन महिमा 50/-
महामंत्र नवकार 15/-
भक्तामर महिमा 40/-
(पत्र-पत्र कृपय)

विशेष सुविधा

चातुर्मास काल में एक हजार रुपये से अधिक के आदेश पर २०% डिस्काउंट तथा पैकिंग पोस्टेज फ्री।

पत्र व्यवहार एवं ड्राफ्ट भेजने का पता
दिवाकर प्रकाशन

ए-७, अवागढ़ हाउस, एम जी रोड, आगता-२
फोन (0562) (नि) 54328, 53140, 52208

10

शासन प्रभावक आचार्य प्रवर श्रीमद् विजय मोहन सूरीश्वर
जी म. सा. का. समुदाय

वर्तमान में समुदाय के प्रमुख आचार्य साहित्य कला
रत्न आचार्य प्रवर श्रीमद् विजय यशोदेव सूरीश्वर जी
म. सा.

कुल चातुर्मास (55) मुनिराज (30) साध्वीयाँजी (210) कुल ठाणा (240)

साधु-मुनिराज समुदाय

1. पालीताणा (गुजरात)

साहित्य कला रत्न आचार्य प्रवर श्रीमद्
विजय यशोदेव सूरीश्वर जी म. सा.

आदि ठाणा

सम्पर्क सूत्र - जैन साहित्य मंदिर, तलेटी
रोड, पालीताणा गुजरात - 364270

2. जेतपुर (गुजरात)

आचार्य श्री विजय जयानन्द सूरीश्वरजी म.सा.

आदि ठाणा

सम्पर्क सूत्र - श्री आदिश्वर जैन देरासर,
उपाश्रय, देरा शेरी, उजडया,
मु.पो. जेतपुर 360370 (सौराष्ट्र) (गुजरात)
फोन नं. इन्दुभाई 699
श्री बाबूभाई 514

3. वडौदा (गुजरात)

आचार्य श्री विजय कनकरत्न सूरीश्वरजी म.सा.

आदि ठाणा

सम्पर्क सूत्र - श्री श्वे. मूर्ति जैन उपाश्रय,
मामानी पोल, रावपुरा रोड,
वडौदा 390001 (गुजरात)

4. खंभात (गुजरात)

आचार्य श्री विजय महानन्द सूरीश्वरजी म.सा.

आदि ठाणा

सम्पर्क सूत्र - श्री संभव तीर्थ तपागच्छ जैन
संघ, लाडवाजी जैन उपाश्रय, मु. पो.
खंभात जिला खेडा (गुजरात) 388620
फोन नं. 20320

5. अहमदाबाद - पालडी (गुजरात)

आचार्य श्री विजय सूर्योदय सूरीश्वरजी म.सा.
आदि ठाणा

सम्पर्क सूत्र - आराधना भवन, भगवान नगर
टेकरी, पालडी, अहमदाबाद 380007
(गुजरात)

6. बम्बई - अंधेरी (पूर्व) (महाराष्ट्र)

आचार्य श्री विजय पूर्णानन्द सूरीश्वरजी म.सा.
“कुमार श्रमण” आदि ठाणा

सम्पर्क सूत्र - श्री चिंतामणी पार्श्वनाथ जैन
मंदिर, जैन उपाश्रय, जूना नागरदास रोड,
अंधेरी (पूर्व) बम्बई - 400061 (महाराष्ट्र)

7. खंभात(महाराष्ट्र)

पन्यास श्री पदमानन्द विजयजी म.सा.

आदि ठाणा

सम्पर्क सूत्र - ओसवाल जैन उपाश्रय,
मु.पो. खंभात जिला खेडा
(गुजरात) 388620

8. बम्बई - बोरीवली पूर्व (महाराष्ट्र)

प्रवर्तक श्री सुबोध विजय जी म.सा.

आदि ठाणा

सम्पर्क सूत्र - जैन देरासर, पुरपोतम पार्क,
कार्टर रोड न 4 बोरीवली (पूर्व),
बम्बई-400066 (महाराष्ट्र)

9 दहगाव (गुजरात)

श्री चन्द्रसेन विजयजी म सा आदि ठाणा
सम्पर्क सूत्र - श्री जैन उपाश्रय
मु पो दहगाव जिला-अहमदाबाद (गुजरात)

10 पालीताणा (गुजरात)

श्री क्षमानंद विजयजी म सा आदि ठाणा
सम्पर्क सूत्र - घोषावाली जैन धर्मशाला,
'तलेटी रोड, पालीताणा (गुजरात) 364270

11 बोरसद (गुजरात)

श्री ललित सेन विजय जी म सा आदि ठाणा
सम्पर्क सूत्र - श्रीमाली जैन उपाश्रय,
देरासर के पास, मु पो बोरसद
जिला खेडा (गुजरात) 388540

12 घोषा (गुजरात)

श्री नित्यानंद विजय जी म सा आदि ठाणा
सम्पर्क सूत्र - जैन देरासर उपाश्रय
मु पो घोषा जिला-भावनगर (गुजरात)

साध्वीयाँजी समुदाय

13 महुधा (गुजरात)

साध्वी श्री सुनन्दा श्री जी म सा आदि ठाणा (5)

सम्पर्क सूत्र - जैन रवे मूर्ति उपाश्रय,
मु पो महुधा जिला रवेडा (गुजरात)

14 बडौदा (गुजरात)

-साध्वी श्री प्रिय दर्शना श्री जी म सा आदि ठाणा (2)

सम्पर्क सूत्र - जैन उपाश्रय जानी शेरी घडियाली
पोल मु पो बडौदा 390001 (गुजरात)

15 बडौदा (गुजरात)

साध्वी श्री प्रवीण श्री जी म सा आदि ठाणा (5)

सम्पर्क सूत्र - दुधेखर सोसायटी, आजवा रोड
ब्लॉक न 38 बडौदा (गुजरात) 39000'

16 डभोई (गुजरात)

साध्वी श्री देवेन्द्र श्री जी म सा आदि ठाणा (2)

सम्पर्क सूत्र - श्री माली वागा, रोड शेरी नके,
मु पो डभोई जिला बडौदा (गुजरात)

17 जैतपुर (गुजरात)

साध्वी श्री प्रियवदा श्री जी म सा आदि ठाणा (12)

सम्पर्क सूत्र - श्री आदिरवर जैन देरासर,
उपाश्रय, देरा शेरी, उजडया,
मु पो जैतपुर 360370 (सौराष्ट्र) (गुजरात)
फोन न इन्दुभाई 699
श्री बाबूभाई 514

18 अहमदाबाद (गुजरात)

साध्वी श्री कैलाश श्री जी म सा आदि ठाणा (7)

सम्पर्क सूत्र - जैन उपाश्रय, भगवान नगर का
टेकरा, अहमदाबाद 380007 (गुजरात)

19 बडौदा (गुजरात)

साध्वी श्री मनोरमा श्री जी म सा आदि ठाणा (2)

सम्पर्क सूत्र - महिला जैन उपाश्रय, मामानी
पोल, रवपुरा रोड, बडौदा 390011
(गुजरात)

20 अहमदाबाद (गुजरात)

साध्वी श्री कुमुद प्रभा श्री जी म सा आदि ठाणा

- सम्पर्क सूत्र - जैन उपाश्रय, धुम केतु रोड,
धर्म विहार, फतेहपुरा, अहमदाबाद
(गुजरात) 380007
21. अमरेली (गुजरात)
साध्वी श्री पदम यशा श्री जी म. सा.
आदि ठाणा (5)
सम्पर्क सूत्र - श्री मेहता हर गोविन्ददास शामजी
जैल रोड, मु. पो. अमरेली (गुजरात)
22. सूरत (गुजरात)
साध्वी श्री चन्द्र प्रभा श्री जी म. सा.
आदि ठाणा (5)
सम्पर्क सूत्र - श्री सिमंधर स्वामी जैन उपाश्रय
नागावट ताला वालानी पोल,
मु. पो. सूरत 395001 (गुजरात)
23. खंभात (गुजरात)
साध्वी श्री पदमलता श्री जी म. सा.
आदि ठाणा (5)
सम्पर्क सूत्र - ओसवाल जैन महिला उपाश्रय
मु. पो. खंभात जिला खेडा (गुजरात)
24. अहमदाबाद - पालडी (गुजरात)
साध्वी श्री हिरन्यलता श्री जी म. सा.
आदि ठाणा (6)
सम्पर्क सूत्र - महिला जैन उपाश्रय,
मंगल पार्क सोसायटी, ओपेरा, पालडी,
अहमदाबाद (गुजरात) 380007
25. अमरेली (गुजरात)
साध्वी श्री स्नेहलता श्री जी म. सा.
आदि ठाणा (2)
सम्पर्क सूत्र - जैन देरासर पानी दरवाजो
मु. पो. अमरेली (गुजरात)
26. अहमदाबाद पालडी (गुजरात)
साध्वी श्री भव्य यशा श्री जी म. सा.
आदि ठाणा (2)
- सम्पर्क सूत्र - भद्रवन अपार्टमेंटस, फतेहपुरा,
पालडी अहमदाबाद 380007 (गुजरात)
27. अहमदाबाद - पालडी (गुजरात)
साध्वी श्री हर्ष प्रभा श्री म. सा.
आदि ठाणा (5)
सम्पर्क सूत्र - बीन्दी अपार्टमेंटस डी - 1
नारायण नगर, जेठालाल पार्क, पालडी,
अहमदाबाद- 380007 (गुजरात)
28. खंभात (गुजरात)
साध्वी श्री लक्ष्मीतज्ञा श्री जी म. सा.
आदि ठाणा (5)
सम्पर्क सूत्र - जैन उपाश्रय, भाडवाडी,
मु.पो. खंभात जिला-खेडा (गुजरात) 388620
29. आंकलाव (गुजरात)
साध्वी श्री जयनंदिनी श्री जी म. सा.
आदि ठाणा (3)
सम्पर्क सूत्र - जैन उपाश्रय बाजार मे
परबडी के सामने, मु.पो. आंकलाव
(गुजरात) 388510
30. पूना (महाराष्ट्र)
साध्वी श्री सुवर्ण प्रभा श्री जी म. सा.
आदि ठाणा (3)
सम्पर्क सूत्र - आदिनाथ श्वे. मूर्ति जैन देरासर
मंदिर, आदिनाथ सोसायटी, पूना सातारा
रोड, पूना - 411037 (महाराष्ट्र)
31. डभोई (गुजरात)
साध्वी श्री सौम्य दर्शिता श्री जी म.सा.
आदि ठाणा (5)
सम्पर्क सूत्र - भोगीलाल उपाश्रय, श्री माली
वागा, मु.पो. डभोई जिला बडौदा (गुजरात)
32. अहमदाबाद (गुजरात)
साध्वी श्री जयसेना श्री जी म. सा.
आदि ठाणा (2)

सम्पर्क सूत्र - मृदा अपाटमेंटस
बी - 26 वासणा, अहमदाबाद
(गुजरात)

33 शिरपुर (महाराष्ट्र)

साध्वी श्री सुलक्षणा श्रीजी म सा
आदि ठाणा (3)

सम्पर्क सूत्र - श्री अतरीक्ष पार्श्वनाथ पेढी
मु पो शिरपुर तालूका मालेगाव
जिला-अकोला (महाराष्ट्र)

34 बडौदा (गुजरात)

साध्वी श्री रश्मिलता श्रीजी म सा
आदि ठाणा (5)

सम्पर्क सूत्र - मेहुल सोसायटी न 2
ब्लोक एफ/14 सुभानपुर,
बडौदा (गुजरात) 390007

35 अहमदाबाद (गुजरात)

साध्वी श्री हेमलता श्रीजी म सा
आदि ठाणा (3)

सम्पर्क सूत्र - भगवान नगरने टेकडो
अहमदाबाद (गुजरात)

36 चाद्रखेडा (गुजरात)

साध्वी श्री ललिताग यशा श्रीजी म सा
आदि ठाणा (4)

सम्पर्क सूत्र - जैन देरासर के सामने,
दिविजय नगर, मु चौद खेडा,
पोस्ट जगतपुर, जिला गाधीनगर (गुजरात)

37 जामनगर (गुजरात)

साध्वी श्री कनक प्रभा श्रीजी म सा
आदि ठाणा (4)

सम्पर्क सूत्र - तपागच्छ जैन महिला उपाश्रय
मोरावाग के सामने, जामनगर (गुजरात)

38 तलोद (गुजरात)

साध्वी श्री तत्वगुणा श्रीजी म सा
आदि ठाणा

सम्पर्क सूत्र - जैन उपाश्रय मु पो तलोद
(गुजरात)

39 पालीताणा (गुजरात)

साध्वी श्री कमला श्रीजी म सा
आदि ठाणा (4)

सम्पर्क सूत्र - प्रताप भवन भोजन शाला के
पास, पालीताणा (सौराष्ट्र) (गुजरात)

40 पालीताणा (गुजरात)

साध्वी श्री विमला श्रीजी म सा
आदि ठाणा

सम्पर्क सूत्र - हजारी निवास, तलेटी रोड,
पालीताणा (गुजरात)

41 पालीताणा (गुजरात)

साध्वी श्री अम्ना श्रीजी म सा
आदि ठाणा

सम्पर्क सूत्र - श्रमणी विहार धर्मशाला,
पालीताणा 364270 (गुजरात)

42 पालीताणा (गुजरात)

साध्वी श्री कुसुम श्रीजी म सा
आदि ठाणा (5)

सम्पर्क सूत्र - शत्रुजय पार्क, विल्डींग न 2
पालीताणा (सौराष्ट्र) 364270 (गुजरात)

43 पालीताणा (गुजरात)

साध्वी श्री मृगेन्द्र श्रीजी म सा
आदि ठाणा (15)

सम्पर्क सूत्र - तपटगढ जैन धर्मशाला
तलेटी रोड, पालीताणा
(सौराष्ट्र) (गुजरात) 364270

44 पालीताणा (गुजरात)

साध्वी श्री कनकप्रभा श्रीजी म सा
आदि ठाणा (4)

सम्पर्क सूत्र - श्रमणी विहार धर्मशाला
पालीताणा (सौराष्ट्र) 364270 (गुजरात)

45 पालीताणा (गुजरात)

साध्वी श्री रजिन्द्र श्रीजी म सा
आदि ठाणा

- सम्पर्क सूत्र - श्रमणी विहार धर्मशाला
तलेटी रोड, पालीताणा 364270 (गुजरात)
46. पालीताणा (गुजरात)
साध्वी श्री पुष्प यशा श्रीजी म.सा.
आदि ठाणा (2)
- सम्पर्क सूत्र - आरीसा भुवन धर्मशाला
तलेटी रोड, पालीताणा (गुजरात) 364270
47. पालीताणा (गुजरात)
साध्वी श्री ज्योति प्रभा श्रीजी म.सा.
आदि ठाणा (7)
- सम्पर्क सूत्र - हजारी निवास 1 माला
हाल मे फुव्वाराके पास, पालीताणा
(गुजरात) 364270
48. पालीताणा (गुजरात)
साध्वी श्री अजित सेना श्रीजी म.सा.
आदि ठाणा (3)
- सम्पर्क सूत्र - हट्टी भाई की धर्मशाला,
गांव में, पालीताणा (गुजरात) 364270
49. पालीताणा (गुजरात)
साध्वी श्री स्नेहलयशा श्रीजी म.सा.
आदि ठाणा (5)
- सम्पर्क सूत्र - लावव्य विहार,
धर्मशाला, पालीताणा (गुजरात) 364270
50. पालीताणा (गुजरात)
साध्वी श्री पूर्णकला श्रीजी म.सा.
आदि ठाणा (4)
- सम्पर्क सूत्र - आमारी विहार,
तलेटी रोड, पालीताणा (गुजरात) 364270
51. पालीताणा (गुजरात)
साध्वी श्री पुण्यधर्म कला श्री जी म.सा.
आदि ठाणा (2)
- सम्पर्क सूत्र - सांडेराव भुवन,
जितेन्द्र धर्मशाला, तलेटी रोड,
पालीताणा (गुजरात)
52. पालीताणा (गुजरात)
साध्वी श्री जय पूर्णा श्रीजी म.सा.
आदि ठाणा (2)
- सम्पर्क सूत्र - राजेन्द्र भुवन धर्मशाला, तलेटी
रोड, पालीताणा (गुजरात) 364270
53. पालीताणा (गुजरात)
साध्वी श्री पदम रेखा श्रीजी म.सा.
आदि ठाणा (2)
- सम्पर्क सूत्र - श्रमणी विहार, धर्मशाला, तलेटी
रोड, पालीताणा (गुजरात) 364270
54. पालीताणा (गुजरात)
साध्वी श्री विपुल पूर्णा श्रीजी म.सा.
आदि ठाणा
- सम्पर्क सूत्र - श्रमणी विहार धर्मशाला,
तलेटी रोड, पालीताणा (गुजरात) 364270
55. द्वारव्हा (महाराष्ट्र)
साध्वी श्री अनन्त गुणा श्रीजी म.सा.
आदि ठाणा
- सम्पर्क सूत्र - जैन मंदिर जैन उपाश्रय
मु.पो. द्वारव्हा जिला-यवतमाल
(महाराष्ट्र) 445202

| | | | |
|---------------|----|-----------|-----|
| कुल चातुर्मास | 12 | कुल | 30 |
| मुनिराजो के | | मुनिराज | |
| कुल चातुर्मास | 43 | कुल | 210 |
| साध्वीयों के | | साध्वीयों | |
| कुल ठाणा | 55 | | 240 |

कुल चातुर्मास (55) मुनिराज (30) साध्वीयों
(210) कुल ठाणा (240)

नोट -

साधु - साध्वी पद तालिका 1993

| पद | 1992 | 1993 | विशेष |
|-----------|------|------|-----------------------------|
| आचार्य | 6 | 6 | यथावत |
| पन्यास | 1 | 1 | यथावत |
| प्रवर्तक | 1 | 1 | यथावत |
| मुनिराज | 45 | 30 | 15 मुनिराजों की |
| साध्वीयों | 210 | 210 | जानकारीया ज्ञान न हो सकी |
| कुल टाणा | 255 | 240 | |

1 नई दीक्षा एव कालधर्म की सूची प्राप्त नहीं होने के कारण तुलनात्मक तालिका प्रस्तुत नहीं कर सके।

2 इस समुदाय में गत वर्ष मुनिराज 45 एव साध्वीयों 210 कुल 255 थे इसवार की सूची में 5 मुनिराज की सूचना प्राप्त नहीं हो सकी। इस कारण कुल 30 मुनिराज की ही सूची प्रगट कर सके। विस्तृत जानकारी की प्रतीक्षा में।

साडीओमा तटन
इन्सि वेशावटी



विविधा

vividha

शॉप नं ४, आगे वाडी, वी पी रोड,
सि५५१ नगर नी बाधुमा, मुजर्द-४, इलेन ३८७०२६०

- सम्पर्क सूत्र - तपागच्छ जैन धर्मशाला,
मु पो साबौर, जिला-जालौर (राजस्थान)
- 9 पालीताणा (गुजरात)
श्री वीर विजयश्री म सा आदि ठाणा (2)
सम्पर्क सूत्र - श्री सिध्दगिरी भक्ति विहार,
तलेटी रोड, पालीताणा (गुजरात) 364270
- 10 पालीताणा (गुजरात)
1 श्री भद्रसेन विजयजी म सा आदि ठाणा (2)
2 श्री प्रकाश विजयजी म सा आदि ठाणा (3)
सम्पर्क सूत्र - श्री 108 पार्श्वनाथ भक्ति विहार,
जैन उपाश्रय, भक्तिनगर, मु पो शखेश्वरतीर्थ,
जिला -महेसाणा (गुजरात) 384246
फोन न 25
- 11 बम्बई बोरीवली (वेस्ट) (महाराष्ट्र)
श्री हर्षचन्द्र विजयजी म सा आदि ठाणा
सम्पर्क सूत्र - श्री सभवनाथ जैन देरासर,
जैन उपाश्रय, जैन मंदिर गली,
जामलीनाका, बोरीवली (वेस्ट)
बम्बई - 400032 (महाराष्ट्र)
- 12 बम्बई कादिवली (वेस्ट) (महाराष्ट्र)
श्री जयचन्द्र-विजयजी म सा आदि ठाणा
सम्पर्क सूत्र - श्री श्वे मूर्ति जैन उपाश्रय,
महावीर नगर के पास, शकर गली,
कादिवली (वेस्ट),
बम्बई - 400067 (महाराष्ट्र)
- 13 बम्बई-अधेरी (वेस्ट) (महाराष्ट्र)
अन्तर्राष्ट्रीय अहिंसा धर्मप्रचारक प्रखर वक्ता
श्री अभयचन्द्र विजय श्री जी म सा
आदि ठाणा (3)
सम्पर्क सूत्र - श्री श्वे मूर्ति जैन सध,
जैन उपाश्रय, चन्द्रलोक, 1 माता,
- शान्तावाडी, जयप्रकाश रोड,
अधेरी (वेस्ट), बम्बई - 400058
(महाराष्ट्र) फोन न 6283403
6288142 6282207
- 14 शिखरजी मधुवन (विहार)
श्री पदम विजयजी म सा आदि ठाणा (2)
सम्पर्क सूत्र - धर्म मंगल जैन विद्यापीठ,
मु पो शिखरजी, मधुवन-जिला,
गिरिडीह (विहार)
- 15 कलकत्ता (प दगाल)
श्री चन्द्र प्रभ विजयजी म सा आदि ठाणा (2)
- 16 शखेश्वर तीर्थ (गुजरात)
श्री जन्द्र शेखर विजयजी म सा आदि ठाणा (1)
सम्पर्क सूत्र - मु पो शखेश्वर तीर्थ,
जिला महेसाणा (गुजरात) 384246
- 17 अहमदाबाद (गुजरात)
श्री भद्रकर विजयजी म सा आदि ठाणा (2)
सम्पर्क सूत्र - श्री जैन उपाश्रय, इसनपुरा,
अहमदाबाद (गुजरात)
- साध्वीयोंजी समुदाय
स्व साध्वी श्री जय श्री जी म सा एव प्रवर्तिनी
साध्वी श्री लावण्य श्री जी म सा का परिवार
- 18 अहमदाबाद शान्तिनगर (गुजरात)
प्रवर्तिनी साध्वी श्री लावण्य श्रीजी म सा
आदि ठाणा (12)
सम्पर्क सूत्र - गुलाब शांति स्वाध्याय
मंदिर, शांतिनगर, आश्रम रोड,
अहमदाबाद (गुजरात) 380013
- 19 अहमदाबाद-विजयनगर (गुजरात)
साध्वी श्री बित्तेन्द्र श्रीजी म सा आदि ठाणा (3)

- सम्पर्क सूत्र - श्रीमति जयाबेन चंदुलाल जैन
उपाश्रय, रेल्वे पाटा के पास,
विजय नगर, अहमदाबाद
(गुजरात) 380013
20. अहमदाबाद-विजयनगर (गुजरात)
साध्वी श्री सूर्यप्रभा श्री जी म सा. आदि ठाणा (4)
सम्पर्क सूत्र - B/4, भगवतीनगर, विजयनगर,
अहमदाबाद गुजरात - 380013
21. अहमदाबाद नाराणपुरा (गुजरात)
साध्वी श्री पदमलता श्री जी म.सा.
आदि ठाणा (3)
सम्पर्क सूत्र - मंगल मूर्ति अपार्टमेंट्स
नाराणपुरा, अहमदाबाद (गुजरात) 380013
22. जामनगर (गुजरात)
साध्वी श्री सूर्ययशा श्री जी म.सा.
आदि ठाणा (11)
सम्पर्क सूत्र - वीशा श्रीमाली जैन
उपाश्रय, लालबाग के सामने,
जामनगर (गुजरात)
23. बम्बई-घाटकोपर (महाराष्ट्र)
साध्वी श्री वीरप्रभा श्री जी म.सा.
आदि ठाणा (4)
सम्पर्क सूत्र - अजवाली लेन जैन उपाश्रय,
नवरोजी लेन, घाटकोपर (वेस्ट),
बम्बई - 400086 (महाराष्ट्र)
24. पालीताणा (गुजरात)
साध्वी श्री लक्ष्मीतज्ञा श्रीजी म.सा.
आदि ठाणा (5)
सम्पर्क सूत्र - रंभाबेन स्वाध्याय मंदिर,
Opp श्राविकाश्रम पालीताणा
(गुजरात) 364270
25. सुरेन्द्र नगर (गुजरात)
साध्वी श्री चन्द्रानंद श्री जी म.सा.
आदि ठाणा (8)
सम्पर्क सूत्र - श्री वासुपूज्य स्वामी जैन
देरासर पेढी, अमीझरा चौक,
सुरेन्द्र नगर (गुजरात) 3630 01
26. तलाजा (सौराष्ट्र) (गुजरात)
साध्वी श्री हितज्ञा श्री जी म.सा.
आदि ठाणा (4)
सम्पर्क सूत्र - जैन उपाश्रय, बाजार मे
मु.पो. तलाजा (सौराष्ट्र) (गुजरात)
27. अहमदाबाद साबरमति (गुजरात)
साध्वी श्री नयप्रज्ञा श्री जी म.सा.
आदि ठाणा (8)
सम्पर्क सूत्र - दिवाली बहिन, आराधना भुवन,
चांदखेडा स्टेशन, साबरमति,
अहमदाबाद (गुजरात)
28. कंबोई (गुजरात)
साध्वी श्री जयरत्ना श्री जी म.सा.
आदि ठाणा (3)
सम्पर्क सूत्र - जैन उपाश्रय,
मु.पो. कम्बोई, वाया सिहोरी,
जिला-बनासकांठा (गुजरात)
-
- कुल ठाणा (65)**
-
29. महेसाणा (गुजरात)
साध्वी श्री रतन श्री जी म.सा.
साध्वी श्री रवांती श्री जी म.सा.
आदि ठाणा (10)

- सम्पर्क सूत्र - श्री श्वे मूर्ति जैन उपाश्रय,
मु पो महेसाणा (गुजरात)
- 30 पालीताणा (गुजरात)
साध्वी श्री कातिश्रीजी म सा आदि ठाणा (6)
सम्पर्क सूत्र - भक्ति विहार धर्मशाला,
तलेटी रोड, पालीताणा (गुजरात) 364270
- 31 घाणेराव (राजस्थान)
प्रवर्तिनी साध्वी श्री विधुतप्रभाश्रीजी म सा
आदि ठाणा (11)
सम्पर्क सूत्र - श्री जैन श्वेताम्बर
मूर्तिपूजक सघ, बडा जैन उपाश्रय,
श्री मूडाला महावीर जी के पास,
मु पो घाणेराव जिला - पाली
(राजस्थान) 306704
- 32 देसूरी (राजस्थान)
साध्वी श्री रत्नप्रभा श्री जी म सा
आदि ठाणा (5)
सम्पर्क सूत्र - श्री जैन उपाश्रय मूर्ति
जैन सघ मु पो देसूरी,
जिला-पाली (राजस्थान)
- 33 रोहिडा (राजस्थान)
साध्वी श्री सूर्यकला श्री जी म सा
आदि ठाणा (5)
सम्पर्क सूत्र - जैन व मूर्ति सघ,
जैन उपाश्रय मु पो रोहिडा (राजस्थान)
- 34 नाडोल (राजस्थान)
साध्वी श्री शीलगुणा श्री जी म सा
आदि ठाणा (7)
सम्पर्क सूत्र - श्री श्वे मूर्ति जैन सघ,
जैन उपाश्रय, मु पो नाडोल,
जिला-सिरोही (राजस्थान)
- 35 पाली मारवाड (राजस्थान)
साध्वी श्री राजप्रज्ञा श्री जी म सा
आदि ठाणा (5)
सम्पर्क सूत्र - श्री श्वे मूर्ति जैन सघ
जैन उपाश्रय, रई कटला के पास,
मु पो पाली मारवाड (राजस्थान) 306401
- 36 उदयपुर (राजस्थान)
साध्वी श्री अमीरसा श्री जी म सा
आदि ठाणा (2)
- 37 चाणस्मा (गुजरात)
साध्वी श्री सिध्द पूर्णा श्री जी म सा
आदि ठाणा (3)
सम्पर्क सूत्र - श्री जैन उपाश्रय,
मु पो चाणस्मा, वाया पाटन,
जिला-महेसाणा (गुजरात)
- 38 धरा (गुजरात)
साध्वी श्री सिध्द गुणा श्री जी म सा
आदि ठाणा (4)
सम्पर्क सूत्र - पावापुरी सोसायटी,
मु पो धरा, जिला-वनासकाठा (गुजरात)
- 39 नाथपुरा (गुजरात)
साध्वी श्री वीरकला श्री जी म सा
आदि ठाणा (5)
सम्पर्क सूत्र - श्वे मूर्ति जैन उपाश्रय,
मु पो नाथपुरा, जिला-वनासकाठा
(गुजरात)
- 40 खापर (महाराष्ट्र)
साध्वी श्री सुयश प्रज्ञा श्री जी म सा
आदि ठाणा (4)

41. थरा (गुजरात)

साध्वी श्री तत्वप्रज्ञा श्री जी म.सा.

आदि ठाणा (6)

सम्पर्क सूत्र - जैन उपाश्रय,
मु.पो. थरा, जिला-बनासकांठा (गुजरात)

42. शंखेश्वर तीर्थ (गुजरात)

साध्वी श्री हेमलताश्रीजी म.सा.

आदि ठाणा (8)

सम्पर्क सूत्र - श्री 108 पार्श्वनाथ भक्ति विहार,
जैन-उपाश्रय, भक्ति नगर, मु.पो. शंखेश्वर
तीर्थ, जिला-महेसाणा
(गुजरात) 3840246 फोन नं. 25

43. अहमदाबाद (गुजरात)

साध्वी श्री विनयगुणा श्री जी म.सा.

आदि ठाणा (5)

सम्पर्क सूत्र - जवेरी पार्क, नारायणपुरा,
अहमदाबाद (गुजरात)

44. समी (गुजरात)

साध्वी श्री सुरेन्द्र श्री जी म.सा.

आदि ठाणा (5)

सम्पर्क सूत्र - श्वे. मूर्ति जैन उपाश्रय,
मु.पो. समी, तालूका-हारीज,
जिला-महेसाणा (गुजरात)

45. बम्बई-दादर (महाराष्ट्र)

1 साध्वी श्री सूर्य प्रभा श्री जी म.सा.

2 साध्वी श्री दिव्यप्रभा श्री जी म.सा.

आदि ठाणा (11)

सम्पर्क सूत्र - आगरतड श्रीशांतिनाथजी जैन
देरासर, कबूतर खाने के पास,
भवानी शंकर रोड, दादर (वेस्ट),
बम्बई - 400 028 (महाराष्ट्र)
फोन नं. 4229425

46. अहमदाबाद (गुजरात)

साध्वी श्री कंचन श्री जी म.सा.

आदि ठाणा (3)

सम्पर्क सूत्र - रश्मि अपार्टमेंट, वासणा
अहमदाबाद (गुजरात)

47. अहमदाबाद (गुजरात)

साध्वी श्री चन्द्रप्रभा श्री जी म.सा.

आदि ठाणा (5)

सम्पर्क सूत्र - पाटीयानो उपाश्रय,
जवेरी वाड, अहमदाबाद (गुजरात)

48. पालनपुर (राजस्थान)

साध्वी श्री सम्यग दर्शिता श्री जी म.सा.

आदि ठाणा (1)

49. अहमदाबाद (गुजरात)

साध्वी श्री त्रजुप्रज्ञा श्री जी म.सा.

आदि ठाणा (2)

सम्पर्क सूत्र - तुलसी साम, नवा वाडज
अहमदाबाद (गुजरात)

50 रतलाम (मध्यप्रदेश)

साध्वी श्री आदि ठाणा (2)

| | | | |
|---------------|----|-----------|-----|
| कुल चातुर्मास | 17 | कुल | 61 |
| मुनिराजा के | | मुनिराज | |
| कुल चातुर्मास | 33 | कुल | 180 |
| साध्वीयोके | | साध्वीयों | |
| कुल | 50 | | 241 |

कुल चातुर्मास (50) मुनिराज (61) साध्वीयों
(180) कुल ठाणा (241)

साधु साध्वी पद तालिका

| क्र | पद | 1992 | 1993 | विशेष |
|-----|------------|------|------|-------|
| 1 | गच्छाधिपति | 1 | 1 | यथावत |
| 2 | आचार्य | 5 | 5 | यथावत |
| 3 | पन्यास | 4 | 4 | 1 |
| 5 | मुनिराज | 61 | 61 | |
| 6 | साध्वीयाजी | 184 | 180 | |
| 7 | कुल ठाणा | 245 | 241 | |

नोट -

- 1 नई दीक्षा एव काल धर्म सूची प्राप्त नही होने के कारण तुलनात्मक तालिका प्रस्तुत नही कर सके
- 2 पन्यास श्री महिमा विजय जी म सा का नाम लिस्ट मे नही आया उनके चातुर्मास के बारे मे भी कोई जानकारी ज्ञात नही हो सकी।
- 3 जैन पत्र - पत्रिकाएँ - नही

सभी पूज्य आचार्यों, साधु-साध्वियों को बोटो-बोटो बदन!

हादिक शुभकामनाओं सहित -

सम्पूर्ण देश में, वैष्णव, दिगम्बर, श्वेताम्बर, म्थान-सदासी आदि 17 प्रकार के पाखंडाला की उत्पत्ति से, वर्तमान तक का पूरा एव प्रमाणिक विवरण, साधु-साध्विया, महापुराण, मंदिरा रत्नरिजाजा जन्मस्थला आदि तय्यारतमर प्रमाणित जानकारिया के साथ द्वितीय मन्वन्तर प्रकाशित—

पोरवाल समाज का इतिहास

लेखक श्री मनोहरलाल पोरवाल, जावरा (मध्यप्रदेश)

- ★ 17 भाषाया का इतिहास मय परिचय छण्ड के दृष्ट मख्या 580, कीमत रुपये 250/-
- ★ 17 भाषाया का इतिहास दृष्ट मख्या 340, कीमत रुपये 200/-

मन्वन्तर सूत्र

पोरवाल इतिहास शोध समिति

121, डॉ. बाटजू माण, जावरा-457226 जिला खतलाम (म.प्र.)

फोन नं (07414) 314 एवं 714

12

कच्छ वागड देशोध्दारक आचार्य प्रवर श्री विजय कनक
सूरीश्वर जी म.सा. (वागड वाले) का समुदाय

अध्यात्मिक योगी, भक्तियोग साधक, शासन प्रभावक,
आचार्य प्रवर श्री कलापूर्ण सूरीश्वर जी म.सा.

कुल चातुर्मास (78) मुनिराज (25) साध्वीयाँजी (385) कुल ठाणा (410)

साधु-मुनिराज समुदाय

1. मद्रास-साहूकारपेठ (तामिलनाडू)

1. अध्यात्मिक योगी, भक्तियोग साधक,
शासन प्रभावक, आचार्य प्रवर
श्री विजयकलापूर्ण सूरीश्वर जी म.सा.

2 पन्यास श्री कलाप्रभ विजय श्री जी म.सा.

आदि ठाणा (11)

सम्पर्क सूत्र - SHRI JAIN ARADHANA
BHAVAN, 351 MINT STREET,
SOWCARPET, MADRAS-600 079

2. आघोई कच्छ (गुजरात)

उपाध्याय श्री प्रीति विजयजी म.सा.

आदि ठाणा (4)

सम्पर्क सूत्र - श्री श्वे. मूर्ति जैन उपाश्रय
मु.पो. आघोई तालूका भचाऊ कच्छ
जिला-भुज (गुजरात) 370135

3. विजयवाडा (आन्ध्र प्रदेश)

श्री किर्ती रत्न विजय जी म.सा.

आदि ठाणा (3)

सम्पर्क सूत्र - Shri Swetamber Murtipujak

Jain Sangh Jain Temple,

Jain Temple, Sreet,

VIJAI WADA-520001 (A P)

4. सोलापुर (महाराष्ट्र)

श्री पूर्णचन्द्र विजयजी म.सा.

आदि ठाणा (2)

सम्पर्क सूत्र - श्री श्वे. मूर्ति जैन संघ,
जैन मन्दिर उपाश्रय, 43/46,
जोडभावी पेठ, सोलापुर
(महाराष्ट्र) 413002 फोन नं. 27420

5. बारामति (महाराष्ट्र)

श्री विमल प्रभ विजय जी म.सा.

आदि ठाणा (2)

सम्पर्क सूत्र - श्री श्वे. मूर्ति जैन संघ,
जैन उपाश्रय स्टेशन रोड,
मु.पो. बारामति जिला पूना (महाराष्ट्र)

6. राजकोट (गुजरात)

श्री तीर्थ भद्र विजयजी म.सा.

आदि ठाणा (2)

सम्पर्क सूत्र - श्री श्वे. मूर्ति जैन संघ,
जैन उपाश्रय, 37 प्रहलाद प्लोट,
राजकोट - 360001 (गुजरात)

7. देवास (मध्यप्रदेश)

श्री कलहंस विजय जी म.सा.

आदि ठाणा (1)

सम्पर्क सूत्र - श्री श्वे. मूर्ति जैन संघ
जैन उपाश्रय बड़ा बाजार
मु.पो. देवास (मध्यप्रदेश)

साध्वीयोंजी समुदाय

अहमदाबाद शहर क्षेत्र

-सावरमति (गुजरात)

साध्वी श्री सुभद्रा श्री जी म सा

आदि ठाणा

सूत्र - जैन उपाश्रय, रामनगर

सावरमति, अहमदाबाद 380005 (गुजरात)

अहमदाबाद-सावरमति (गुजरात)

साध्वी श्री सुलोचना श्री जी म सा

आदि ठाणा

सम्पर्क सूत्र - जैन उपाश्रय, शिमला बाले

श्री शखेश्वर जैन देरासर के सामने

सावरमति अहमदाबाद 380005 (गुजरात)

0 अहमदाबाद (गुजरात)

साध्वी श्री दौलत श्री जी म सा

आदि ठाणा

सम्पर्क सूत्र - माडवाली पोल, शेठ श्री पोल,

अहमदाबाद (गुजरात) 380001

11 अहमदाबाद (कालुपुर) (गुजरात)

साध्वी श्री सावग्य श्री जी म सा

आदि ठाणा

सम्पर्क सूत्र - जहाँपनाह की पोल,

कालुपुर रोड, अहमदाबाद

(गुजरात) 380001

12 अहमदाबाद पालडी (गुजरात)

साध्वी श्री अनुपमा श्री जी म सा

आदि ठाणा

सम्पर्क सूत्र - वी-3 पदमावती सोसायटी,

पी टी कालेजरोड, पालडी,

अहमदाबाद - 38000 (गुजरात)

13 अहमदाबाद कृष्णनगर (गुजरात)

साध्वी श्री चन्द्र यशा श्री जी म सा

आदि ठाणा

सम्पर्क सूत्र - 34 जयानन्द सोसायटी

प्रिया सिनेमा के पिछे, कृष्ण नगर,

नरोडा रोड, अहमदाबाद (गुजरात)

14 अहमदाबाद पालडी (गुजरात)

साध्वी श्री भुवन श्री जी म सा

आदि ठाणा

सम्पर्क सूत्र - नवा विकासगृह के पास,

पालडी अहमदाबाद 380007

15 अहमदाबाद पालडी (गुजरात)

साध्वी श्री चन्द्रप्रभा श्री जी म सा

आदि ठाणा

सम्पर्क सूत्र - 68 लावण्य सोसायटी,

पालडी-अहमदाबाद

(गुजरात) 380007

16 अहमदाबाद पालडी (गुजरात)

साध्वी श्री प्रफुल्लप्रभा श्री जी म सा

आदि ठाणा

सम्पर्क सूत्र - 14 राग वर्पा सोसायटी,

नया शारदा मंदिर रोड,

पालडी अहमदाबाद (गुजरात) 380007

17 अहमदाबाद पालडी (गुजरात)

साध्वी श्री प्रगुणश श्री जी म सा

आदि ठाणा

सम्पर्क सूत्र - उपरोक्त अनुसार

18 अहमदाबाद कालुपुर (गुजरात)

साध्वी श्री सद्गुणा श्री जी म सा

आदि ठाणा

सम्पर्क सूत्र - राजा मेहता नी पोल, मे

मे लक्ष्मीनारायण नी पोल,

कालुपुर, अहमदाबाद - (गुजरात) 380001

19 अहमदाबाद पालडी (गुजरात)

साध्वी श्री धर्मकला श्रीजी म सा

साध्वी श्री चद्रकला श्री जी म सा

आदि ठाणा

साध्वीयॉजी समुदाय

[क] अहमदाबाद शहर क्षेत्र

8. अहमदाबाद-साबरमति (गुजरात)

साध्वी श्री सुभद्रा श्री जी म.सा.

आदि ठाणा

सम्पर्क सूत्र - जैन उपाश्रय, रामनगर
साबरमति, अहमदाबाद 380005 (गुजरात)

9. अहमदाबाद-साबरमति (गुजरात)

साध्वी श्री सुलोचना श्री जी म.सा.

आदि ठाणा

सम्पर्क सूत्र - जैन उपाश्रय, शिमला बाले
श्री शंखेश्वर जैन देरासर के सामने
साबरमति अहमदाबाद 380005 (गुजरात)

10. अहमदाबाद (गुजरात)

साध्वी श्री दौलत श्री जी म.सा.

आदि ठाणा

सम्पर्क सूत्र - मांडवाली पोल, शेठ श्री पोल,
अहमदाबाद (गुजरात) 380001

11. अहमदाबाद (कालुपुर) (गुजरात)

साध्वी श्री लावण्य श्री जी म.सा.

आदि ठाणा

सम्पर्क सूत्र - जहॉपनाह की पोल,
कालुपुर रोड, अहमदाबाद
(गुजरात) 380001

12. अहमदाबाद पालडी (गुजरात)

साध्वी श्री अनुपमा श्री जी म.सा.

आदि ठाणा

सम्पर्क सूत्र - वी-3, पदमावती सोसायटी,
पी.टी. कालेजरोड, पालडी,
अहमदाबाद - 38000 (गुजरात)

13. अहमदाबाद कृष्णनगर (गुजरात)

साध्वी श्री चन्द्र यशा श्री जी म.सा.

आदि ठाणा

सम्पर्क सूत्र - 34, जयानन्द सोसायटी
प्रिया सिनेमा के पिछे, कृष्ण नगर,
नरोड़ा रोड, अहमदाबाद (गुजरात)

14. अहमदाबाद पालडी (गुजरात)

साध्वी श्री भुवन श्री जी म.सा.

आदि ठाणा

सम्पर्क सूत्र - नवा विकासगृह के पास,
पालडी अहमदाबाद 380007

15. अहमदाबाद पालडी (गुजरात)

साध्वी श्री चन्द्रप्रभा श्री जी म.सा.

आदि ठाणा

सम्पर्क सूत्र - 68 लावण्य सोसायटी,
पालडी-अहमदाबाद
(गुजरात) 380007

16. अहमदाबाद पालडी (गुजरात)

साध्वी श्री प्रफुल्लप्रभा श्री जी म.सा.

आदि ठाणा

सम्पर्क सूत्र - 14, रंग वर्षा सोसायटी,
नया शारदा मंदिर रोड,
पालडी अहमदाबाद (गुजरात) 380007

17. अहमदाबाद पालडी (गुजरात)

साध्वी श्री प्रगुणश श्री जी म.सा.

आदि ठाणा

सम्पर्क सूत्र - उपरोक्त अनुसार

18. अहमदाबाद कालुपुर (गुजरात)

साध्वी श्री सदगुणा श्री जी म.सा.

आदि ठाणा

सम्पर्क सूत्र - राजा मेहता नी पोल, मे
मे. लक्ष्मीनारायण नी पोल,
कालुपुर, अहमदाबाद - (गुजरात) 380001

19. अहमदाबाद पालडी (गुजरात)

साध्वी श्री धर्मकला श्रीजी म.सा.

साध्वी श्री चंद्रकला श्री जी म.सा.

आदि ठाणा

31 सोलापुर (महाराष्ट्र)

साध्वी श्री विजयलता श्री जी म सा
आदि ठाणा

सम्पर्क सूत्र - सोलापुर जैन श्वे मूर्ति सघ
43/46 जोडभावी पेठ
मु पो सोलापुर (महाराष्ट्र)

[च] मध्यप्रदेश प्रान्त क्षेत्र

32 बाडकुभेद (मध्यप्रदेश)

साध्वी श्री मुक्तिप्रभा श्री जी म सा
आदि ठाणा

सम्पर्क सूत्र - श्री श्वे मूर्ति जैन सघ,
मु पो बाडकुभेद जिला-उज्जैन (म प्र)

33 इन्दौर (मध्यप्रदेश)

साध्वी श्री देवानन्दा श्री जी म सा
आदि ठाणा

सम्पर्क सूत्र - श्री श्वे मूर्ति जैन सघ,
शातिनगर इन्दौर 452002 (मध्य प्रदेश)

34 इन्दौर (मध्यप्रदेश)

साध्वी श्री हेमकला श्री जी म सा
आदि ठाणा

सम्पर्क सूत्र - श्वे मूर्ति जैन सघ,
तिलकनगर, इन्दौर (मध्यप्रदेश) 452002

[छ] आन्ध्र प्रदेश प्रान्त

35 विजयवाड़ा (आन्ध्रप्रदेश)

साध्वी श्री मोक्षानन्दा श्री जी म सा
आदि ठाणा

सम्पर्क सूत्र - Shri Swetamber
Murtipujak Sangh
Jain Temple Jain Temple Street
VIJAYWADA (A P) 520001

36 तेनाली (आन्ध्र प्रदेश)

साध्वी श्री मोक्ष रत्ना श्री जी म सा
आदि ठाणा

सम्पर्क सूत्र - Shri Swetamber
Murti Pujak Sangh
Jain Temple Jain Temple
Dist Gantur (A P) 522201

37 हैदराबाद (आन्ध्रप्रदेश)

साध्वी श्री महाप्रज्ञा श्री जी म सा
आदि ठाणा

सम्पर्क सूत्र - Shri Swetamber
Murti Pujak Jain Sangh
Jain Temple Sultan Bazar
HYDERABAD 500195 (A P)

[ज] कच्छ क्षेत्र

38 रापर कच्छ (गुजरात)

साध्वी श्री चन्द्रेखा श्री जी म सा
आदि ठाणा

सम्पर्क सूत्र - श्री श्वे मूर्ति जैन उपाश्रय,
मु पो रापर कच्छ जिला-भुज
(गुजरात) 370165

39 भाचाऊ कच्छ (गुजरात)

साध्वी श्री दिव्यप्रभा श्री जी म सा
आदि ठाणा

सम्पर्क सूत्र - श्री श्वे मूर्ति जैन उपाश्रय
मु पो भचाऊ कच्छ, जिला - भुज,
गुजरात 370140

40 माडवी कच्छ (गुजरात)

साध्वी श्री हस कीर्ति श्रीजी म सा
आदि ठाणा

सम्पर्क सूत्र - श्री श्वे मूर्ति जैन उपाश्रय
मु पो माडवी कच्छ (गुजरात) 370465

41 मून्ना-कच्छ (गुजरात)

साध्वी श्री हर्षकला श्री जी म सा
आदि ठाणा

सम्पर्क सूत्र - श्री श्वे मूर्ति जैन उपाश्रय,
मु पो मून्ना कच्छ जिला - भुज कच्छ (गुजरात)

42 अजारा-कच्छ (गुजरात)

साध्वी श्री दिवाकर श्री जी म सा
आदि ठाणा

- सम्पर्क सूत्र - श्री श्वे. मूर्ति जैन उपाश्रय
मु.पो. अंजार-कच्छ (गुजरात) 370110
43. गांधीधाम-कच्छ (गुजरात)
साध्वी श्री कुवलयी श्री जी म.सा. आदि ठाणा
सम्पर्क सूत्र - श्री श्वे. मूर्ति जैन उपाश्रय,
मु.पो. गांधीधाम-कच्छ, (गुजरात) 370201
44. मनफरा-कच्छ (गुजरात)
साध्वी श्री कुशलप्रभा श्री जी म.सा. आदि ठाणा
सम्पर्क सूत्र - श्री श्वे. मूर्ति जैन उपाश्रय,
मु.पो. मनफरा-कच्छ, तालूका-भचाऊ,
जिला - भुज, (गुजरात) 370140
45. आघोई (गुजरात)
साध्वी श्री अमिवर्षा श्री जी म.सा. आदि ठाणा
सम्पर्क सूत्र - श्री श्वे. मूर्ति जैन उपाश्रय,
मु.पो. आघोई, तालूका - भचाऊ - कच्छ,
जिला - भुज (गुजरात)
46. आघोई (गुजरात)
साध्वी श्री नित्यचन्द्रा श्री जी म.सा. आदि ठाणा
सम्पर्क सूत्र - श्री श्वे. मूर्ति जैन उपाश्रय,
मु.पो. आघोई, तालूका - भचाऊ - कच्छ,
जिला - भुज (गुजरात)
47. सामखियाली (गुजरात)
साध्वी श्री हर्षोज्वला श्री जी म.सा. आदि ठाणा
सम्पर्क सूत्र - श्री श्वे. मूर्ति जैन उपाश्रय,
मु.पो. सामखियाली-कच्छ, जिला - गुज
(गुजरात) 370150
48. लाकडिया-कच्छ (गुजरात)
साध्वी श्री न्याय श्री जी म.सा. आदि ठाणा
सम्पर्क सूत्र - श्री श्वे. मूर्ति जैन उपाश्रय,
जैन मु.पो. लाकडिया, कच्छ
जिला - भुज (गुजरात)
49. भीमासर-कच्छ (गुजरात)
साध्वी श्री विमल श्री जी म.सा. आदि ठाणा
- सम्पर्क सूत्र - श्री श्वे. मूर्ति जैन उपाश्रय,
मु.पो. भीमासर, तालूका - रापर-कच्छ,
जिला - गुज (गुजरात) 370160.
50. पलांसवा-कच्छ (गुजरात)
साध्वी श्री ज्योतिप्रज्ञा श्री जी म.सा. आदि ठाणा
सम्पर्क सूत्र - श्री श्वे. मूर्ति जैन उपाश्रय,
मु.पो. पलांसवा-कच्छ तालूका-रापर,
जिला-भुज (गुजरात) 370155
51. गागोदर-कच्छ (गुजरात)
साध्वी श्री यशस्वती श्री जी म.सा. आदि ठाणा
सम्पर्क सूत्र - श्री श्वे. मूर्ति जैन उपाश्रय,
मु.पो. गागोदर, तालूका-रापर-कच्छ
(गुजरात) 370145
- [ज] सौराष्ट्र-गुजरात क्षेत्र
52. राजकोट (गुजरात)
साध्वी श्री तत्वपूर्णा श्री जी म.सा. आदि ठाणा
सम्पर्क सूत्र - श्री श्वे. मूर्ति जैन उपाश्रय,
37 प्रहलाद प्लोट,
राजकोट-360001 (गुजरात)
53. जामनगर (गुजरात)
साध्वी श्री जयभद्रा श्री जी म.सा. आदि ठाणा
सम्पर्क सूत्र - श्री श्वे. मूर्ति जैन उपाश्रय,
4, ओसवाल कोलोनी,
जामनगर-361005 (गुजरात)
54. जामनगर (गुजरात)
साध्वी श्री पुष्पचुला श्री जी म.सा. आदि ठाणा
सम्पर्क सूत्र - श्री जैन उपाश्रय,
देव बाग के पास, जामनगर
(गुजरात) 361001
55. जामनगर (गुजरात)
साध्वी श्री निरुपमा श्री जी म.सा. आदि ठाणा
सम्पर्क सूत्र - फूली बा नो डेलो,
जामनगर-361001 (गुजरात)
56. पालीताणा (गुजरात)
साध्वी श्री हेमगुणा श्री जी म.सा. आदि ठाणा

- सम्पर्क सूत्र - ओसवाल भुवन धर्मशाला,
रूम न 3 तलेटी रोड,
पालीताणा (गुजरात) 364270
- 57 लिम्बडी (गुजरात)
साध्वी श्री हर्षपूर्णा श्री जी म सा आदि ठाणा
सम्पर्क सूत्र - पूरीवाई धर्मशाला,
मु पो लिम्बडी-(सौराष्ट्र),
जिला - सुरेन्द्रनगर (गुजरात)
- 58 आणन्द (गुजरात)
साध्वी श्री चाहलता श्री जी म सा आदि ठाणा
सम्पर्क सूत्र - श्री श्वे मूर्ति जैन उपाश्रय,
मु पो आणन्द, जिला - खेडा (गुजरात)
- 59 जामनगर (गुजरात)
साध्वी श्री पदमप्रभा श्री जी म सा आदि ठाणा
सम्पर्क सूत्र - मोरार बाग,
मु पो जामनगर (गुजरात)
- 60 पालीताणा (गुजरात)
साध्वी श्री सुनन्दा श्री जी म सा आदि ठाणा
सम्पर्क सूत्र - निवृति आश्रम धर्मशाला,
तलेटी रोड, पालीताणा
(गुजरात) 360001
- 61 सूरत (गुजरात)
साध्वी श्री दमयती श्री जी म सा आदि ठाणा
सम्पर्क सूत्र - हुकम मुक्ति उपाश्रय
मु पो सूरत (गुजरात)
- 62 राघनपुर (गुजरात)
साध्वी श्री वेमी प्रभा श्री जी म सा आदि ठाणा
सम्पर्क सूत्र - पोलीयानो उपाश्रय
मु पो राघनपुर, जिला-बनासकाठा
(गुजरात) 385340
- 63 राघनपुर (गुजरात)
1 साध्वी श्री प्रवीणप्रभा श्री जी म सा
2 साध्वी श्री सुदद्या श्री जी म सा
आदि ठाणा
- सम्पर्क सूत्र - पाजरापोल,
राघनपुर, जिला-बनासकाठा (गुजरात) 385340
- 64 बलसाड (गुजरात)
साध्वी श्री जितप्रज्ञा श्री जी म सा
आदि ठाणा (4)
- सम्पर्क सूत्र - सेठ फलीया जैन उपाश्रय,
महावीर चौक, मु पो बलसाड
(गुजरात) 396001
- 65 सूरत (गुजरात)
साध्वी श्री चान्लोचना श्री जी म सा
आदि ठाणा
सम्पर्क सूत्र - जैन उपाश्रय, काजीनु मैदान,
गोपीपुरा सूरत (गुजरात) 345001
- 66 सातलपुर (गुजरात)
साध्वी श्री भद्रगुण श्री जी म सा आदि ठाणा
सम्पर्क सूत्र - जैन उपाश्रय
मु पो सातलपुर,
जिला-बनासकाठा (गुजरात)
- 67 सूरत (गुजरात)
साध्वी श्री प्रियधर्मा श्री जी म सा
आदि ठाणा (4)
सम्पर्क सूत्र - दिव्य स्वप्न अपार्टमेंट,
तीनवती के पास, गोपीपुरा,
सूरत-395001 (गुजरात)
- 68 सूरत (गुजरात)
साध्वी श्री जयमाता श्री जी म सा आदि ठाणा
सम्पर्क सूत्र - शत्रुजय अपार्टमेंट
बैक ऑफ बडोदा के उपर,
तीन माला सूरत- (गुजरात) 395001
- 69 भावनगर (गुजरात)
साध्वी श्री वीरधर्मा श्री जी म सा
आदि ठाणा
- 70 नादिया (गुजरात)
साध्वी श्री यशोधना श्री जी म सा आदि ठाणा
सम्पर्क सूत्र - जैन उपाश्रय,
मु पो नादिया, स्टेशन सिरौही
जिला-सिरौही (राजस्थान)

| | | | |
|----------------------------|----|---------------|-----|
| कुल चातुर्मास मुनिराजों के | 7 | कुल मुनिराज | 25 |
| कुल चातुर्मास साध्वीयो के | 71 | कुल साध्वीयाँ | 385 |
| | 78 | | 410 |

कुल चातुर्मास (78) मुनिराज (25)
साध्वीयाँजी(385) कुल ठाणा (410)

साधु - साध्वी पद तालिका-1993

| क्र. | पद | 1992 | 1993 | विशेष |
|------|-----------|------|------|-------|
| 1 | आचार्य | 1 | 1 | यथावत |
| 2 | उपाध्याय | 1 | 1 | यथावत |
| 3 | पंन्यास | 1 | 1 | यथावत |
| 4 | मुनिराज | 24 | 25 | |
| 5 | साध्वीयाँ | 373 | 385 | |
| | कुलठाणा | 373 | 410 | |

नोट

- (1) नई दीक्षा एवं काल धर्म सूची प्राप्त नही होने के कारण तुलनात्मक तालिका प्रगट नही कर सके।
- (2) इस समुदाय की साध्वीयो की जो सूची प्राप्त हुई, आंध्रप्रदेश कर्नाटक महाराष्ट्र आदि प्रान्तो की सूचीया XEROX कापी के अक्षर अस्पष्ट होने के कारण पढ नही सके वह खाली रखनी पडी
- (3) साध्वीयो के ठाणाओ की संख्या गतवर्ष के अनुमान से ही यहाँ दी गयी है।
- (4) कुछ चातुर्मास क्षेत्रो को एक ही जगह दर्शाया गया है वहाँ अलग 2 सिंघाडो के चातुर्मास है स्थान एक ही है।
- (5) जैन पत्र - पत्रिकाए - नही.



Jain[®]
SHAWLS

WAIT GANJ, LUDHIANA-141008. (INDIA)

Manufacturers of

**Toosha Shawls, Kulu, Kashmiri, Plain,
Embroidery, Gents, Loi and Acrylic Shawls**

Tel. No. : 34530, 33996 Cable : 'WELWISHER' Fax : 0161-50018

Bankers : State Bank of India, Brahmपुरi, Ludhiana

॥ श्री महावीराय नम ॥

श्री आनन्द वृद्धाश्रम (रजिस्टर्ड)

पाचोरा (जि जळगाव) महाराष्ट्र

(C Rly)

आज समाज व्यवस्था का बदलता रूप और वृद्ध व्यक्तियों की समस्याएँ चिन्तनीय बन रही हैं। तब, मन एव घन की अम्बुव्यना में वृद्ध कठिन हो जाता है, अण्णाएँ अच्युती रह जाती हैं। उपेक्षित, अपमानित एवम् अवेलापन महसूस होता है। आनन्द वृद्धाश्रम, अच्युती मयती का माकार रूप देन के उद्देश्य में ही शुरू हो रहा है। यह आश्रम वृद्धों का नव जीवन-नई आगाएँ एवम् चेतना प्रदान करेगा।

जहाँ सभी श्रेणी एव समाज के वृद्ध प्रकृति की विगमता में शहर में दूर भातता और मादगीपूण जीवन वितायेगे।

○ वृद्ध महिलाओं का अला में प्रबन्ध होगा जिसे 'मातृकुल' नाम में जाना जायेगा।

○ वृद्ध पुरुषों का प्रबन्ध होगा जिसे "निवाग" कहा जायेगा।

मस्या का नायानव रामनारायण नार, गा म हायस्कूल के पाम है। जहाँ 60 वृद्धों की छाया एव भीतलता तब मन को प्रमन रखती है।

सस्था के पदाधिकारियों ने जून 93 में महाराष्ट्र में वृद्धाश्रम की गतिविधियों में परिचित होने हेतु कुछ एक म्यानों का भ्रमण किया। इसीसे प्राप्त प्रणाम में मस्या 90-20 हक्टर भूमि संपादित करन का प्रयास कर रही है। जहा वृद्धाश्रम, वानप्रस्थाश्रम, प्रगम्ल भाजनगृह, आरोग्य सेवा केन्द्र, वाचनालय, योगासन कदा तथा सर्व घम प्रायना म्यल आदि की व्यवस्था की जायेगी।

सस्था का समाज सेवा का व्रत समाज में वृद्धा के प्रति आस्था, स्नेह तथा ममता धारण किये हुए है। अत एसे दानी, मवाभावी व्यक्ति एवम सम्पात्रों द्वारा हमारे सस्था सहयोग और सहायता की अपेक्षा रखे हुए हैं।

मस्या के विश्र्वस्त स्वातंत्र्य सेनानों बुजुर्ग, अनुभवों तथा मवाभावी समर्पित व्यक्ति है। मस्या के अध्यक्ष श्रीमान शेट लामचन्द जगजीवनजी के तत्वववाधान में मस्या प्रगतिरथ पर है। श्रीमान् बाबूलालजी चौरडिया मंत्रिय एवम् मपूणन में इस मन्वुके काय में सलग्न है। अधिक जानकारी हेतु सस्था को भेंट देवेँ अथवा सपक करें।

मपूणन-बाबूलाल चौरडिया
पाचोरा (महाराष्ट्र)
फोन-40577, (घर),
40475 (ऑफिस)



श्री लामचन्द शेट
स्वतंत्रता सेनानी
उमर-82 पाचोरा, (महाराष्ट्र)

नो, क्र, महा, /2443/जळगाव
श्री मन्चिदानन्द प्रतिष्ठान संचालित
श्री आनन्द वृद्धाश्रम
पाचोरा जिना जळगाव (महा)

श्री बाबूलाल चौरडिया

उमर-67

व्यवस्थापक-व म्या जैन श्रावक मप-(पाचोरा)

13

संघ स्थविर आचार्य प्रवर श्रीमद् विजय सिद्धिसूरीश्वर जी म.सा. (बापजी म.सा.) का समुदाय

वर्तमान में समुदाय के प्रमुख आचार्य :-गणनायक आचार्य प्रवर श्रीमद् विजय भद्रंकर सूरीश्वर जी म.सा.

कुल चातुर्मास (40) मुनिराज (23) साध्वीयॉजी (250) कुल ठाणा (273)

साधु-मुनिराज-समुदाय

1. अहमदाबाद (गुजरात)

गणनायक आचार्य श्री विजय भद्रंकर सूरीश्वर जी म.सा.

सम्पर्क सूत्र - श्री श्वे. मूर्ति जैन संघ,
पंकज सोसायटी, पालडी,
अहमदाबाद-380007 (गुजरात)

2. वाव (डीसा) (गुजरात)

आचार्य श्री विजय अरविन्द सूरीश्वर जी म.सा.

आदि ठाणा (5)

सम्पर्क सूत्र - श्री श्वे. मूर्ति जैन उपाश्रय,
मु.पो. वाव वाया डीसा जिला-बनासकांठा
(गुजरात) 385575.

3. आरखी डीसा (गुजरात)

1 आचार्य श्री विजय यशोविजय सूरीश्वरजी म.सा.

2 प्रवर्तक श्री जयानन्द विजय जी म.सा.

आदि ठाणा (4)

सम्पर्क सूत्र - श्री नगीनदास मंछालाल, सदर बाजार, मु.पो. डीसा, जिला-बनासकांठा (गुजरात) 385535 फोन (02744) आफिस 20099 निवास 20617,21599.

4. झीझुंवाडा (गुजरात)

1 प्रवर्तक श्री जम्बू विजय जी म.सा.

2 श्री चन्द्रयश विजय जी म.सा.

सम्पर्क सूत्र - श्री श्वे. मूर्ति जैन उपाश्रय,
मु.पो. झीझुंवाडा वाया विरमगांव
(गुजरात) 382755

5. सूरत (गुजरात)

श्री हरिशचन्द्र विजय जी म.सा.

आदि ठाणा

सम्पर्क सूत्र - श्री श्वे. मूर्ति. जैन उपाश्रय,
नवापुरा, सूरत - 395001 (गुजरात)

6. आरखी (गुजरात)

श्री पदम दर्शन विजय जी म.सा.

आदि ठाणा (4)

सम्पर्क सूत्र - श्री श्वे. मूर्ति जैन उपाश्रय,
मु.पो. आरखी वाया डीसा जिला-बनासकांठा
(गुजरात)

साध्वीयॉजी समुदाय

7. जूना डीसा (गुजरात)

साध्वी श्री मनक श्री जी म.सा.

आदि ठाणा (10)

सम्पर्क सूत्र - श्री श्वे. मूर्ति जैन उपाश्रय,
मु.पो. नवा डीसा, वाया पालनपुर,
जिला-बनासकांठा (गुजरात) 385535.

- 8 डीसा (गुजरात)
साध्वी श्री मति श्री जी म सा
आदि ठाणा (5)
सम्पर्क सूत्र - ग्रेयास सोसायटी, मु पो डीसा,
जिला-बनासकाठा (गुजरात) 385535
- 9 आरखी (डीसा) (गुजरात)
1 साध्वी श्री सुवर्णा श्री जी म सा
2 साध्वी श्री नूतन प्रभा श्री जी म सा
आदि ठाणा (15)
सम्पर्क सूत्र - श्री श्वेताम्बर मूर्ति जैन उपाश्रय,
मु पो आरखी वाया डीसा
जिला - बनासकाठा (गुजरात)
- 10 अहमदाबाद-सावरमति (गुजरात)
साध्वी श्री धर्मरत्ना श्री जी म सा
आदि ठाणा (12)
सम्पर्क सूत्र - श्री रतीलाल चन्दुलाल,
देकावाडा की चाल, रामनगर सावरमति,
अहमदाबाद (गुजरात) 380005
- 11 पालनपुर (गुजरात)
साध्वी श्री सूर्यकला श्री जी म सा
आदि ठाणा (11)
सम्पर्क सूत्र - श्री प्रवीणकुमार डी वोरा,
"बीतराज" अम्बिका नगर, ईदगाह रोड,
मु पो पालनपुर, जिला - बनासकाठा
(गुजरात) 385001
- 12 सूरत (गुजरात)
साध्वी श्री भावपूणा श्री जी म सा
आदि ठाणा (11)
सम्पर्क सूत्र - गोपीपुरा सूरत (गुजरात)
- 13 पालियाद (गुजरात)
साध्वी श्री मतिपूर्णा श्री जी म सा
आदि ठाणा (5)
सम्पर्क सूत्र - श्री श्वे मूर्ति जैन उपाश्रय
मु पो पालियाद वाया बोटाद (सौराष्ट्र)
(गुजरात)
- 14 जसवतपुरा (राजस्थान)
साध्वी श्री प्रशामचन्द्र श्री जी म सा
आदि ठाणा (2)
सम्पर्क सूत्र - श्री श्वेताम्बर मूर्ति, जैन उपाश्रय,
जसवतपुरा जिला - जालौर (राजस्थान)
- 15 वाव (गुजरात)
साध्वी श्री कल्पलता श्री जी म सा
आदि ठाणा (7)
सम्पर्क सूत्र - श्री श्वे मूर्ति जैन उपाश्रय,
मु पो वाव वाया डीसा,
जिला - बनासकाठा (गुजरात)
- 16 राधनपुर (गुजरात)
साध्वी श्री मृगाक पूर्णा श्री जी म सा
आदि ठाणा (3)
सम्पर्क सूत्र - श्री श्वे मूर्ति जैन उपाश्रय,
गाधीवास, राधनपुर वाया पालनपुर,
जिला-बनासकाठा, (गुजरात)
- 17 चौटीला (सौराष्ट्र) (गुजरात)
साध्वी श्री धैर्य रत्ना श्री जी म सा
आदि ठाणा (2)
सम्पर्क सूत्र - श्री श्वेताम्बर मूर्ति जैन उपाश्रय,
मु पो चौटीला, जिला - सुरेन्द्रनगर (गुजरात)
- 18 डीसा (गुजरात)
साध्वी श्री सबेग रेखा श्री जी म सा
आदि ठाणा (4)
सम्पर्क सूत्र - श्री श्वेताम्बर मूर्ति जैन उपाश्रय,
सदर बाजार, मु पो डीसा,
जिला - बनासकाठा (गुजरात) 385535
- 19 झींझुवाडा (गुजरात)
साध्वी श्री रम्यगुणा श्री जी म सा
आदि ठाणा (2)
सम्पर्क सूत्र - श्वेताम्बर मूर्ति, जैन उपाश्रय
मु पो झींझुवाडा वाया वित्तमाग
(गुजरात) 382755

| | | | |
|------------------------------|----|------------------|-----|
| कुल चातुर्मास मुनिराजो के | 7 | कुल मुनिराज | 23 |
| कुल चातुर्मास साध्वीयो के | 33 | कुल साध्वीयाँ | 250 |
| | 40 | | 273 |

कुल चातुर्मास (40) मुनिराज (23) साध्वीयाँजी
(250) कुल ठाणा (273)

साधु-साध्वी पद तालिका-1993

| क्र. पद | 1992 | 1993 | विशेष |
|---------------|------|------|---------------------------------|
| 1 आचार्य | 3 | 3 | यथावत |
| 2 प्रवर्तक | 2 | 2 | यथावत |
| 3 मुनिराज | 23 | 23 | यथावत |
| 4 साध्वीयाँजी | 350 | 250 | कुछ साध्वीयाँ अन्य समुदायोमे |
| कुल ठाणा | 373 | 273 | सम्मिलित हो गये है। |

नोट -


- 1 नई दीक्षा एवं कालधर्म सूची प्राप्त नही होने के कारण तुलनात्मक तालिका प्रस्तुत नही कर सके
- 2 इस समुदाय की कुछ साध्वीयाँ सिध्दान्त महोदधि आचार्य श्री विजय प्रेम सूरिश्वर जी म.सा. (भाग प्रथम) में सम्मिलित हो गये है ऐसा उस समुदाय की सूची देखने से ज्ञात होता है।
- 3 इस समुदाय की कई साध्वीयो के चातुर्मासो की जानकारीया ज्ञात नही हो सकी। इस कारण यहा केवल अनुमानीत संख्या ही दी गयी है।
- 4 जैन पत्र-पत्रकाए - नही.



हादिक शुभकामनाओ सहित-

H.V. METAL CORPN.

Mfg. MIXER CUM GRINDER



Also complete Parts & Packing marterial
of Mixer (Box Booklets etc.)

VIKRANT-WONDER CEILING FAN, FLOUR MILL

Parshuram Bhavan, Shop No. 1, Balaram Patil Road,
BHAYANDER (East.) Distt. Thana (Bombay)-401 105

Tel. No Office : 8194685

प्रातः स्मरणयोग, बाल ब्रह्मचारी, चारित्र्य ब्रह्ममणि, सप्तता विमूढि घनपाल प्रतिबोधक, जिन शासन प्रद्योतक, सपीलण ध्यानयोगी, आगम निधि, विद्वद गिरोमणि परम पूज्य आचार्य प्रवर श्री 1008 श्री नानालालजी मसा, तल्प तपस्वी, शास्त्रज्ञ, देशाण नगरी के ताडले सपूत मुवाचाम प्रवर श्री रामलालजी मसा आदि ठाणा 8 विदुपी शासन प्रभाविका स्याचिरा महासती श्री बेधर कुँवरजी मसा आदि ठाणा 15 के चातुर्मास हेतु देशनोक आगमन पर एव आपके आगानुवर्ती सभी सत एव पूज्य महासतियाँजी का वर्ष 1993 का चातुर्मास हर्षोन्लाक वातावरण में गान, दशन, चारित्र्य एव तप की प्रवृत्तियों से ओत प्रोत सफल बने ऐसी शुभ मंगल कामनाएँ करते हुए

शतः शतः वन्दन अभिनन्दन



शान्तिलाल साइ
पंतूम स्यान-देशनोक (बीकानेर)
हाल मुकाम बैंगलौर



हार्दिक शुभकामनाओ सहित
शान्तिलाल साइ
अध्यक्ष

श्री साधुमार्गी जैन सघ
देशनोक

जिला बीकानेर (राजस्थान) 334 801



शान्तिलाल साइ

P O देशनोक DESHNOKE

Dist बीकानेर (राजस्थान)

Pin 334801

Office Add

शान्तिलाल, राजय, अजय, तुपार साइ

PIPE PRODUCTS OF INDIA

No 50, 7th Cross, Wilson Garden

Bangalore-560027 (Karnatka)

14

योगनिष्ठ आचार्य प्रवर श्री विजय केशर सूरीश्वर जी म.सा. का समुदाय

वर्तमान में समुदाय के प्रमुख गच्छाधिपति :- गच्छाधिपति आचार्य प्रवर श्री विजय हेमप्रभ सूरीश्वर जी म.सा.

कुल चातुर्मास (43) मुनिराज (24) साध्वीयाँजी (177) कुल ठाणा (201)

साधु-मुनिराज-समुदाय

1. बैंगलोर (कर्नाटक)

गच्छाधिपति आचार्य श्री विजय हेम प्रभ सूरीश्वर जी म.सा.

पन्यास श्री मलयचन्द्र विजयजी म.सा.

आदि ठाणा (11)

सम्पर्क सूत्र - Shn Adinath Jain Svetamber

Sangh, Shn Adinath Jain Temple,

chickpet, Bangalore - 560053 (KRN)

2. थलतेज-अहमदाबाद (गुजरात)

आचार्य श्री विजय यशोरत्न सुरीश्वरजी जी

म.सा. आदि ठाणा (3)

सम्पर्क सूत्र - श्री मुक्तिधाम जैन विद्यापीठ
गांधीनगर हाईवे रोड, थलतेज, अहमदाबाद
(गुजरात) 380054

3. पालीताणा (गुजरात)

श्री विभाकर विजय जी म.सा. आदि ठाणा

सम्पर्क सूत्र - गिरी विहार धर्मशाला,
तलेटी रोड, पालीताणा (गुजरात) 364270.

4. पालीताणा (गुजरात)

श्री हरिभद्र विजय जी म.सा. आदि ठाणा (2)

सम्पर्क सूत्र - गिरी विहार धर्मशाला, तलेटी रोड,
पालीताणा (गुजरात) 364270.

5. जामनगर (गुजरात)

श्री भास्कर विजय जी म.सा. आदि ठाणा
सम्पर्क सूत्र - श्री मोहन विजयजी पाठशाला
जामनगर (गुजरात)

6. तारंगाजी तीर्थ (गुजरात)

श्री विरती प्रभा विजयजी म.सा. आदि ठाणा
सम्पर्क सूत्र - श्री श्वे. मूर्ति जैन उपाश्रय
मु.पो. तारंगाजी तीर्थ (गुजरात)

7. सेरिता (गुजरात)

श्री आनन्द विजय जी म.सा. आदि ठाणा (2)
सम्पर्क सूत्र - श्री श्वे. मूर्ति जैन उपाश्रय
मु.पो. सेरिता (गुजरात)

साध्वीयाँजी समुदाय

8. पालीताणा (गुजरात)

1 साध्वी श्री ज्ञान श्री जी म.सा.

2 साध्वी श्री विजय श्री जी म.सा.

आदि ठाणा (13)

सम्पर्क सूत्र - श्री मुक्तिचन्द्र श्रमण आराधना
ट्रस्ट, गिरीविहार, धर्मशाला, तलेटी रोड,
पालीताणा (गुजरात) 364270

9. अहमदाबाद-साबरमति (गुजरात)

साध्वी श्री नेम श्री जी म.सा. आदि ठाणा (9)

समग्र जैन चातुर्मास सूची, 1993

सम्पर्क सूत्र - Shri Swetamber Murtipujak
Jan Sangh Jain Temple
P O Hospet 583201 (Karnataka)

21 बम्बई-वालकेश्वर (महाराष्ट्र)
साध्वी श्री कुसुम श्री जी म सा
आदि ठाणा (5)

सम्पर्क सूत्र - श्री सुपाशर्वनाथ जैन देरासर सद्य,
निचे, 97 वालकेश्वर रोड, व्हाइट हाउस
के पास, बम्बई - 400006 (महाराष्ट्र)

22 बम्बई-बोरीवली (पूर्व) (महाराष्ट्र)
साध्वी श्री पद्मप्रभा श्री जी म सा
आदि ठाणा (5)

सम्पर्क सूत्र - श्री श्वे मूर्ती जैन उपाश्रय,
जैन देरासर 6 पुरुषोत्तम पार्क, कार्टर
रोड न 4 बोरीवली (पूर्व),
बम्बई - 400066 (महाराष्ट्र)

23 बम्बई-बोरीवली (वेस्ट) (महाराष्ट्र)
साध्वी श्री प्रशांत श्री जी म सा
आदि ठाणा (4)

सम्पर्क सूत्र - श्री सभवनथ जैन मंदिर, जैन
मंदिर रोड, जामली गल्ली, बोरीवली
(वेस्ट), बम्बई - 400092

24 बम्बई-कादिवली (महाराष्ट्र)
साध्वी श्री प्रशांत श्री जी म सा
आदि ठाणा (2)

सम्पर्क सूत्र - श्री श्वे मूर्ति, जैन उपाश्रय,
महावीर नगर, शंकर लेन, कादिवली
(वेस्ट), बम्बई - 400067 (महाराष्ट्र)

25 बम्बई-विलेपार्ले (महाराष्ट्र)
साध्वी श्री मधुकाता श्री जी म सा
आदि ठाणा (8)

सम्पर्क सूत्र - श्री घेलाभाई कमचद
सेनेटेरियम, रेल्वे स्टेशन के सामने विलेपार्ले
(वेस्ट) बम्बई - 400057 (महाराष्ट्र)

सम्पर्क सूत्र - श्री नेम मजुल वारी, वज्र जैन
स्वाध्याय मंदिर, पदमनगर सोसायटी का
रोड, श्री गोडीजी पार्श्वनाथ देरासर के
सामने, साबरमति, अहमदाबाद (गुजरात)
380005

16 पालीताणा (गुजरात)

1 साध्वी श्री हस्ती श्री जी म सा
आदि ठाणा (13)

2 साध्वी श्री मजुला श्री जी म सा
आदि ठाणा (5)

3 साध्वी श्री प्रभा श्री जी म सा
आदि ठाणा (2)

4 साध्वी श्री विनिता श्री जी म सा
आदि ठाणा (3)

5 साध्वी श्री जयप्रज्ञा श्री जी म सा

6 साध्वी श्री शशी प्रभा श्री जी म सा
आदि ठाणा (3)

7 साध्वी श्री राजेन्द्र श्री जी म सा
आदि ठाणा (2)

सम्पर्क सूत्र - गिरीविहार आराधना केन्द्र,
तलेटी रोड, पालीताणा (गुजरात) 364270

17 धलतेज-अहमदाबाद (गुजरात)
साध्वी श्री विनयप्रभा श्री जी म सा
आदि ठाणा (7)

सम्पर्क सूत्र - श्री मुक्तिधाम जैन विद्यापीठ
गाधीनगर हाईवे रोड, धलतेज, अहमदाबाद
(गुजरात) 380054

18-19 धलतेज-अहमदाबाद (गुजरात)

1 साध्वी श्री श्रेयसकरा श्री जी म सा
आदि ठाणा (14)

2 साध्वी श्री उदयगंगा श्री जी म सा

सम्पर्क सूत्र - श्री मुक्तिधाम जैन विद्यापीठ
गाधीनगर हाईवे रोड, धलतेज, अहमदाबाद
(गुजरात) 380054

20 होसपेट (कर्नाटक)

साध्वी श्री कल्पगुणा श्री जी म सा
आदि ठाणा (11)

26. पालनपुर (गुजरात)

साध्वी श्री अनंत प्रभा श्री जी म.सा.

आदि ठाणा (4)

सम्पर्क सूत्र - श्री खरतरगच्छ जैन उपाश्रय,
पालनपुर, जिला - बनासकांठा (गुजरात)

27. जबलपुर (मध्यप्रदेश)

साध्वी श्री महाप्रज्ञा श्री जी म.सा.

आदि ठाणा (5)

सम्पर्क सूत्र - श्री शीतलनाथ जैन मंदिर,
18 सराफा बाजार, मु.पो. जबलपुर
(मध्यप्रदेश) 482001

28. बंगार पेठ (कर्नाटक)

साध्वी श्री यशप्रभा श्री जी म.सा.

आदि ठाणा (6)

सम्पर्क सूत्र - Shri Sweatamber Murtipujak Jain Sangh, Shri Sambhav Nath Jain Temple, P.O. Bangarpet 563115 (Karnatka)

29. वैलूर

साध्वी श्री विनयरत्ना श्री जी म.सा.

आदि ठाणा (5)

सम्पर्क सूत्र - Shri Sweatamber Jain Trust, Jain Temple P.O. Vellore-632001 (Tamil Nadu)

30. बैंगलोर (कर्नाटक)

साध्वी श्री मेरु शीला श्री जी म.सा.

आदि ठाणा (8)

सम्पर्क सूत्र - Shri Adinath Jain Swetamber Sangh, Shri Adinath Jain Temple, chickpet, Bangalore - 560053. (Karnatka)

31. बम्बई नेपियनसी रोड (महाराष्ट्र)

साध्वी श्री ज्योति प्रज्ञा श्री जी म.सा.

आदि ठाणा (3)

सम्पर्क सूत्र - श्री वासुपूज्य स्वामी जैन देरासर मातृ आशीष 31, नेपियनसी रोड, बम्बई - 400006 (महाराष्ट्र)

32. सूरत (गुजरात)

साध्वी श्री जयपूर्णानन्दन जी म.सा.

आदि ठाणा (2)

सम्पर्क सूत्र - जैन उपाश्रय, जैन देरासर, अठवा लाईन, लालबंगला, सूरत - 395001 (गुजरात)

33. गुजरात

साध्वी श्री सूर्य प्रभा श्री जी म.सा.

आदि ठाणा (5)

सम्पर्क सूत्र - श्री धर्मज जैन संघ, जैन उपाश्रय मु.पो. धर्मज वाया आणन्द जिला - खेडा, (गुजरात) 388430

34. बोरसद (गुजरात)

साध्वी श्री प्रशांत रसा श्री जी म.सा.

आदि ठाणा (3)

सम्पर्क सूत्र - श्री माली वाघा जैन उपाश्रय मु.पो. बोरसद जिला - बडौदा (गुजरात)

35. अहमदाबाद (गुजरात)

साध्वी श्री निर्मल प्रभा श्री जी म.सा.

आदि ठाणा (2)

सम्पर्क सूत्र - जैन देरासर के पास, श्राविका उपाश्रय, रतनपोल, गोलवड, अहमदाबाद - 380001 (गुजरात)

पालीताणा (गुजरात)

साध्वी श्री विश्वप्रभा श्री जी म सा

आदि ठाणा (2)

सम्पर्क सूत्र - गिरी विहार धर्मशाला, तलेटी
रोड, पालीताणा (गुजरात) 364270

37 ऊड़ा (गुजरात)

साध्वी श्री वज्रसेना श्री जी म सा

आदि ठाणा (11)

सम्पर्क सूत्र - जैन उपाश्रय, खजूरी पोल, मु पो
ऊड़ा, जिला - महेसाणा (गुजरात)

38 अहमदाबाद - रामनगर (गुजरात)

साध्वी श्री गुमीधर श्री जी म सा

आदि ठाणा (7)

सम्पर्क सूत्र - श्रीमणीभाई घेलाभाई जैन
उपाश्रय, रामनगर, अहमदाबाद (गुजरात)

39 उम्मेदाबाद (गुजरात)

साध्वी श्री विरतीधरा श्रीजी म सा

आदि ठाणा (5)

सम्पर्क सूत्र - श्री कल्याण सौभाग्य आराधना
भवन, मु पो उम्मेदाबाद, जिला - जालौर
(राजस्थान) 343021

40 विलीमेरा (गुजरात)

साध्वी श्री वदिता श्री जी म सा

आदि ठाणा (2)

सम्पर्क सूत्र - श्री श्वेताम्बर मूर्ति, जैन उपाश्रय,
नवापरा मु पो विलीमेरा, जिला - बलसाड,
(गुजरात)

41 भावनगर (गुजरात)

साध्वी श्री नदिश्वरा श्री जी म सा

आदि ठाणा (4)

सम्पर्क सूत्र - श्री जैन आराधना भवन,
निर्मलनगर, तीन मालीया के पास
विहूलवाडी, भावनगर (गुजरात) 364001

42 अहमदाबाद (गुजरात)

साध्वी श्री हसा श्री जी म सा

आदि ठाणा (3)

सम्पर्क सूत्र - E/3/4 सुकृती फलेटस,
माणेकवाग सोसायटी के वाजू मे,
आम्बावाडी, अहमदाबाद
(गुजरात) 380015

43 पालीताणा (गुजरात)

साध्वी श्री विश्वज्योति श्री जी म सा

आदि ठाणा

सम्पर्क सूत्र - श्रमणी विहार धर्मशाला,
तलेटी रोड, पालीताणा
(गुजरात) 364270

किसी भी सामयिक
अवसर पर परिषद्
को सहयोग अवश्य
प्रदान करें ।

| | | | |
|---------------------------|----|---------------|-----|
| कुल चातुर्मास मुनिराजो के | 7 | कुल मुनिराज | 24 |
| कुल चातुर्मास साध्वीयो के | 36 | कुल साध्वीयाँ | 177 |
| कुल | 43 | कुल | 201 |

कुल चातुर्मास (43) मुनिराज (24) साध्वीयाँ (177) कुल ठाणा (201)

साधु-साध्वी पद तालिका

| क्र. | पद | 1992 | 1993 | विवरण |
|------|------------|------|------|-------|
| 1 | गच्छाधिपति | 1 | 1 | यथावत |
| 2 | आचार्य | 2 | 2 | यथावत |
| 3 | पन्यास | 1 | 1 | |
| 4 | मुनिराज | 32 | 24 | |
| 5 | साध्वीयाँ | 175 | 171 | |
| | कुल ठाणा | 207 | 201 | |

नोट -

- 1 नई दीक्षा एवं कालधर्म की सूची ज्ञात नहीं होने से तुलनात्मक तालिका प्रस्तुत नहीं कर सके।
- 2 गत वर्षों की अपेक्षा इस वर्ष इस समुदाय की पूरी सही पूर्ण सूची प्राप्त हुई है कुछ मुनिराजो की जानकारीया ज्ञात नहीं हो सकी। साध्वीयो की संख्या गत वर्ष के लगभग ही है।
- 3 पन्यास श्री मलयचंद्र विजयजी म.सा. जो गतवर्ष गच्छाधिपति आचार्य प्रवर श्री के साथ ही थे इस वर्ष की सूची में कही भी उल्लेख नहीं आया फिर भी गत वर्ष के आधार के अनुसार नाम सम्मिलित किया गया है।
- 4 जैन पत्र-पत्रिकाएँ - नहीं।

श्रमण संघीय उपाध्याय पूज्य गुरुदेव श्री केवल मुनिजी म.सा. आदि ठाणाओं 3 का अलसूर-वैंगलौर में सन् 1993 वर्ष का चातुर्मास सानन्द सम्पन्न होने की मंगल कामनाएँ करते हुए!

हादिक शुभकामनाओं सहित-

कनकमल, शशिकांत, वसंतलाल, हेमंतलाल, राजनलाल, परेशकुमार, शैलेशकुमार, रूपेशकुमार तथा गुगलिया परिवार (पूना-सेलम)
(राजस्थान में मिनसा बावड़ी (राणावास)

卐 शशिकांत पूनावाला (गुगलिया) 卐

- नारियल तथा सावूदाना के होलसेल व्यापार के कमीशन एजेन्ट
- नारियल के बारे में सम्पूर्ण जानकारी देने वाली अंग्रेजी मासिक तथा हिन्दी त्रैमासिक पत्रिका के एजेन्ट (भारत सरकार का प्रकाशन)
- ए.पी.पी.सी. पब्लिकेशन (जकार्ता-इण्डोनेशिया) नारियल पत्रिका अंग्रेजी के एजेन्ट
67, DEVANGA PILLAIYAR KOIL STREET,
SHEVAPET, SALEM-636002 (T N)

Telephone No. (STD 0427) 50941, 50764 Gram : "SUYOG"

शुभेच्छुक

शशिकांत पूनावाला (सेलम)

नोट—पत्र व्यवहार करते समय पता हमेशा अंग्रेजी में ही करें।

- 8 सुरत (राजस्थान) आदि ठाणा
साध्वी श्री गरीमा श्रीजी म सा
सम्पर्क सूत्र - जैन उपाश्रय पेढी, मु पो सुरत,
वाया बाकारोड, जिला-जालौर
(राजस्थान) 343025
- 9 हैदराबाद (आन्ध्रप्रदेश) आदि ठाणा
साध्वी श्री बाला श्रीजी म सा
सम्पर्क सूत्र - SHRI MAHAVIR
WAMI JAIN SWETAMBER
TEMPLE 15/1/494 JAIN
TEMPLE MARG FEELKHANA
HYDERABAD-500012 (A P)
- 10 गढसिवाणा (राजस्थान) आदि ठाणा
साध्वी श्री पुन्य उदय श्रीजी म सा
सम्पर्क सूत्र - गणेशजी री धर्मशाला,
मु पो गढसिवाणा, जिला-वाडभेर
(राजस्थान) 343044
- 11 कलापरा (राजस्थान) आदि ठाणा
साध्वी श्री चन्द्र प्रभा श्रीजी म सा
सम्पर्क सूत्र - जैन उपाश्रय, मु पो कलापरा,
जिला सिरौही 307027 (राजस्थान)
- 12 सिरौही (राजस्थान) आदि ठाणा
साध्वी श्री अमृत श्रीजी म सा
सम्पर्क सूत्र - आनन्द उपाश्रय, गोईवी रोड,
मु पो सिरौही - 307001 (राजस्थान)
- 13 शिवगौज (राजस्थान) आदि ठाणा
साध्वी श्री मदन रेखा श्रीजी म सा
सम्पर्क सूत्र - जैन उपाश्रय,
मु पो शिवगज, वाया जवाई बंध,
जिला सिरौही (राजस्थान) 307027
- 14 गुडावालोतान (राजस्थान) -
साध्वी श्री दर्शन श्रीजी म सा
सम्पर्क सूत्र - जैन उपाश्रय, मु पो
गुडावालोतान, जिला जालौर
(राजस्थान) 307030
- 15 घाणेरव (राजस्थान) आदि ठाणा
साध्वी श्री चेतन श्रीजी म सा
सम्पर्क सूत्र - जैन उपाश्रय, माईका वास,
पोस्ट घाणेरव, स्टेशन फालना
जिला-पाली 306704 (राजस्थान)
- 16 वीरवाड़ा (राजस्थान) आदि ठाणा
साध्वी श्री चपक श्री जी म सा
सम्पर्क सूत्र - जैन उपाश्रय,
मु पो वीरवाड़ा, जिला-सिरौही (राजस्थान)
- 17 पालीताणा (गुजरात) आदि ठाणा 5
साध्वी श्री पुष्या श्री जी म सा
सम्पर्क सूत्र - पिवादी मंगल भवन
धर्मशाला, तलेटी रोड, पालीताणा
(गुजरात) 364270

| | | | |
|---|----|------------------|----|
| कुल चातुर्मास मुनिराजो के | 5 | कुल मुनिराज | 15 |
| कुल चातुर्मास साध्वीयो के | 12 | कुल साध्वीयों | 80 |
| कुल | 17 | | 95 |
| कुल चातुर्मास (17) मुनिराज (15) (80) कुल ठाणा (95) | | | |

साधु साध्वी पद तालिका 1993

नोट -

| क्र. पद | 1992 | 1993 | विशेष |
|--------------|------|------|-------|
| 1 गच्छाधिपति | 1 | 1 | यथावत |
| 2 आचार्य | 1 | 1 | यथावत |
| 3 पन्यास | 2 | 2 | यथावत |
| 4 मुनिराज | 15 | 15 | यथावत |
| 5 साध्वीयों | 75 | 80 | |
| कुल ठाणा | 90 | 95 | |

(1) नई दीक्षा एवं कालधर्म सूची प्राप्त नहीं होने के कारण तुलनात्मक तालिका प्रस्तुत नहीं कर सके।

(2) इस वर्ष इस समुदाय की सूची एक दम पूर्ण एवं सही सम्पर्क सूत्र कोड नम्बर के साथ प्राप्त हुई।

(3) सम्पूर्ण जैन समाज में यही एक मात्र ऐसा समुदाय है जिसमें समुदाय के गच्छाधिपति का सिंघाडा सबसे कम ठाणाओ का है। केवल समुदायो मे केवल एक ठाणा से गच्छाधिपति हो यह केवल इसमे है। जो एक रिकार्ड है।

4 जैन पत्र-पत्रिकाए-नहीं

“अरिहंत”

श्री अजरामर गुरुवे नमः

* धर्म मानव को गुणवान बनाता है, * गुणी कुटुम्ब वह सुखी कुटुम्ब * पुण्य से पैसा मिलता है,
* महान पुण्य के बिना उसका सदुपयोग नहीं होता है।

卐 जीवदया करो 卐

मोक्ष मिलने का एकमात्र उपाय समता भाव

सभी पूज्य आचार्यों साधु-साध्वियों को कोटि-कोटि वन्दन !

फोन नं. . ऑफिस-23061, 24689 निवास-24323

दीप कोटन कम्पनी

प्रोप्रायटर-जितेन्द्र एम. शाह (शियाणी वाले)

कोटन मर्चेन्ट, एण्ड कमीशन एजेन्ट

108, मेहता चेम्बर्स, मेहता मार्केट, सुरेन्द्रनगर-363001 (गुजरात)

卐 संबंधित फर्म 卐

● चन्द्रप्रभु ट्रेडिंग कम्पनी, सुरेन्द्रनगर ●

卐 शुभेच्छुक 卐

शाह मनसुखलाल मोहनलाल

शियाणी तालूका लिम्बडी जिला सुरेन्द्रनगर (गुजरात)

फोन न. ऑफिस 525 निवास 526



Head Office: 44-45, 46/47, Bazaar Qasim, Fort, Bombay-400 001
 Phone: 251 10 18, 251 10 82, 251 25 98, 252 05 16
 Branch: 18, Kaka Shopping Centre, Opp. Masjid Railway Station, Masjid (W), Bombay-400 064
 Phone: 225 12 13, 225 41 86
 Factory: Mandi Ice-Creams Masjid (W), Phone: 225 12 13

ક્વાલિટી અને વ્યાજબી ભાવના પગલે
 લોક હૃદયમાં આગવું સ્થાન
 મુંબઈ ભરમાં સર્વત્ર લોકપ્રિય

જૈન દુગ્ધાલય મનોજ આઈસ્ક્રીમ

તાજા ફૂદની સ્વાદિષ્ટ વાનગીઓમાં અનેડ



- શ્રીખડ ➤ બાસુદી
- મનોજ મલાઈ કેશર શ્રીખડ
- કેશર ડ્રાપકુટ શ્રીખડ

- આઈસ્ક્રીમ
- કુલ્ફી રોલ
- લુગા આઈસ્ક્રીમ



જૈન દુગ્ધાલય * મનોજ આઈસ્ક્રીમ

હુક રોલ્ફિસ

૯૯/૯૬ બજાર ગેટ સ્ટ્રીટ કોર્ટ મુંબઈ-૪૦૦ ૦૦૧
 ફોન ૨૬૧ ૧૦ ૧૮ ૨૬૧ ૧૦ ૬૨

બજાર ગેટ


૬૫/૯૦ બજાર ગેટ સ્ટ્રીટ ગેટ, મુંબઈ-૪૦૦ ૦૦૧
 ફોન ૨૬૧ ૧૦ ૧૮ / ૨૬૨ ૦૫-૧૬

મલાઈ (વેસ્ટ)

રહેવે ન્દશનની સામે, જૈન દયસરની બાજુમા
 મલાઈ (વેસ્ટ) મુંબઈ-૪૦૦ ૦૬૪
 નાન ૬૮૯ ૧૩ ૧૩ / ૬૮૯ ૪૧ ૯૬

ફુકરો

મનોજ આઈસ્ક્રીમ
 મલાઈ ઈન્ડીયલ અસ્ટ ટીબર્ટી ગાર્ડન કોસ્ટ રોડ નં ૩,
 મલાઈ (વેસ્ટ) મુંબઈ ૮૦૦ ૦૬૪ ફોન ૬૮૯ ૧૩ ૧૩



મલાઈ (વેસ્ટ)
 બજારગેટ



16

श्री बुद्धि तिलक प्रशांत तपोमूर्ति, आचार्य प्रवर श्री विजयचन्द्र शांति सूरीश्वरजी म.सा. का समुदाय

वर्तमान में समुदाय के प्रमुख आचार्य :- अध्यात्मिक योगी, आचार्य प्रवर श्री विजय भुवन शेखर सूरीश्वरजी म.सा.

कुल चातुर्मास (20) मुनिराज (20) साध्वीयॉजी (50) कुल ठाणा (70)

साधु मुनिराज-समुदाय

नोट -

1. गुजरात मे योग्य स्थळ (गुजरात)
आचार्य श्री विजय भुवन शेखर सूरीश्वरजी
म.सा. आदि ठाणा

2. बडौदा (गुजरात)
आचार्य श्री विजय राजेन्द्र सूरीश्वरजी म.सा.
आदि ठाणा

सम्पर्क सूत्र - श्री श्वे. मूर्ति जैन उपाश्रय,
जानी शेरी, बडौदा 390001 (गुजरात)

3. राजस्थान मे योग्य स्थळ (राज.)
पन्यास श्री भद्रानन विजय श्री म.सा.
आदि ठाणा

कुल चातुर्मास (20) मुनिराज (20) साध्वीयॉजी
(50) कुल ठाणा (70) अनुमानित

1 नई दीक्षा एवं काल धर्म सूची प्राप्त नहीं होने के कारण तुलनात्मक तालिका प्रस्तुत नहीं कर सके।

2 इस समुदाय के आचार्य श्री विजय सोमसुन्दर सूरीजी म.सा. एवं आचार्य श्री विजय जिनचन्द्र सूरीजी म.सा. श्वे. मूर्ति. समुदाय के क्रमांक 1 आचार्य श्री विजय रामचन्द्र सूरीजी म.सा. के समुदाय मे सम्मिलित हो गये है।

3 इस समुदाय की सूची चातुर्मास प्राप्त होने के एक माह बाद तक भी पूरी सूची कहीं भी प्राप्त नहीं हो सकी यहा जो सूची की संख्या दी है वह गत वर्ष की सूची के अनुसार अनुमान से ही दी गयी है।

4 जैन का पत्रिकाएँ-नहीं

॥ जय आनंद

॥ जय जन दिवाकर ॥

॥ जय देवेन्द्र ॥

श्रमण सघीय प्रबन्ध श्री स्वेश मुनिजी म मा 'शाम्श्री' जादि टाणाआ का इगना (राजस्थान) मे, मधुर व्याख्यानी प रत्न श्री सुरेश मुनिजी म मा 'शाम्श्री' जादि टाणाआ का माप'दर-बम्बई म मन 1993 य^५ ना चातुर्मास ज्ञान, दमन, चारित्र एव तप की आराधनाआ म आत प्रोद यशस्वी बनने की मगन कामनाएं करने हुए—

हादिस शुभवाचनाओ महित—

प्रताप मुनि ज्ञानालय

बडी सादडी, जिला चित्तौडगढ (राजस्थान)

कस्तूर गुरु भोजनशाला ट्रस्ट

नीम चौक, रतलाम (मध्यप्रदेश)


प्रताप सेवा समिति

उदमपुर (राजस्थान)

कस्तूर प्रताप चिकित्सालय

दलौदा




— सौजन्य —



HELLO 205 65 07 RESI 623 62 56

MARUDHAR ELECTRICALS
HOUSE OF PVC WIRES CABLES &
FLUORESCENT M V AND S V CHOKES
& FIXTURES

SHOW ROOM 27A, 1ST FLOOR
REGD- OFF 50 3RD FLOOR
LAWYERS CHAMBER
26 PICKET ROAD LOHAR CHAWL
BOMBAY-400 002

2

श्री अचलागच्छ (विधि पक्ष) सम्प्रदाय
शासन सम्राट आजीवन तपस्वी, राष्ट्रसंत, भारत दिवाकर, कलिकाल,
अचल गच्छाधिपति, आचार्य प्रवर स्व. श्री गुण सागर सूरीश्वरजी म.सा. के
आज्ञानुवर्ती साधु-साध्वीयोंजी म.आ.

कुल चातुर्मास (89) मुनिराज (42) साध्वीयोंजी (210) कुल ठाणा (252)

साधु - मुनिराज समुदाय

1. 72 जिनालय तीर्थ - तलवाणा (गुजरात)
तपस्वीरत्न आचार्य श्री गुणोदयसागर सूरीश्वरजी
म.सा. आदि ठाणा (3)
सम्पर्क सूत्र - श्री अचलगच्छ जैन उपाश्रय,
72, जिनालय तीर्थ, गुण नगर, मु.पो. तलवाणा
72, जिनालय, तालूका मांडवी - कच्छ
(गुजरात) 370465
2. हैदराबाद (आन्ध्र प्रदेश)
 1. राजस्थान दीप साहित्य दिवाकर आचार्य
श्री कलाप्रभ सागर सूरीश्वरजी म.सा.
 2. श्री सूर्योदय सागरजी म.सा. आदि ठाणा (10)
सम्पर्क सूत्र - Shri Achal Gachchha Jain Sangh
Arya Rakshit Nagar, Kachchhi Bhawan.
3-5-142 Ramkot, EdenBagh.
Hyderabad - 500001 (A.P.)
Tel No (S T.D. 0842) 558173 - 552383
3. मोटा आसंबिया - कच्छ (गुजरात)
 - 1 गणि श्री कवीन्द्र सागरजी म सा
 - 2 गणि श्री वीरभद्र सागरजी म.सा.
आदि ठाणा (3)
सम्पर्क सूत्र - श्री अचलगच्छ जैन उपाश्रय
मु.पो. मोटा आसंबिया - कच्छ जिला भुज
(गुजरात) 370485

4. अहमदावाद - मणीनगर (गुजरात)
गणि श्री महोदय सागरजी म.सा. आदि ठाणा (3)
सम्पर्क सूत्र - श्री अचलगच्छ जैन उपाश्रय
विनय मार्केट, पहला माला, स्टेशन रोड,
मणीनगर, अहमदावाद 380008 (गुजरात)
5. जैन आश्रम - नागलपुर (गुजरात)
श्री प्रेम सागरजी म.सा. आदि ठाणा (1)
सम्पर्क सूत्र - श्री मेधजी सोजपाल जैन आश्रम
मु.पो. नागलपुर - कच्छ (ढीढ) तालूका मांडवी
(गुजरात) 370465
6. जामनगर (गुजरात)
श्री महाभद्र सागरजी म.सा. आदि ठाणा (2)
सम्पर्क सूत्र - श्री अचल गच्छ जैन उपाश्रय
आणदा चकला, जामनगर - 361101 (गुजरात)
7. नाकोडाजी तीर्थ (राजस्थान)
श्री हरिभद्र सागरजी म.सा. आदि ठाणा (1)
सम्पर्क सूत्र - श्री नाकोडाजी तीर्थ, पोस्ट मेवानगर,
वाया बालोतरा, जिला बाडमेर (राजस्थान)
8. बम्बई - चिंचबन्दर (महाराष्ट्र)
श्री पुण्योदय सागरजी म.सा. आदि ठाणा (1)
सम्पर्क सूत्र - श्री कच्छी वीसा ओसवाल देरासर,
नदी जैन महाजन वाड़ी,
99/101 न्यू चिंच बन्दर रोड,
माण्डवी - बम्बई - 400009 (महाराष्ट्र)

- 9 नई - बम्बई (महाराष्ट्र)
श्री जय वर्धन सागरजी म सा आदि ठाणा (2)
- 10 बम्बई - घाटकोपर (पूर्व) (महाराष्ट्र)
श्री सर्वोदय सागरजी म सा आदि ठाणा (4)
सम्पर्क सूत्र - श्री जीरावाला जैन देरासर, देरासर लेन,
घाटकोपर (पूर्व), बम्बई - 400077 (महाराष्ट्र)
- 11 वाडमेर (राजस्थान)
श्री कमलप्रम सागरजी म सा आदि ठाणा (4)
सम्पर्क सूत्र - श्री अचल गच्छ जैन उपाश्रय
जैन ज्योति नाहरा मोटी ठाणी, वाडमेर
(राजस्थान) 344001
- 12 धारीमना (राजस्थान)
श्री नय प्रम सागरजी म सा आदि ठाणा (1)
सम्पर्क सूत्र - श्री अचलगच्छ जैन सध, जैन उपाश्रय
मु पो धोरीमना जिला बाँडेमेर (राजस्थान)
- 13 पालीताणा (गुजरात)
श्री पदम सागरजी म सा आदि ठाणा (1)
सम्पर्क सूत्र - जामनगरवाली धर्मशाला, तलेटी रोड,
पालीताणा - (गुजरात) 364270
- 14 डूमरा - कच्छ (गुजरात)
श्री मलय सागरजी म सा आदि ठाणा (3)
सम्पर्क सूत्र - श्री अचलगच्छ जैन उपाश्रय
मु पो डूमरा कच्छ जिला भावनगर (गुजरात) 370490
- 15 गढ शीशा - कच्छ (गुजरात)
श्री दवरल सागरजी म सा आदि ठाणा (3)
सम्पर्क सूत्र - श्री अचलगच्छ जैन उपाश्रय
मु पो गढ शीशा कच्छ जिला भुज (गुजरात)
- साध्वीयॉजी समुदाय
- 16 पालीताणा (गुजरात)
साध्वी प्रमुज श्री हरख श्री जी म सा आदि ठाणा (4)
- सम्पर्क सूत्र - लील गगन धर्म शाखा तलेटी रोड,
पालीताणा - 364270 (गुजरात)
- 17 साभराई - कच्छ (गुजरात)
साध्वी श्री गिरिवर श्री जी म सा आदि ठाणा (2)
सम्पर्क सूत्र - श्री अचल गच्छ जैन उपाश्रय
मु पो साभराई - कच्छ तालूका,
माडवी (गुजरात)
- 18 जैन आश्रम नागलपुर (गुजरात)
साध्वी श्री नरेन्द्र श्री जी म सा आदि ठाणा (1)
सम्पर्क सूत्र - उपरोक्त क्रमांक ५ अनुसार
- 19 सूपरी - कच्छ (गुजरात)
साध्वी श्री नरेन्द्र श्री जी म सा आदि ठाणा (4)
सम्पर्क सूत्र - श्री अचलगच्छ जैन उपाश्रय,
मु पो सूपरी - कच्छ, जिला - भुज
(गुजरात) 370490
- 20 माण्डवी - (गुजरात)
साध्वी श्री सुरेन्द्र श्री जी म सा आदि ठाणा (2)
सम्पर्क सूत्र - जैन आश्रम मु पो माण्डवी - कच्छ
(गुजरात) 370405
- 21 पालीताणा (गुजरात)
साध्वी श्री चन्द्र प्रभा श्री जी म सा आदि ठाणा (2)
सम्पर्क सूत्र - कच्छी भवन धर्मशाला, तलेटी रोड,
पालीताणा (गुजरात) 364270
- 22 गढ शीशा (गुजरात)
साध्वी श्री सूर्य यशा श्री जी म सा आदि ठाणा (2)
सम्पर्क सूत्र - उपरोक्त क्रमांक 15 अनुसार
- 23 हालापूर - कच्छ (गुजरात)
साध्वी श्री सुलक्षणा श्री जी म सा आदि ठाणा (1)
सम्पर्क सूत्र - श्री अचलगच्छ जैन उपाश्रय
मु पो हालापूर कच्छ, जिला भुज
(गुजरात) 370450

24. गोधरा (मांडवी) कच्छ (गुजरात)
साध्वी श्री निरंजना श्री जी म.सा. आदि ठाणा (9)
सम्पर्क सूत्र - श्री अचलगच्छ जैन उपाश्रय
मु.पो. गोधरा (मांडवी) कच्छ तालूका माडवी,
जिला भुज (गुजरात) 370450
25. चिआसर (गुजरात)
साध्वी श्री हीरप्रभा श्री जी म.सा. आदि ठाणा (5)
सम्पर्क सूत्र - श्री अचलगच्छ जैन उपाश्रय
मु.पो. चिआसर - कच्छ जिला भुज,
(गुजरात) 370030
26. बम्बई - वडाला (गुजरात)
साध्वी श्री रत्न रेखा श्री जी म.सा. आदि ठाणा (2)
श्री अचलगच्छ जैन उपाश्रय संभवनाथ चौक
देरासर लेन वडाला बम्बई - 400036 (महाराष्ट्र)
27. बम्बई - गौरेगांव (महाराष्ट्र)
साध्वी श्री चारुलता श्री जी म.सा. आदि ठाणा
सम्पर्क सूत्र - श्री अचलगच्छ जैन उपाश्रय,
राजेन्द्र अपार्टमेंट्स, स्टेशन रोड,
गौरेगांव (वेस्ट), बम्बई - 400062 (गुजरात)
28. पालीताणा (गुजरात)
साध्वी श्री बसंतप्रभा श्री जी म सा आदि ठाणा
29. बीदडा - कच्छ (गुजरात)
साध्वी श्री अरुणोदय श्री जी म सा. आदि ठाणा
सम्पर्क सूत्र - जैन उपाश्रय मु.पो. बीदडा कच्छ
(गुजरात) 370435
30. भीनमाल (राजस्थान)
साध्वी श्री कनक प्रभा श्री जी म.सा. आदि ठाणा (1)
सम्पर्क सूत्र - श्री अचलगच्छ जैन उपाश्रय गणेश चौक,
मु.पो. भीनमाल जिला जालौर
(राजस्थान) 343029
31. वराडिया - कच्छ (गुजरात)
साध्वी श्री अरुणप्रभा श्री जी म.सा आदि ठाणा (2)
- श्री अचलगच्छ जैन उपाश्रय
मु.पो. वराडिया - कच्छ (गुजरात) 370645
32. बाड़मेर (राजस्थान)
साध्वी श्री वनलता श्री जी म.सा. आदि ठाणा (3)
सम्पर्क सूत्र - उपरोक्त क्रमांक 11 अनुसार
33. मांडवी - कच्छ (गुजरात)
साध्वी श्री कल्याणोदय श्री जी म.सा. आदि ठाणा (5)
श्री अचलगच्छ जैन उपाश्रय छापरा शेरी
के.टी.रोड, मु.पो. माडवी- कच्छ (गुजरात) 370465
34. देवपुर (गढवाला) (गुजरात)
साध्वी श्री भुवन श्री जी म.सा. आदि ठाणा (4)
सम्पर्क सूत्र - श्री अचलगच्छ जैन उपाश्रय
मु.पो. देवपुर (गढवाला) वाया भुज,
(गुजरात) 370445
35. भुजपुर - कच्छ (गुजरात)
साध्वी श्री विश्वोदय श्री जी म.सा. आदि ठाणा
सम्पर्क सूत्र - श्री अचल गच्छ जैन उपाश्रय
मु.पो. भुजपुर कच्छ (गुजरात) 370405
36. पालीताणा (गुजरात)
साध्वी श्री नित्यांनद श्री जी म सा. आदि ठाणा (1)
सम्पर्क सूत्र - कच्छी भवन पालीताणा (गुजरात)
37. डोण - कच्छ - (गुजरात)
साध्वी श्री कल्पलता श्री जी म.सा. आदि ठाणा (4)
सम्पर्क सूत्र - श्री अचलगच्छ जैन उपाश्रय
मु.पो. डोण-कच्छ, जिला भुज (गुजरात)
38. कोटड़ा (रोह) कच्छ (गुजरात)
साध्वी श्री आनन्दप्रभा श्री जी म सा आदि ठाणा (3)
सम्पर्क सूत्र - श्री अचलगच्छ जैन उपाश्रय
मु.पो. कोटड़ा (रोहा) कच्छ वाया भुज
(गुजरात) 370030
39. शेरडी - कच्छ (गुजरात)
साध्वी श्री पूर्णानन्द श्री जी म.सा. आदि ठाणा (4)

- सम्पर्क सूत्र - श्री अचनगवा जैन उपाश्रय
मुपो हारी - कच्छ जिला भुज (गुजरात) ३७०१०५
- 40 सायजा - कच्छ (गुजरात)
साधी श्री सद्गुप्त श्री जी म सा आदि टा (5)
सम्पर्क सूत्र - श्री अचनगवा जैन उपाश्रय,
मुपो सायजा, जिला भुज (गुजरात) ३७०१७९
- 41 मकडा - कच्छ (गुजरात)
साधी श्री सद्गुप्त श्री जी म सा आदि टा (5)
सम्पर्क सूत्र - श्री अचनगवा जैन उपाश्रय
मुपो मकडा - कच्छ जिला भुज (गुजरात)
- 42 पाटकोपर - बम्बई (गुजरात)
साधी श्री हंसवर्त, श्री जी म सा आदि टा (3)
सम्पर्क सूत्र - पता फोन, बम्बई नं. १५५
बम्बई - ४४४४६ (महाराष्ट्र)
- 43 बाटमर (राजस्थान)
साधी श्री सुनना श्री जी म सा आदि टा (1)
सम्पर्क सूत्र - उपरोक्त क्रमांक ३२ अनुगत
- 44 बम्बई विघबन्दर (महाराष्ट्र)
साधी श्री जय तारपी श्री जी म सा आदि टा (2)
सम्पर्क सूत्र - उपरोक्त क्रमांक ४ अनुगत
- 45 बम्बई - माटूंगा (महाराष्ट्र)
साधी श्री मरोदय श्री जी म सा आदि टा (4)
सम्पर्क सूत्र - श्री सरहत्या फार्मिषप जैन देगता
मरोदयरी उद्यान के पास, माटूंगा (सर)
बम्बई - ४४४४१९ (महाराष्ट्र)
- 46 पालीताणा (गुजरात)
साधी श्री विपुलवरा श्री जी म सा आदि टा (1)
सम्पर्क सूत्र - श्री नत्ती केरवजी पर्यगान तन्वेठी रोड,
पालीताणा (गुजरात) ३६४२७०
- 47 नाना आसविषा कच्छ (गुजरात)
साधी श्री निर्मल गुप्त श्री जी म सा आदि टा (3)
सम्पर्क सूत्र - श्री अचनगवा जैन उपाश्रय
मुपो नाना आसविषा कच्छ (गुजरात) ३७०१६९
- 48 नदावागा - कच्छ (गुजरात)
साधी श्री जलोद श्री जी म सा आदि टा (०)
सम्पर्क सूत्र - श्री अचनगवा जैन उपाश्रय
मुपो नदावागा (गुजरात) कच्छ
(गुजरात) ३७०१११
- 49 पालीताणा (गुजरात)
साधी श्री जलोद श्री जी म सा आदि टा (2)
- 50 पालीताणा (गुजरात)
साधी श्री जलोद श्री जी म सा आदि टा (1)
- 51 नागानु - कच्छ (गुजरात)
साधी श्री अचनगवा जैन उपाश्रय आदि टा (3)
सम्पर्क सूत्र - श्री अचनगवा जैन उपाश्रय
मुपो नागानु - कच्छ जिला भुज (गुजरात) ३७०१७९
- 52 बरहागल - कच्छ (गुजरात)
साधी श्री अचनगवा जैन उपाश्रय आदि टा (4)
सम्पर्क सूत्र - श्री अचनगवा जैन उपाश्रय
मुपो बरहागल - कच्छ जिला भुज
(गुजरात) ३७०१७९
- 53 जगो (गुजरात)
साधी श्री निर्मल गुप्त श्री जी म सा आदि टा (2)
सम्पर्क सूत्र - श्री अचनगवा जैन उपाश्रय
मुपो जगो - कच्छ (गुजरात) ३७०१११
- 54 पाडा - कच्छ (गुजरात)
साधी श्री विपुल गुप्त श्री जी म सा आदि टा (5)
सम्पर्क सूत्र - श्री अचनगवा जैन उपाश्रय
मुपो पाडा कच्छ (गुजरात) ३७०१६९
- 55 नलिपा - कच्छ (गुजरात)
साधी श्री हर्ष गुप्त श्री जी म सा आदि टा (4)
सम्पर्क सूत्र - श्री अचनगवा जैन उपाश्रय
मुपो नलिपा - कच्छ (गुजरात)

56. तेरा - कच्छ (गुजरात)
साध्वी श्री जयगुणा श्री जी म.सा.आदि ठाणा (3)
सम्पर्क सूत्र - श्री अचलगच्छ जैन उपाश्रय
मु.पो. तेरा-कच्छ जिला भुज (गुजरात)
57. आदिपुर-कच्छ (गुजरात)
साध्वी श्री सौम्य गुणा श्री जी म.सा. आदि ठाणा
(4)
सम्पर्क सूत्र - श्री अचलगच्छ जैन उपाश्रय
मु.पो. आदिपुर - कच्छ (गुजरात)
58. बम्बई - भाण्डुप (महाराष्ट्र)
साध्वी श्री धैर्यप्रभा श्री जी म.सा. आदि ठाणा
श्री अचलगच्छ जैन संघ, अनंतसिद्ध बिल्डिंग
भाण्डुप (वेस्ट), बम्बई - 400078
59. मेराऊ - कच्छ (गुजरात)
साध्वी श्री दिव्यप्रभा श्री जी म.सा. आदि ठाणा (3)
सम्पर्क सूत्र - श्री अचलगच्छ जैन संघ, जैन उपाश्रय,
मु.पो. मेराऊ - कच्छ जिला भुज (गुजरात)
60. बम्बई-कांदिवली (वेस्ट) (महाराष्ट्र)
साध्वी श्री चारुप्रज्ञा श्री जी म.सा. आदि ठाणा (2)
सम्पर्क सूत्र - श्री अचलगच्छ जैन संघ, जैन उपाश्रय,
कमला अपार्टमेंट्स, खन्ना रेस्टोरेट के पास,
स्विमिंग पूल के बाजू में, एम.जी. रोड,
कांदिवली (वेस्ट), बम्बई - 400 067 (महाराष्ट्र)
61. बम्बई - वर्ली (महाराष्ट्र)
साध्वी श्री दिव्य गुणा श्री जी म.सा. आदि ठाणा (2)
सम्पर्क सूत्र - श्री अचलगच्छ जैन उपाश्रय
सी-पंकज मेन्सन, वृद्ध मंदिर के बाजू में
डॉ ऐनी वी सेट रोड, वर्ली,
बम्बई - 400018 (महाराष्ट्र)
62. शिखरजी - मधुवन (विहार)
साध्वी श्री महाप्रज्ञा श्री जी म.सा. आदि ठाणा (5)
सम्पर्क सूत्र - श्री अचलगच्छ जैन संघ, अचलगच्छ भवन,
मु.पो. शिखरजी जिला गिरिडीह (विहार)
63. बम्बई - लालवाड़ी (महाराष्ट्र)
साध्वी श्री तत्वप्रज्ञा श्री जी म.सा. आदि ठाणा (4)
सम्पर्क सूत्र - श्री अचलगच्छ जैन उपाश्रय लालवाड़ी
बम्बई - 400012 (महाराष्ट्र)
64. रायण - कच्छ (गुजरात)
साध्वी श्री शील गुणा श्री जी म.सा. आदि ठाणा (3)
सम्पर्क सूत्र - श्री अचलगच्छ जैन उपाश्रय
मु.पो. रायण - कच्छ, (गुजरात) 370465
65. बम्बई - घाटकोपर (महाराष्ट्र)
साध्वी श्री नंदीवर्धना श्री जी म.सा. आदि ठाणा (2)
सम्पर्क सूत्र - श्री कच्छी वीसा ओसवाल अचलगच्छ
जैन उपाश्रय, भट्टवाडी मार्केट, घाटकोपर (वेस्ट),
बम्बई - 400086 (महाराष्ट्र)
66. बम्बई - माहिम (महाराष्ट्र)
साध्वी श्री कीर्ति गुणा श्री जी म.सा. आदि ठाणा
सम्पर्क सूत्र - श्री जीरावालाया जैन देरासर,
आर.के.बिल्डिंग, टाइकल वाडी, एल. के रोड,
माहिम बम्बई - 400016 (महाराष्ट्र)
67. बम्बई - मालाड (वेस्ट) (महाराष्ट्र)
साध्वी श्री तत्व पूर्णा श्री जी म.सा. आदि ठाणा
सम्पर्क सूत्र - श्री अचलगच्छ जैन उपाश्रय,
मलडा शोपिंग सेन्टर, मलाड (वेस्ट),
बम्बई - 400064 (महाराष्ट्र)
68. फरादी - कच्छ (गुजरात)
साध्वी श्री देव गुणा श्री जी म.सा. आदि ठाणा (3)
सम्पर्क सूत्र - श्री अचलगच्छ जैन उपाश्रय,
मु.पो. फरादी - कच्छ (गुजरात) 370435
69. बम्बई - डोम्बीवली (महाराष्ट्र)
साध्वी श्री जय पदम गुणा श्री जी म.सा. आदि ठाणा (2)
सम्पर्क सूत्र - श्री अपलगच्छ जैन उपाश्रय, वीरा सोपिंग सेटर,
2 माला, नीलकंठ टाकीज के पास,
मु.पो. डोम्बीवली, जिला ठाणा, (महाराष्ट्र) 421 201

- 70 बम्बई विलेपार्ल (पूर्व) (महाराष्ट्र)
साध्वी श्री चारु धर्मा श्री जी म सा आदि ठाणा (2)
सम्पर्क सूत्र - श्री अचलगच्छ जैन उपाश्रय
विजय अपार्टमेंट्स, मालतीया रोड,
विलेपार्ल (पूर्व), बम्बई - 400057 (महाराष्ट्र)
- 71 नरेडी - कच्छ (गुजरात)
साध्वी श्री वीरगुणा श्री जी म सा आदि ठाणा (3)
सम्पर्क सूत्र - श्री अचलगच्छ जैन उपाश्रय
मु पो नोडी - कच्छ (गुजरात) 370030
- 72 हालार - कच्छ (गुजरात)
साध्वी श्री आर्य रक्षिता श्री जी म सा आदि ठाणा (2)
- 73 वाकु - कच्छ (गुजरात)
साध्वी श्री जय धर्मा श्री जी म सा आदि ठाणा (1)
सम्पर्क सूत्र - श्री अचलगच्छ जैन उपाश्रय
मु पो वाकु तालूका अवडासा - कच्छ
(गुजरात) 370645
- 74 बम्बई-चान्द्रा (वेस्ट) (महाराष्ट्र)
साध्वी श्री गुण दर्शना श्री जी म सा आदि ठाणा (1)
सम्पर्क सूत्र - कच्छी वीसा ओसवाल जैन उपाश्रय
1 माला प्रम गुरु जैन देरासर लेन,
हील रोड, चान्द्र (वेस्ट),
बम्बई - 400050 (महाराष्ट्र)
- 75 कोठारा - कच्छ (गुजरात)
साध्वी श्री चारु दर्शना श्री जी म सा आदि ठाणा (2)
सम्पर्क सूत्र - श्री अचलगच्छ जैन उपाश्रय,
मु पो कोठारा - कच्छ (गुजरात) 370645
- 76 हैदरावाद (आन्ध्र प्रदेश)
साध्वी श्री नय गुणा श्री जी म सा आदि ठाणा (2)
सम्पर्क सूत्र - Shri Svetamber Jain Temple
K ichiGuda Hyderabad 500027 (A P)
- 77 धाणा - (महाराष्ट्र)
साध्वी श्री गुणमाला श्री जी म सा आदि ठाणा (2)
- सम्पर्क सूत्र - श्री कच्छी वीसा ओसवाल जैन देरासर
राम मारुति कोस रोड नं ।
धाणा - 400602 (महाराष्ट्र)
- 78 तलवाणा - कच्छ (गुजरात)
साध्वी श्री यशो गुणा श्री जी म सा आदि ठाणा
सम्पर्क सूत्र - श्री अचलगच्छ जैन उपाश्रय,
मु पो तलवाणा - कच्छ (गुजरात) 370460
- 79 बम्बई - मुलुण्ड (महाराष्ट्र)
साध्वी श्री अर्हद किरणा श्री जी म सा आदि ठाणा (6)
सम्पर्क सूत्र - श्री श्वे मूर्ति जैन उपाश्रय
45 जवरे रोड, मुलुण्ड (वेस्ट),
बम्बई - 400080 (महाराष्ट्र)
- 80 बडौदा (गुजरात)
साध्वी श्री कुमुद किरणा श्री जी म सा आदि ठाणा (4)
सम्पर्क सूत्र - श्री अचल गच्छ जैन भवन, भालेराव टेकरा,
जी पी ओ के पिछे, बडौदा (गुजरात) 390001
- 81 भीलवाडा (राजस्थान)
साध्वी श्री सम्यग्र दर्शना श्री जी म सा आदि ठाणा (2)
- 82 बालोतरा (राजस्थान)
साध्वी श्री निति गुणा श्री जी म सा आदि ठाणा (2)
आचार्य श्री दान सागर सूरीश्वरजी म सा
के समुदाय के साधु साध्वीचौं
- 1 जामनगर (गुजरात)
साध्वी श्री कैलाश सागरजी म सा आदि ठाणा (1)
सम्पर्क सूत्र - श्री अचलगच्छ जैन उपाश्रय
आणन्दा चकला, जामनगर (गुजरात) 361001
- 2 भुज-कच्छ (गुजरात)
साध्वी श्री मनहर श्री जी म सा आदि ठाणा (3)
सम्पर्क सूत्र - श्री अचलगच्छ जैन उपाश्रय,
श्री धितामणी देरासर पेठी बाणियावाड डेला मे,
मु पो भुज - कच्छ (गुजरात) 370001

3. जामनगर (गुजरात)

साध्वी श्री वसंत श्री जी म.सा. आदि ठाणा (1)
सम्पर्क सूत्र - अचलगच्छ जैन उपाश्रय, काजी
चकला,

जामनगर (गुजरात) 361001

4. सांयरा - कच्छ (गुजरात)

साध्वी श्री रतनप्रभा श्री जी म.सा. (आदि ठाणा) (2)
सम्पर्क सूत्र - श्री अचलगच्छ जैन उपाश्रय

मु.पो. सायरा - कच्छ (गुजरात) 370645

5. पालीताणा (गुजरात)

साध्वी श्री जयानन्द श्री जी म.सा. आदि ठाणा (1)
सम्पर्क सूत्र - गिरि विहार केन्द्र, पालीताणा (गुजरात)

6. सांधाण - कच्छ (गुजरात)

साध्वी श्री चन्द्रयशा श्री जी म.सा. आदि ठाणा (2)
सम्पर्क सूत्र - श्री अचलगच्छ जैन उपाश्रय,

मु.पो. सांधाण - कच्छ (गुजरात)

7. भोजाय - कच्छ (गुजरात)

साध्वी श्री कीर्तिलता श्री जी म.सा. आदि ठाणा (3)
सम्पर्क सूत्र - श्री अचलगच्छ जैन उपाश्रय

मु.पो. भोजाय - कच्छ (गुजरात)

| | | | |
|---------------------------|----|--------------|-----|
| कुल चातुर्मास मुनिराजो के | 15 | कुल मुनिराज | 42 |
| कुल चातुर्मास साध्वीयो के | 74 | कुल साध्वीयो | 210 |
| कुल | 89 | | 252 |

कुल चातुर्मास (89) मुनिराज (42) साध्वीयो (210)
कुल ठाणा (252)

संत सती तुलनात्मक तालिका 1993.

| विवरण | संत | संतियों | कुल ठाणा |
|-------------------|-----|---------|----------|
| 1992 म कुल ठाणा थ | 42 | 200 | 242 |
| नई दीक्षाएं हुई | - | 10 | 10 |
| | 42 | 210 | 252 |
| महाप्रयाण हुए | - | - | - |
| | 42 | 210 | 252 |

साधू - साध्वीया पद तालिका 1993

| क्रमांक | पद | 1992 | 1993 | विशेष |
|---------|----------|------|------|--------------------|
| 1 | आचार्य | 2 | 2 | यथावत |
| 2 | गणि | 2 | 2 | यथावत |
| 3 | मुनिराज | 42 | 42 | यथावत |
| 4 | साध्वीयो | 2(X) | 210 | 10 नई दीक्षाएं हुई |
| 5 | कुल ठाणा | 242 | 252 | एक नया गणि बनाया |

- नोट 1 जैन का पत्रिका :
- 1 गुण भारती (मासिक गुजराती) बम्बई
 - 2 आर्य रक्षित सन्देश (मासिक गुजराती) बम्बई
- 2 इस समुदाय में अभी तक गच्छाधिपति किसी को भी प्रदान नहीं किया है।

सर्वाधिक लोकप्रिय!

सर्वाधिक प्रचलित!!

सर्वाधिक उपयोगी!!!

संतोष की पुस्तकें

- विद्वान एव अनुभवी लेखको द्वारा लिखित
- महत्वपूर्ण परीक्षोपयोगी सामग्री का समावेश
- सुन्दर गेट अप
- न्यूनतम मूल्य




प्रकाशक

छजलाणी प्रिंटेर्स, रतलाम - इन्दौर (म.प्र.)

प्रथम श्रेणी के अंक प्राप्त करने का आसान तरीका

लाखों
विद्यार्थियों की आजमाई हुई

संतोष



सम्पूर्ण विषय

कक्षा 3 से 10 तक (सभी विषय एक में)

विशेषताएँ -

- विद्वान एव अनुभवी अध्यापको द्वारा लिखित
- महत्वपूर्ण परीक्षोपयोगी सामग्री
- आकर्षक मुद्रण
- सुन्दर गेट अप
- न्यूनतम मूल्य



प्रकाशक

छजलाणी प्रिंटेर्स,

रतलाम इन्दौर (म.प्र.)

3

श्री खरतरगच्छ सम्प्रदाय

श्री खरतरगच्छ समुदाय के साधु-साध्वीयोंजी
वर्तमान में समुदाय के प्रमुख गच्छाधिपति:- खरतरगच्छाधिपति शासन
सम्राट मधुर वक्ता पं. रत्न संघ नायक, आचार्य प्रवर श्री जिन उदय सागर
सूरीश्वरजी म.सा.

कुल चातुर्मास (67) मुनिराज (20) साध्वीयोंजी (198) कुल ठाणा (218)

मुनिराज समुदाय

1. सिवनी (मध्य प्रदेश)

खरतर गच्छाधिपति, शासन सम्राट, मधुर वक्ता,
संघ नायक, आचार्य प्रवर श्री जिन उदय सागर
सूरीश्वरजी म.सा. आदि ठाणा (2)

सम्पर्क सूत्र - श्री जैन श्वेताम्बर मंदिर, शुक्रवारी,
मु.पो. सिवनी (मध्य प्रदेश) 480661
फोन नं. (07692) 20624

2. दुर्ग (मध्य प्रदेश)

उपाध्याय श्री महोदय सागरजी म.सा. आदि ठाणा

सम्पर्क सूत्र - श्री जैन श्वेताम्बर श्री संघ,
श्री आदिनाथ जैन श्वेताम्बर मन्दिर,
महावीर जैन श्वेताम्बर भवन, सदर बाजार,
दुर्ग - 491001 (मध्य प्रदेश),
फोन नं. 322167, 323141, 323148, 322830

3. बालोतरा (राजस्थान)

श्री कैलाश सागरजी म.सा. आदि ठाणा (1)
सम्पर्क सूत्र - श्री जैन श्वेताम्बर मंदिर,
मु.पो. बालोतरा - 344022, जिला - बाड़मेर
(राजस्थान)

4. जोधपुर (राजस्थान)

श्री जयानंद मुनिजी म.सा. आदि ठाणा (2)

सम्पर्क सूत्र - श्री पार्श्वनाथ जैन श्वेताम्बर मन्दिर,
शास्त्रीनगर, जलजोग चौराहा
342003 जोधपुर, (राजस्थान)

5. वाड़मेर (राजस्थान)

श्री कीर्ति सागरजी म.सा. आदि ठाणा (1)
सम्पर्क सूत्र - श्री नैनमलजी भंसाली करमुजी की गली,
मु.पो. जिला - वाड़मेर - 344001
(राजस्थान)

6. सांचोर (राजस्थान)

गणिवर्य श्री मणिप्रभ सागरजी म.सा. आदि ठाणा (3)
सम्पर्क सूत्र - श्री खरतरगच्छ उपाश्रय, कुशल भवन,
शांती नगर, मु.पो. सांचोर जिला - जालौर
(राजस्थान) 343041

7. महिदरपुर (मध्य प्रदेश)

श्री राजेन्द्र मुनिजी म.सा. आदि ठाणा (1)
सम्पर्क सूत्र - श्री खरतरगच्छ जैन उपाश्रय, अषाढी गली,
मु.पो. महिदरपुर जिला उज्जैन (मध्यप्रदेश)
456443

9.

आदि ठाणा (2)
मु.पो. हरसाणी

- सम्पर्क सूत्र - श्री जैन श्वेताम्बर मन्दिर, कल्याणपुरा,
मु पो बाहमेर - 344001 (राजस्थान)
- 10 योग्य स्वच्छ (राजस्थान)
श्री सुयश प्रभ सागर जी म सा आदि ठाणा (1)
- 11 महुवा (राजस्थान)
श्री चन्द्र सागर जी म सा आदि ठाणा (1)
सम्पर्क सूत्र - श्री महावीर प्रसादजी सुरेशचन्द्रजी जैन,
योगी मौहल्ला, मु पो महुवा जिला - दौसा
(राजस्थान) 321608
- 12 इन्दौर (मध्य प्रदेश)
श्री महिमा प्रभ सागर जी म सा आदि ठाणा (3)
सम्पर्क सूत्र - श्री जैन श्वेताम्बर मन्दिर,
21 गोरमली गल्ली, मु पो इन्दौर 452001
- साध्वीयोंकी समुदाय**
- 13 पालीताणा (गुजरात)
प्रधान साध्वीश्री अविचल श्री जी म सा आदि ठाणा (8)
सम्पर्क सूत्र - जैन भवन, तलहटी रोड,
मु पो पानीताणा, 364270 जिला - भावनगर (गुजरात)
- 14 दुर्ग (मध्य प्रदेश)
छत्तीसगढ रत्न शिरोमणी साध्वी श्री मनोहर श्री जी म सा आदि ठाणा (5)
सम्पर्क सूत्र - श्री जैन श्वेताम्बर मन्दिर गाँधी चौक,
मु पो दुर्ग 491001 (मध्य प्रदेश)
- 15 जावरा (मध्यप्रदेश)
साध्वी श्री विद्वान श्री जी म सा आदि ठाणा (4)
सम्पर्क सूत्र - श्री जैन श्वेताम्बर मन्दिर,
पीपली बाजार मु पो जावरा - 457226
जिला - रतलाम (मध्य प्रदेश)
- 16 महासमुन्द (मध्य प्रदेश)
साध्वी श्री कुसुम श्री जी म सा आदि ठाणा (11)
- सम्पर्क सूत्र - मेघ भवन, गाँधी चौक,
मु पो महासमुन्द जिला - रायपुर
(मध्यप्रदेश) 493445
- 17 पालीताणा (गुजरात)
साध्वी श्री निपुर्णा श्री जी म सा आदि ठाणा (2)
सम्पर्क सूत्र - श्री जिन हरि बिहार धर्मशास्त्र,
मु पो पालीताणा 364270 जिला - भावनगर
(गुजरात)
- 18 मालाह (बम्बई) (महाराष्ट्र)
साध्वीश्री तिलक श्री जी म सा आदि ठाणा (6)
सम्पर्क सूत्र - C/o सयवी देवकाण भाई मुलजी भाई
जैन देरासर, नी पेढी, आनन्द रोड,
स्टेशन के सामने, मालाह (वेस्ट),
बम्बई - 400064 (महाराष्ट्र)
- 19 जगदलपुर (मध्यप्रदेश)
साध्वी श्री कीर्तिप्रभा श्री जी म सा आदि ठाणा (3)
सम्पर्क सूत्र - श्री जैन श्वेताम्बर मन्दिर, प्रतापगज,
मु पो जगदलपुर, जिला - बस्तर (मध्यप्रदेश)
- 20 जबलपुर (मध्य प्रदेश)
साध्वी श्री तरुणप्रभा श्री जी म सा आदि ठाणा (3)
सम्पर्क सूत्र - प्रभाकर सागर जैन भवन, गली न 6
सदा बाजार, मु पो जबलपुर 482001
(मध्यप्रदेश)
- 21 रायपुर (मध्यप्रदेश)
साध्वी श्री मनोरजन श्री जी म सा आदि ठाणा (3)
सम्पर्क सूत्र - श्री जैन श्वेताम्बर मन्दिर, सदा बाजार,
मु पो रायपुर - 492001 (मध्य प्रदेश)
- 22 भोपाल (मध्यप्रदेश)
साध्वी श्री सुलक्षणा श्री जी म सा आदि ठाणा (2)
सम्पर्क सूत्र - श्री जैन श्वेताम्बर मन्दिर, जैन मन्दिर
मार्ग चौक, मु पो भोपाल - 462001
(मध्यप्रदेश)

23. नयापारा राजिम (मध्यप्रदेश)
साध्वी श्री लयस्मिता श्री जी म.सा. आदि ठाणा (3)
सम्पर्क सूत्र - श्री जैनश्वेताम्बर मन्दिर, गांधी चौक,
मु.पो. नयापारा राजिम, जिला रायपुर
(मध्यप्रदेश) 493881
24. अहमदाबाद (गुजरात)
साध्वी श्री मनोहर श्री जी म.सा. आदि ठाणा (7)
सम्पर्क सूत्र - श्री जिनदत्त सूरी, खरतरगच्छ भवन,
दादा साहब का पगला, नवरंगपुरा,
अहमदाबाद - 380009 (गुजरात)
25. मैसूर (कर्नाटक)
साध्वी श्री चन्द्र प्रभा श्री जी म.सा. आदि ठाणा (9)
सम्पर्क सूत्र - Shri Sumatinath Jain
Swetamber Temple Tirthankar Road,
Mysore - 457001 (Karnataka)
26. राजनांद गांव (मध्यप्रदेश)
महाविदुषी साध्वी श्री मणिप्रभा श्री जी म.सा.
आदि ठाणा (7)
सम्पर्क सूत्र - श्री पार्श्वनाथ जैन बगीचा, सदर बाजार,
मु.पो. राजनांदगांव 491441 (मध्यप्रदेश)
27. मद्रास (तमिलनाडू)
साध्वी श्री सुलोचना श्री जी म.सा. आदि ठाणा (12)
सम्पर्क सूत्र - Shri Chandra Prabhu Old Jain Temple,
Sadharan Bhawan, 345, Mirit Street,
Sowcarpet, Madras - 600079 (T N)
28. बड़ौदा (गुजरात)
साध्वी श्री चन्द्रकला श्री जी म.सा. आदि ठाणा (5)
सम्पर्क सूत्र - श्री मूल चंद जैन धर्मशाला,
नया बाजार, मु.पो. बड़ौदा 390006 (गुजरात)
29. रामसर (राजस्थान)
साध्वी श्री सुरंजना श्री जी म.सा. आदि ठाणा (6)
सम्पर्क सूत्र - श्री जैन धर्मशाला, मु.पो. रामसर
जिला - बाड़मेर, (राजस्थान) 344502
30. सूरत (गुजरात)
साध्वी श्री दिमलयशा श्री जी म.सा. आदि ठाणा (3)
सम्पर्क सूत्र - श्री शीतलवाड़ी जैन उपाश्रय,
आसवाल मौहल्ला, गोपीपुरा सूरत - 395003
(गुजरात)
31. रतलाम (मध्यप्रदेश)
साध्वी श्री विजयेन्द्र श्री जी म.सा. आदि ठाणा (2)
सम्पर्क सूत्र - श्री खरतरगच्छ उपाश्रय,
त्रिपोलिया मार्ग, मु.पो. रतलाम - 457001
(मध्यप्रदेश)
32. नागौर (राजस्थान)
साध्वी श्री जितेन्द्र श्री जी म.सा. आदि ठाणा (6)
सम्पर्क सूत्र - श्री खरतरगच्छ उपासरा, कालीपोल,
मु.पो. नागौर - 341001 (राजस्थान)
33. नागौर (राजस्थान)
साध्वी श्री कमला श्री जी म.सा. आदि ठाणा (1)
सम्पर्क सूत्र - उपरोक्त क्रमांक 33 के अनुसार
34. गढ़सिवाना (राजस्थान)
साध्वी श्री सूर्यप्रभा श्री जी म.सा. आदि ठाणा
सम्पर्क सूत्र - श्री वासु पूज्य जैन देरासर उमेदपुरा,
मु.पो. गढ़सिवाना जिल - बाड़मेर
(राजस्थान) 344044
35. कलकत्ता (पं. बंगाल)
साध्वी श्री सूर्यप्रभा श्री जी म.सा. आदि ठाणा (7)
सम्पर्क सूत्र - Shri Gyanehandji Lunawat
15-A Laxmi Narayan Mukharji Road,
CALCUTTA - 700007 (W B)
36. खड़गपुर (प. बंगाल)
साध्वी श्री दिव्य दर्शना श्री जी म.सा. आदि ठाणा (4)
सम्पर्क सूत्र - श्री जैन श्वे. मन्दिर - 36 पार
खरीदा फाटक, बापू बाजार मु.पो. खड़गपुर
जिला - मिदनापुर (प. बंगाल) 721301
37. खड़गपुर (प. बंगाल)
साध्वी श्री दिव्य श्री जी म.सा. आदि ठाणा (1)

- सम्पर्क सूत्र - श्री जैन श्वे मन्दिर - 36 पारा
खरीदा फाटक, बापू बाजार मु पो खडगपुर
जिला - मिदनापुर (प बगाल) 721301
- 38 भुज - कच्छ (गुजरात)
साध्वी श्री निरजना श्री जी म सा आदि ठाणा (3)
सम्पर्क सूत्र - श्री शांतीनाथ जिनालय,
मोटी डेली - वाणीया वाड, मु पो भुज - 370001
कच्छ (गुजरात)
- 39 मोकलसर (राजस्थान)
साध्वी श्री प्रियदर्शना श्री जी म सा आदि ठाणा (2)
सम्पर्क सूत्र - श्री महावीर भवन, मु पो मोकलसर
343043 जिला वाडमेर (राजस्थान)
- 40 पालीताणा (गुजरात)
साध्वी श्री मोहन श्री जी म सा आदि ठाणा (5)
सम्पर्क सूत्र - श्री जिन हरि बिहार धर्म शाळा,
तलेटी रोड, मु पो पालीताणा 364270
जिला - भावनगर (गुजरात)
- 41 पालीताणा (गुजरात)
साध्वी श्री कमल प्रभा श्री जी म सा आदि ठाणा (3)
सम्पर्क सूत्र - उपरोक्त क्रमांक 40 देखे,
- 42 पालीताणा (गुजरात)
साध्वी श्री महेन्द्र श्री जी म सा आदि ठाणा (2)
सम्पर्क सूत्र - श्री कल्याण भवन धर्मशाळा तलेटी रोड,
मु पा पालीताणा जिला - भावनगर (गुजरात) 364270
- 43 पालीताणा (गुजरात)
साध्वी श्री मेघ श्री जी म सा आदि ठाणा (1)
सम्पर्क सूत्र - श्री महिमा कुटीर, मु पो पालीताणा
(गुजरात) 364270
- 44 पालीताणा (गुजरात)
साध्वी श्री प्रमोद श्री जी म सा आदि ठाणा (2)
सम्पर्क सूत्र - उपरोक्त क्रमांक 43 देखे
- 45 पालीताणा (गुजरात)
साध्वी श्री हर्षप्रभा श्री जी म सा आदि ठाणा (1)
सम्पर्क सूत्र - उपरोक्त क्रमांक 43 देखे
- 46 लोहावट (राजस्थान)
साध्वी श्री दिव्यप्रभा श्री जी म सा आदि ठाणा (6)
सम्पर्क सूत्र - श्री जैनश्वेताम्बर मन्दिर जाटावास
मु पो लोहावट जिला - जोधपुर (राजस्थान)
342302
- 47 जोधपुर (राजस्थान)
साध्वी श्री जय प्रभा श्री जी म सा आदि ठाणा (3)
सम्पर्क सूत्र - श्री कुशल भवन, आहोर की हवेली के पास,
मु पो जोधपुर - 342001 (राजस्थान)
- 48 जोधपुर (राजस्थान)
साध्वी श्री कुशल श्री जी म सा आदि ठाणा (1)
सम्पर्क सूत्र - श्री केशरीयौनायजी की धर्मशाला,
दफ्तरियो का वास, मु पा जोधपुर - 342001
(राजस्थान)
- 49 फलौदी (राजस्थान)
साध्वी श्री पदमप्रभा श्री जी म सा आदि ठाणा (3)
सम्पर्क सूत्र - श्री शीतलनाथजी का उपासरा,
मु पा फलौदी - 342301 जिला - जोधपुर
(राजस्थान)
- 50 फलौदी (राजस्थान)
साध्वी श्री कोमला श्री जी म सा आदि ठाणा (2)
सम्पर्क सूत्र - फूल चन्दजी की धर्मशाला,
मु पो फलौदी - 342301 जिला जोधपुर
(राजस्थान)
- 51 फलौदी (राजस्थान)
साध्वी श्री विकास श्री जी म सा आदि ठाणा (3)
सम्पर्क सूत्र - श्री कुशल धर्मशाला सरदार पुरा
मु पो फलौदी जिला - जोधपुर 342301
(राजस्थान)

52. बीकानेर (राजस्थान)
साध्वी श्री मुक्ति श्री जी म.सा. आदि ठाणा (1)
सम्पर्क सूत्र - बोरोकी शेरी, रागड़ी चौक,
मु.पो. बीकानेर - 334001 (राजस्थान)
53. बीकानेर (राजस्थान)
साध्वी श्री सुन्दर श्री जी म.सा. आदि ठाणा (1)
सम्पर्क सूत्र - श्री सुगनजी का उपाश्रय, रांगडी चौक,
मु.पो. बीकानेर - 334001 (राजस्थान)
54. महिदपुर (मध्यप्रदेश)
साध्वी श्री संतोष श्री जी म.सा. आदि ठाणा (1)
सम्पर्क सूत्र - खरतरगच्छ जैन उपासरा, आबादी गली,
मु.पो. महिदपुर - 456443 जिला - उज्जैन
(मध्यप्रदेश)
55. अमलनेर (महाराष्ट्र)
साध्वी श्री जय रेखा श्री जी म.सा. आदि ठाणा (1)
सम्पर्क सूत्र - श्री जैन श्वेताम्बर दादाबाडी मन्दिर,
न्यू प्लॉट, मु.पो. अमलनेर - 425401
जिला - जलगाँव (महाराष्ट्र)
56. मन्दसौर (मध्यप्रदेश)
साध्वी श्री कमल श्री जी म.सा. आदि ठाणा (2)
सम्पर्क सूत्र - श्री जैन श्वे मन्दिर, नयापुरा
मु.पो. मन्दसौर - 458001 (मध्यप्रदेश)
57. जोधपुर (राजस्थान)
साध्वी श्री चन्द्रकाता श्री जी म.सा. आदि ठाणा (2)
सम्पर्क सूत्र - श्री केशरयानाथजी की धर्मशाला,
दफ्तरीयोका वास, मु.पो. जोधपुर - 342001
(राजस्थान)
58. वाड़मेर (राजस्थान)
साध्वी श्री विज्ञोद श्री जी म.सा. आदि ठाणा
सम्पर्क सूत्र - C/o श्री नैनमलजी भंशाली
करमुजीकी गली, मु.पो. वाड़मेर - 344001
(राजस्थान)
59. जयपुर (राजस्थान)
साध्वी श्री हेमप्रभा श्री जी म.सा. आदि ठाणा
सम्पर्क सूत्र - श्री विचक्षण भवन,
एम.एस.बी. का रास्ता, जौहरी बाजार
जयपुर (राजस्थान) 302003
60. चौहटन (राजस्थान)
साध्वी श्री प्रकाश श्री जी म.सा. आदि ठाणा (4)
सम्पर्क सूत्र - जैन खरतरगच्छ उपासरा,
मु.पो. चौहटन जिला वाडमेर (राजस्थान)
61. पाली (राजस्थान)
साध्वी श्री विनयप्रभा श्री जी म.सा. आदि ठाणा (2)
सम्पर्क सूत्र - श्री खरतरगच्छ जैन उपासरा, गुजराती कटला,
नारेलपोल - मु.पो. पाली मारवाड (राजस्थान)
306401
62. अहमदाबाद (गुजरात)
साध्वी श्री पुष्पा श्री जी म.सा. आदि ठाणा (1)
सम्पर्क सूत्र - श्री जैन उपाश्रय, शाही बाग,
अहमदाबाद - (गुजरात)
63. पालीताणा (गुजरात)
साध्वी श्री जसवंत श्री जी म.सा. आदि ठाणा (3)
सम्पर्क सूत्र - श्री समरथ भवन, जैन धर्मशाला,
तलहटी रोड, मु.पो. पालीताणा,
जिला - भावनगर - 364270 (गुजरात)
64. समदड़ी (राजस्थान)
साध्वी श्री पूर्ण प्रभा श्री जी म.सा. आदि ठाणा
सम्पर्क सूत्र - श्री कुंथुनाथ जैन देरासर, नवी वास,
मु.पो. समदड़ी - 344021 जिला - वाड़मेर
(राजस्थान)
65. चरोदा (मध्यप्रदेश)
साध्वी श्री नयप्रभा श्री जी म.सा. आदि ठाणा (3)
सम्पर्क सूत्र - श्री जैन श्वेताम्बर मन्दिर, मेन रोड,
मु.पो. चरोदा, जिला - रायपुर (मध्यप्रदेश)

66 पालीताणा (गुजरात)
साध्वी श्री महेन्द्रप्रभा श्री जी म सा आदि ठाणा (2)
सम्पर्क सूत्र - जैन भवन, तलेटी रोड, पालीताणा
(गुजरात) 364270

67 साचौर (राजस्थान)
साध्वी श्री रतनमाला श्री जी म सा आदि ठाणा (4)
सम्पर्क सूत्र - खरतर गच्छ जैन उपासना,
सुनारो का वास, मु पो साचौर जिला बाडमेर
(राजस्थान) 343041

| | | | |
|----------------------------|----|---------------|-----|
| कुल चातुर्मास मुनिराजो के | 12 | कुल मुनिराज | 20 |
| कुल चातुर्मास साध्वीयों के | 55 | कुल साध्वीयों | 198 |
| कुल | 67 | | 218 |

कुल चातुर्मास (67) मुनिराज (20) साध्वीयोंजी (198)
कुल ठाणा (218)


सामु-साध्वीया पद तालिका 1993

| क्रमांक | पद | 1992 | 1993 | विशेष |
|---------|------------|------|------|-------|
| 1 | गच्छाधिपति | 1 | 1 | यथावत |
| 2 | आचार्य | 1 | 1 | यथावत |
| 3 | उपाध्याय | 1 | 1 | यथावत |
| 4 | गणि | 1 | 1 | यथावत |
| 5 | मुनिराज | 21 | 20 | |
| 6 | साध्वीयों | 195 | 198 | |
| 7 | कुल ठाणा | 216 | 218 | |

नोट 1 नई दीक्षा एव काल धर्म की सूची प्राप्त नहीं होने के कारण तुलनात्मक तालिका प्रस्तुत नहीं कर सके।

2 जैन का पत्रिकाए


- 1 ज्योति सन्देश वार्ता (मासिक - हिन्दी) दिल्ली
- 2 जिनेश्वर (मासिक हिन्दी) बम्बई


 With Best * * *
 Compliments From

Murlidhar
 Police Station Kachaheri Road Durg
COMPUTERS

कम्प्यूटर कम्पोजन डी.टी.पी. प्रिण्टिंग
 लेजर प्रिंटेर आफ्टरसेटप्रिंटेर
 इन्फोप्रिंटेर/फोटोकॉपी/जेक्स
 आर डी.पी. प्रिंटेर/क्यू प्रिंटेर
 इन्टीकोडेड (साफ्टवेयर) प्रिंटेर
 थर्मल प्रिंटेर रिपोर्ट सेटर
 इलेक्ट्रॉनिक टाइपिंग मैश कम्प्यूटरइंग्ड
 सोलरगैलरी/प्लेस्टिक क्लिंटेर
 कामबन्धनकारलक्षणरूप सुक नाइडिंग
 उदेश्य आपकी सेवा हमारा धर्म है।

मुरलीधर शर्मा
 एक्सेलर



सभी पूज्य आचार्यों एवं साधु-साध्वियों को कोटि-कोटि वन्दन !

ऑफिस- 2044723 निवास- 4308036
233368 4300549

राजेन्द्र ए. जैन

जैन इन्वेस्टमेंट्स हीरावत जैन एण्ड कं.

907, ऐरेकेडिया, ओबेराय होटल के पीछे,
नरीमन पाइंट, बम्बई-400021

शुभेच्छुक :

राजेन्द्र ए. जैन
प्रचार प्रसार मंत्री
भारत जैन महामण्डल बम्बई

मनोज आर. जैन
बम्बई

हार्दिक शुभकामनाओं के साथ :

हीना

Tel, : 355450, 3873579

HEENA MACHING CENTRE

TWO × TWO * POPLIN * CAMBRIC * COTTAN SILK
LAWN * DUPATTA * READYMADE PETTY COATS

180, V. P. Road, Near 2nd Deshmukh Lane
Sikka Nagar, BOMBAY-400 004 (India)

Pick a **PINKY**
and
let your writing sparkle

LION
PINKY

the Prettiest Pencil
in town

Now from Lion Pencils,
here's another novelty

the Pearl finished LION PINKY Pencil
a pretty pencil to behold
Superb in looks, super smooth in writing with its
HB Lead strongly bonded to give you unbreakable
points

Also available with rubber tip and hexagonal

Other popular brands of
Lion Pencils are
Lion **MOTO**, Lion **TURBO** Lion **SWEETY**,
Lion **CONCORD**, Lion **EXECUTIVE** and
Lion **GEEMATIC** Drawing Pencils

LION PENCILS LTD.

Panjat 95 Marine Drive
BOMBAY - 400 002

श्री त्रिस्तुतिक (तीन थुई) गच्छ समुदाय

भाग प्रथम

4

सौधर्मं वृहत्पागच्छीय त्रिस्तुतिक गच्छ समुदाय के प्रमुख गच्छाधिपति :- गच्छनायक, शासनप्रभावक, गच्छाधिपति आचार्य प्रवर श्री विजय हेमेन्द्र सूरीश्वरजी म. सा. के आज्ञानुवर्ती साधु-साध्वीयाँजी म. सा. ।

कुल चातुर्मास (10) मुनिराज (13) साध्वीयाँजी (41) कुल ठाणा (54)

साधु-मुनिराज समुदाय

1. श्री मोहनखेड़ा तीर्थ (मध्यप्रदेश)

गच्छाधिपति, गच्छनायक, शासनप्रभावक,
आचार्य प्रवर श्रीमद् विजय हेमेन्द्र सूरीश्वर
जी म.सा.

आदि ठाणा (5)

सम्पर्क सूत्र—श्री आदिनाथ राजेन्द्र जैन श्वेताम्बर पेढी,

श्री मोहनखेड़ा तीर्थ, मु. पो. राजगढ़ (धार)

जिला—धार (मध्यप्रदेश)-454116

फोन नं. : (07296), 2225, 2348, 2347

2. मनावर (मध्यप्रदेश)

ज्योतिषाचार्य श्री जयप्रभ विजयजी म सा

आदि ठाणा (2)

सम्पर्क सूत्र—श्री श्वेताम्बर मूर्ति, जैन उपाश्रय,

जैन मंदिर, जवाहर मार्ग,

मु.पो. मनावर, जिला—धार (मध्यप्रदेश)

3. बांसवाड़ा (राजस्थान)

अध्यात्मिक योगी श्री रवीन्द्र विजयजी म सा.

आदि ठाणा (2)

सम्पर्क सूत्र—श्री महावीर डिस्पेन्सरी, नई आवादी,

मु.पो. बांसवाड़ा (राजस्थान)

4. झाबुजा (मध्यप्रदेश)

प्रवचनकार श्री नरेन्द्र विजयजी म.सा.

आदि ठाणा (2)

सम्पर्क सूत्र—राजेन्द्र जैन भवन, लक्ष्मीबाई मार्ग,

झाबुजा (मध्यप्रदेश)

5. शंखेयवर तीर्थ (गुजरात)

कोंकण केणरी श्री लेखेन्द्र विजयजी म.सा.

आदि ठाणा (2)

सम्पर्क सूत्र—श्री पार्श्व पद्मावती शक्ति पीठ,
शंखेयवर तीर्थ, जिला—महेसाणा (गुजरात)

साध्वीयाँजी समुदाय

6. भीनमाल (राजस्थान)

साध्वी श्री ललित श्रीजी म.सा. आदि ठाणा (12)

सम्पर्क सूत्र—श्री राजेन्द्र सूरी क्रिया भवन,

महिला उपाश्रय,

बारह श्याम मंदिर के पास, मु.पो. भीनमाल,

जिला—जालौर (राजस्थान)-343028

7. खाचरोद (मध्यप्रदेश)

1. प्रवर्तिनी साध्वी श्री मुक्ति श्रीजी म.सा.

2. साध्वी श्री देवेन्द्र श्रीजी म.सा.

आदि ठाणा (10)

सम्पर्क सूत्र—राजेन्द्र भवन, लिम्बड़ावाला वास,

मु.पो. खाचरोद, जिला—उज्जैन (म.प्र.)-456224

8. आहोर (राजस्थान)

साध्वी श्री जयंत श्रीजी जी म.सा. आदि ठाणा (3)

सम्पर्क सूत्र—श्री राजेन्द्र उपाश्रय, पुराना बस स्टेण्ड,

मु.पो. आहोर, जिला—जालौर (राजस्थान)

9 पालीताणा (गुजरात)

माध्वी श्री पुष्पा श्रीजी म मा आदि ठाणा (8)
सम्पन्न सूत्र-राजेन्द्र विहार, दादावाडी तलेटी राड,
पार्लिताणा (मोगाट) (गुजरात)-364270

10 गुन्टूर (आंध्रप्रदेश)

माध्वी श्री महारा श्रीजी म मा जादि ठाणा (8)
सम्पन्न सूत्र-

JAIN DHARAM SHALA GANTHMAL
CHETTU PO GUNTUR (A P)

साधु साध्वी पद तालिका 1993

| क्र | पद | 1992 | 1993 | विशेष |
|----------|------------|------|------|-------|
| 1 | गच्छाधिपति | 1 | 1 | यथावत |
| 2 | आचार्य | 1 | 1 | यथावत |
| 3 | मुनिराज | 13 | 13 | |
| 4 | साध्वीयां | 38 | 41 | |
| कुल ठाणा | | 51 | 54 | |

कुल चातुर्मास मुनिराजो के 5 कुल मुनिराज 13
कुल चातुर्मास साध्वीयां के 5 कुल साध्वीयां 41

कुल 10 54

कुल चातुर्मास (10) मुनिराज (13) साध्वीयां (41)
कुल ठाणा (54)

नोट-(1) नई बीमा एवं वानप्रस्थ सूची प्राप्त नहीं हाने के कारण तुलनात्मक तालिका प्रस्तुत नहीं कर सके।

(2) जैन पत्र पत्रिकाओं-श्री राजेन्द्र विद्या प्रकाश (मामिक हिंदी) माहानवेडा तीर्थ।

छपने-जने-नई दुनिया पत्र 11-8-93 के अनुसार क्याबूदा साध्वी श्री ललित श्रीजी म मा का 10-8-93 का 95 वष की उम्र म भीनमत्त (राजस्थान) म महाप्रयाण हा गया।

अ० भा० समग्र जैन आचार्य डायरैक्ट्री का प्रकाशन

सम्पूर्ण भारत के समग्र जैन समाज के चारों मनुष्या (श्रेष्ठ मूर्तिपूजक स्थानकवामी, तरापथी, एन दिगम्बर मनुदाय) के लगभग सभी 165 जैन आचार्यों एवं प्रभावशाली साधु साध्वीया की डायरैक्ट्री हिन्दी भाषा म शीघ्र ही प्रकाशित हान जा रही है। इस डायरैक्ट्री म सभी पूज्य आचार्यों एव प्रभावशाली साधु साध्वीया का जीवन परिचय कोठे प्रेरण कार्यों एव मनुदाय शिष्य परिवार आदि वाला का पूण जानकारी प्रकाशित की जायेगी।

अन जैन समाज के सभी पूज्य आचार्यों म नम्र निवेदन है कि वे अपना फोटो जीवन परिचय एव प्रेरण कार्यों का पूण विवरण शीघ्र भिजवान का कष्ट करे।

सम्पन्न सूत्र-बाबलास जन 'जजवल'

उज्जवल प्रकाशन,

105, निरुपनि अपाटमटम, जाबुनी शोम रोड न 1

पानिनी (पु), बम्बई 400101 (महागट)

फोन न-8881278

श्री त्रिस्तुतिक (तीन थुई) गच्छ समुदाय

(भाग द्वितीय)

4A

सौधर्म वृहत्पागच्छीय त्रिस्तुतिक सुविशाल जैन संघ के प्रमुख गच्छाधिपति :- संघ सुविशाल, गच्छाधिपति, साहित्य शिरोमणी, तीर्थ प्रभावक प्रशम रस महोदधि, प्रखर-वक्ता, वात्सल्य वारिधि, मधुर भाषी, राष्ट्र संत आचार्य प्रवर श्रीमद् विजय जयंत सेन सूरीश्वरजी म. सा. के आज्ञानुवर्ती साधु-साध्वीयाँजी

कुल चातुर्मास (24) मुनिराज (29) साध्वीयाँ (76) कुल ठाणा (105)

साधु-मुनिराज समुदाय

1. नेल्लौर (आन्ध्र प्रदेश)

संघ सुविशाल गच्छाधिपति, साहित्य शिरोमणी, तीर्थ प्रभावक, प्रशम रस महोदधि, प्रखर वक्ता, वात्सल्य वारिधि, कीर्ति पुरुष, व्याख्यान दिवाकर मधुर भाषी, राष्ट्र संत, आचार्य प्रवर श्रीमद् विजय जयंत सेन सूरीश्वरजी म सा. "मधुकर"

आदि ठाणा (6)

सम्पर्क सूत्र—

Shri Jain Svetamber Sangh, Jain Temple,
Mandapal Street NELLORE (A.P.)524001
Tel No. (0861-), 26449

(मद्रास-बम्बई स्ट पर रेणी गुटा मे वस ट्रेन द्वारा एवं अहमदाबाद इन्दौर कोचीन स्ट पर नेल्लौर स्टेशन आता है)

2. सायरा (गुजरात)

संयमवय स्थविर श्री शांति विजयजी म सा.
आदि ठाणा (4)

सम्पर्क सूत्र—श्री ज्वेताम्बर मूर्तिपूजक जैन सध, जैन मंदिर, मु. पो. सायरा, जिला-उदयपुर(राजस्थान)

3. भीनमाल (राजस्थान)

श्री भुवन विजय जी म सा आदि ठाणा (2)
सम्पर्क सूत्र—श्री ज्वे. मूर्तिपूजक जैन मंदिर
मु पो भीनमाल, जिला-जालौर(राज.) 343020

4. वागरा (राजस्थान)

श्री केवल विजयजी म. सा आदि ठाणा (4)
सम्पर्क सूत्र—श्री ज्वेताम्बर मूर्तिपूजक जैन संघ
जैन मंदिर मु पो वागरा जिला जालौर (राज.)

5. थराद (गुजरात)

श्री जय कीर्ती विजयजी म सा आदि ठाणा (5)
सम्पर्क सूत्र—श्री ज्वे मूर्ति जैन मंदिर, त्रिस्तुतिक
जैन संघ, मु पो थराद वाया डीसा
जिला—वनासकाठा (गुजरात)

6. भूति (गुजरात)

श्री जयानंद विजयजी म. सा आदि ठाणा (2)
सम्पर्क सूत्र—श्री ज्वेताम्बर मूर्तिपूजक जैन मंदिर
मु पो भूति, जिला—सिरोही (राजस्थान)

7. आहोर (राजस्थान)

श्री सम्यग् रत्न विजयजी म. सा. आदि ठाणा (3)
सम्पर्क सूत्र—श्री ज्वेताम्बर मूर्तिपूजक जैन मंदिर
मु. पो. आहोर, जिला—जालौर (राजस्थान)

8 उम्हव (मध्यप्रदेश)

श्री दुग्गल विद्यापीठ म ना आदि टाणा (3)
 सन्त वृत्त-श्री जेताम्बर मूर्ति जैन मन्दिर
 विस्तृत मन्, नमन मन्नी उम्हव
 (मध्यप्रदेश) 456006
 फोन न 25321

साध्वीधार्मी समुदाय

9 विवाण (राजस्थान)

साध्वी श्री सुम श्रीजी म ना आदि टाणा (6)
 सन्त वृत्त-श्री जेताम्बर मूर्तिपूजन जैन मन्दिर
 सहित उपाध्य म ना विवाण, विवा-जानोर
 (राजस्थान) 343028

10. जापीर (राजस्थान)

- 1 साध्वी श्री महाप्रभा श्रीजी म ना
 - 2 साध्वी डॉ प्रिय दाना श्रीजी म ना
M A phd
 - 3 साध्वी डॉ मुग्गला श्रीजी म ना
M A phd
आदि टाणा (3)
- सन्त वृत्त-श्री जेताम्बर मूर्ति मीन बुद्ध धर्मदाना,
 कानिया बाग, जानोर (राजस्थान)

11 बम्बई (महाराष्ट्र)

साध्वी श्री सुवन्दना श्रीजी म ना
आदि टाणा (11)

12 बावीकाण (गुजरात)

साध्वी श्री स्वय प्रभा श्री जी म ना
आदि टाणा (8)
 सन्त वृत्त-श्री जेताम्बर मूर्ति टाणावादी
 सन्त वृत्त वन्नीकाण (गुज) 364270

13 अहमदाबाद-साधीकाण (गुजरात)

साध्वी श्री जेताम्बर म ना आदि टाणा (5)
 सन्त वृत्त-श्री जेताम्बर मूर्ति जैन मन्दिर
 सन्त वृत्त साधीकाण जेताम्बर मूर्ति जेता
 अहमदाबाद 380801 (गुजरात)

14 ठाणा-मानपाडा (महाराष्ट्र)

साध्वी श्री प्रेमनाथा श्रीजी म ना आदि टाणा (3)
 सन्त वृत्त-श्री जेताम्बर मूर्ति पूजन जैन मन्
 विस्तृत मन्, जैन मन्दिर, मानपाडा
 ठाणा-(महाराष्ट्र)

15 पाटण (गुजरात)

साध्वी श्री नननप्रभाश्रीजी म ना
आदि टाणा (6)
 सन्त वृत्त-श्री जेताम्बर मूर्तिपूजन जैन मन्,
 जैन उपाध्य, म ना पाटण, जिना-महेनागा
 (गुजरात)

16 जोधपुर (राजस्थान)

साध्वी श्री रामन लता श्रीजी म ना
आदि टाणा (4)
 सन्त वृत्त-

17 बाबू-देतबाडा (राजस्थान)

साध्वी श्री मय निर्णय श्रीजी म ना
आदि टाणा (5)
 सन्त वृत्त-

18 शिवगज

साध्वी श्री स्नेहलता श्रीजी म ना आदि टाणा (3)
 सन्त वृत्त-श्री जेताम्बर मूर्तिपूजन जैन मन्
 जैन मन्दिर, शिवगज जिना-जानोर (राजस्थान)

19 मेघनगर (मध्यप्रदेश)

साध्वी श्री नननगुणा श्रीजी म ना आदि टाणा (6)
 सन्त वृत्त-श्री जेताम्बर मूर्ति मन्दिर
 म ना मेघनगर, जिना जालुना (मध्यप्रदेश)

20 बीजापुर (कर्नाटक)

साध्वी श्री जामना श्रीजी म ना
आदि टाणा (3)
 सन्त वृत्त-
 Shri Svetamber Murtipujak Jain Sangh
 Jain Temple, P O BIJAPUR (Karnatka)

21. धानेरा (गुजरात)

साध्वी श्री पुष्पदर्शना श्रीजी म. सा. आदि ठाणा (2)
सम्पर्क सूत्र-श्री श्वे. मूर्ति जैन मंदिर, देरासर
मु. पो. धानेरा, जिला-बनासकाठा (गुजरात)

22. बागरा (राजस्थान)

साध्वी श्री दिव्य दर्शना श्रीजी म सा. आदि ठाणा (1)
सम्पर्क सूत्र-श्री श्वे. मूर्ति. जैन मंदिर
मु. पो. बागरा (राजस्थान)

23. सूरत (गुजरात)

साध्वी श्री अनन्त दृष्टा श्रीजी म. सा.
आदि ठाणा (5)
सम्पर्क सूत्र-श्री राजेन्द्र सूरी जैन ज्ञान मंदिर
हनुमान चार रास्ता, मेन रोड़ गोपीपुरा,
सूरत-395 003 (गुजरात)

24. इन्दौर (मध्यप्रदेश)

साध्वी श्री दशित कला श्रीजी म सा.
आदि ठाणा (5)
सम्पर्क सूत्र-

| | | | |
|----------------------------|-------|---------------|-------|
| कुल चातुर्मास मुनिराजों के | 8 | कुल मुनिराज | 29 |
| कुल चातुर्मास साध्वीयों के | 16 | कुल साध्वीयों | 76 |
| | ----- | | ----- |
| कुल | 24 | | 105 |
| | ----- | | ----- |

कुल चातुर्मास (24) मुनिराज (29) साध्वीयोंकी (76)
कुल ठाणा (105)

साधु-साध्वी पद तालिका 1993

| क्र. | पद | 1992 | 1993 | विशेष |
|---------|------------|------|------|-------------------------|
| 1. | गच्छाधिपति | 1 | 1 | यथावत |
| 2. | आचार्य | 1 | 1 | यथावत |
| 3. | मुनिराज | 24 | 29 | सूरत में 9 दीक्षाएँ हुई |
| 4. | साध्वीयाँ | 69 | 76 | " " " |
| कुल योग | | 93 | 105 | |

- नोट-(1) नई दीक्षा एवं महाप्रयाण की पूरी सूची प्राप्त नहीं होने के कारण तुलनात्मक तालिका प्रस्तुत नहीं कर सके।
- (2) इस समुदाय की जो सूची प्राप्त हुई है उसमें आदि ठाणाओं की संख्या एवं सम्पर्क सूत्र किसी की भी सूची में नहीं आये। अब हम लिखे भी तो क्या लिखे अत कई जगह तो अनुमान से एवं कई जगह खाली छोड़ना पडा।
- (3) इस समुदाय में दो साध्वीयाँ M. A. phd. उच्च शिक्षा प्राप्त है।
- (4) इस वर्ष इस समुदाय में गच्छाधिपति आचार्य श्रीजी के सानिध्य में सूरत मे एक ही स्थान पर एक ही जगह सर्वाधिक (9) नई दीक्षाएँ सम्पन्न हुई है जो त्रिस्तुतिक संघ में एक रिकार्ड है।
- (5) गच्छाधिपति आचार्य श्री अबकी बार सूरत से बम्बई (प्रयाणक दंगा काड के समय) होते हुए दक्षिण भारत के वेल्लौर शहर मे लगभग 2 हजार कि. मी का विहार कर पधारे है।
- (6) जैन पत्र-पत्रिकाएँ-शास्वत धर्म (मासिक हिन्दी) ठाणा-बम्बई ---सम्पादक

अष्टम आचार प्रवचन श्री श्वेता मनिर्ज, मया आदि ठाणा नीजवाडा पत्र अष्टम उपाध्याय प्रवचन
 श्री वेत्त मनिर्ज, मया आदि ठाणा वेंगना, प्रवचन श्री मेग मनिर्ज, मया आदि ठाणा
 दुर्गा एव परम विदुषी महामती श्री चन्नावी मया आदि ठाणा चम्बूर
 अम्बद म वष 1993 का चातुर्मास पालन लघात, चरित्र एव तप
 की आराधना ने परिष्कार हात की मानवामना बन हुए ।



हार्दिक शुभकामनाओं के साथ-

जैन साध्वी महासती श्री कमलावतीजी परमार्थिक समिति (रजिस्टर्ड)

38, गणेशनगर, गतेतो माण, उदयपुर 313 001 (राज)

भवनपाल वर
 प्रवक्ता

श्री चन्द्र मुरारि "हरम
 मयी

इ.प्रसिंह बाबें
 कोषाध्यक्ष

श्री त्रिस्तुतिक (तीन थुई) गच्छ समुदाय

(भाग तृतीय)

4B

सौधर्म वृहद् तपागच्छ त्रिस्तुतिक गच्छ समुदाय (भाग तृतीय)
के वर्तमान में प्रमुख गच्छाधिपति:- गच्छाधिपति आचार्य
प्रवर श्रीमद् विजय लब्धि सूरीश्वरजी म. सा. के
आज्ञानुवर्ती साधु-साध्वीयाँजी

कुल चातुर्मास (2) मुनिराज (7) कुल ठाणा (7)

साधु-मुनिराज समुदाय

(2) मारवाड में योग्य स्थान (राजस्थान)

1. (राजस्थान)

श्री कमल विजयजी म सा. आदि ठाणा (1)

गच्छाधिपति आचार्य प्रवर श्रीमद् विजय
लब्धि सूरीश्वरजी म. सा.

कुल चातुर्मास (2) मुनिराज (6) कुल ठाणा (6)

समुदाय में विद्यमान है-गच्छाधिपति (1) आचार्य (1)

आदि ठाणा (5)

सम्पर्क सूत्र:-

नोट-(1) इस समुदाय की पूरी सूची प्राप्त नहीं हो सकी,
इसलिए तुलनात्मक तालिका भी प्रस्तुत नहीं
कर सके।

(2) जैन पत्र-पत्रिकाएँ-नहीं।

मुविशाल गच्छाधिपति साहित्य मनीषी, तीर्थ प्रभावक, प्रणमरस महोदधि, प्रखर वक्ता, वात्सल्य
वारिधि, मधुर भाषी, राष्ट्रसत् आचार्य प्रवर श्रीमद् विजय जयन्तसेन सूरीश्वरजी म.सा.

आदि ठाणाओं का नेल्लौर (आंध्रप्रदेश) में सन् 1993 वर्ष का चातुर्मास

ज्ञान, दर्शन, चरित्र एवं तप की आराधनाओं से यशस्वी, चिर-स्मरणीय,

ऐतिहासिक सानन्द सम्पन्न होने की मंगल कामनाएँ करते हुए—

हार्दिक शुभकामनाओं सहित —

● श्री जैन श्वेताम्बर संघ ●

जैन मंदिर मंडपाल स्ट्रीट,

नेल्लौर -524 001 (आंध्रप्रदेश)

फोन नं (0861) 26449

परम श्रेष्ठेय उपाध्याय प्रवर श्री केवल मुनिजी महाराज मा आदि ठाणा बंगलौर, गलाहारा थी मूल मुनिजी महाराज सा आदि ठाणा निम्बाहेडा, प्रवनक श्री रमेश मुनिजी महाराज मा आदि ठाणा टूगना, श्री अण्ण मुनिजी महाराज सा आदि ठाणा जह्मदाबाद, परम विदुषी महासती श्री चन्दनार्जु महाराज सा आदि ठाणा चेम्पूर घम्पई ना वष १९९३ वा जातुर्मास, ज्ञान, दगन, चरित एव तप की / आराधना से परिपूर्ण हाने भी मगन वामनाएँ करते हुए—



परमपरोपकरो जैकज्ज

हादिष्ठ सम्प्रामनाओ सहित—

फान न ६०१५३

इन्द्रसिंह बाबेल (जैन)

एवम्

श्रीमती पुष्पा बाबेल (जैन)

'द्विवाकर दीप'

३८, सहेली नगर, सहेली मार्ग,

उदयपुर-३१३ ००१ (राज)

श्री पार्श्वचन्द्र गच्छ समुदाय

5

युग प्रधान दादासाहेब आचार्य श्री पार्श्वचन्द्र सूरेश्वरजी
म. सा. का समुदाय

वर्तमान में समुदाय के प्रमुख :- पार्श्व गच्छ नायक
पं. रत्न मुनि श्री रामचन्द्रजी म. सा.

कुल चातुमसि (27) मुनिराज (11) साध्वियाँजी (69) कुल योग (80)

साधु-मुनिराज समुदाय

1. अहमदाबाद-रायपुर (गुजरात)
गच्छ नायक पं. रत्न श्री रामचन्द्रजी म. सा.
आदि ठाणा (2)
सम्पर्क सूत्र—श्री पार्श्वचन्द्र गच्छ जैन उपाश्रय,
भैयानी बारी, शामला नी पोल, रायपुर
अहमदाबाद-380001 (गुजरात)
2. नानी खाखर-कच्छ (गुजरात)
श्री मुक्तिचन्द्र विजयजी म. सा. आदि ठाणा (3)
सम्पर्क सूत्र—श्री पार्श्वचन्द्र गच्छ जैन उपाश्रय,
मु. पो. नानी खाखर, वाया विडडा तालूका माडवी
जिला—भुज (गुजरात)-370435
3. देवलाली नासिक (महाराष्ट्र)
श्री भुवनचन्द्र विजयजी म. सा. आदि ठाणा (1)
सम्पर्क सूत्र—पण्यम् सकल्प, लाम रोड, मु. पो. देवलाली
वाया जिला—नासिक (महाराष्ट्र)-422401
4. नागौर (राजस्थान)
श्री तिलोकचन्द्रजी म. सा. आदि ठाणा (1)
सम्पर्क सूत्र—श्री पार्श्वचन्द्र गच्छ जैन उपाश्रय,
गुजरातीयो की पोल,
मु. पो. नागौर (राजस्थान)-314001
5. बम्बई-शांताक्रुष्ण (महाराष्ट्र)
श्री पूर्णयश चन्द्रजी म. सा. आदि ठाणा (3)

- सम्पर्क सूत्र—श्री कलिकृष्ण पार्श्वनाथ जैन देरासर,
रूप टॉकीज के पास,
शांताक्रुष्ण (पूर्व) बम्बई-400055 (महाराष्ट्र)
6. जोधपुर (राजस्थान)
श्री पुण्यरत्न चन्द्रजी म. सा. आदि ठाणा (1)
सम्पर्क सूत्र—जैन विद्या भवन, आहोर की हवेली के पास
जोधपुर-342001 (राजस्थान)

साध्वीयाँजी समुदाय

7. जोधपुर (राजस्थान)
साध्वी श्री सुनन्दाश्रीजी म. सा. आदि ठाणा (8)
सम्पर्क सूत्र—श्री पार्श्वनाथ जैन श्वेताम्बर तीर्थ,
भेरु वाग, जैन धर्मशाला, सी. रोड सरदारपुरा,
जोधपुर (राजस्थान)-342001
8. बम्बई-मुलुण्ड (महाराष्ट्र)
साध्वी श्री अमृत श्रीजी म. सा. (स्थिरवास)
आदि ठाणा (1)
सम्पर्क सूत्र—पुष्पमणी सोसायटी, जवेर रोड,
मुलुण्ड (वेस्ट), बम्बई-400080 (महाराष्ट्र)
9. विरमगाँव (गुजरात)
साध्वी श्री सूर्यप्रभा श्रीजी म. सा. आदि ठाणा (2)
सम्पर्क सूत्र—श्री पार्श्वचन्द्र गच्छ जैन उपाश्रय,
मोटो भाटवाडो, मु. पो. विरमगाँव
जिला—अहमदाबाद-382150 (गुजरात)

- 10 विदडा-क्वच्छ (गुजरात)
माध्वी श्री चन्द्रादयः श्रीजी म मा (म्विरवाम)
जादि ठाणा (1)
सम्पन्न मूत्र-दगमर राट, मुपा विदडा-क्वच्छ,
तालूका माण्डवा (गुजरात) 370435
- 11 मोटी छावर-क्वच्छ (गुजरात)
माध्वी श्री उवलप्रभा श्रीजी म मा जादि ठाणा (4)
सम्पन्न मूत्र-श्री पाश्र्वचन्द्र गच्छ जैन उपाश्रय,
मुपा माटी छावर, राधा-विदडा-क्वच्छ
(गुजरात)-370435
- 12 डोम्बीवली-क्वच्छई (महाराष्ट्र)
माध्वी श्री उज्ज्वल श्रीजी म मा जादि ठाणा (8)
सम्पन्न मूत्र-श्री पाश्र्वचन्द्र गच्छ जैन मध उपाश्रय,
श्री गुण माध्वी छाया, रामनगर,
चिन्नरजनदाम राट, मुपा डोम्बीवली (पूर)
जिना-ठाणा (महाराष्ट्र)-421201
- 13 नाना भाडीया (गुजरात)
माध्वी श्री सुमनरा श्रीजी म मा जादि ठाणा (3)
सम्पन्न मूत्र-श्री पाश्र्वचन्द्र गच्छ जैन उपाश्रय,
मुपा नाना भाडीया, तालूका-माडवी
जिना-गुज (गुजरात)-370455
- 14 खमात (गुजरात)
साध्या श्री ह्यप्रभा श्रीजी म मा जादि ठाणा (3)
सम्पन्न मूत्र-श्री पाश्र्वचन्द्र गच्छ जैन उपाश्रय,
पाण्ट नगीन नी खडवी, माणिक चाक,
मुपा खमान, जिना खेडा (गुजरात)-388620
- 15 नागौर (राजस्थान)
माध्वी श्री बन्धुवता श्रीजी म मा जादि ठाणा (4)
सम्पन्न मूत्र-श्री पाश्र्वचन्द्र गच्छ जैन उपाश्रय,
गुजरातिया कीपान नागौर (राज) 314001
- 16 ध्रागधा (गुजरात)
माध्वी श्री मूरुगता श्रीजी म मा जादि ठाणा (2)
सम्पन्न मूत्र-श्री पाश्र्वचन्द्र गच्छ जैन उपाश्रय,
रचग वाना ना घाना, नानी बाजार घाना
साम्बडा, ध्रागधा, जिना-गुजरातनगर,
(गुजरात)-363310
- 17 रायपुर अहमदाबाद (गुजरात)
माध्वी श्री म्वयप्रभा श्रीजी म मा जादि ठाणा (2)
सम्पन्न मूत्र-श्री पाश्र्वचन्द्र गच्छ जैन उपाश्रय,
जानद चाक, शासना नो पान, राधपुर,
अहमदाबाद-380001 (गुजरात)
- 18 वलताली (महाराष्ट्र)
माध्वी श्री अतमगुणा श्रीजी म मा जादि ठाणा (3)
सम्पन्न मूत्र-श्री-4, माधवा काण्ठनेकम, नाम रोड,
देवतानी बाया जिना-नामिक (महा)-422401
- 19 विदडा-क्वच्छ (गुजरात)
माध्वी श्री मुनगता श्रीजी म मा जादि ठाणा (4)
सम्पन्न मूत्र-श्री पाश्र्वचन्द्र गच्छ जैन उपाश्रय,
देगमर राट, मुपा विदडा-क्वच्छ
(गुजरात)-370435
- 20 बीकानेर (राजस्थान)
माध्वी श्री अनुभव श्रीजी म मा जादि ठाणा (4)
सम्पन्न मूत्र-श्री पाश्र्वचन्द्र गच्छ जैन उपाश्रय,
गामपुरिया स्ट्राट, बीकानेर (राज)-334001
- 21 बम्बई विनोनी (महाराष्ट्र)
माध्वी श्री पवज श्रीजी म मा जादि ठाणा (3)
सम्पन्न मूत्र-विनोनी पाक साइड जैन मध,
विनोली-क्वच्छई-400079 (महाराष्ट्र)
- 22 कोडाय-क्वच्छ (गुजरात)
साध्वी श्री निजानद श्रीजी म मा जादि ठाणा (3)
सम्पन्न मूत्र-श्री जैन उपाश्रय, मुपा कोडाय-क्वच्छ,
तालूका-माण्डवी (गुजरात)-370460

23. बीकानेर (राजस्थान)
साध्वी श्री पदमरेखा श्रीजी म. सा. आदि ठाणा (3)
सम्पर्क सूत्र—छवीवाई जैन उपाश्रय, नाहतो का मोहल्ला
मु.पो. बीकानेर (राजस्थान)-334001
24. वम्बई-चेम्बूर (महाराष्ट्र)
साध्वी श्री तत्वानन्द श्रीजी म सा. आदि ठाणा (5)
सम्पर्क सूत्र—श्री पार्श्वचन्द्र सूरी ज्ञान मंदिर,
जैन देरासर के सामने, 10वाँ रास्ता, चेम्बूर,
वम्बई-400071 (महाराष्ट्र)
25. छिदवाड़ा (मध्यप्रदेश)
साध्वी श्री रम्यानंद श्रीजी म. सा.
(स्थिरवास) आदि ठाणा (1)
सम्पर्क सूत्र—जैन उपाश्रय, गाँधीगज,
छिदवाड़ा (मध्यप्रदेश)-480001
26. देशलपुर (कांठी) (गुजरात)
साध्वी श्री जयनदिता श्रीजी म सा आदि ठाणा (2)
सम्पर्क सूत्र—श्री देशलपुर जैन उपाश्रय,
मु.पो. देशलपुर (कांठी), तालूका—मून्द्रा-कच्छ
(गुजरात)-370415
27. ऊनावा (गुजरात)
साध्वी श्री पूर्णकला श्रीजी म सा. आदि ठाणा (3)
सम्पर्क सूत्र—श्री पार्श्वचन्द्र गच्छजैन उपाश्रय,
मु.पो. ऊनावा (मीरा दातार)
तालूका—ऊंजा (गुजरात)-384160

| | | | |
|----------------------------|----|---------------|----|
| कुल चातुर्मास मुनिराजों के | 6 | कुल मुनिराज | 11 |
| कुल चातुर्मास साध्वियों के | 21 | कुल साध्वियाँ | 69 |
| | — | | — |
| कुल | 27 | | 80 |
| | — | | — |

कुल चातुर्मास (27) मुनिराज (11)
साध्वियाँ (69) कुल ठाणा (80)

गत वर्ष समुदाय में विद्यमान थे—

मुनिराज (11) साध्वियाँ (71) कुल ठाणा (82)

नोट—(1) इस समुदाय की सूची के लिए हमने कई जगह 4-5 वार पत्र देने के पश्चात् भी चातुर्मास प्रारंभ होने के 37वें दिन तक भी कहीं से भी सूची या जानकारियाँ प्राप्त नहीं हो सकीं तब विवश होकर हमने इसके आगे खाली छोड़कर नोट लगा दिया। प्रिय पाठकगण आप ही विचार करें जब चातुर्मास के 37 दिन बाद तक भी सूची प्राप्त नहीं हो तो, हम क्या प्रकाशित करें, फिर सभी कहते हैं कि पुस्तक लेट कर दी।

(2) चातुर्मास प्रारंभ होने के 38वें दिन दिनांक 10-8-93 को इस संघ से इस समुदाय की छपी हुई सूची लेकर एक महानुभाव पधारे और कहने लगे कि सूची शीघ्र प्रकाशित करें। हमने नोट लगा दिया था। आश्चर्य की बात तो यह लग रही थी कि वे छपी हुई सूची लाये उनको बनाने छपवाने में 8-10 दिन तो लगा होगा, अगर वे हाथ से लिखी कच्ची कापी (Xerox) फोटो कापी हमें 8-10 दिन पूर्व दे देते तो हमारा काम कितना सरल हो जाता। गतवर्ष 1992, 1991 में भी इस समुदाय की सूचियाँ 33वें दिन प्राप्त हुई थी। सध-गच्छ के पदाधिकारियों से नम्र निवेदन है कि चातुर्मास प्रारंभ होते ही कच्ची कापी (Xerox Copy) ही भिजवा दें ताकि हमें सुविधा हो सके। अबकी वार आपकी सूची खाली रह जाती। यह सूची पुस्तक समग्र जैन समाज के हर वर्ग के पास जाती है, अगर किसी समुदाय की सूची इसमें सम्मिलित नहीं होती है तो सभी उमकी ओर नजर दौड़ाते हैं। प्रेम में बीच में काम रोककर इसे सम्मिलित किया गया है, ताकि सभी लाभान्वित हो सकें। भविष्य में इस ओर विशेष ध्यान दें ऐसी नम्र प्रार्थना-मुझाव है।

(3) नई दीक्षा एव कालधर्म की सूची प्राप्त नहीं होने के कारण तुलनात्मक तालिका प्रस्तुत नहीं कर सके।

(4) यह समुदाय भी ज्वेताम्बर, मूर्तिपूजक हे परन्तु इसमें साधुओं के पहले मुनि शब्द लगाते हैं।

(5) इस समुदाय में गच्छाधिपति, आचार्य आदि का पद नहीं है, केवल मुनिराज ही संघ नायक हैं।

(6) जैन पत्र-पत्रिकाएँ—नहीं

श्वे. मूर्ति जैन समुदाय के स्वतंत्र अन्य साधु-साध्वीयाँजी

कुल चातुर्मास (4) मुनिराज (12) कुल ठाणा (12)

माधु-मुनिराज समुदाय

श्वे मूर्ति जैन सम्प्रदायो मे कुल

1 राणो गाव (राजस्थान)

आचाय श्री विजय आनंद धन
सुरीश्वरजी म सा

आदि ठाणा (8)

सम्पक मून-श्री श्वेताम्बर मूर्तिपूजक जैन मध,
नैन मन्दिर, मुपो राणो ग्राम, स्टेशन पानना
जिना-पाली (राजस्थान)

| | | | |
|----------------------------|------|--------------|------|
| कुल चातुर्मास मुनिराजों के | 357 | कुल मुनिराज | 1351 |
| कुल चातुर्मास साध्वियों के | 1014 | कुल साध्विया | 5184 |
| | कुल | 1371 | 6535 |

2 मावल्की तीय-बावला (गुजरात)

आचाय श्री विजय जिनचंद्र सुरीश्वरजी म सा

आदि ठाणा (2)

सम्पक मून-श्री मधवान् (य जैन दराम्ग पटी
नशनन हार्टवे राफ न 8 ए, मावल्की तीय,
पा बावला जिना-ब्रह्मदात्राद (गुज)-382220
फोन (02704) 2612

कुल चातुर्मास (1371) मुनिराज (1351)
साध्विया (5184) कुल ठाणा (6535)

कुल गच्छाधिपति (15)
कुल आचाय (120)

3 माधव नगर बगलौर (कर्नाटक)

पद्माम श्री पदम विजयजी म सा (रमाक 5)

आदि ठाणा (-)

सम्पक मून-
Shri Vasupujya Swami Jain Temple,
17/1 Vishvanathrao, Road
Madhav Nagar
BANGALORE 560001 (KARNATKA)

4 सौदाणा (महाराष्ट्र)

श्री धर्म रत्न त्रिज्यजी म सा (रमाक 4 ए)

आदि ठाणा (-)

सम्पक मून-श्री वदमान म्यानकरामी जैन श्रावक मध,
जैन म्यानक, मुपा सौदाणा, सातूका-सातेगाव
जिना-नासिक (महाराष्ट्र)

सभी पूज्य आचार्यों, साधु साध्वियों को कोटो कोटो बन्दन!

हार्दिक शुभकामनाओ सहित -

सम्पूर्ण जैन समाज के सभी आचार्यों, साधु-साध्विया के उपपाम म आने वाली सभी वस्तुओं हमार यहाँ पर मिनती है। नरगल की माना, चन्दन, ताल चन्दन, अवनवेर एक बाघ के नागियल की माना, रद्राध, च दन, ताल चन्दन, अवनवेर व भूगा पिरौया जाता है। जह मोगग रत्न, सभी रत्न की मूनिया, काजू, बदाम, इलाइची, अखरोट, कमल नमस्कार आदि में पाश्वेनाथ, पदमावनी मूनिया भी उनायी जाती हैं। दक्षिणावत शय, हाथी जोड़ी व मियान मिंगी, रद्राध एक मुख की माला, माती की माला, स्टोकर एवं अन्य मुरम्भ मूनिया मिनती हैं।

एन बार मेवा ना मोगन अवश्य प्रदान करें।

अशोक भण्डारी

भण्डारी भवन, सी 116, बजाज नगर,

जयपुर-302015 (राजस्थान)

फोन न 510851, 512426 517632 पो पो

कुल चातुर्मास (4) मुनिराज (12) कुल ठाणा (12)

प्रगतिशील (श्वेताम्बर) समुदायों के साधु-साध्वीयाँ

(वाहन विहारी साधु-साध्वीयाँ)

(केवल जानकारी के लिए)

(1) अर्हत संघ समुदाय-

समुदाय के प्रमुख नायक:- विदेश धर्म प्रचारक
ओजस्वी वक्ता आचार्यश्री सुशीलकुमारजी म सा
के आज्ञानुवर्ती साधु-साध्वीयाँ

1. अमेरिका (यू. एस. ए.)

अर्हत संघ स्थापक एवं नायक, विदेश धर्म प्रचारक
ओजस्वी वक्ता आचार्य श्री सुशील कुमारजी
आदि ठाणा (3)

सम्पर्क सूत्र-

SIDHANCHALAM

Mad Pond Road, Blayers Town
NEW ZARSI- 07825 (U S A)

2. दिल्ली-अहिंसा विहार

श्री मौभान्य मुनिजी म सा आदि ठाणा (8)
सम्पर्क सूत्र-अहिंसा विहार, सी-599 डिफेंस कालोनी
नई दिल्ली-110 024

3. दिल्ली शंकर रोड

श्री कस्तूर मनिजी म सा आदि ठाणा (2)
सम्पर्क सूत्र-अहिंसा भवन, शंकर रोड दिल्ली

4. तीथल (गुजरात)

श्री मुनिचन्द्र विजयजी म सा (बंधु त्रिपरी)
आदि ठाणा (2)

सम्पर्क सूत्र-ज्ञान्ति निकेतन, माधना केन्द्र,

मु णे तीथल, जिला-वलसाड

(गुजरात)-396 006

फोन नं (02632) 2674

5. चिकागो-अमेरिका (यू.एस.ए.)

श्री जिनचन्द्र विजयजी म सा. (बंधु त्रिपुटी)
आदि ठाणा (1)

सम्पर्क सूत्र-

NUTAN JAIN CENTRE.
CHICAGO-AMERICA
(U S. A)

6. दिल्ली-अहिंसा विहार

साध्वी डॉ साधनाजी म सा. आदि ठाणा (5)
सम्पर्क सूत्र-उपरोक्त क्रमांक (1) अनुसार

7. तीथल (गुजरात)

साध्वी श्री मलय कीर्ति श्रीजी म सा. (बंधु त्रिपुटी)
आदि ठाणा (2)
सम्पर्क सूत्र-उपरोक्त क्रमांक (4) अनुसार

कुल चातुर्मास (7) मुनिराज (16) साध्वीयाँ (7)
कुल ठाणा (23)

नोट-अर्हत संघ के उपरोक्त सभी (23) साधु-साध्वीयाँ
देश विदेशों में जैन धर्म का प्रचार प्रसार हेतु सभी
तरह के वाहनों का दिन रात उपयोग करते हैं। चातु-
र्मास काल में भी एक दूसरे स्थान पर आते जाते हैं।
बंधु-त्रिपुटी के तीन मुनिराज एवं दो साध्वीयाँ भी
अर्हत संघ में सम्मिलित हो गये हैं अतः इनका भी
उल्लेख यहाँ किया गया है।

(2) नव तुरापंथ समुदाय

(प्रथम भाग)

समुदाय के प्रमुख नायक:-आचार्य प्रवर आध्यात्मिक
योगी श्री चन्दनमुनिजी म सा. के आज्ञानुवर्ती
साधु-साध्वीयाँ

1. द्रोणाचल (अर्हत आश्रम) (राजस्थान)

आचार्य प्रवर अध्यात्मिक योगी पं. रत्न
श्री चन्दन मुनिजी

आदि ठाणा (2)

सम्पन्न सूत्र-मन्त्रि, अहमद जधम, ब्राणाचर
पोस्ट-गोपालपुरा जिना-चूर (रानन्धान)
381 503

2 धूरी (पजाब)

मुनि श्री चूमरमलजी आदि ठाणा (2)
सम्पन्न सूत्र-मानव मंदिर C/o श्री वेदल कृष्ण राम-
मुनि चक्की धलि, मान गोशाम रोड, मु पा धूरी,
जिला-मगहर (पजाब)-148 024

3 मढी अहमदगढ (पजाब)

माध्वी श्री मोहन कुमारीजी जादि ठाणा (3)
सम्पन्न सूत्र-मानव मंदिर, देगो नगर
मु पा मढी अहमदगढ
जिला-मगहर (पजाब)

4 द्रोणाचल (अहम आधम)

साध्वी श्री उपा कुमारीजी म सा जादि ठाणा (3)
सम्पन्न सूत्र-उपरोक्त प्रमाण 1 अनुसार

कुल चातुर्मास (4) मुनिराज (4) साध्वीयां (6) कुल
कुल ठाणा (10)

(2A) नवतेरापथ समुदाय

(भाग द्वितीय)

समुदाय के प्रमुख नायक-नवतेरापथ के सूत्रधार
प्रज्ञा पुरुष श्री सपचन्दजी म सा के आजानुवर्ती
साधु-साध्वीया

1 अमेरिका (यू एस ए)

नवतेरापथ के सूत्रधार प्रज्ञा पुरुष श्री सपचन्दजी म
आदि ठाणा (3)

सम्पन्न सूत्र-

2 दिल्ली-रथ विहार

सथ प्रवर्तनी माध्वी श्री मजुला श्रीजी म
आदि ठाणा (4)

सम्पन्न सूत्र-जैन मंदिर आधम रूप विहार,
सराय कापेबा के सामन, रिग रोड,
पट्टान पप के पास, नई दिल्ली 110 013
फोन न 6821348

3 हिसार (हरियाणा)

माध्वी श्री मजु श्रीजी म आदि ठाणा (4)
सम्पन्न सूत्र-मानव मंदिर मिगन, जैन आधम
हिसार (हरियाणा)

कुल चातुर्मास (3) मुनिराज (3) साध्वीयां (8)
कुल ठाणा (11)

4 अन्य साधु-साध्वीयां

1 दिल्ली-रावकरपुर

राष्ट्र मत आचार्य श्री नगराजजी म "डी लिठ"
आदि ठाणा (1)
सम्पन्न सूत्र-आचार्य नगराजजी स्त्रीच्युल सेंटर
ए-1, निमाण विहार, रावकरपुर,
दिल्ली-110 092
फोन न 2244210


कुल चातुर्मास (1) मुनिराज (1) कुल ठाणा (1)

प्रगतिशील समुदायो का कुल योग

कुल चातुर्मास (15) मुनिराज (28) साध्वीयां (17)
कुल ठाणा (45)

नोट-(1) प्रगतिशील समुदायो के उपरोक्त सभी साधु
साध्वीयां देस विदेशों की हर समय यात्राएँ
करते रहते हैं और सभी तरह के बाहना का
उपयोग करते हैं रात्री एव दिवस बाहनों मे
यात्राएँ करते रहते हैं ।

(2) इनके अलावा म्यानवासी समुदाय म समिति
तीर्थ के मन्त्र उपाध्याय श्री अमर मुनिजी म सा
के सभी आजानुवर्ती साधु-साध्वीयां भी सभी
तरह के बाहना का उपयोग देस विदेशो मे जान
के लिए करते हैं ।



अन्धरगारबेन्ट्स

जन्मदिन • वर्षादि •
वा • पेन्डी • कुग • टी-अई

काम का न्याय नाम (सी.पी.ई.)

Professionals to the core, merchant bankers par excellence

When you think of the headway CRB has made in the last 7 years as Category I Merchant Bankers Authorised by Security & Exchange Board of India one is reminded of early days of the industrial revolution. Indeed CRB has started a revolution of sorts. Riding the crest of the recent economic reforms the Company offers a whole range of financial services

- Public Issue Management
- OTC Operation
- Portfolio Management under the unique Scheme of Trusted Money
- Corporate Advisory Services
- Leasing & Bill Discounting

Services that are personalised, professional and motivating to the discerning investor



CRB CAPITAL MARKETS LTD.

Regd Office

DELHI Bhansali Bhawan F 33 Mansarovar Garden,
New Delhi 110 015 Phone 594289 5418553

Corp Office

BO. 1BAY DBS House 31 Marzhan Road
(Fort) Near Bomba Gymkhana Annexe
Bombay 400 001
Phone 2022293 233198 233097

Branches

Calcutta Tel 289798 285911 289493
Madras Tel 618866 610698
Kanpur Tel 210601
Jaipur Tel 69483 69618



BHANSALI GROUP

MEMBER OF BHANSALI GROUP

Personalised Professionalised Pacemaking

श्री दिगम्बर सम्प्रदाय

दिगम्बर समुदाय के मुनि एवं आर्थिकागण

कुल चानुर्मास (130) मुनिराज (265) आर्थिकाएँ (210) कुल योग (475)

1. संत शिरोमणी आचार्य प्रवर श्री विद्यासागरजी म.सा.
के आज्ञानुवर्ती मुनि एवं आर्थिकागण:--
 1. रामटेक (महाराष्ट्र)
 1. संत शिरोमणी आचार्य श्री विद्यासागरजी महाराज
 - 2 मुनि श्री समयसागरजी महाराज
 - 3 मुनि श्री समतासागरजी महाराज
 - 4.. मुनि श्री समाधिसागरजी महाराज
 - 5 एलक श्री अभयसागरजी महाराज
 - 6 धुल्लक श्री नयसागरजी महाराज
 7. धुल्लिका श्री शान्तिमतिजीकुल आचार्य (1), मुनि (8), एलक (11),
धुल्लक (3), धुल्लिका (3) कुल ठाणा (24)
सम्पर्क सूत्र-श्री शान्तिनाथ दिगम्बर जैन अतिशय क्षेत्र,
रामटेक, जिला-नागपुर (महाराष्ट्र)-441106
फोन न (0712) 855117
 2. श्रवण बेलगोला (कर्नाटक)
मुनि श्री योगसागरजी महाराज आदि (5)
सम्पर्क सूत्र-
Jain Math Shri Digamber Jain Temple,
SHRAVAN BELGOLA
Dist. HASAN (Karnataka)-573 135
फोन-भट्टारक चास्कीतिजी (08176) 7228, 7235
सेकेट्री . एस डी एम. कमेटी-7236
 3. छतरपुर (मध्यप्रदेश)
मुनि श्री क्षमासागरजी महाराज आदि (3)
सम्पर्क सूत्र-श्री दिगम्बर जैन मंदिर,
मु पो छतरपुर 471001 (मध्यप्रदेश)
 4. अटा-ललितपुर (उत्तरप्रदेश)
मुनि श्री मुधासागरजी महाराज आदि (3)
सम्पर्क सूत्र-श्री दिगम्बर जैन मंदिर,
अटा. ललितपुर (उत्तरप्रदेश)-284403
 5. इन्दौर (मध्यप्रदेश)
मुनि श्री नियमसागरजी महाराज आदि (2)
सम्पर्क सूत्र-श्री दिगम्बर जैन मंदिर, छत्रपति नगर,
एरोड्रम रोड, इन्दौर-452002 (मध्यप्रदेश)
फोन न 410503, 410142, 410121
 6. योग्य स्थल
मुनि श्री गुप्तिसागरजी महाराज आदि (1)
 7. हनुमानताल-जबलपुर (मध्यप्रदेश)
मुनि श्री सरलसागरजी महाराज आदि (1)
सम्पर्क सूत्र-श्री दिगम्बर जैन मंदिर,
हनुमान ताल, जबलपुर (मध्यप्रदेश)
 8. दमोह (मध्यप्रदेश)
एल्लक श्री दयासागरजी महाराज आदि (1)
सम्पर्क सूत्र-श्री दिगम्बर जैन मंदिर,
मु पो दमोह (मध्यप्रदेश)-470661
 9. जबलपुर (मध्यप्रदेश)
धुल्लक श्री प्रसन्नसागरजी महाराज आदि (2)
सम्पर्क सूत्र-श्री दिगम्बर जैन अतिशय क्षेत्र,
विसनहारी मढिया, जबलपुर (मध्यप्रदेश)
 10. कटंगी (मध्यप्रदेश)
आर्थिका, श्री गुरुमति माताजी आदि (3)
सम्पर्क सूत्र-श्री दिगम्बर जैन मंदिर, मु पो कटंगी
जिला-जबलपुर (मध्यप्रदेश) 483105
 11. गंजवासोदा (मध्यप्रदेश)
आर्थिका श्री दृढ मति माताजी
आर्थिका श्री तपोमति माताजी आदि ठाणा
सम्पर्क सूत्र-श्री दिगम्बर जैन मंदिर, मु पो. गंजवासोदा
जिला-विदिशा (मध्यप्रदेश)-464221

- 12 बरेली (मध्यप्रदेश)
आधिकारी श्री मृदुमति मानाजी आदि (5)
मम्पक मूत्र-श्री दिगम्बर जैन मन्दिर,
दरैनी (रायसेन) वि. गणपन (म.प्र.) 464668
- 13 माण्ड (मध्यप्रदेश)
आधिकारी श्री मृदुमति मानाजी आदि (4)
मम्पक मूत्र-श्री दिगम्बर जैन मन्दिर, उर्षी बाराही,
सागर-472002 (मध्यप्रदेश)
- 14 सतना (मध्यप्रदेश)
आधिकारी श्री प्रशान्तमति मानाजी आदि (11)
मम्पक मूत्र-श्री दिगम्बर जैन मन्दिर,
मु. पा. मना (मध्यप्रदेश)-485001
- 15 सनावद (मध्यप्रदेश)
आधिकारी श्री पूषमति मानाजी आदि (9)
मम्पक मूत्र-श्री दिगम्बर जैन मन्दिर,
मु. पा. मनावद (मध्यप्रदेश)-451111
- 16 डुम (मध्यप्रदेश)
आधिकारी श्री आशिमति मानाजी आदि (19)
मम्पक मूत्र-श्री दिगम्बर जैन मन्दिर,
दुम 491001 (मध्यप्रदेश)
- 17 हरदा (मध्यप्रदेश)
आधिकारी श्री दिगम्बरमति मानाजी आदि (3)
मम्पक मूत्र-श्री दिगम्बर जैन मन्दिर, मु. पा. हरदा
जि. ना. हो. ता. वाद (मध्यप्रदेश)-461331
-
- कुल सानुमान (17) मुनिराज (41)
आधिकारि (72) कुल योग (113)
-
- 18 बिजयनार (गुजरात)
आचार्य श्री सुधाहमागरजी महाराज आदि (3)
आधिकारी श्री विजयमति मानाजी आदि (2)
मम्पक मूत्र-
- 19 आनन्दपुर बालू (राजस्थान)
सपत्नी सम्राट आचार्य श्री सन्नितागरजी महाराज आदि (6)
आधिकारी श्री सुधाहमागरजी मानाजी आदि (7)
मम्पक मूत्र-श्री दिगम्बर जैन मन्दिर,
मु. पा. आनन्दपुर बालू जि. ना. पाला (राज.)
पिन-306301 फोन न 236
- 20 अजमेर (राजस्थान)
1 आचार्य श्री दश सागरजी महाराज
2 उपाचार्य श्री ममता भागरजी महाराज
आदि ममघ (7)
मम्पक मूत्र-मठ गार्हव की नमिदाजी,
प्रेमनद मोगानी माग, अजमेर (राज.)-305001
- 21 बम्बई-पोदणपुर (महाराष्ट्र)
आचार्य श्री शांतिसागरजी महाराज आदि ममघ
मम्पक मूत्र-श्री दिगम्बर जैन अतिशय क्षेत्र तीन मूर्ति,
पादनपुर नेशनल पार्क, भागीवली (पू.रा.),
बम्बई-400066 (महाराष्ट्र)
- 22 सम्मेशिखरजी मधुवन (बिहार)
आचार्य श्री सुमतिमागरजी महाराज आदि ममघ
मम्पक मूत्र-श्री दिगम्बर जैन अतिशय क्षेत्र,
तरापथी कोठा, सम्मेशिखरजी मधुवन
जि. ना. गिरिडीह (बिहार) 825329
- 23 सम्मेशिखरजी मधुवन (बिहार)
आचार्य श्री विमलसागरजी महाराज
उपाचार्य श्री सन्मसागरजी महाराज
आदि ममघ (25)
मम्पक मूत्र-श्री दिगम्बर जैन अतिशय क्षेत्र,
बामपथी कोठी, सम्मेशिखरजी मधुवन,
जि. ना. गिरिडीह (बिहार) -825329
- 24 सम्मेशिखरजी-मधुवन (बिहार)
आचार्य श्री सम्भवसागरजी महाराज आदि ममघ
मम्पक मूत्र-श्री दिगम्बर जैन अतिशय क्षेत्र
सम्मेशिखरजी मधुवन, जि. ना. गिरिडीह
(बिहार) 825329
- 25 जयपुर (राजस्थान)
आचार्य श्री सुधमसागरजी महाराज आदि ममघ
मम्पक मूत्र-श्री दिगम्बर जैन पाण्डनाथ मन्दिर,
सांनिधान, जयपुर (राजस्थान)
- 26 बामबाडा (राजस्थान)
आचार्य श्री अश्विन वनसागरजी महाराज आदि ममघ
मम्पक मूत्र-श्री दिगम्बर जैन मन्दिर,
बाणू बातोनी, बामबाडा (राजस्थान)

27. दिल्ली-ग्रीन पार्क
1. आचार्य श्री विद्यानन्दजी महाराज आदि (2)
2 आर्थिका श्री भरतमति माताजी आदि (4)
सम्पर्क सूत्र—श्री पार्श्वनाथ दिगम्बर जैन मंदिर,
एन 10, ग्रीन पार्क, एकमटेगन, दिल्ली
28. भिण्ड (मध्यप्रदेश)
आचार्य श्री पुष्पदन्तसागरजी महाराज आदि समघ
सम्पर्क सूत्र—श्री दिगम्बर जैन मंदिर, भिण्ड (म प्र)
29. नवागढ़ (उखलद)
आचार्य श्री आर्य नन्दीजी महाराज आदि संघ
सम्पर्क सूत्र—श्री नेमीनाथ दिगम्बर जैन अतिशय क्षेत्र,
नवागढ़ (उखलद)
30. आवाँ (टोंक) (राजस्थान)
आचार्य श्री ज्ञानभूषणजी महाराज आदि संघ
आर्थिका श्री सुविवेकमति माताजी आदि संघ
सम्पर्क सूत्र—श्री दिगम्बर जैन मंदिर,
मु पो आँवा, वाया हूनी, जिला—टोंक (राजस्थान)
31. गाँधीनगर (गुजरात)
आचार्य श्री वासुपूज्यजी महाराज आदि संघ
आर्थिका श्री श्रेयासमति माताजी आदि संघ
सम्पर्क सूत्र—श्री दिगम्बर जैन अतिशय क्षेत्र,
गाँधीनगर (गुजरात)
32. आग्निन्दा पार्श्वनाथ (राजस्थान)
गणधराचार्य श्री कुन्थुसागरजी महाराज आदि समघ
आर्थिका श्री ब्रह्ममति माताजी आदि समघ
सम्पर्क सूत्र—श्री दिगम्बर जैन अतिशय क्षेत्र,
आग्निन्दा पार्श्वनाथ, वाया वाठेडाकला
तह. वल्लभनगर, जिला—उदयपुर (राजस्थान)
33. गिरनारजी (जूनागढ़) (गुजरात)
आचार्य श्री निर्मलसागरजी महाराज आदि संघ
सम्पर्क सूत्र—श्री दिगम्बर सिद्ध क्षेत्र जैन मंदिर,
गुरुकुल गिरनारजी, जूनागढ़ (गुजरात)
34. श्रवणबेलगोला (कर्नाटक)
आचार्य श्री वर्धमानसागरजी महाराज आदि समघ
सम्पर्क सूत्र—
Jain Math Shri Digamber Jain Temple
SHRAVAN BELGOLA
Dist. HASAN (Karnatka) 573 135
फोन भट्टारक चारुकीर्तिजी (08176) 7228, 7235
35. बेलगाँव (कर्नाटक)
आचार्य श्री वाहुवलीजीसागरजी महाराज आदि संघ
आर्थिका श्री मुक्ति लक्ष्मीजी महाराज आदि संघ
सम्पर्क सूत्र—
Shri Digamber Jain Temple
BELGAON (Karnatka)
36. लखनऊ (उत्तरप्रदेश)
आचार्य श्री नेमीसागरजी महाराज आदि संघ
आचार्य श्री दयासागरजी महाराज आदि संघ
सम्पर्क सूत्र—श्री दिगम्बर जैन अतिशय क्षेत्र,
श्री मुन्नीलाल कागजी की धर्मशाला के पास,
चार बाग, लखनऊ (उत्तरप्रदेश)
37. बैंगलौर (कर्नाटक)
आचार्य कल्प श्री शीतलसागरजी महाराज आदि संघ
सम्पर्क सूत्र—
Shri Mahavir Digamber Jain Temple,
D K Lane, Chickpet, Bangalore-560053
(Karnatka)
38. नसीराबाद (राजस्थान)
आचार्य श्री सिमन्धरसागरजी महाराज आदि संघ
सम्पर्क सूत्र—श्री दिगम्बर जैन मंदिर, विजयनगर
जिला—अजमेर (राजस्थान)
39. मुरार (ग्वालियर) (मध्यप्रदेश)
आचार्य श्री सन्मतिसागरजी "ज्ञानानन्द" महाराज आदि संघ
सम्पर्क सूत्र—श्री दिगम्बर जैन मंदिर, मु पो मुरार
जिला—ग्वालियर (मध्यप्रदेश)
40. मालगसी (गुलबर्गा) (कर्नाटक)
आचार्य श्री श्रुतसागरजी महाराज आदि संघ
आर्थिका श्री चन्द्रमति माताजी आदि संघ
सम्पर्क सूत्र—
Shri Digamber Jain Temple,
Po : Malgasi, Taluka Chittapur
Dist : Gulburga, (Karnatka)
41. मेडता सिटी (राजस्थान)
आचार्य श्री दर्शनसागरजी महाराज आदि संघ
सम्पर्क सूत्र—श्री दिगम्बर जैन मंदिर,
मु पो. मेडता सिटी, जिला—नागौर (राजस्थान)

- 42 पारवनाथ चौराहा (नीमच मदसौर) (म प्र)
आचाय श्री कल्याणसागरजी महाराज
सम्पक सूत्र—श्री दिगम्बर जैन मंदिर,
मु पो पाश्वनाथ चौराहा,
नीमच एव मदसौर के बीच (म प्र)
- 43 दक्षिण भारत मे योग्य स्थल
आचाय श्री विरागसागरजी महाराज
(1992 2 द्रोणगिरी कनाटक म चानुर्मान था)
- 44 दक्षिण भारत म योग्य स्थल
आचाय श्री श्रेयासागरजी महाराज
(1992 म मागीनुयीजी तीथ म चानुर्मान था)
- 45 मध्यभारत मे योग्य स्थल
आचाय श्री पाशवसागरजी महाराज
(1992 म मानगिरीजा म चानुर्मान था)
- नोट—इसके अलावा 5 6 जाचायों के बारे मे कोई जान
कारिया प्राप्त नहीं हो सकी।
- 46 आगरा (उत्तरप्रदेश)
बालाचाय श्री योगाद्रसागरजी महाराज
सम्पक सूत्र—जेमवाल जैन धमशाला, जैन गली,
छीपा टाना, आगरा 282002 (उत्तरप्रदेश)
- 47 कापरेन (राजस्थान)
उपाध्याय श्री चन्द्रमागरजी म मा
आयिका श्री कुशुश्री माताजा आदि—
सम्पक सूत्र—श्री दिगम्बर जैन मंदिर,
मु पो कापरेन, जिला—जूदी (राजस्थान)
- 48 अजमेर (राजस्थान)
उपाध्याय श्री दशनमागरजी महाराज आदि
- 49 दिल्ली (भोगल)
उपाध्याय श्री आनन्दमागरजी महाराज “मौनप्रिय”
आदि
सम्पक सूत्र—श्री दिगम्बर जैन मंदिर, भोगल, दिल्ली
- 50 एटा (सागर) (मध्यप्रदेश)
बानाचाय श्री नेमीमागरजी महाराज आदि
सम्पक सूत्र—श्री दिगम्बर जैन मन्दिर, मु पो एटा,
जिला—सागर (मध्यप्रदेश)
- 51 डाडाई (घटाई क्षेत्र) (बिहार)
उपाध्याय श्री पानमागरजी महाराज आदि
- 52 ऋषभदेव-केशरियाजी (राजस्थान)
एनाचाय श्री भगतमागरजी महाराज
आयिका श्री विपुलमति माताजी आदि समग्र
सम्पक सूत्र—श्री दिगम्बर जैन मंदिर, केशरियाजी तीथ,
ऋषभदेव जिना उदयपुर (राजस्थान)
- 53 सावानगर
उपाध्याय श्री वनर नदीजी महाराज
आयिका श्री राज श्री माताजी आदि समग्र
- 54 मानतुग गिरी धार (मध्यप्रदेश)
एनाचाय श्री भगतमागरजी महाराज
सम्पक सूत्र—श्री मानतुग गिरी दिगम्बर जैन मंदिर,
मानतुग गिरी, धार (इंदौर) (म प्र)
- 55 तडाई (राचो) (मध्यप्रदेश)
उपाध्याय श्री पानमागरजी महाराज
सम्पक सूत्र—श्री दिगम्बर जैन मंदिर, मु पो तडाई,
जिना—राचो (मध्यप्रदेश)
- 56 नरवर (शिवपुरी) (मध्यप्रदेश)
मुनि श्री श्रुतमागरजी महाराज भादि
सम्पक सूत्र—श्री दिगम्बर जैन मंदिर मु पो नरवर
व्हाया शिवपुरी (मध्यप्रदेश)
- 57 भिवण्डी (ठाणा) (महाराष्ट्र)
मुनि श्री कणवक्षनदीजी महाराज आदि
सम्पक सूत्र—श्री दिगम्बर जैन मंदिर, मु पो भिवण्डी,
जिना—ठाणा (महाराष्ट्र)
- 58 सोनकच्छ (मध्यप्रदेश)
मुनि श्री तर्पणमागरजी महाराज आदि समग्र
सम्पक सूत्र—श्री दिगम्बर जैन मंदिर
मु पो सोनकच्छ, जिना—देवाम (मध्यप्रदेश)
- 59 इंदौर (मध्यप्रदेश)
मुनि श्री निजानन्दमागरजी महाराज आदि समग्र
सम्पक सूत्र—
- 60 केराना नगरी (उत्तरप्रदेश)
धुनक था बुलभूपणजी महाराज
सम्पक सूत्र—श्री दिगम्बर जैन मंदिर, मु पो केराना
नगरी, ज या मुनपकर नगर, जिना भेगठ (उ प)
- 61 दमोह (मध्यप्रदेश)
श्री दयामागरजी महाराज
सम्पक सूत्र—श्री दिगम्बर जैन मंदिर, दमोह (म प्र)

62. श्रेयांस गिरी तीर्थ
मुनि श्री विरागसागरजी महाराज
63. पारसोला (राजस्थान)
मुनि श्री गुणधरनदजी महाराज
आयिका श्री कमल श्री माताजी आदि ससघ
सम्पर्क सूत्र—श्री दिगम्बर जैन मंदिर,
मु.पो पारसोला जिला-उदयपुर (राजस्थान)
64. अटा (ललितपुर) (उत्तरप्रदेश)
मुनि श्री सुधासागरजी महाराज
सम्पर्क सूत्र—श्री दिगम्बर जैन मंदिर, मु.पो. अटा,
जिला—ललितपुर (उत्तरप्रदेश)
65. कोलारस (शिवपुरी) (मध्यप्रदेश)
मुनि श्री कैलाशसागरजी महाराज
सम्पर्क सूत्र—श्री शातिनाथ दिगम्बर जैन मंदिर,
(नौ गज) सेसई ए बी रोड, मु.पो कोलारस
जिला-शिवपुरी (म. प्र)
66. नेमगिरी (जितूर) (महाराष्ट्र)
मुनि श्री देवनन्दीजी महाराज ससघ
सम्पर्क सूत्र—श्री दिगम्बर जैन मंदिर, नेमगिरी,
जितूर (महाराष्ट्र)
67. कोथली (उधनवाड़ी)
मुनि श्री गुणभूषणजी महाराज
क्षुल्लिका श्री चन्द्रमति माताजी
68. सांगवड़े (महाराष्ट्र)
मुनि श्री अर्हद बलीजी महाराज आदि 3
69. कोल्हापुर (महाराष्ट्र)
मुनि श्री अमृतचन्द्रजी महाराज आदि 2
सम्पर्क सूत्र—श्री दिगम्बर जैन मंदिर,
कोल्हापुर (महाराष्ट्र) 416001
70. वोटगांव (महाराष्ट्र)
मुनि श्री विद्याभूषणजी महाराज
71. धर्म नगर (चिपरी) (महाराष्ट्र)
मुनि श्री देवपालजी महाराज
आयिका श्री मुक्तिकांता माताजी आदि ससघ
72. हुपरी (महाराष्ट्र)
मुनि श्री गाति सिधुजी महाराज आदि 2
73. कूचनूर (कर्नाटक)
क्षुल्लक श्री जयकिर्तिजी महाराज आदि 2
सम्पर्क सूत्र—श्री दिगम्बर जैन मंदिर, मु.पो कूचनूर,
तालूका जमरखडी, जिला-बीजापुर (कर्नाटक)
74. पिसनहारी मढ़िया (जबलपुर) (म. प्र.)
क्षुल्लक श्री प्रसन्नसागरजी महाराज आदि
सम्पर्क सूत्र—श्री दिगम्बर जैन मंदिर, मु.पो. पिसनहारी
मढ़िया जबलपुर (मध्यप्रदेश)
75. फलटण (महाराष्ट्र)
मुनि श्री देवसागरजी महाराज
76. व्यावर (राजस्थान)
मुनि श्री सिद्धास्तसागरजी महाराज
सम्पर्क सूत्र—श्री दिगम्बर जैन मंदिर, मु.पो व्यावर
जिला—अजमेर (राजस्थान) 305902
77. भीलवाड़ा (राजस्थान)
मुनि श्री पदमनदीजी महाराज आदि 6
आयिका श्री कमल श्री माताजी आदि ससघ 7
सम्पर्क सूत्र—श्री दिगम्बर जैन मंदिर, भीलवाड़ा
(राजस्थान)-311 001
78. ठाकरड़ा
मुनि श्री वारिपेण जी महाराज
79. उज्जैन (मध्यप्रदेश)
मुनि श्री केशवनदीजी-महाराज
सम्पर्क सूत्र—श्री चन्द्रप्रभु दिगम्बर जैन मंदिर
नमक मण्डी, उज्जैन (मध्य प्रदेश)
80. मौजामावाद (जयपुर) (राजस्थान)
क्षुल्लक श्री शीलसागरजी महाराज
सम्पर्क सूत्र—श्री दिगम्बर जैन मंदिर मु.पो. मौजामावाद
जिला-जयपुर (राजस्थान)
81. सठई (छतरपुर)
क्षुल्लक श्री स्वरूपानन्दजी महाराज
82. लखनऊ (उत्तरप्रदेश)
मुनि श्री समन्वयसागरजी महाराज
सम्पर्क सूत्र—श्री पार्श्वनाथ दिगम्बर जैन मंदिर,
महादतगज, लखनऊ (उत्तरप्रदेश)
83. कुंथलगिरी (उस्मानाबाद)
मुनि श्री नेमीसागरजी महाराज

- तारगाजी तोर्य (गुजरात)
मुनि श्री शक्तिप्रनदीजी महाराज आदि ममप्र सम्पक सूत्र-श्री दिगम्बर जैन मदि, तारगाजी तीर (उत्तर गुजरात)
- पावागड (बडोदा) (गुजरात)
मुनि श्री जयसाम्भरजी महाराज आदि ममप्र सम्पक सूत्र-श्री दिगम्बर जैन मदि, पावागड जिना-बडोदा (गुजरात)
- 86 विरार (बम्बई) (महाराष्ट्र)
मुनि श्री विश्वधामागजी महाराज आदि ममप्र सूत्र-श्री दिगम्बर जैन मदि, मु पा विरार जिना-ठाणा (महाराष्ट्र)
- 87 नादगाव (महाराष्ट्र)
मुनि श्री चारुनमगर्जी महाराज आदि ममप्र सूत्र-श्री दिगम्बर जैन मदि, मु पा नादगाव नालुका येवना, जिना-नासिक (महाराष्ट्र)
- 88 बगलोर (कर्नाटक)
मुनि श्री शीतलमगर्जी महाराज आदि
- 89 घाटोल (अहमदाबाद) (गुजरात)
मुनि श्री विनयमगर्जी महाराज आदि ममप्र सूत्र-श्री दिगम्बर जैन मदि, घाटोल, जहमदाबाद (गुजरात)
- 90 नसतापुर
मुनि श्री आदिमगर्जी महाराज आदि
- 91 तलवाडा (राजस्थान)
मुनि श्री ममत मद्रजी महाराज आदि ममप्र सूत्र-श्री दिगम्बर जैन मदि, मु पा तलवाडा जिना-नामवाडा (राजस्थान)
- 92 अषागड (एटा) (उत्तरप्रदेश)
धुल्लव श्री शीतलमगर्जी महाराज आदि ममप्र सूत्र-श्री दिगम्बर जैन मदि, मु पा अषागड जिना-एटा (उत्तरप्रदेश)
- 93 किराजाबाद
मुनि श्री प्रमितनामगर्जी महाराज आदि
- 95 लखनऊ (उत्तरप्रदेश)
आधिकारी श्री पानमनि भाताजी आदि ममप्र सूत्र-श्री दिगम्बर जैन मदि, लखनऊ (उत्तरप्रदेश)
- 96 हरदा (मध्यप्रदेश)
आधिकारी श्री विजान मनि भाताजी आदि ममप्र सूत्र-श्री दिगम्बर जैन मदि, म पा हरदा (मध्यप्रदेश)
- 97 ईटर (गुजरात)
आधिकारी श्री विगुद्धमतिजी भाताजी आदि ममप्र सूत्र-श्री दिगम्बर जैन मदि, म पा उड जिना-महेसाणा (गुजरात)
- 98 छातेगाव (मध्यप्रदेश)
आधिकारी श्री वेनमनि भाताजी आदि ममप्र सूत्र-श्री दिगम्बर जैन मदि, म पा खलगा विजना-दराम (मध्यप्रदेश)
- 99 कुचामन मिटी (राजस्थान)
आधिकारी श्री विगुद्धमनि भाताजी आदि ममप्र सूत्र-श्री महावीर भवन, मु पा कुचामन मिटी जिना-नागार (राजस्थान)
- 100 सागोली तेंडूछडा (मध्यप्रदेश)
आधिकारी श्री मृदुमति मति जा आदि
- 101 चात्रदा (राजस्थान)
आधिकारी श्री विजयमनि भाताजी आदि
- 102 जलेश्वर
आधिकारी श्री शक्तिमति भाताजी आदि
- 103 बडोदरा (गुजरात)
या व श्री गनेजी आदि
- 104 मार्गलुगो तीर (महाराष्ट्र)
आधिकारी श्री श्रेयामनि भाताजी आदि ममप्र सूत्र-श्री दिगम्बर जैन मदि, मु पा मार्गलुगो तीर, तातूना मटाणा, जिना-नासिक (महाराष्ट्र)-423302
- 94 बरोरीवद (मध्यप्रदेश)
मुनि श्री बाहुवलीमाराज महाराज आदि ममप्र सूत्र-श्री दिगम्बर जैन मदि, मु पा बरोरीवद जिना प्रवतपुर (मध्यप्रदेश)

105. ग्वालियर (मध्यप्रदेश)

आयिका श्री कुलभूषणमति माताजी
सम्पर्क सूत्र—श्री दिगम्बर जैन मंदिर, ग्वालियर (म.प्र.)
(मध्यप्रदेश)

106. माणगाँव (महाराष्ट्र)

आयिका श्री शातमति माताजी आदि 2

107. डिग्रज

आयिका श्री अनंतमति माताजी

108. हस्तिनापुर (उत्तरप्रदेश)

आयिका श्री अभयमति माताजी आदि 2
सम्पर्क सूत्र—जम्बू द्वीप, हस्तिनापुर (उत्तरप्रदेश)

कुल चातुर्मास (130) मुनिराज (265) आयिकाएँ (210)
कुल योग (475) अनुमानित

समुदाय में विद्यमान है—आचार्य (35) एलाचार्य बालाचार्य
(5) उपाध्याय (8)

नोट.—(1) इस समुदाय में सबसे बड़ा सब आचार्य श्री विद्यासागरजी महाराज का ही है इस वर्ष आपके सान्निध्य में जवनपुर में एक साथ एक ही दिन 25 आयिकाओं की नई दीक्षा सम्पन्न हुई जो सम्पूर्ण दिगम्बर समुदाय में एक रिकार्ड है। आपके यहाँ लगभग 100 नाई वहिने ब्रह्मचारी हैं माधु जीवन की ट्रेनिंग ले रहे हैं। आपकी सूची पूर्ण व्यवस्थित रूप में प्राप्त हुई।

(2) हम विगत कई वर्षों से दिगम्बर समुदाय के कर्णधारों से प्रार्थना करते आ रहे हैं कि दिगम्बर समुदाय के सभी मातृ-माध्वीयों के चातुर्मासों की जानकारी समाचार पत्रों में सम्पर्क सूत्र फोन नम्बर के साथ प्रकाशित करे एवं हमें भी भेजे लेकिन लगता है कोई हमारी बात मानने को ही तैयार नहीं है। आज चातुर्मास के—45वें दिन तक भी इस समुदाय की पूरी सूची हमें प्राप्त नहीं हुई तब हम क्या सही सूचना आपको देवे। ध्यान अवश्य देवे।

नोट.—चातुर्मास स्थापना होने के 45 दिन बाद 18-8-93 तक भी हमें इस समुदाय की सूची कहीं से भी प्राप्त नहीं हो सकी। दिगम्बर समुदाय की सूचियाँ पूर्ण रूप से किसी पत्र-पत्रिका में भी तो प्रकाशित नहीं होती हैं। पूरा नाम कुल अणुओं के नाम एवं सम्पर्क सूत्र तो किसी भी पत्र में प्रकाशित नहीं होता है तो फिर हम कहीं से सूचना संख्या एवं सम्पर्क सूत्र आपको देवे। आप अन्य समुदाय की सूचियाँ देख सकते हैं कि कितनी जानकारियों के साथ सूचना एकत्रित करते हैं। यह माना कि दिगम्बर समुदाय के मुनिराज सूचना नहीं बताते लेकिन भक्तों दर्शनार्थियों एवं अन्य से पत्र व्यवहार आदि के लिए तो पूरे नाम एवं सम्पर्क का पता तो प्रकाशित होना ही चाहिए यह सभी के लिए लाभदायक है क्योंकि आप चार माह एक जगह विराजते हैं तब उसकी जानकारी हर वर्ग को तो मिलनी ही चाहिये।

इसके अलावा और भी कई मुनिराज, आयिकाओं के चातुर्मास हो सकते हैं। इस समुदाय की पूरी जानकारी हमें कहीं से भी प्राप्त नहीं हो सकी, यहाँ जो उपर्युक्त सूची हमने दी है वह अनुमान एवं समाचारपत्रों में एकत्रित करके प्रस्तुत की है, संभव है कई नाम ऊपर-नीचे हों या कईयों के नाम छूट गये हों। हमारा तो यही प्रयास रहता है कि अधिक से अधिक जानकारियाँ प्राप्त कर सही सूची प्रकाशित करे। सूची में किसी तरह की त्रुटि हो तो क्षमा करे। इस समुदाय की सूची क्रमवार व्यवस्थित रूप से हम सूची प्रकाशित करने में हर वर्ष अक्षमता ही प्रकट करते हैं। दिगम्बर समाज के सभी वर्णधारी पदाधिकारियों से नम्र निवेदन है कि वे भावेय्य में इस कार्य की ओर विशेष ध्यान देकर इसे पूर्ण करने का प्रयास अवश्य करे। यह सूची समग्र जैन समाज के हाथों में पहुँचती है इसलिए इस सम्प्रदाय की पूरी सूची का प्रकाशित होना बहुत महत्व की बात है। प्रत्येक दिगम्बर जैन पत्र-पत्रिकाओं में जो सूचियाँ प्रकाशित होती हैं उनमें किसी में भी सम्पर्क सूत्र प्रकाशित नहीं होते हैं यह एक बहुत बड़ी कमी है। हम पता कैसे लिखें। आशा है भावेय्य में इस ओर अवश्य ध्यान देगे।

॥ जय महावीर ॥

॥ जय अजरामर ॥

सर्वधर्म समन्वयवादी गुजरात के युगपुरुष समाज उद्धारक जैनाचार्य श्री अजरामरजी स्वामी

बाह्य-अभ्यन्तर व्यक्तित्व का सक्षिप्त दिग्दर्शन

0 मा के शुभाशीप का चमत्कार 0

“हानहार बाल के होते चिकने पान’ कहावन व अनुसार जैन शासन के महान् ज्यातिधर बनन के लिए ही जिनका जन्म हुआ—वह बालक जाणदकुमार सिर्फ छ वष की उम्र मे था, तब राजाना माता वसुबाई के साथ जैन स्थानक में जाते हुए प्रतिनमण सुनते-सुनते ही कठम्य हो गया था। एक बार वर्षा ऋतु के कारण माँ जैन स्थानक नहीं जा सकी तब उमन पूरा प्रतिनमण मा का सुना दिया। उमी वकन प्रतिनमण सिधा के पश्चात मा ने अपने लाडले पुत्र जाणदकुमार का गते लगाने प्यारभरी चुमी तगात हुए और मे हर्षाशु के साथ रहा।

“वेटा! तू इतना बुद्धिवाली ह, यह ता मुने आप ही पता लगा। वेटा! तू जैनशासन ना महान् धर्म धुरधर हागा।”

यही शुभाशीप मा के माकार हुए।

माँ वसुबाई जतीव रूपवती व शीलान थी जीए वैराग्यवती मुमुक्षु भाव न भरपूर थी। यही रूप व गुण वातावरण आपद भ भरपूर उत्तर थे। पिता माणकेचंद का बुद्धि प्रतिभा सम्प्राप्त हुई थी।

0 चूमवनीय व्यक्तित्व 0

10 वष की आयु मे आपदकुमार दीपित हाकर ‘स्वामी अजरामरजी’ हुए।

श्री अजरामरजी मुनिराज का चेहरा जतीव साम्य प्रज्ञान व भय था। महामुनि योगीश्वर जनाया मुनिजी के समान बाह्य व्यक्तित्व वतीव आर्यव व प्रभावशाली था आर युवावस्था मे पहुँचते ही चात्रिण तेन से सृष्ट जैमा तेजस्वी एउ चद्र जैमा शीतल व्यक्तित्व था। वे तन-मन मे निविहार-प्रज्ञान-समाधिगत प्रना पुष्प थे।

16 वष की आयु मे जैनागम व 10 मून जय महित कठम्य नर निग। जाए जय मूनी की वाचन द्वारा अध्ययन किया।

0 सस्कृत भाषा के प्रकांड पण्डित 0

लेकिन उनकी प्रबल जिनामा शास्त्री की टीका-भाष्य चूषि नियुक्ति आदि का गहन अनुसंधान करन की थी। इमव कारण गुए महाराज के माव के मूल मे विम 1826 ए 32 तन निरन्तर छ मान तब खरखर गच्छ के महान पत्नि श्री पूष्य गुलावचन्द्रजी (यनि परम्परा के आचार्य) के पाम मन्त्रुत, व्याकरण-न्याय आदि के अध्ययन मे लग गये। विश्वरामिद पाणिनाथ व्याकरण के ठाम अत्रयन के पश्चात वाच्य, कोष, अलकार, माह्यि, नाटक, चम्पू, भाष्य, छंद मगीत और ज्यातिप का तमण गम्भीर अध्ययन किया। एक प्रज्ञावन छात्र को जा अध्ययन करने मे छ या बारह महीना लगता, वह अध्ययन करन मे स्वामीजी का एक ही मास तगता, इतना तीव्रतम ध्यापनम था। तदुपरात ‘पाय मे दीपिका, मुक्तावली, दिनबरी आदि प्रवरण ग्रथ एव जगदीश गदाधर के गहन प्रथा के माथ-माथ जैन-न्याय मे ‘यायवतार, रत्नावलीरिवा और म्यादद्वार रत्नाकर आदि का अध्ययन ठास रूप मे किया। इतना ही नहीं उनके अज्ञात मार्ग, याग, वेदान और वाद दर्शन के ग्रथों का भी परिचय प्राप्त किया। वे मनी ग्रथा का स्वामीजी अपन हस्ताक्षर मे लिखते गये और टिप्पणिया आदि भरल गये। (वे मागे ग्रथ आज भी ग्रथानय मे मुगुप्तित हैं) भारतीय मनी दान शास्त्री का अध्ययन करने के मवग्रम समन्वयवाणी बन।

अध्ययन समाप्ति के वकन श्री पूष्यजी यतिवय मे चद्रगुनि मे म अवसूचक आर भविष्य सूचक आम्नायों को, के सभी स्वामीजी का प्रदान करने मदर उपकार किया। तदुपरात जवन पाम चमकारिण गुप्त आम्नायो के पत्रा मे बु चिया वननाइ। 23 वष की उम मे वे प्रकाण्ट पटिन हा गए।

0 आचार प्रधानता के साथ ज्ञान प्रधानता 0

स्थानकवासी जैन परम्परा में संस्कृत व्याकरणादि का ठोस अध्ययन करने वाले वे ही आद्य प्रजा पुरुष थे। उनके पूर्ववर्ती किसी महात्मा ने उनके जैसा अध्ययन नहीं किया। (संस्कृत पढ़ने की प्रणालिका ही नहीं थी) वह आचार प्रधानता का युग था। स्वामीजी ने ही सर्वप्रथम आचार प्रधानता के साथ ज्ञान प्रधानता को भी जोड़ दिया।

स्वामीजी ने आगम ज्ञान की सम्यग् धारणा पूज्य हुकमीचन्द्रजी म.सा की संप्रदाय के आगम सारवेत्ता पूज्य श्री दौलतरामजी म.सा. की निश्चा में 3 वर्ष तक निरन्तर रहकर प्राप्त की।

0 सर्वजनप्रिय स्वामीजी 0

वृद्ध परम्परा से सुना जाता है कि पू अजरामरजी स्वामी ने विद्यागुरु श्री पूज्य गुलावचन्द्रजी के द्वारा विद्यादेवी की आराधना भी की थी। जिससे स्वामीजी अपने कान पर हाथ रखकर उस विद्यादेवी को बुलाते, जिससे अपरिचित लोग के नाम, स्थान, आगमन, प्रयोजन एवं भविष्य का कथन फरमा सकते थे। (अपनी इस शक्ति का उपयोग शासन रक्षा के अलावा नहीं किया)।

उन्होंने समस्त गुजरात, काठियावाड़, हालार, कच्छ एवं मुद्दूरवर्ती जयपुर तक राजस्थान व मालवा आदि प्रांतों में विचरण किया था। स्वामीजी जहाँ भी विचरे, वहाँ उनके प्रताप रूपी सूर्य अग्रिम जाकर प्रकाशित हो रहा था। जैन-जैनेतर जनता ने स्वामीजी को अपने हृदय में आदरपूर्वक प्रतिष्ठित कर दिया था।

0 आभ्यंतर वैभव 0

स्वामीजी की शारीरिक सम्पदा अत्यन्त रूपवत् और सुन्दरतम थी। वे प्रकृति से सरल, गभीर और प्रगाढ़ थे। उनके पास जितना उत्कृष्ट ज्ञान था, उतना ही वे क्रिया में (साध्याचार में) उत्कृष्ट थे। उनका निर्ग्रन्थ-जीवन अनादी मुनि की तरह आदर्श था। 36 वर्ष की आयु में वे आचार्य पद से विभूषित हो गए थे। आचार्य भगवन्त के 36 गुण व आठ सम्पदाओं से स्वामीजी सयुक्त थे। सत्य, गील, उपशम, और समाधि-रूप, अमृत-रस का निरन्तर पान करते थे। और अन्य मुमुक्षु आत्माओं को भी उसी अमृत-रस का पान करवाते थे।

0 स्वर्गारोहण 0

श्रेष्ठतम सौम्याकृति, सूर्य जैसा प्रखर चरित्र, तेज, लाखों को प्रभावित करके उन्हें नीति-सदाचार व अध्यात्म मार्ग पर लाने वाले पुण्यपुत्र महापुरुष पू. अजरामरजी स्वामी 61 वर्ष की आयु में 51 साल का स्फटिक-सा परिशुद्ध चारित्र्य की परिपालना कर, 25 साल तक आचार्य पद पर आसीन होकर, उपशम भाव में निमज्जन करते हुए, अंतिम समय पर सभी जीवों के साथ शुद्ध भाव से खसनखामणा करके अपने व्रतों की आलोचना व प्रतिक्रमण कर निःशय होकर अनगन की आराधना करते हुए परम समाधि भाव में लीम्बडी (सौराष्ट्र) में विसं 1870 (ईस्वी सन्-1814) श्रावण (गुजराती) वद-प्रतिपदा के रात्रि समय एक वजे स्वामीजी के पवित्रात्मा ने परलोक गमन किया।

उनके स्वर्गवास को इस माल 2049 श्रावण-वद द्वितीया के दिवस 179 वी स्वर्गारोहण पुण्यतिथि देशभर में मनाई गई। प्रतिवर्ष दादागुरु की पुण्यतिथि के अवसर पर वृहद् गुजरात व बम्बई में हजारी भाई-बहन अट्टम तप (तेला) की आराधना करते हैं। दादागुरु के अट्टमतप की भारी महिमा है।

179 वी पुण्यतिथि के अवसर पर हादिक स्मरणांजलि के साथ--

—: सौजन्य :-

श्री भरतकुमार शांतिलाल सेठ


अध्यक्ष

* श्री सौराष्ट्र स्था. जैन संघ

* श्री घाटलोडिया स्था. जैन संघ

* श्री झालावाड़ दशाश्रीमाली

स्था. जैन ज्ञानि-समाज, अहमदाबाद



श्री छगनभाई देढिया

कल्पतरु कलेक्शन

(रेडीमेड कपडों का एअरकडीशन गोल्डम)

याज्ञिक रोड, मु राजकोट (सौराष्ट्र)

॥ जय महावीर ॥

॥ जय अजरामर ॥

हालारी बीसा आसवाल समाज मे आद्य दीक्षित, प्रथमाचार्य

शासनोद्धारक 1008 श्री अजरामरजी स्वामी के

पूर्वपथम के पुण्यशाली माह-परिवार का परिचय

जन्मस्थली—पटाणा (ता नानपुर) (वाछरा दादाबाता) गाव विस 1590 म बसाया गया था।

पूज्य श्री अजरामरजी स्वामी के पूज्य वरुण प्रात में विम 1617 म प्रस्थान कर हानार (जामनगर राज्य) प्रांत में माटा गाव में स्थिर हुए। विस 1701 म माटा म प्रस्थान कर जगत के गाव पटाणा में स्थिर हुए।

पूज्य श्री अजरामरजी स्वामी निम्नांकित हैं—वृष परमाय मल राजपूतों का। गाव माह—1 दादा बरमा 2 दरमण, 3 नीरम, 4 बज्जाम, 5 जेतकरण, 6 जामग, 7 जगा, 8 जेतजी, 9 उगा, 10 बामा, 11 रजमन, 12 हरगण, 13 खीबसी—उनके दा पुत्र 14-न माणेर एवं 14-च मेगाभाई। माणिकभाई के दा पुत्र 15-न वीरपार, 15-ख जाणद (अजरामर)। वीरपारभाई नैनिहाल बडा लखिया गाँव। ही स्थिर हुए। उनके पुत्र, 16 लजपार, उनके पुत्र, 17 परजतभाई, उनके दा पुत्र 18-न पुजाभाई यदिया गाव में रहत था। उनके तीन पुत्र, 19-न जेमाभाई का परिवार जफाका, च जवेरचदभाई, बडा लखिया गाव में, च प्रेमचदभाई का परिवार बम्बई है। परजतभाई के दूसरे पुत्र, 18-न हवीभाई के पात्र पुत्र, 19-न रतीरालभाई ख शांतिनाथभाई, च जयतिनाथभाई च नरणीभाई, च बेलनजीभाई—इन पाचा का परिवार बडा लखिया गाव में है। फिन्हाल ये बम्बई रहत हैं।

पूज्य श्री च चाचा मगाभाई के पुत्र, 15 बरमणी, उनके पुत्र 16 बरमणी, उनके पुत्र, 17 पापटभाई च पाच पुत्र, 19 (1) नीरजभाई (2) नरमभाई, (3) हरगण (हरराजचद) भाई, (4) गुलाजचन्दभाई, (5) जामजी माह—इन पाचा माटया च परिवार पूज्य गुम्दर श्री की जन्मस्थली पटाणा में मौजूद हैं। फिन्हाल ये बम्बई एवं जामनगर में व्यवसाय स्थिर हुए हैं। च महान भाग्यशाली, अममनेही एवं पटाणा गाव में धार्मिक एवं ज्ञानिय मन्मथा में उदात्त दिन में महयाग प्रगता भी हैं। श्री हरिजा बापा, श्री हानारी बीसा आमदात जैन महाजन—बम्बई के स्वयं स्वरूप बमठ वायवता थ।

नाथा च उदात्त माग जान भी लाखा श्रावण-धाविता के आराध्यदेव च प्रेरणादायक पूज्य श्री अजरामरजी स्वामी के समारी परिवार हान के नात माह परिवार की कौन जमर रही, जीर हजारग माल तन माह-परिवार गौरवान्वित रह्या।

मगाधर—गुपनरा जवायथी रणचन्द्रजा स्वामी के अतरामी समदर्शा प हृपातु गुम्दर श्री नवचन्द्रजी स्वामी के जिय प रत मुनिनी आम्बरजा स्वामी।

गौरव पू मातुथी शाता वहन नमचद न्यालचद मेहता (खेडोई वाला)

अरिहत ट्रेडिंग कम्पनी

हाइवेयर, लोहा, पट, मशोवरी विक्रेता

मु पा मुद्रा (कच्छ) 370130 (गुज)

टेली ग्राफिक-169 निवान-191



* विहार ड्रेसस *

(रेडीमेड कपडे के विक्रेता)

मुपो मुद्रा (कच्छ)-370130 (गुज)

Tel 111

सभी पूज्य संत-सतियों को कोटि-कोटि वन्दन

श्री मगन मुनि जैन ज्ञानाचार प्रचार समिति

कंचन बिहार, न्यू पलासिया, इन्दौर (म. प्र.) द्वारा संचालित



जैन दिवाकर फाउण्डेशन

प्रेरक-स्वर्गीय कवि श्री अशोक मुनिजी सहाराज

उद्देश्य :

- (1) सभाज के बालको को स्थानकवासी श्रद्धानुसार ज्ञान एव आचार-चरित्र शिक्षण देना तथा संस्कृत एव प्राकृत के पण्डित तैयार करना।
- (2) सभाज चरित्रवान व्यक्ति तैयार करना जां विदेशो मे जाकर धर्म का प्रचार करे।
- (3) चतुर्विध सघ मेवा सुश्रुपा करना।
- (4) ज्ञान, वर्णन, चरित्र के प्रचार के लिए माहित्य एव पत्र का प्रकाशन करना।
- (5) स्थानकवासियो को अधिक सहयोग देना।
- (6) कोई श्रावक या श्राविका दीक्षा लेना चाहे तो उमकी दीक्षा की व्यवस्था करना एवं दीक्षा के पूर्व उसके शिक्षण सहायता करना।
- (6) उपरोक्त कार्यों के लिए भवन आदि बनाना, क्रय-विक्रय करना उमकी समुचित व्यवस्था करना।

फकीरचन्द्र मेहता

अध्यक्ष

शिरोमणिचन्द्र जैन

मत्री

सागरमल बेताला

उपाध्यक्ष

बापूलाल बोथरा

महामत्री

शान्तिलाल धाकड़

कोषाध्यक्ष

॥ जय महावीर ॥

॥ जय अजरामर ॥

जैनाचार्य अजरामरजी विद्याधाम

संचालक दी भुज इंग्लिश स्कूल ट्रस्ट

अजरामरजी चौक, हास्पिटल रोड,
मु. पो. भुज (कच्छ), गुजरात 370001

नामाङ्कित महामान के पावन उच्चारण में (जैजा स एमएमजी तब गुजराती व इंग्लिश माध्यम) 2500 बालक-बालिकाएँ जहाँ प्राथना करके सम्कार लक्षण विद्याध्ययन कर रहे हैं, वह विद्या नेत्र आज भुज शहर का सबसे बड़ा नामाङ्कित शान्ति-मन्दिर है। सम्कारी व शिक्षित 60 बहिनो का स्टाफ स्कूल में है।

स्कूल में 24 कमरे हैं, इस वय विद्यार्थियों में दादागुरु के प्रति श्रद्धालु दानदाताओं के सहयोग से बार 22 कमरे बनाए जा रहे हैं जो दीपावली के आस-पास पूरा होने की सम्भावना है। 300 चारम फीट का विद्यालय श्री अजरामरजी प्राथना हॉल भी पूरा होने के निकट है। 20 हजार फीट का नया बाघनाम करने का है। सभी विभाग व याजनाआ का पूरा करने के लिए फिनहान 10 व 12 लाख रु की अभी है। जैन ज्वेलियर पुष्प का यही एकमात्र शैक्षणिक स्मारक है। शिक्षार्थियों दानदाताओं से निवेदन है कि वे अपना सहयोग प्रदान कर दादागुरु के प्रति अपनी भक्तिभावना अवश्य प्रदर्शित करें। उनके लिए यह उत्तम अवसर है।

★ निम्नांकित विभागों में दानदाताओं का सहयोग परम आवश्यक है। यथासंभव स्थान पर दाता की तस्वीर लगाई जाएगी।

विभाग

- | | राशि |
|--|------------------|
| 1. कम्प्यूटर क्लास का अध्ययन विभाग (1-1 लाख के दा माजयदाता भी लाभ न सकत है।) | रुपये 2,00,000/- |
| 2. अजरामरजी स्कूल लायब्रेरी (50 हजार के एक ऐम दा दानदाता भा माजयदाता बन सकत हैं।) | रुपये 1,00,000/- |
| 3. अजरामरजी प्राथना हॉल (8 लाख की लागत में तैयार हो रहा है, लेकिन इस हॉल पर पूरा दानगण नहीं आया है। अब 1-1 लाख के माजयदाता अपेक्षित हैं।) | रुपये 1,00,000/- |
| 4. अजरामरजी प्राथना-हॉल सप्लाय फर्निचर (50 हजार के दा माजयदाता भी अपेक्षित हैं) | रुपये 1,00,000/- |

- | | |
|--|------------------|
| 5. अजरामरजी स्कूल लेवोरेटरी विभाग (50 हजार के दो सौजन्यदाता भी अपेक्षित हैं।) | रुपये 1,00,000/- |
| 6. क्लास रूम (450 फीट) (अभी 7 कमरे बाकी हैं।) | रुपये 31,000/- |
| 7. क्लास रूम में फर्नीचरदाता (फर्नीचर सभी नये क्लास रूम का बाकी है।) | रुपये 15,000/- |

★ उपरोक्त सभी अनुदान दाताओं के नाम स्वतंत्र गिलालेखों में मंडित किये जाएंगे।

★ चेक या ड्राफ्ट "दी भुज डग्लिज स्कूल ट्रस्ट" के नाम का भुज की किमी भी बैंक के नाम पर उपरोक्त पते पर भेज सकते हैं।

★ बम्बई में संपर्क सूत्र :

डी. टी. नीसर (भचाउ-कच्छ वाले)

द्वारा-क्वालिटी गारमेन्ट्स

119-121, जे एस. रोड, गिरगाँव, बम्बई-400004

(फोन . 3857755)

★ उदारमना दानदाताओं से सहयोग के लिए हार्दिक प्रार्थना करते हैं।

—: निवेदक :-

प्रिन्सपल
श्रीमती रमणबाला मोरबीआ

मानद मंत्री
डा. हिम्मतभाई मोरबीआ
(दन्त सर्जन)

अध्यक्ष
प्रवीणचंद डी. ठक्कर
(एडवोकेट)

—: सौजन्य :-

जैनाचार्य अजरामरजी विद्याधाम
अजरामरजी चौक, हॉस्पिटल रोड,
भुज, कच्छ-370001
(गुजरात)



शाह दुलीचन्द सोहनलाल
मेहता मार्केट, कोटन मर्चेन्ट
सुरेन्द्रनगर-363001 (गुजरात)
नेहलदीप एडीसन टेप
मेहता मार्केट, सुरेन्द्रनगर-363001
टेली . ऑफिस— 21343/23791
निवास— 21181/20110

जय आनन्द

जय देवेन्द्र

जय जन दिवाकर

श्रमण मधील पूज्य आचार्य प्रवर श्री देवेन्द्र मुनिजी मया वी जाणतुकीं जै दिवाकरांय रय भाव्य मिहनी
 श्रमणी मया श्री वरुणारजीजी मया वी प्रतिभा सम्पन्न मुनिव्या परम विदुषी मया वी श्री उरुजाजी
 मया "एसए" विदुषी महागनी श्री अणु ज्वातिजी मया आनि ठाणा ती 6 ता चेम्बूर-बम्बई
 १ सन् 1993 वा चानुसंगि चान, दशन, चरित्त एक ता वी जाणथाजा मया मया सम्पन्न
 हान वी मया वामनाण वरले हण—

हार्दिक शुभकामनाओं सहित :

श्री वर्धमान स्थानकवासी
 जैन श्रावक संघ, (चेम्बूर)

रुनवाल भवन, रुनवाल माव, अकर अली व पोटे,
 चेम्बूर (नाश), पम्बई 4000071 (महागण्ड) फा. न 5523475

—शुभेच्छुक—

सुभाषचन्द्र रुनवाल

अध्यक्ष

श्री व. स्था. जैन श्रावक संघ

चेम्बूर-बम्बई

॥ पूज्यवर्य दादा जिन, कनक, देवेन्द्र, कंचन, कलापूर्ण सूरी गुरुभ्यो नमः ॥

कच्छ-वागड देशोद्धारक, सुविशुद्ध-संयममूर्ति, परमाराध्य पूज्यवर्य दादा 1008 श्री कनक सूरीस्वरजी महाराजा साहब के वागड-समुदाय के आराध्यचरण, परम प्रभाविक, आदार्यदेव 1008 श्री कलापूर्ण सूरीस्वरजी महाराजा आदि पूज्यवर्यों का मद्रास महानगरी का सर्वग्रथम चातुर्मास ज्ञान, दर्शन, चारित्र एवं तप की अभिवृद्धि के साथ सम्पन्न हो; यही गुभाशंसा के साथ !

हार्दिक शुभकमनाओं के साथ :



फोन 20816
24816

श्रेष्ठीवर्य ए. डी. मेहता

“सिद्धांचल” होस्पिटल रोड, भुज-कच्छ (गुजरात) 370001

- * चेयरमेन (निर्माण कमेटी) : जैनाचार्य अजरामरजी विद्याधाम-भुज
 - * अध्यक्ष : श्री वसही (भद्रेश्वर) जैन महातीर्थ भोजनालय
भद्रेश्वर (कच्छ)
 - * अध्यक्ष : श्री कटारिया जैन तीर्थ-कटारिया (पूर्व-कच्छ)
- आदि अनेकों धार्मिक व सामाजिक संस्थाओं में संलग्न हैं ।

॥ जय महावीर ॥

॥ जय अजरामर ॥

जैनाचार्य अजरामरजी विद्याधाम

संचालक दी भुज इंग्लिश स्कूल ट्रस्ट

अजरामरजी चौक, जिला भुज (कच्छ) 370001

वृहद् गुजरात के युगपुरुष का यह एक माना जावर्जनिक विद्या-मन्थान है, जो भुज शहर का सबसे बड़ा निर्या-वेन्द्र है। निम्नलिखित जिला विभाग में 2500 छात्र छात्राएँ अध्ययन कर रहे हैं। प्रायतः म प्रतिदिन नमस्कार महामन्त्र का पाठ मन्त्रप्रथम होता है।

मकुल म मपूणतया 60 बहना का स्टाफ है जिमना मचायन प्रिमीपन श्रीमती रमणबाला भोग्वीआ बडी कुशलता के साथ करती हैं। दादागुरु के इस म्मारक का अधिनाधिक विनाम वरन के निण प्रबुद्ध व श्रीमन् मज्जना के महयोग की परम आवश्यकता है। राष्ट्रसेवा का प्रथम चरण जिला है। इस म तन-मन धन के महयोग प्रदान करना हमारा फज है।

- 1 जनाचाय अजरामरजी हाईस्कूल
- 2 जनाचाय अजरामरजी प्राथमिक-शाला (गुजराती विभाग)
- 3 जनाचाय अजरामरजी प्राथमरी स्कूल (इंग्लिश विभाग)
- 1 जैनाचार्य अजरामरजी बाल मन्दिर (गजराती विभाग)
- 5 जनाचाय अजरामरजी के जी स्कूल (इंग्लिश विभाग)

सत्यान सदय प्रगति के पथ पर अग्रसर हो, यही शुभ मंगल कामनाओं के साथ—

— निवेदक —

सेठ श्री गॉंगजीभाई कुवरजीभाई
वोरा
(मडुराई वाले)
मु पो समाघोषा
तहसील मून्दा कच्छ-370415
(गुजरात)



शाह लालजीभाई नानजीभाई
मु पो प्रागपुर
ता मून्दा-कच्छ-370415
(गुजरात)





भाग-षष्ठम्

नई दीक्षा सूची

महाप्रयाण (काल धर्म) सूची

नई पदवी प्रदान सूची

अन्य जानकारियाँ

FASHION SENSATION



Classy styling, carefree blends, an endless range in Prints, Stripes and Jacquard. From Rs 120/- to Rs 260/-
Retail Show Room at **DAL BAZAR, Ludhiana**

duke[®]
T-SHIRTS & SHORTS

- Duke House, Purana Bazaar, Ludhiana
Ph 51824, 51834
- c/20 V.E.A. Karol Bagh, New Delhi 5
Ph 5720498, 5753740

अ. भा. समग्र जैन नई दीक्षा सूची 1993

(दिनांक 1-8-92 से 31-7-93 तक)

1. श्वे. स्थानकवासी सम्प्रदाय

| क्र. दीक्षार्थी/संत-सती का नाम | दिनांक | स्थान | निश्रा/सान्निध्य |
|--------------------------------|----------|-------------------|------------------------------------|
| (क) श्रमण संघ समुदाय- | | | |
| 1. श्री पुनीतकुमार | 4-12-92 | मैसूर | सलाहकार श्री सुमति प्रकाशजी म.सा. |
| 2. श्री जयतिबुमार | 15-12-92 | पाण्डवपुर | सलाहकार श्री सुमतिप्रकाशजी म.सा. |
| 3. श्री कल्पना बांठिया | 23-1-93 | औरगावाद | श्री मिश्रीमलजी म.सा. खहरधारी |
| 4. श्री घेवरचन्द सुराना | 23-1-93 | औरगावाद | श्री मिश्रीमलजी म.सा. खहरधारी |
| 5. श्री अरुण बन्व | 23-1-93 | औरगावाद | श्री मिश्रीमलजी म.सा. खहरधारी |
| 6. श्री साधना देवड़ा | 23-1-93 | औरगावाद | श्री मिश्रीमलजी म.सा. खहरधारी |
| 7. श्री शंकर जैन | 27-1-93 | अहमदनगर | पं. श्री कल्याण ऋषिजी म.सा. |
| 8. श्री साधना जैन | 28-1-93 | रोहिणी (दिल्ली) | प्रवर्तक श्री पदमचंदजी मं. |
| 9. श्री सरोज लुकड़ | 10-4-93 | मद्रास | युवाचार्य डॉ. शिवमुनिजी म.सा. |
| 10. श्री अनुपम मुनिजी | 28-3-93 | उद्वपुर | आचार्य श्री देवेन्द्र मुनिजी म.सा. |
| 11. श्री हीरामणि पाण्डे जैन | 28-3-93 | उदयपुर | आचार्य श्री देवेन्द्र मुनिजी म.सा. |
| 12. श्री नीता जैन चोरड़िया | 28-3-93 | उदयपुर | आचार्य श्री देवेन्द्र मुनिजी म.सा. |
| 13. श्री मंजुश्रीजी म. | 28-3-93 | उदयपुर | आचार्य श्री देवेन्द्र मुनिजी म.सा. |
| 14. | 28-3-93 | उदयपुर | आचार्य श्री देवेन्द्र मुनिजी म.सा. |
| 15. कु. मंजु जैन | 25-4-93 | सोनीपत | प्रवर्तक श्री पदमचन्दजी म.सा. |
| 16. कु. मृदुला जैन | 25-4-93 | सोनीपत | प्रवर्तक श्री पदमचन्दजी म.सा. |
| 17. कु. वर्षा जैन | 25-4-93 | सोनीपत | प्रवर्तक श्री पदमचन्दजी म.सा. |
| 18. कु. नीतू जैन | 28-1-93 | हिसार | प्रवर्तक श्रीजी |
| 19. कु. रेणु जैन | 28-1-93 | हिसार | प्रवर्तक श्रीजी |
| 20. श्री सुभद्राजी म.सा. | 28-4-93 | सिद्धाचलम् (पूना) | मन्त्री श्री कुन्दन ऋषिजी म.सा. |
| 21. श्री शिवदाजी म.सा. | 28-4-93 | सिद्धाचलम् (पूना) | मन्त्री श्री कुन्दन ऋषिजी म.सा. |
| 22. श्री पूनम श्रीजी म.सा. | 30-5-93 | देवास | प्रवर्तक श्री उमेश मुनिजी म. |
| 23. श्री नय श्रीजी म.सा. | 30-5-93 | देवास | प्रवर्तक श्री उमेश मुनिजी म. |
| 24. कु. ममता भगोता बी.काँम. | 4-5-93 | रायपुर (राज) | प्रवर्तक श्रीजी |
| 25. श्री | ----- | इन्दौर | सलाहकार श्री मूलचंदजी म.सा. |
| 26. श्री निर्मला चौपड़ा | 2-6-93 | इन्दौर | प्रवर्तक श्री उमेश मुनिजी म. |
| 27. श्री नन्दन मुनिजी म. | 30-5-93 | गिदडवाहा | उप प्रवर्तक श्री चन्दन मुनिजी म. |

| क्र | दीक्षार्थी/सत-मनी का नाम | दिनांक | स्थान | नित्या/मात्रिध्य |
|-----|--------------------------|----------|-----------------|-------------------------------|
| 28 | श्री | 30-5-93 | गिदडवाहा | उप प्रवतन श्री चन्दन मुनिजी म |
| 29 | बु यशा जैन | 25-4-93 | गाधीनगर-दिल्ली | प्रवतक श्री |
| 30 | बु नम्रता मूया | 27-11-92 | जूजर (पूना) | मनी श्री कुन्दन ऋषिजी म |
| 31 | बु रत्ना वेद मूया | 29-1-93 | माधवनगर | मन्त्री श्री कुन्दन ऋषिजी म |
| 32 | श्री रचिता श्रीजी म | 25-4-93 | पाटना (महा) | प्रवतन श्री बलयाण ऋषिजी म |
| 33 | श्री समीक्षाजी म | 4-5-93 | बुधियाना | श्री रत्न मुनिजी म मा |
| 34 | श्री वीन्दिमुधाजी म | 9-1-93 | बडी सादही | प्रवतक श्री रमेश मुनिजी म |
| 35 | श्री सुदशनाजी म | 28-1-93 | रामपुरा (म प्र) | प्रवतक श्री रमेश मुनिजी म |
| 36 | श्री सिद्धार्थ प्रभाजी म | 25-2-93 | नीमच | प्रवतक श्री रमेश मुनिजी म |

कुल मुनिराज (9) महासतियाजी (27) कुल ठाणा (36)

(ख) श्री साधुमार्गी समुदाय-

| | | | | |
|---|-----------------------|----------|-----------|-----------------------|
| 1 | श्री अभिनन्दनजी म मा | 29-11-92 | वीनानेर | आचाय श्री नानालालजी म |
| 2 | श्री प्रियदशनाजी म सा | 28-9-92 | उदयराममर | आचाय श्री नानालालजी म |
| 3 | श्री सुनिताजी म सा | 28-9-92 | उदयराममर | आचाय श्री नानालालजी म |
| 4 | श्री चिन्मप्रभाजी म | 4-2-93 | वीनानेर | आचाय श्री नानालालजी म |
| 5 | श्री अचनानी म | 4-2-93 | बडी सादही | आचाय श्री नानालालजी म |
| 6 | श्री शुभा श्रीजी म | 8-2-93 | उदयपुर | आचाय श्री नानालालजी म |
| 7 | श्री नमन श्रीजी म | 25-4-93 | भोनासर | आचाय श्री नानालालजी म |
| 8 | श्री समीक्षा श्रीजी म | 25-4-93 | उदयपुर | आचाय श्री नानालालजी म |
| 9 | श्री रोशन श्रीजी म | 25-4-93 | उदयपुर | आचाय श्री नानालालजी म |

कुल सत (1) महासतियाजी (8) कुल ठाणा (9)

(ग) श्री ज्ञानपच्छ समुदाय-

| | | | | |
|---|------------------------|----------|--------------|---------------------------|
| 1 | बु अनीता जैन | 27-11-92 | बडौत (उ प्र) | तपस्वीराज श्री चपालालजी म |
| 2 | श्री रविद्रजी राव | 6-12-92 | गढनिवाना | तपस्वीराज श्री चपालालजी म |
| 3 | श्री मी गकुमारीजी म मा | 27-12-92 | जाधपुर | तपस्वीराज श्री चपालालजी म |
| 4 | श्री सुनिता नाहर | 28-1-93 | पाली-भारवाढ | तपस्वीराज श्री चपालालजी म |
| 5 | श्री नीता सचेती | 26-4-93 | बैजापुर | तपस्वीराज श्री चपालालजी म |
| 6 | श्री सुवर्णा सचेती | 26-4-93 | बैजापुर | तपस्वीराज श्री चपालालजी म |
| 7 | श्री राजेश गोलेछा | 26-4-93 | जोधपुर | तपस्वीराज श्री चपालालजी म |
| 8 | श्री अर्जुत बडेरा | 26-4-93 | जाधपुर | तपस्वीराज श्री चपालालजी म |
| 9 | श्री | 26-4-93 | जोधपुर | तपस्वीराज श्री चपालालजी म |

कुल मुनिराज (3) महासतियाजी (6) कुल ठाणा (9)

| क्र | दीर्घाधीन/मत सती का नाम | दिनांक | स्थान | निष्ठा/मान्निष्य |
|-----|-------------------------|--------|-------|------------------|
|-----|-------------------------|--------|-------|------------------|

(ज) श्री गोडल मोटा पक्ष समुदाय-

| | | | | |
|---|----------------------|----------|--------------|---------------------------|
| 1 | श्री प्रसाद मुनिजी म | 28-9-92 | अनवाई | श्री हनुमत्पुत्र मुनिजी म |
| 2 | श्री लीनाबाई म सा | 19-2-93 | पटघरी | श्री |
| 3 | श्री सोनन बाई म सा | 24-1-93 | माटुगा-बम्बई | श्री हीराबाई म सा |
| 4 | श्री मिनल बाई म सा | 30-11-92 | वालावड-शीतला | श्री |

कुल सत (1) महासतिपात्री (3) कुल ठाणा (4)

(झ) श्री कच्छ आठ फोटी मोटी पक्ष समुदाय-

| | | | | |
|---|-----------------------|----------|----------------|----------------------|
| 1 | श्री प्रतीमा बाई म सा | 26-12-92 | लुणी-कच्छ | श्री |
| 2 | श्री श्रेयशा बाई म सा | 30-1-93 | पत्री-कच्छ | श्री सुभद्राबाई म सा |
| 3 | श्री मुचिता बाई म सा | 30-1-93 | पत्री-कच्छ | श्री सुभद्राबाई म सा |
| 4 | श्री जय श्री वहिन | 12-5-93 | चिचपोवली-बम्बई | श्री विनोद मुनिजी म |

कुल महासतिपात्री (4) कुल ठाणा (4)

(ट) श्री खभात सम्प्रदाय-

| | | | | |
|---|----------------------|---------|--------|-----------------------------|
| 1 | श्री श्रेया बाई म सा | 30-1-93 | धानेरा | आचार्य श्री बानि ऋषिजी म सा |
| 2 | श्री श्रुति बाई म सा | 30-1-93 | धानेरा | " " " |
| 3 | श्री माधुरी बाई म सा | 30-5-93 | सुरत | " " " |

कुल महासतीयात्री (3) कुल ठाणा (3)

(ठ) श्री दरियापुरी सम्प्रदाय-

| | | | | |
|---|-----------------------|---------|--------------|----------------------------|
| 1 | श्री मितेद्र मुनिजी म | 26-2-93 | प्रातीज | आचार्य श्री शातिलालजी म |
| 2 | श्री भावना बाई म सा | 25-1-93 | सुरेन्द्रनगर | आचार्य श्री शातिलालजी म सा |

कुल मुनिराज (1) महासतिपात्री (1) कुल ठाणा (2)

श्वेताम्बर स्थानकवासी समुदाय के अथ सत-सतिपात्री--

| | | | | |
|---|------------------------|----------|---------|---------------------------|
| 1 | श्री मन्मथप्रभा श्रीजी | 10-10-92 | विरायतन | स्व उपा श्री अमर मुनिजी म |
| 2 | श्री अलका वहिन | दिस, 92 | धागधा | बृहद गुजरात सम्प्रदाय |

कुल महासतीयात्री (2) कुल ठाणा (2)

श्वेताम्बर स्थानकवासी सम्प्रदाय में-

कुल मुनिराज (13) महासतिपात्री (80) कुल ठाणा (93)

2. श्री श्वे. मूर्तिपूजक सम्प्रदाय

| क्र | दीक्षार्थी/सत-मती का नाम | दिनांक | स्थान | समुदाय/निश्रा |
|-----|----------------------------|----------|----------------|-------------------------------------|
| 1. | श्री प्रकाशकुमार जैन | 27-11-92 | भीलड़िया तीर्थ | आचार्य श्री महोदय सूरिजी म.सा. |
| 2. | कु. लता सिंगी, वी ए. | 30-11-92 | भद्रावती तीर्थ | खरतरगच्छ समुदाय |
| 3. | कु. मधु वेन गाँधी | 4-12-92 | चित्तलवाना | खरतरगच्छ समुदाय |
| 4. | श्री सुनीलकुमार | 4-12-92 | मद्रास | श्री केशर सूरिजी म.सा. |
| 5. | श्री सम्पत राज | 4-12-92 | मद्रास | श्री केशर सूरिजी म.सा. |
| 6. | कु. शांतिदेवी | 4-12-92 | मद्रास | श्री केशर सूरिजी म.सा. |
| 7. | श्री विजयकुमार मोदी | 5-12-92 | सूरत | आचार्य श्री जयन्त सेन सूरिजी म.सा. |
| 8. | श्री नितिनकुमार वोहरा | 5-12-92 | सूरत | आचार्य श्री जयन्त सेन सूरिजी म.सा. |
| 9. | कु. अलकावेन वोरा | 5-12-92 | सूरत | आचार्य श्री जयन्त सेन सूरिजी म.सा. |
| 10. | कु. अलका वेन वोहरा | 5-12-92 | सूरत | आचार्य श्री जयन्त सेन सूरिजी म.सा. |
| 11. | कु. अलका वेन दोशी | 5-12-92 | सूरत | आचार्य श्री जयन्त सेन सूरिजी म.सा. |
| 12. | कु. रेखा वहिन सियाल | 5-12-92 | सूरत | आचार्य श्री जयन्त सेन सूरिजी म.सा. |
| 13. | कु. नयना वेन वोरा | 5-12-92 | सूरत | आचार्य श्री जयन्त सेन सूरिजी म.सा. |
| 14. | कु. मीना वेन वोहरा | 5-12-92 | सूरत | आचार्य श्री जयन्त सेन सूरिजी म.सा. |
| 15. | कु. नयना वेन वोहरा | 5-12-92 | सूरत | आचार्य श्री जयन्त सेन सूरिजी म.सा. |
| 16. | कु. प्रीति कर्नावट | 12-12-92 | डहाणु रोड | खरतरगच्छ समुदाय |
| 17. | कु. मीता वहिन | 12-11-92 | पाटन (गुज) | आचार्य श्री हेमप्रभ सूरिजी म.सा. |
| 18. | कु. संगीता वहिन | 4-12-92 | वालोतरा | पन्थास श्री रत्नाकर विजयजी म.सा. |
| 19. | श्री नंदीरत्न विजयजी म.सा. | 10-11-92 | रीच्छेड | आचार्य श्री जितेन्द्र सूरिजी म.सा. |
| 20. | श्री निर्मला कुमारी | 30-1-93 | चित्रदुर्ग | आचार्य श्री अशोकरत्न सूरिजी म.सा. |
| 21. | श्रीमती रेखा वहिन जाह | 13-12-92 | शखेण्वर तीर्थ | आचार्य श्री प्रेम सूरिजी म.सा. |
| 22. | श्रीमती नुधा वहिन | 13-12-92 | शखेण्वर तीर्थ | आचार्य श्री प्रेम सूरिजी म.सा. |
| 23. | श्री फाल्गुनी वहिन | 30-11-92 | वोटाद | उपाध्याय श्री पुण्योदय नागरजी म.सा. |
| 24. | श्री रोहितकुमार | 28-1-93 | मुलुण्ड-वम्बई | आचार्य श्री भुवनभानु सूरिजी म.सा. |
| 25. | श्री अमृता वहिन | 28-1-93 | मुलुण्ड-वम्बई | आचार्य श्री भुवनभानु सूरिजी म.सा. |
| 26. | कु. हंसा वहिन | 30-1-93 | हालार तीर्थ | आचार्य श्री प्रधोतन सूरिजी म. |
| 27. | कु. नीता वहिन | 30-1-93 | हालार तीर्थ | आचार्य श्री प्रधोतन सूरिजी म. |
| 28. | कु. भानुकुमारी | 10-2-93 | वडगाँव (गुज) | आचार्य श्री सिद्धी सूरि समुदाय |
| 29. | श्री भावना वहिन | 10-2-93 | वडगाँव (गुज.) | आचार्य श्री सिद्धी सूरि समुदाय |
| 30. | श्री वनिता वहिन | 10-2-93 | वडगाँव (गुज.) | आचार्य श्री सिद्धी सूरि समुदाय |
| 31. | श्री जितेन्द्र कुमार | 28-1-93 | मलाड-वम्बई | आचार्य श्री रामचन्द्र सूरि समुदाय |
| 32. | कु. नीमा | 27-1-93 | पाटन (गुज) | आचार्य श्री मोममुन्दर सूरिजी |
| 33. | कु. निर्मला कुमारी | 29-1-93 | वैल्लारी | आचार्य श्री अशोक रत्न सूरिजी |

| क्र | दीर्घा/सह-सनी का नाम | दिनांक | स्थान | निष्ठा/मासिष्ठ |
|-----|----------------------------|---------|------------------|----------------------------------|
| 34 | कु शीला | 25-2-93 | अनन्तेश्वर | आचार्य श्री यशोवर्म सूरीजी |
| 35 | श्री विरागमाला श्रीजी म | 25-2-93 | अनन्तेश्वर | आचार्य श्री यशोवर्म सूरीजी म |
| 36 | श्री वीणा कुमारी | 12-2-93 | मिराही | आचार्य श्री गुणरत्न सूरीजी म |
| 37 | श्री नयन प्रभा श्रीजी म | 24-2-93 | भोक्तमाल | आचार्य श्री जयन्त मेन सूरीजी म |
| 38 | श्री हिरल कुमारी | 24-2-93 | पाधावडा | आचार्य श्री गुणरत्न सूरीजी म |
| 39 | श्री देवचन्द्र विजयजी म | 28-1-93 | पार्वताणा | आचार्य श्री इन्द्रदिग्न सूरीजी म |
| 40 | श्री शासन रत्ना श्रीजी म | 28-1-93 | पार्वताणा | आचार्य श्री इन्द्रदिग्न सूरीजी म |
| 41 | श्री अरविन्दा कुमारी | 27-1-93 | महाराजवाडा | आचार्य श्री हेमचन्द्र सूरीजी म |
| 42 | श्री बल्परक्षिता श्रीजी म | 25-2-93 | दानराई | आचार्य श्री महादय सूरीजी म |
| 43 | श्री तपोरक्षिता श्रीजी म | 25-2-93 | दानराई | आचार्य श्री महादय सूरीजी म |
| 44 | श्री जिनरक्षिता श्रीजी म | 25-2-93 | दानराई | आचार्य श्री महादय सूरीजी म |
| 45 | श्री तत्व रक्षिता श्रीजी म | 25-2-93 | दानराई | आचार्य श्री महादय सूरीजी म |
| 46 | श्री हित रक्षिता श्रीजी म | 25-2-93 | दानराई | आचार्य श्री महादय सूरीजी म |
| 47 | श्री हेमलता वहिन | 24-2-93 | गिरगज | आचार्य श्री अरिहत्तमिद सूरीजी म |
| 48 | श्री जयती भाई म | 12-3-93 | मोरवाडा | आचार्य श्री महादय सूरीजी म |
| 49 | श्री प्रिय दक्षा श्रीजी म | 16-1-93 | दुग | खरतरगच्छ समुदाय |
| 50 | श्री प्रीति मुधा श्रीजी म | 16-1-93 | दुग | खरतरगच्छ समुदाय |
| 51 | कु विरल वाना | 11-3-93 | पालीताणा | आचार्य श्री महादय सूरीजी म |
| 52 | कु मरोजबाला | | | |
| 53 | श्री मनीषा वहिन | 28-4-93 | पालीताणा | सागर समुदाय |
| 54 | श्री नीता वहिन | 3-3-93 | टांग छुद (म प्र) | आचार्य श्री बलापूष सूरीजी म |
| 55 | श्री अजयकुमार | 28-4-93 | यडनगर (गुज) | आचार्य श्री महादय सूरीजी म |
| 56 | श्री सजयकुमार | 28-4-93 | वारीवती-बम्बई | आचार्य श्री हेमचन्द्र सूरीजी म |
| 57 | श्री जयश्री वहिन | 28-4-93 | वारीवती-बम्बई | आचार्य श्री हेमचन्द्र सूरीजी म |
| 58 | श्री अन्वेषकुमार | 25-4-93 | मिराही | श्री बमल रत्न विजयजी म |
| 59 | श्री ललिता वहिन | 25-4-93 | पूना | श्री अक्षय विजयजी म |
| 60 | श्री दिनका भाई | 9-5-93 | गाटगाव-बम्बई | आचार्य श्री जयधोष सूरीजी म |
| 61 | कु रीता | 28-4-93 | वाडाय-रच्छ | अचल गच्छ समुदाय |
| 62 | कु जयश्री | 28-4-93 | वाडाय-रच्छ | अचल गच्छ समुदाय |
| 63 | कु दक्षा | 28-4-93 | वाडाय-रच्छ | अचल गच्छ समुदाय |
| 64 | कु भावना | 28-4-93 | वाडाय-रच्छ | अचल गच्छ समुदाय |
| 65 | कु ज्वेर वहिन | 28-4-93 | वाडाय-रच्छ | अचल गच्छ समुदाय |
| 66 | कु ज्यति | 28-4-93 | वाडाय-रच्छ | अचल गच्छ समुदाय |
| 67 | श्री विमल मण्डावरा | 25-4-93 | सिंगवरी | खरतरगच्छ समुदाय |
| 68 | श्री ललित मण्डावरा | 25-4-93 | सिंगवरी | खरतरगच्छ समुदाय |

| क्र | दीक्षार्थी/सत-सती का नाम | दिनांक | स्थान | निश्रा/सान्निध्य |
|-----|-----------------------------|-------------|-------------------|---------------------------------|
| 69. | श्री मीना मेहता | 25-4-93 | सिगमरी | खरतरगच्छ समुदाय |
| 70. | श्री भारती वहिन | 28-4-93 | साचौर | आचार्य श्री जिनचन्द्र सूरीजी म. |
| 71. | श्री दिव्या वहिन | 1-5-93 | भाभानगर | आचार्य श्री राजेन्द्र सूरीजी म. |
| 72. | श्री नूतन वहिन | 1-5-93 | भाभानगर | आचार्य श्री राजेन्द्र सूरीजी म. |
| 73. | श्री रमणिकभाई रामाणी | 28-4-93 | थलतेज | आचार्य श्री यशोरत्न सूरीजी म. |
| 74. | श्री जसवंती बेन रामाणी | 28-4-93 | थलतेज | आचार्य श्री यशोरत्न सूरीजी म. |
| 75. | कु. स्मीता रामाणी | 28-4-93 | थलतेज | आचार्य श्री यशोरत्न सूरीजी म. |
| 76. | श्री पूर्णधरा श्रीजी म. | 28-4-93 | थलतेज | आचार्य श्री यशोरत्न सूरीजी म. |
| 77. | कु. रेखा वहिन | 28-4-93 | भाण्डुप-वम्बई | आचार्य श्री हेमप्रभ सूरीजी म. |
| 78. | कु. भावना वहिन | 28-4-93 | भाण्डुप-वम्बई | आचार्य श्री हेमप्रभ सूरीजी म. |
| 79. | कु. मीना कवाड | 28-4-93 | गढ़ सिवाना | खरतरगच्छ समुदाय |
| 80. | कु. पदमा वाफना | 28-4-93 | गढ़ सिवाना | खरतरगच्छ समुदाय |
| 81. | श्री ललिताकुमारी | 25-4-93 | पूना (महा.) | श्री अक्षय विजयजी म. |
| 82. | श्री ऋजुदर्शन विजयजी | वैसाख वद 10 | कलिकुड | आचार्य श्री महोदय सूरीजी म. |
| 83. | श्री मीठालाल सिधवी | 31-5-93 | आहोर | आचार्य श्री गुणरत्न सूरीजी म. |
| 84. | श्री विवृध रेखा श्रीजी | 14-5-93 | छापी | आचार्य श्री भुवनभानु सूरीजी म. |
| 85. | श्री रचिता श्री जी म. | | धुलिया | तपागच्छ समुदाय |
| 86. | श्री कल्पना बेन | 6-6-93 | वम्बई-लालवाग | सागर समुदाय |
| 87. | श्री रक्षाकुमारी | 11-6-93 | साचौर | आचार्य श्री गुणरत्न सूरीजी म. |
| 88. | श्री अंजनाकुमारी | 28-4-93 | चित्रदुर्ग | आचार्य श्री अशोकरत्न सूरीजी |
| 89. | श्री मागीलाल सेठिया | 28-4-93 | कुभोजगिरी | आचार्य श्री महोदय सूरीजी म. |
| 90. | श्री कमला वहिन | 9-5-93 | पिण्डवाड़ा | श्री कमलरत्न विजयजी म. |
| 91. | श्री सतीशकुमार | 28-6-93 | आगासी तीर्थ-वम्बई | पन्थास श्री प्रभाकर विजयजी म. |
| 92. | श्री वितराग विजयजी | 31-5-93 | भरुच | आचार्य श्री राजयश सूरीजी म. |
| 93. | मुनि श्री सागरजी | | रोहा | सागर समुदाय |
| 94. | श्री अक्षतप्रज्ञा श्रीजी म. | माघ वदी 10 | शंखेश्वर तीर्थ | श्री डेहलावाला समुदाय |
| 93. | श्री पुण्य कीर्ति श्रीजी म. | मगसर वद 3 | | श्री बुद्धि सागर सूरीजी म. |

कुल मुनिराज (17) महासत्तियांजी (76) कुल ठाणा (93)

3 श्री जैन श्वेताम्बर त्तरापंथी समुदाय

| क्र | दीक्षाधी/मन-सनी का नाम | दिनांक | स्थान | नित्या/मासिध्य |
|---------------------|------------------------------------|--------------|-----------------------|-------------------|
| मुनि दीक्षा— | | | | |
| 1 | मुनि श्री मधुरकुमारजी (बाबोतरा) | वार्तिक वृ 7 | जैन विश्व भारती ताडनू | आचार्य श्री तुलसी |
| 2 | मुनि श्री जयकुमारजी (टापरा) | वार्तिक वृ 7 | जैन विश्व भारती | आचार्य श्री तुलसी |
| 3 | मुनि श्री पृथ्वीराननी (जस्रान) | पौष शु 10 | बीदासर ,, | आचार्य श्री तुलसी |
| 4 | मुनि श्री हिमाम्बु कुमारजी (असाटा) | माघ वृ 7 | बीदासर ,, | आचार्य श्री तुलसी |
| 5 | मुनि श्री विमल बिहारीनी (टमकार) | चैत्र शु 9 | सरदार शहर | आचार्य श्री तुलसी |

साध्वी दीक्षा—

| | | | | |
|----|------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------|
| 6 | साध्वी श्री विश्रुत विमानी (लाडनू) | वार्तिक वृ 7 | जैन विश्व भारती | आचार्य श्री तुलसी |
| 7 | साध्वी श्री मलय विमानी (लाडनू) | वार्तिक वृ 7 | जैन विश्व भारती | आचार्य श्री तुलसी |
| 8 | साध्वी श्री कुशल विमानी (बीबारा) | , , | जैन विश्व भारती | आचार्य श्री तुलसी |
| 9 | साध्वी श्री जयविमानी (गंगा शहर) | , , | जैन विश्व भारती | आचार्य श्री तुलसी |
| 10 | साध्वी श्री बभन विमानी (डूगरगढ) | , , | जैन विश्व भारती | आचार्य श्री तुलसी |
| 11 | साध्वी श्री दान विमानी (धीनायाम) | , , | जैन विश्व भारती | आचार्य श्री तुलसी |
| 12 | साध्वी श्री मकरविमानी (शाहूदा) | वार्तिक वृ 7 | जैन विश्व भारती | आचार्य श्री तुलसी |
| 13 | साध्वी श्री गुर्णीविमानी (बीदासर) | माघ शु 7 | जैन विश्व भारती | आचार्य श्री तुलसी |

कुल धमण (5)

धमणी (8)

कुल ठाणा (13)

(ए) समणी दीक्षा—

| | | | | |
|----|---------------------------------|--------------|-----------------|-------------------|
| 1 | समणी अश्विनी प्रनजी (मूरल) | श्रावण शु 9 | जैन विश्व भारती | आचार्य श्री तुलसी |
| 2 | समणी विनीत प्रनजी (रायसिंह नगर) | वार्तिक वृ 7 | जैन विश्व भारती | आचार्य श्री तुलसी |
| 3 | समणी मानवप्रनजी (सरदार शहर) | चैत्र शु 9 | सरदार शहर | आचार्य श्री तुलसी |
| 4 | समणी मानव प्रनजी (मूरल) | चैत्र शु 9 | सरदार शहर | आचार्य श्री तुलसी |
| 5 | समणी हम प्रनजी (जाधपुर) | वार्तिक वृ 7 | जैन विश्व भारती | आचार्य श्री तुलसी |
| 6 | समणी गुरुप्रनजी (फतहगढ) | , , | जैन विश्व भारती | आचार्य श्री तुलसी |
| 7 | समणी बमल प्रनजी (रीटीलागढ) | , , | जैन विश्व भारती | आचार्य श्री तुलसी |
| 8 | समणी सध प्रनजी (चारबास) | , , | जैन विश्व भारती | आचार्य श्री तुलसी |
| 9 | समणी मनुप्रनजी (लाडूदा) | , , | जैन विश्व भारती | आचार्य श्री तुलसी |
| 10 | समणी बचन प्रनजी (समदडा) | , , | जैन विश्व भारती | आचार्य श्री तुलसी |
| 11 | समणी मनन प्रनजी (ताडूदा) | , , | जैन विश्व भारती | आचार्य श्री तुलसी |
| 12 | समणी रुची प्रनजी (पनेहूदा) | , , | जैन विश्व भारती | आचार्य श्री तुलसी |
| 13 | समणी नलय प्रनजी (टीटीनागढ) | वार्तिक वृ 7 | जैन विश्व भारती | आचार्य श्री तुलसी |

| क्र | दीक्षार्थी/सत-सती का नाम | दिनांक | स्थान | निश्चा/सान्निध्य |
|-------------|------------------------------|-----------|-----------------|------------------------------|
| 14. | समणी श्रीमल प्रजाजी (समदडी) | „ „ | जैन विश्व भारती | आचार्य श्री तुलसी |
| 15. | समणी अचल प्रजाजी (समदडी) | „ „ | जैन विश्व भारती | आचार्य श्री तुलसी |
| 16. | समणी पुण्य प्रजाजी (अषाढा) | „ „ | जैन विश्व भारती | आचार्य श्री तुलसी |
| 17. | समणी जिन प्रजाजी (सरदार शहर) | „ „ | जैन विश्व भारती | आचार्य श्री तुलसी |
| 18. | समणी श्री कमल प्रजाजी | अक्टू 92 | जयपुर | मुनि श्री सुमेर मुनिजी म सा. |
| 19. | समणी श्री संवर प्रजाजी | अक्टू 92 | जयपुर | मुनि श्री सुमेर मुनिजी म सा. |
| 20. | समणी | 1-4-93 | सरदार शहर | आचार्य श्री तुलसी |
| कुल समण (4) | | समणी (16) | कुल (20) | |

नोट--जैन विश्व भारती के आगे लाडनू पढ़े ।

4. द्विगम्बर समुदाय

| | | | | |
|-----|---------------------------|----------|----------------|---------------------------------|
| 1 | श्री निजानन्दजी | 30-8-92 | इन्दौर | पुनः दीक्षा |
| 2. | श्री शिखरचन्द्र जैन | 7-9-92 | गिरनार | आचार्य श्री |
| 3. | श्री नय सागर जी म.सा | 30-12-92 | एतमादपुर आगरा | वालाचार्य श्री नेमीसागरजी जी म. |
| 4. | अयिका नम्र श्री माताजी | 30-12-92 | एतमादपुरा आगरा | वालाचार्य श्री नेमीसागर जी म. |
| 5. | श्री सिद्धात्तमति माताजी | 25-1-93 | जवलपुर | आचार्य श्री विद्या सागरजी म. |
| 6. | अकलकमति माताजी | 25-1-93 | जवलपुर | आचार्य श्री विद्यासागरजी म. |
| 7. | श्री निकलकमति माताजी | 25-1-93 | जवलपुर | आचार्य श्री विद्यासागरजी म. |
| 8. | श्री आगम मति माताजी | 25-1-93 | जवलपुर | आचार्य श्री विद्यासागरजी म. |
| 9. | श्री स्वाध्याय मति माताजी | 25-1-93 | जवलपुर | आचार्य श्री विद्यासागरजी म. |
| 10 | श्री नम्रमति माताजी | 25-1-93 | जवलपुर | आचार्य श्री विद्यासागरजी म |
| 11 | श्री विनम्रमति माताजी | 25-1-93 | जवलपुर | आचार्य श्री विद्यासागरजी म. |
| 12. | श्री अतुलमति माताजी | 25-1-93 | जवलपुर | आचार्य श्री विद्यासागरजी म. |
| 13 | श्री विणदमति माताजी | 25-1-93 | जवलपुर | आचार्य श्री विद्यासागरजी म |
| 14. | श्री पुराणमति माताजी | 25-1-93 | जवलपुर | आचार्य श्री विद्यासागरजी म |
| 15. | श्री विनतमति माताजी | 25-1-93 | जवलपुर | आचार्य श्री विद्यासागरजी म |
| 16. | श्री विपुलमति माताजी | 25-1-93 | जवलपुर | आचार्य श्री विद्यासागरजी म |
| 17 | श्री मधुरमति माताजी | 25-1-93 | जवलपुर | आचार्य श्री विद्या सागरजी म. |
| 18. | श्री प्रसन्नमति माताजी | 25-1-93 | जवलपुर | आचार्य श्री विद्यासागरजी म |
| 19. | श्री प्रसन्नमति माताजी | 25-1-93 | जवलपुर | आचार्य श्री विद्यासागरजी म |
| 20. | श्री अधिगम मति माताजी | 25-1-93 | जवलपुर | आचार्य श्री विद्यासागरजी म. |

| क्र | दीक्षाधीन/मन-मर्त्या नाम | दिनांक | स्थान | विद्या/माध्विद्य |
|-----------------|------------------------------|-------------|--------------|-------------------------------|
| 21 | श्री मुद्रितमति माताजी | 25-1-93 | जवलपुर | श्री आचार्य विद्याभागरजी म |
| 22 | श्री मृदुमति मानार्जी | 25-1-93 | जवनपुर | आचार्य श्री विद्याभागरजी म |
| 23 | श्री अनंतमति मानार्जी | 25-1-93 | जवनपुर | आचार्य श्री विद्याभागरजी म |
| 24 | श्री जनुगममति माताजी | 25-1-93 | जवनपुर | आचार्य श्री विद्याभागरजी म |
| 25 | श्री जभेदमति माताजी | 25-1-93 | जवनपुर | आचार्य श्री विद्याभागरजी म |
| 26 | श्री एकत्वमति माताजी | 25-1-93 | जवनपुर | आचार्य श्री विद्याभागरजी म |
| 27 | श्री वैश्वमति माताजी | 25-1-93 | जवनपुर | आचार्य श्री विद्याभागरजी म |
| 28 | श्री सक्कामति माताजी | 25-1-93 | जवनपुर | आचार्य श्री विद्याभागरजी म |
| 29 | श्री निर्वैगमति माताजी | 25-1-93 | जवनपुर | आचार्य श्री विद्याभागरजी म |
| 30 | श्री सुविद्यमति माताजी | 4-5-93 | इन्दौर | |
| 31 | श्री स्वयममति माताजी | 4-5-93 | इन्दौर | |
| 32 | श्री | 4-4-93 | वटनी | श्री आचार्य कल्पसंमतिभागरजी म |
| 33 | एल्लव श्री सुग्रेन्द्र कुमार | 1-1-93 | इन्दौर | |
| 34 | धुल्लव श्री | 25-7-93 | भोलवाडा | मुनि श्री परमनदी म |
| 35 | आयिरा श्री | 25-7-93 | भोलवाडा | मुनि श्री पदमनदीजी म |
| कुल मुनिराज (5) | | आयिकाए (30) | कुल योग (35) | |

समग्र जैन सम्प्रदायो मे कुल नई दीक्षा 1993

| क्रस | सम्प्रदाय | मुनिराज | साध्विपंजी | कुल ठाणा |
|---------|------------------------|---------|------------|----------|
| (1) | श्वे स्वानवचामी समुदाय | 13 | 80 | 93 |
| (2) | श्वे मूर्ति समुदाय | 17 | 76 | 93 |
| (3) | श्वे तेरापथी समुदाय | 5 | 8 | 13 |
| (4) | दिगम्बर समुदाय | 5 | 30 | 35 |
| कुल योग | | 40 | 194 | 234 |

नोट—इसके अलावा श्वे तेरापथी समुदाय मे 4 समण एव 16 समणीया न भी समण-समणी दीक्षा अर्गीकार की है।

अ. भा. स्था. जैन दीक्षा (त्रयोदश वर्ष) संक्षिप्त तालिका

(सन् 1981 से 1993 तक)

| सम्प्रदाय | 93 | 92 | 91 | 90 | 89 | 88 | 87 | 86 | 85 | 84 | 83 | 82 | 81 | 13 वर्षों का कुल योग |
|-----------------------|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|----|-----|-----|----------------------|
| श्रमण संघ | 38 | 19 | 25 | 24 | 25 | 27 | 21 | 48 | 35 | 42 | 31 | 41 | 40 | 416 |
| स्वतंत्र सम्प्रदाय | 21 | 37 | 27 | 28 | 24 | 24 | 35 | 30 | 24 | 55 | 24 | 41 | 19 | 389 |
| वृहद गुजरात सम्प्रदाय | 34 | 19 | 30 | 14 | 32 | 30 | 40 | 30 | 42 | 45 | 43 | 45 | 42 | 446 |
| कुल योग— | 93 | 75 | 82 | 66 | 81 | 81 | 96 | 108 | 101 | 142 | 98 | 127 | 101 | 1251 |

नोट.—उपर्युक्त तालिका की जानकारी श्वे. स्थानकवासी जैन चातुर्मास सूची 1979 से 1985 एव समग्र जैन चातुर्मास सूची 1986 से 1993 के प्रकाशन वर्ष की चातुर्मास सूची पुस्तकों के अनुसार यहाँ प्रस्तुत की गयी है, इससे आप आसानी से अनुमान लगा सकते हैं कि स्था. समुदाय में नई दीक्षाओं की क्या स्थिति है सख्या घट रही या बढ़ रही है।

अ. भा. समग्र जैन नई दीक्षा (अष्टम् वर्ष) तुलनात्मक तालिका

| क्र. स. सम्प्रदाय | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | योग |
|---------------------|------|------|------|------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| | कुल | कुल | कुल | कुल | कुल | कुल | कुल | कुल | अष्टम्-वर्ष |
| 1. श्वे. मूर्तिपूजक | 93 | 19 | 93 | 155 | ज्ञात नहीं | ज्ञात नहीं | ज्ञात नहीं | ज्ञात नहीं | — |
| 2. श्वे. स्थानकवासी | 93 | 75 | 82 | 66 | 81 | 81 | 96 | 108 | 682 |
| 3. श्वे. तेरापथी | 13 | 14 | 11 | 18 | ज्ञात नहीं | ज्ञात नहीं | ज्ञात नहीं | 10 | — |
| 4. दिगम्बर | 35 | 29 | 15 | 28 | ज्ञात नहीं | ज्ञात नहीं | ज्ञात नहीं | ज्ञात नहीं | — |
| कुल योग | 234 | 137 | 201 | 267 | — | — | — | — | — |

नोट.—सन् 1980 से वर्तमान तक स्थानकवासी समुदाय की नई दीक्षा हर वर्ष निरन्तर प्रकाशित करते आ रहे हैं। सन् 1986 से 1989 तक अन्य समुदायों की सूचियाँ प्रकाशित नहीं कर सके, सन् 1990 से वर्तमान तक समग्र जैन समाज की नई दीक्षा सूची प्रकाशित कर रहे हैं।

अ. भा. समग्र जैन सत्-सती महाप्रधारा सूची-1993

(दिनांक 1-8-92 से 30-9-93 तक)

| नाम सत्-सती | दिनांक | स्थान | समुदाय |
|---|----------|----------------|-----------------------------------|
| 1 श्री सागर कुवरजी म सा | 5-8-92 | सिवाना | ज्ञान गच्छ समुदाय |
| 2 श्री जीवन मुनि जी म सा | 16-8-92 | वरही | श्रमण सघ समुदाय |
| 3 श्री दमयन्ती बाई म सा | 22-8-92 | अहमदाबाद | दरियापुरी समुदाय |
| 4 श्री हिमांगु विजय म सा | 9-9-92 | मोहनबेडा | निस्तुतिका सघ समुदाय |
| 5 श्री साहन कुवरजी म सा | 13-9-92 | घाजापुर | श्रमण सघ समुदाय |
| 6 श्री ओम सागरजी म सा | 22-9-92 | तारगाजी तीथ | दिगम्बर समुदाय |
| 7 मुनि श्री | सित 92 | भायन्दर | सागर समुदाय |
| 8 श्री जनन कुमारीजी म सा | सित 92 | चुरू | तेरापथी समुदाय |
| 9 श्री गुलाबजी म सा | मित 92 | गोगुन्दा | तेरापथी समुदाय |
| 10 श्री विरपी कुवरजी म सा | 9-10-92 | पीपलगाव वसवत | श्रमण सघ समुदाय |
| 11 आचार्य श्री शुभकर सूरिजी म सा | 12-10-92 | गाध्रग | तपागच्छ समुदाय |
| 12 परान श्री रामनिबामजी म सा | 4-11-92 | इन्दौर | श्रमण सघ समुदाय |
| 13 श्री सुमतिमती माताजी | 11-11-92 | मदनगज | दिगम्बर समुदाय |
| 14 श्री वमला कुवरजी म सा | 12-11-92 | वदनावर | श्रमण सघ समुदाय |
| 15 श्री भाग्यवती बाई म सा (सथारा 60 दिन) | 14-11-92 | राजकोट | गोडल मोटीपक्ष समुदाय |
| 16 श्री सुमति कुवरजी म सा | 8-11-92 | छोटी सादडी | माधुमार्गी समुदाय |
| 17 श्री विशुद्ध विजयजी म सा | नव 92 | वाली (राज) | आचार्य श्री चन्द्रदिल सूरिजी म सा |
| 18 श्री विनीप्रभ विजयजी म सा | नव 92 | वैंगलार | तपागच्छ समुदाय |
| 19 श्री वीर प्रभा श्रीजी म सा | नव 92 | वडोदा | खरतरगच्छ समुदाय |
| 20 श्री विभाण श्री जी म सा | 30-11-92 | फलोदी | खरतरगच्छ समुदाय |
| 21 श्री राय कुवरजी म सा | नव 92 | लाडनू | तेरापथी समुदाय |
| 22 श्री धनकुवरजी म सा | नव 92 | खाटू | तेरापथी समुदाय |
| 23 आचार्य श्री जयत गेखर सूरिजी | 2-12-92 | वटवाण | आचार्य श्री रामचन्द्र सूरिजी म सा |
| 24 श्री प्रभात मुनिजी म सा | 18-12-92 | जनकाई | गोडल मोटा पक्ष समुदाय |
| 25 श्री चन्द्रकुवरजी म सा | 18-12-92 | मदमौर | साधुमार्गी सम्प्रदाय |
| 26 श्री अमर मुनि जी म सा | 23-12-92 | वीकानेर | साधुमार्गी सम्प्रदाय |
| 27 श्री सूरज कुवरजी म सा | 16-1-93 | अहमदनगर | श्रमण सघ समुदाय |
| 28 श्री सखत श्रीजी म सा (57 दिन सथारा) | 16-1-93 | सुरेद्रनगर | आचार्य श्री चन्द्रदिल सूरिजी म |
| 29 श्री शांति मुनिजी म सा | 22-1-93 | (हातोद) इन्दौर | श्रमण सघ समुदाय |

| क्र | नाम सत-सती का | दिनांक | स्थान | समुदाय |
|-----|------------------------------------|-----------------|------------------------------|-------------------------------|
| 30. | श्री नन्दन विजयजी म सा. | 26-1-93 | खानपुर | तपागच्छ समुदाय |
| 31. | श्री मुनि श्री शुभकरणजी म सा. | 11-2-93 | लाछूडा (मेवाड) | तेरापंथी समुदाय |
| 32. | श्री सुन्दर कुंवरजी म सा. | फरवरी/मार्च 93 | | श्रमण संघ समुदाय |
| 33. | आचार्य श्री अरूणप्रभ सूरिजी म, सा. | 5-3-93 | गुन्दी ग्राम (गुज.) | आचार्य श्री भद्रंकरं सूरिजी म |
| 34. | मुनि श्री वीर सागरजी म सा | 10-3-93 | कुन्थलगिरी | दिगम्बर समुदाय |
| 35. | आचार्य श्री दक्ष सूरिजी म. सा | 11-3-93 | आगासी तीर्थ (बम्बई) | आचार्य श्री नेमीसूरिजी म. |
| 36. | श्री मुक्ति विजयजी म. सा. | 13-3-93 | उम्मेदावाद (राज) | आचार्य श्री वल्लभ सूरिजी म. |
| 37. | मुनि श्री चिदानंदजी म. सा. | मार्च 93 | छापर | तेरापंथी समुदाय |
| 38. | मुनि श्री प्रीतम मुनिजी म. सा. | 10-3-93 | प्रभात (पंजाब) | श्रमण संघ समुदाय |
| 39. | मुनि श्री ऋषभ सेनजी म. सा. | 14-3-93 | धर्मनगर | दिगम्बर समुदाय |
| 40. | महा. श्री कमलाबाई म. सा. | 16-3-93 | जोरावर नगर | लिम्बडी गोपाल समुदाय |
| 41. | शु सुप्रभसागरजी म.सा. | 19-3-93 | मागी तुगी तीर्थ (मालेगाव) | दिगम्बर समुदाय |
| 42. | मुनि श्री जयचन्द्रलालजी म सा | 21-3-93 | छापर | तेरापंथी समुदाय |
| 43. | आचार्य श्री रामजी स्वामी | 27-3-93 | वडाला कच्छ | कच्छ नानी पक्ष समुदाय |
| 44. | महा. श्री पानकंवरजी म. सा. | मार्च 93 | वीदासर | तेरापंथी समुदाय |
| 45. | उपाध्याय श्री पुष्कर मुनिजी म सा. | 3-4-93 | उदयपुर | श्रमण संघ समुदाय |
| 46. | महा श्री मधुस्मिताजी म. सा. | 18-4-93 | मेरठ | ज्ञान गच्छ उमुदाय |
| 47. | आचार्य श्री भुवनभानु सूरिजी म सा. | 19-4-93 | अहमदावाद | आ. श्री प्रेमसूरिजी (भाग 2) |
| 48. | महा श्री सुकाजी म सा | 21-4-93 | उदयपुर | श्रमण संघ समुदाय |
| 49. | महा श्री लुकाजी म. सा. | 21-4-93 | आबू (राज) | ज्ञानगच्छ समुदाय |
| 50. | श्री धर्म कीर्ती यश सागरजी म. सा. | 4-6-93 | धारागधा | तपागच्छ समुदाय |
| 51. | महा श्री सुचोलनाबाई म. सा | 20-6-93 | सायन बम्बई | लिम्बडी मोटा पक्ष |
| 52. | श्री पदमयशा श्रीजी | 26-6-93 | | श्री युग दिवाकर समुदाय |
| 53. | श्री निर्मोही मुनिजी | 7-7-93 | मेता (अहमदावाद) | सायला समुदाय |
| 54. | पन्यास श्री चन्द्रकिर्ती विजयजी | | बालकेश्वर | तपागच्छ समुदाय |
| 55. | श्री ज्ञान कुंवरजी म. सा | 5-5-93 | | साधुमार्गी समुदाय |
| 56. | श्री अजब कुवरजी म. सा | 9-7-93 | बालकेश्वर | दरियापुरी समुदाय |
| 57. | महा. श्री मोहन कुंवरजी म सा | 26-6-93 | रतलाम | श्रमण संघ समुदाय |
| 58. | महा श्री वखतवाई म सा | 6-6-93 | जामनगर | गोंडल मोटी पक्ष - समुदाय |
| 59. | पन्यास श्री भद्रशील विजयजी म सा. | 3-6-93 | भंडुरी (गुज) | तपागच्छ समुदाय |
| 60. | आचार्य श्री अणोकचंद्र सूरिजी म.सा. | जैष्ठ शुक्ला 12 | पाटण | श्री डेहलावाला समुदाय |
| 61. | श्री दमयंती श्रीजी म सा | | जूना महाजनवाडी | श्री डेहलावाला समुदाय |
| 62. | श्री तीर्थप्रभाश्रीजी म सा. | | भीनम | श्री डेहलावाला समुदाय |

| क्र | नाम मन् मनी | दिनांक | स्थान | समुदाय |
|------------------|-----------------------------|------------------|----------|-------------------------|
| 63 | श्री. प्रियप्रभाश्रीजी म मा | | अहमदाबाद | श्री. डेहनावाग। समुदाय |
| 64 | श्री. वि. गणता श्रीजी म मा | चैन बदी 14 | अहमदाबाद | श्री बुद्धि सागर सूरीजी |
| 65 | श्री मुखदवाजी म मा | पोपबदी 13 | राजलदेमर | तरापदी समुदाय |
| 66 | श्री विनय श्रीजी म मा | ब्रैशाघ शुक्ला 6 | सुजानगद | तरापदी समुदाय |
| कुल मुनिराज (31) | | साध्वीयाजी (35) | | कुल ठाणा (66) |

अ. भा समग्र जैन सत-सती महाप्रयाण तालिका 1993

| क्रमान | समुदाय | मुनिराज | साध्वीया | कुल ठाणा |
|---------|-------------------------|---------|----------|----------|
| 1 | श्वेताम्बर मूर्ति पूजक | 14 | 6 | 23 |
| 2 | श्वेताम्बर स्थाननधार्मी | 9 | 19 | 28 |
| 3 | श्वेताम्बर तरापदी | 3 | 7 | 10 |
| 4 | निगमर | 4 | 1 | 5 |
| कुल योग | | 30 | 36 | 66 |

अ भा समग्र जैन सत-सती महाप्रयाण (अष्टम् वर्ष) तुलनात्मक तालिका (सन् 1986 से 1993 तक)

| क्र | समुदाय | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 |
|---------|-------------------|------|------|------|------|--------------------|------|------|------|
| म | | कुल | कुल | कुल | कुल | कुल | कुल | कुल | कुल |
| 1 | श्वे मूर्तिपूजक | 23 | 25 | 23 | 25 | —वर्ष नहीं हो सके— | | | |
| 2 | श्वे स्थाननधार्मी | 28 | 32 | 33 | 23 | 24 | 19 | 19 | 29 |
| 3 | श्वे तरापदी | 10 | 9 | 6 | 12 | —वर्ष नहीं हो सके— | | | |
| 4 | निगमर | 5 | 7 | 6 | 10 | —वर्ष नहीं हो सके— | | | |
| कुल योग | | 66 | 73 | 68 | 70 | — | — | — | — |

अ. भा. स्थानकवासी जैन संत-सती महाप्रयाण-संक्षिप्त तालिका

सन् 1981 से 1993 (13 वर्ष)

(चातुर्मास सूची 1981 से 1993 के अनुसार)

| 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | 1985 | 1984 | 1983 | 1982 | 1981 | 13 वर्ष |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---------|
| कुल | कुल | कुल | कुल | कुल | कुल | कुल | कुल | कुल | कुल | कुल | कुल | कुल | |
| 28 | 32 | 33 | 23 | 24 | 19 | 19 | 29 | 29 | 33 | 23 | 25 | 26 | 343 |

दिवंगत साधु-साध्वियों की मुख्य विशेषताएँ

1. आचार्य श्री प्रेम सूरीश्वरजी म सा. (भाग द्वितीय) समुदाय के गच्छाधिपति, संघ नायक आचार्य प्रवर श्री विजय भुवन भानु सूरीश्वरजी म सा. का 19-4-93 को महाप्रयाण हो गया। (जन्म-मृत्यु 19-गप्रेल)
2. श्रमण संघीय उपाध्याय श्री पुष्कर मुनिजी म सा. का उदयपुर में महाप्रयाण हो गया आप श्रमण संघ के प्रभावशाली उपाध्याय थे।
3. श्वे. स्था. कच्छ नानी पक्ष के संघ नायक आचार्य प्रवर श्री रामजी म.सा का वडाला-कच्छ में महाप्रयाण हो गया।
4. गोंडल मोटा पक्ष समुदाय की महासती श्री भाग्यवती बाई म. सा. का 60 दिन तक गजकोट में संथारा चला जो इतने दिनों तक संथारा विगत तीन वर्षों में कहीं पर भी सुनने में नहीं आया। इससे पूर्व 73 दिनों का संथारा स्थानकवासी समुदाय में ही श्री बट्टीप्रसादजी म सा. का संथारा पूर्ण हुआ था।
5. श्रमण संघीया महासती श्री विरत्रीकुंवरजी म का पिपलगाव-वसवंत में 22 दिन तक संथारा चला लेकिन विशेष बात यह रही कि महासतीजी की वय 96 वर्ष की थी जो वर्तमान में एक रिकार्ड बना है कि सर्वाधिक वय में सर्वाधिक संथारा किसी को आया हो।
6. श्रमण संघीय सलाहकार श्री जीवन मुनिजी म.सा का अरही में महाप्रयाण हुआ। इस तरह श्रमण संघ में एक सलाहकार का स्थान रिक्त हुआ।
7. श्रमण संघ में कोटा समुदाय के नाम से विख्यात व सुप्रसिद्ध गायन निधि पं. रत्न श्री रामनिवासजी म.सा. का 87 वर्ष की वय में इन्दौर में महाप्रयाण हुआ। विशेष बात यह रही कि आप कोटा समुदाय के एक मात्र वयोवृद्ध संत थे जो अब कोई नहीं रहा। द्वितीय इन्दौर में प्रतिदिन लगभग 400-500 व्यक्ति आपकी मांगलिक सुनने आया करते थे।
8. श्रमण संघीय महासती श्री सूरज कुंवरजी म सा का अहमदनगर में 57 दिनों तक संथारा चलने के पश्चात पूर्ण होने पर महाप्रयाण हुआ।
9. इस वर्ष साधु-साध्वियों में पदाधिकारियों में 7 आचार्यों, (6 आचार्य श्वे. मूर्ति समुदाय के, 1 स्थानकवासी समुदाय) 2 पन्थास, 1 उपाध्याय, 1 सलाहकार आदि का महाप्रयाण हुआ। इस वर्ष 7 आचार्यों का चला जाना जैन समाज के लिए भारी आघात है।

नोट:—परिषद् के सदस्यों की ओर से सभी दिवंगत पूज्य आचार्यों, साधु-साध्वियों के प्रति हार्दिक श्रद्धा सुमन श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए शासन देव से यही प्रार्थना करते हैं कि उन सभी की आत्माओं को चिरः शान्ति प्रदान करें।

—परिषद् के सदस्यगण

अ भा समग्र जैन उच्च शिक्षा प्राप्त साधु-साध्वी सूची

(1) श्वेताम्बर स्थानकवासी सम्प्रदाय

(क) M A P H D साधु-साध्वीयाँ

| क्र | जन-मती का नाम | सम्प्रदाय | चातुर्मास सत्र, 1993 |
|--------------------|------------------------------------|-----------------------|----------------------|
| सत-मुनिराज समुदाय | | | |
| 1 | युवाचाय डॉ शिव मुनिजी म मा | श्रमण सघ | मद्रास |
| 2 | उपप्रबन्ध डॉ राजेन्द्र मुनिजी म मा | श्रमण सघ | भीलवाटा |
| 3 | डॉ मुजत मुनिजी म मा | श्रमण सघ | दिल्ली |
| 4 | डॉ राजेन्द्र मुनिजी म 'रुने' | श्रमण सघ | देवगढ़-मदारिया |
| 5 | डॉ पद्म मुनिजी म मा | ज्यमन समुदाय | नागौर |
| महासतिषाजी समुदाय— | | | |
| 1 | डॉ धर्मशीलाजी म मा | श्रमण सघ | पूना (आदिनाथ) |
| 2 | डा ज्ञानरताजी म मा | श्रमण सघ | मद्रास |
| 3 | डॉ दशरथभाजी म मा | श्रमण सघ | बुधार्निया |
| 4 | डॉ प्रभा श्रीजी म मा | श्रमण सघ | मन्दसौर |
| 5 | डॉ सुशीलजी म मा | श्रमण सघ | मन्सूर |
| 6 | डॉ प्रियदर्शनाजी म मा | श्रमण सघ | मद्रास |
| 7 | डॉ ललितप्रभाजी म मा | श्रमण सघ | पूना |
| 8 | डॉ भक्तिप्रभाजी म मा | श्रमण सघ | तुप्रियाना |
| 9 | डॉ दिव्यप्रभाजी म मा | श्रमण सघ | तुप्रियाना |
| 10 | डॉ अनुपम साधनाजी म मा | श्रमण सघ | तुप्रियाना |
| 11 | डॉ मरीच श्रीजी म मा | श्रमण सघ | दिल्ली-आदशनाथ |
| 12 | डॉ अचलजी म मा | श्रमण सघ | जोधपुर |
| 13 | डॉ मजु श्रीजी म मा | श्रमण सघ | दिल्ली-अज्ञान विहार |
| 14 | डॉ लिव्यप्रभाजी म मा | श्रमण सघ | गनावपुरा |
| 15 | डॉ मुरभाजी म मा | श्रमण सघ | विशालगढ़ |
| 16 | डॉ अरुणप्रभाजी म मा | श्रमण सघ | जाकिना |
| 17 | डॉ वसुधा कुशरजी म मा | जाचाय श्री महानाथजी म | विशय नगर |
| 18 | डा पानलताजी म मा | | जजमेर |
| 19 | डा लक्ष्मणरताजी म मा | | जजमेर |
| 20 | डॉ चरित्ररताजी म मा | | जजमेर |
| 21 | डॉ तन्वीशारी म मा | सोनी पार | |
| 22 | डॉ हृदयप्रभाती | श्रमण सघ | जजमेर |

(ख) M., A., B. A., B. Com., C. A. उत्तीर्ण साधु-साध्वीयाँ

| क्र | मंत-मती का नाम | शिक्षा | समुदाय | चातुर्मास स्थल 1993 |
|---------------------------|----------------------------------|-------------|----------------|---------------------|
| मुनिराज समुदाय-- | | | | |
| 1. | उपाध्याय श्री विशालमुनिजी म. सा. | M. A | श्रमण संघ | सिकन्द्रावाद |
| 2. | श्री नरेशमुनिजी म. सा. | M. A. | श्रमण संघ | भीलवाड़ा |
| 3. | श्री वरदानमुनिजी म सा | M. A. | श्रमण संघ | --- |
| 4. | श्री अलकेशमुनिजी म मा. | B A. | श्रमण संघ | --- |
| 5. | श्री आर्जाप मुनिजी म. सा | M. A. | श्रमण संघ | कोप्पल |
| 6. | श्री उत्तम मुनिजी म मा. | M A. | श्रमण संघ | कोप्पल |
| 7. | श्री हेमन्त मुनिजी म मा. | B. Com | श्रमण संघ | कोप्पल |
| 8. | श्री प्रमोद मुनिजी म सा | C. A | रत्नवंश समुदाय | जयपुर |
| महासतियाँजी समुदाय | | | | |
| 1. | श्री गरिमाजी म सा | Double M A | श्रमण संघ | गुलावपुरा |
| 2. | श्री अनुपमाजी म सा | B A. | श्रमण संघ | गुलावपुरा |
| 3. | श्री रत्नकाजी म मा | M. A | श्रमण संघ | कुवारियाँ |
| 4. | श्री राजश्रीजी म मा | M. A | श्रमण संघ | कुवारियाँ |
| 5. | श्री प्रतिभाजी म. मा | B. A. | श्रमण संघ | कुवारियाँ |
| 6. | श्री सम्यक् दर्शनाजी म. सा. | B. A | श्रमण संघ | मद्रास |
| 7. | श्री विराग दर्शनाजी म मा. | B. A. | श्रमण संघ | मद्रास |
| 8. | श्री मुप्रिय दर्शनाजी म सा | B A | श्रमण संघ | मद्रास |
| 9. | श्री श्रुति दर्शनाजी म मा. | M. A. | श्रमण संघ | मद्रास |
| 10. | श्री नुनन्दार्जी म. मा. | M. A. | श्रमण संघ | नासिक सिटी |
| 11. | श्री यशार्जी म सा | M. A | श्रमण संघ | नासिक सिटी |
| 12. | श्री मुमतिजी म मा | M. A. | श्रमण संघ | नासलगाव |
| 13. | श्री चारित्रप्रभाजी म मा | B. A. | श्रमण संघ | पूना (आदिनाथ) |
| 14. | श्री पुष्प जीलाजी म मा | B. A. | श्रमण संघ | पूना (आदिनाथ) |
| 15. | श्री न्हप्रभाजी म मा | B. A. | श्रमण संघ | पूना (सादडी सदन) |
| 16. | श्री न्मृतिजी म. मा | M. A. | श्रमण संघ | रोयड (पंजाब) |
| 17. | श्री अनिल कुमारीजी म मा. | Double M A | श्रमण संघ | दिल्ली-विश्वनाथ नगर |
| 18. | श्री नीना कुमारीजी म मा. | M. A. | श्रमण संघ | दिल्ली कैलाशनगर |
| 19. | श्री नरिताजी म मा | Double M A. | श्रमण संघ | गाजियाबाद |

कुल नत (4) महासतियाँजी (19) कुल ठाणा (23)

अ. भा समग्र जैन साहित्य पुरस्कार सूची

समग्र जैन समाज की साहित्य पुरस्कार प्रदान करने वाली सस्थाओं की सूची

| क्र | पुरस्कार का नाम | पुरस्कार प्रदाता/सम्पापक का नाम | पुरस्कार मर्यादा | पुरस्कार राशि रकम |
|-----|---|---|---------------------|----------------------|
| 1 | अणुमत पुरस्कार | श्री जय तुलसी फाउण्डेशन अणुमत भवन, 210, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली-110 002 | 1 | 1,00,000/- |
| 2 | बुद्धबुद्ध चरित्रोत्थ | श्री बुद्धबुद्ध चरित्रोत्थ श्री दिगम्बर जैन उदारमार्ग जाधम 584, महात्मा गांधी रोड, इंदौर-452 002 (म प्र) | 6 | 21,000/- |
| 3 | अहत्तु बचन पुरस्कार | श्री दिगम्बर जैन उदारमार्ग, आश्रम, 584, महात्मा गांधी रोड, इंदौर-452 002 (म प्र) | | |
| 4 | विद्वत् पुरस्कार | व भा दिगम्बर जैन शास्त्री परिषद 12/544, महात्मा गांधी रोड मु. पो. बटाण (उत्तर प्रदेश) 250 611 | 4 | 21,000/- |
| 5 | जै. साहित्य पुरस्कार | बंगाल प्रांतीय भार्गवर्षीय दिगम्बर जैन महासभा 12-C-लाट मिहारा रोड, 3-E थ्याम्स ब्रुज, कलकत्ता-700 071 (प बंगाल) | 1 | 21,000/- |
| 6 | आचार्य आनन्दकृष्णजी साहित्य पुरस्कार | श्री तिलक रत्न स्या जै. धार्मिक परीक्षा बोर्ड सुवर्मा वापारतय, आचार्य श्री आनन्दकृष्णजी मार्ग, अहमद नगर-414 001 (महाराष्ट्र) | 1 | 15,000/- |
| 7 | महावीर पुरस्कार | डा कमलचंद मोघानी जैन विद्या संस्थान, दिगम्बर जैन नर्मिया, भट्टारखजी, मन्दाई मानसिंह रोड, जयपुर-302004 (राजस्थान) | 1 | 11,000/- |
| 8 | नाहर सम्मान पुरस्कार | श्री मुखरराज बाबूलाल नाहर चरित्रोत्थ ट्रस्ट, राजस्थान बलरूपेयारणमोक्षिपथ, 209, वामन हाउस, 2 माला 104, गौरीदासर माल्हर रोड, फाट चम्पई 400 023 (महाराष्ट्र) | 3 | 21,000/- |

| | | | | |
|-----|--|--|---|----------|
| 9 | श्री कैलादेवी सुमति प्रसाद जैन पुरस्कार | श्री मेघराज जैन द्वारा मैमर्स अरिहत इन्टरनेशनल गली कुजस दरीवा, दिल्ली-110 006 | 1 | 51,00/- |
| 10. | आचार्य विद्यानन्द पुरस्कार | श्री दक्षिण भारत जैन सभा, (महाराष्ट्र) | 1 | 5,000/- |
| 11. | श्री गणेश वर्णी साहित्य पुरस्कार | श्री गणेश वर्णी साहित्य पुरस्कार समिति, श्री स्यादवाद महा विद्यालय, भेदनी, वाराणसी-221 011 (उ प्र.) | 1 | 5,000/- |
| 12. | श्री प्रदीपकुमार रामपुरिया स्मृति पुरस्कार | अ भा साधुमार्गी जैन सघ, समता भवन, रायपुरिया सड़क वीकानेर-(राजस्थान)-334 001 | 3 | 11,000/- |
| 13. | श्वे जैन युवा प्रतिभा पुरस्कार | जयपुर युवा प्रतिभा खोज द्वारा जयपुर पब्लिसिटी सेटर ऐ-31, कचन अपार्टमेंट्स, लाल बहादुर शास्त्री कॉलेज के सामने तिलक नगर, जयपुर-302 004 (राजस्थान) | 4 | |
| 14. | कीर्ति पुरस्कार | भारत जैन महामण्डल, 108, स्टेण्डर्ड हाउस, 1 माला 83, एम के मार्ग, मरीन लाईन बम्बई-400 002 (महाराष्ट्र) | 4 | |
| 15. | जैन एकता पुरस्कार | अ भा समग्र जैन चातुर्मास सूची प्रकाशन परिषद्, 105, तिरुपति अपार्टमेंट्स, आकुर्ली कोस रोड न 1, कादिवली (पूर्व), बम्बई-400 101 (महाराष्ट्र) | 5 | 1501/- |
| 16. | आचार्य हस्ती स्मृति पुरस्कार | सम्यग् ज्ञान प्रचारक मण्डल 83, वापू वाजार जयपुर-3 (राज) | 1 | 11,000/- |
| 17. | मूर्ति देवी साहित्य पुरस्कार | श्री भारतीय ज्ञान पीठ 18 इंस्टिट्यूशनल एरिया, लोदी रोड नई दिल्ली-110 003 | 1 | 21,000/- |
| 18 | अहिंसा डिप्टीमल जैन स्मृति पुरस्कार | अहिंसा इन्टरनेशनल 53, ऋषभ विहार, दिल्ली-110 092 | 1 | 11,000/- |
| 19 | कुन्दकुन्द भारती पुरस्कार | कुन्दकुन्द भारती, 18-वी-स्पेशल इंस्टिट्यूशनल एरिया नई दिल्ली-110 067 | 1 | 5,000/- |
| 20. | गोमटेश्वर विद्यापीठ पुरस्कार | गोमटेश्वर विद्यापीठ पुरस्कार समिति श्रवणवेलगोला (कर्नाटक)-573 135 | 1 | 5,000/- |
| 21. | मराठी जैन साहित्य पुरस्कार | श्री लक्ष्मीसेन दिगम्बर जैन मठ शुक्रवार पेठ, कोल्हापुर (महाराष्ट्र)-416 002 | 1 | |

नोट.—इनके अलावा भी अन्य कई जैन संस्थाओं की ओर से पुरस्कार प्रदान किया जाता है हमारे पास जितनी जानकारी एकत्रित हुई उतनी यहाँ प्रस्तुत की गयी है सभी पुरस्कार प्रदान करने वाली जैन संस्थाओं से निवेदन है कि आप भी अपना पूर्ण विवरण हमें अवश्य प्रेषित करें ताकि भविष्य में आपका नाम भी सम्मिलित किया जा सके।

अ भा. जैन समुदाय राष्ट्रीय सच अध्येक्ष सूची

| क्रम | समुदाय/पथ का नाम | सच अध्येक्ष का नाम एवं सम्बन्ध सूत्र | फोन न |
|-----------------------------|--|---|--|
| A जैन कान्फ्रेंस | | | |
| 1 | अ भा श्वे जन काफ्रेस (बम्बई) गोडीजी बिल्डिंग, 2 माता, त्रिजय बल्बम चार, 219 ए, गुलाल बाडी, पाथरुना, बम्बई-400002 (महाराष्ट्र) फोन 3713273 | श्री दीपच दर्जा गार्डी उपाधिगण, वरमामार्दन राठ, पटर राठ, बम्बई-400026 (महाराष्ट्र) | 4945431 4945270 |
| 2 | अ भा श्वे स्या जन काफ्रेस (दिल्ली) जैन भवन, 12, शहीद भगतसिंह भाग, नई दिल्ली-110001 फोन न 343729 तार-जैनवम | श्री बरटनानजी एम ढाडारी मानी बाग, 692/1/6, पूना मन्तारा राठ, पूना 411037 (महाराष्ट्र) | जॉ 442698 नि 438182 32105 |
| 3 | अ भा श्वे स्या जन काफ्रेस (बम्बई) (गुज) त्रिभुवन बिल्डिंग, A B N पैर के ऊपर 4 माता विजय बल्बम चार, पाथरुनी, बम्बई-400003 फोन न 3422927 | श्री गिरजाधर उमियाधर मेहता म त्रावे र्ग सिन्ड्रीन्यूटम, ट्रय हाउस, 54बी प्रेक्टर राठ, अलन्दाध्रम के मामन, घाट राठ, बम्बई-400007 (महाराष्ट्र) | 3872256 3880034 |
| B जैन समुदाय/श्री सघ | | | |
| 4 | श्रमण सघ समुदाय (श्री व स्या जन श्रावक सघ) उपरान्त नमति 2 जनुमार | उपरान्त क्रमाव 2 जनुमार | |
| 5 | अ भा साधुमार्गो जन सघ, (बीकानेर) ममता भवन, रामपुरिया मडक, बीकानेर-334001 फोन 26867 | श्री गिद्धरगजी मिपानी म मिपानी युप जॉय इण्टर्नूज 3, बानेर घट्टार हा, बंगनगर-560029 (कर्नाटक) | |
| 6 | अ भा जन रत्न हितेयी श्रावक सघ (जाधपुर) घोटा का चार जाधपुर-342001 (राज) फोन न 24891 | श्री मफिनराजजी मुणान, मे बन्धनर युप 111, मन्त्र केम्पन न 4, नरीमन पाडठ, फोन बम्बई-400021 (महाराष्ट्र) | 222888 222833 244123 |
| 7 | अ भा ज्ञान गच्छ श्रावक सघ (जाधपुर) अ भा मुद्रम श्रावक मफिनि (ज्ञानगच्छ) (जाधपुर) बपडा मार्केट, जाधपुर-342001 (राज) फोन 26145 | श्री जशवन्तभाट एम ताह म त्रायकेम फामान्यूटिक म इण्टर्नूज नि, एठन बिल्डिंग 1 प्रावी तालाब, फोन न 2217 बम्बई-400002 (महाराष्ट्र) | 2085534 2085430 |
| 8 | अ भा श्वे तेरापथी महाममा (साडनू) जैन सिध्न भागनी, नाडन (राजस्थान) 341306 फोन न 25 | श्री श्रीधरजी पेगानी रेव आफ बडादा के उपर म पा मुतागण-जिना चूर (राजस्थान) | |
| 9 | अ भा जन श्वे छरतरगच्छ महासघ 537, बटगा नान, चादनी चार, दिल्ली-110006 | श्री हर्षचन्द्रजी गहटा 21 बी आनद तार, नई दिल्ली 110049 | जॉ 2527983 2510191 नि 6461075 6442834 |

10. श्री छ कोटी स्था. जैन लिम्बड़ी मोटा पक्ष समुदाय संघ, (लिम्बड़ी)
छ कोटी जैन मोटा उपाश्रय,
आचार्य श्री अजरामरजी मार्ग,
मु पो लिम्बड़ी (सौराष्ट्र)
जिला सुरेन्द्रनगर (गुजरात) 363421
फोन नं 235
- सेठ श्री छवीलदास त्रिकमलाल
4/5, वल्लभभाई पटेल रोड,
वांला हनुमान के पास, पकज हाउस,
सुरेन्द्रनगर-361001 (गुजरात)
ऑ 24462
नि. 21062
11. अ.भा. अचलगच्छ (त्रिधि पक्ष) श्वे. जैन संघ
न्यू हनुमान विल्डिंग, 1 माला,
11-वी, केशवजी नायक रोड,
बम्बई-400009 (महाराष्ट्र)
- श्री वणनजी लखमणी शाह
मेसर्स लखमणी घेलाभाई एण्ड कं.,
505, चर्चगेट चेम्बर्स, 5 माला,
न्यू मरीन लाइन, बम्बई-400002 (महाराष्ट्र)
2051277
299065
12. कच्छ आठ कोटी मोटी पक्ष स्था. जैन महासंघ (मांडवी)
वारीवारा नाका,
मांडवी-कच्छ (गुजरात)
- श्री माणिकचन्द घेलाभाई राभिया,
24/3-वी, सुख शांति जवाहर नगर,
एस वी. रोड, गोरगाँव (वेस्ट),
बम्बई-400062 (महाराष्ट्र)
8722282
13. अ.भा. श्री वर्धमान वीतराग जैन श्रावक संघ (जयपुर)
- श्री कल्याणमल जैन (पूर्व सरपच)
मु.पो. चौरू, तहसील उनिथारा,
जिला टोक (राजस्थान)
14. श्री हालारी स्थानकवासी जैन संघ,
जामनगर (गुजरात)
- श्री हरकचद भाई गाला,
श्री देवराज लखमणी शाह
54, दिग्विजय प्लोट, जामनगर,
(गुजरात) 361005
15. श्री गोडल मोटा पक्ष नवागढ़ संघ (राजकोट)
- श्री शांतिलाल दिपाणी
C/o. श्री शासन प्रगति कार्यालय,
1/7, जगन्नाथ प्लोट स्वाती अपार्टमेंटस्,
माणिक 1 माला,
राजकोट-360001 (गुजरात)
43363
16. सन्मति तीर्थ संघ (विराटन)
पूना (महाराष्ट्र)
- श्री नवलमल फिरोदिया
15 प्रणति अपार्टमेंट्स वानेर रोड, ओंध
पूना (महाराष्ट्र)
361337
17. श्री विजय देव सूर संघ (बम्बई)
(आचार्य श्री नेमी सूरी समुदाय)
गोडीजी पार्श्वनाथ जैन देरासर पेढी,
विजय वल्लभ चौक, पायधुनी
कीका स्ट्रीट नाका, बम्बई-400003 (महाराष्ट्र)
- श्री अमरचन्द रतनचद जवैरी (ट्रस्टी)
श्री गोडीजी पार्श्वनाथ जैन देरासर पेढी,
पायधुनी, कीका स्ट्रीट नाका,
बम्बई-400003 (महाराष्ट्र)
18. अ.भा. राजेन्द्र जैन युवक मण्डल
- श्री .
19. श्री अ.भा. दिगम्बर जैन परिषद्
201, दरीदा बग, दिल्ली-110006
- श्री .

अ. भा समग्र जैन गच्छाधिपति पद सूची 1993

| क्रमिक समुदाय का नाम | गच्छाधिपति का नाम |
|---|--|
| (1) श्वे स्यान्कवामी समुदाय | |
| 1 श्री ताल गच्छ समुदाय | तपस्वीराज श्री चम्पालाजजी म मा |
| 2 श्री जयमल समुदाय | बाबाय जय श्री शुभचंद्रजी म मा |
| 3 श्री बरवाता समुदाय | प रज श्री मरदार मुनिजी म मा |
| (2) श्वे मूर्तिपूजक समुदाय | |
| 1 श्री प्रेम मूर्तिजी म मा (भाग प्रथम) | बाबाय श्री वि जय महादय मूर्तिश्वरजी म मा |
| 2 श्री प्रेम मूर्तिजी म मा (भाग द्वितीय) | बाबाय श्री विजय जयघाष मूर्तिश्वरजी म मा |
| 3 श्री नेमा मूर्तिजी म मा | बाबाय श्री विजय मर प्रभ मूर्तिश्वरजी म मा |
| 4 श्री माणगल मूर्तिजी म मा | बाबाय श्री दशन माण मूर्तिश्वरजी म मा |
| 5 पत्राम श्री धम विजयजी म मा, (देहवावाता) | बाबाय श्री विजय राम मूर्तिश्वरजी म मा, (देहवावाता) |
| 6 श्री विजय रत्नम मूर्तिजी म मा | बाबाय श्री विजय इन्द्रदित मूर्तिश्वरजी म मा |
| 7 श्री बुद्धि माण मूर्तिजी म मा | बाबाय श्री वि जय सुवप्र माण मूर्तिश्वरजी म मा |
| 8 श्री निती मूर्तिजी म मा | बाबाय श्री विजय जखिन मिद्ध मूर्तिश्वरजी म मा |
| 9 श्री कशर मूर्तिजी म मा | बाबाय श्री विजय ह म प्रभ मूर्तिश्वरजी म मा |
| 10 श्री हिमाचल मूर्तिजी म मा | बाबाय श्री विजय लक्ष्मा मूर्तिश्वरजी म मा |
| 11 श्री शरत्तर गच्छ समुदाय | बाबाय श्री जिन उदयमाण मूर्तिश्वरजी म मा |
| 12 श्री त्रिमुनि म ग (भाग प्रथम) | बाबाय श्री विजय ह मन्द्र मूर्तिश्वरजी म मा |
| 13 श्री त्रिमुनि म ग (भाग द्वितीय) | बाबाय श्री विजय जयल मेन मूर्तिश्वरजी म मा 'मधुवर' |
| 14 श्री त्रिमुनि म ग (भाग तृतीय) | बाबाय श्री विजय त्रि मूर्तिश्वरजी म मा |

अ. भा. समग्र जैन आचार्य सूची 1993

1. श्वेताम्बर स्थानकवासी समुदाय ---

- 1 आचार्य श्री देवेन्द्र मुनिजी म सा
- 2 आचार्य श्री नानालाल जी म सा
- 3 आचार्य श्री हीराचन्द्रजी म सा.
- 4 आचार्य श्री सोहनलालजी म सा.
- 5 आचार्य श्री विमल मुनिजी म. सा (विरायतन)
- 6 आचार्य श्री शातिलालजी म सा
- 7 आचार्य श्री राघवजी म सा
- 8 आचार्य श्री काति ऋषीजी म सा
- 9 आचार्य श्री चन्दनाजी म सा (विरायतन)

कुल योग (9)

(2) श्वेताम्बर तेरापंथी समुदाय

आचार्य श्री तुलसी

कुल योग (1)

श्वे. मूर्ति पूजक समुदाय

(1) तपागच्छ समुदाय:---

(1) आचार्य श्री विजय प्रेम सूरेश्वरजी म. सा. का समुदाय (प्रथम भाग)

1. गच्छाधिपति आचार्य श्री विजय महोदय सूरेश्वरजी म सा.
- 2 आचार्य श्री विजय सुदर्शन सूरेश्वरजी म सा
- 3 आचार्य श्री विजय राजतिलक सूरेश्वरजी म सा
- 4 आचार्य श्री विजय पूर्णचन्द्र सूरेश्वरजी म सा
- 5 आचार्य श्री विजय प्रधोतन सूरेश्वरजी म सा.
- 6 आचार्य श्री विजय मित्रानन्द सूरेश्वरजी म. सा
- 7 आचार्य श्री विजय रविप्रभ सूरेश्वरजी म सा
- 8 आचार्य श्री विजय महावल सूरेश्वरजी म सा
- 9 आचार्य श्री विजय पुण्यपाल सूरेश्वरजी म सा
- 10 आचार्य श्री विजय नित्यानन्द सूरेश्वरजी म. सा

- 11 आचार्य श्री विजय विचक्षण सूरेश्वरजी म सा.
12. आचार्य श्री विजय ललित शेखर सूरेश्वरजी म सा
13. आचार्य श्री विजय राज शेखर सूरेश्वरजी म सा
- 14 आचार्य श्री विजय वीर शेखर सूरेश्वरजी म सा.
- 15 आचार्य श्री विजय प्रभाकर सूरेश्वरजी म सा.
- 16 आचार्य श्री विजय जय कुँजर सूरेश्वरजी म सा.
- 17 आचार्य श्री विजय मुक्ति प्रभ सूरेश्वरजी म सा
- 18 आचार्य श्री विजय चन्द्रोदय सूरेश्वरजी म सा.
- 19 आचार्य श्री विजय अमरगुप्त सूरेश्वरजी म सा.
- 20 आचार्य श्री विजय जितेन्द्र सूरेश्वरजी म सा. (आज्ञा)
21. आचार्य श्री विजय विबुद्ध प्रभ सूरेश्वरजी म. सा.
(आज्ञा)
- 22 आचार्य श्री विजय सोमचन्द्र सूरेश्वरजी म सा
(आज्ञा)
- 23 आचार्य श्री विजय जिनचन्द्र सूरेश्वरजी म सा.
(आज्ञा)

कुल योग (23)

1A आचार्य श्री विजयप्रेम सूरेश्वरजी म. सा. का समुदाय (भाग द्वितीय)

- 1 गच्छाधिपति आचार्य श्री विजय जयधोप सूरेश्वरजी म सा
- 2 आचार्य श्री विजय हिमाशु सूरेश्वरजी म सा
- 3 आचार्य श्री धनपाल सूरेश्वरजी म सा.
4. आचार्य श्री विजय भद्रगुप्त सूरेश्वरजी म सा
5. आचार्य श्री विजय नवरत्न सूरेश्वरजी म सा.
6. आचार्य श्री विजय हेमचन्द्र सूरेश्वरजी म सा
7. आचार्य श्री विजय राजेन्द्र सूरेश्वरजी म सा.
- 8 आचार्य श्री विजय जितेन्द्र सूरेश्वरजी म. सा.
9. आचार्य श्री विजय जय शेखर सूरेश्वरजी म सा.
- 10 आचार्य श्री विजय जगत्चन्द्र सूरेश्वरजी म सा.
11. आचार्य श्री विजय गुणरत्न सूरेश्वरजी म सा
12. आचार्य श्री विजय घनेश्वर सूरेश्वरजी म सा

कुल (12)

(2) आचाय श्री विजय नेमीसुरीश्वरजी म सा का समुदाय

- 1 गच्छाधिपति आचाय श्री मेघ प्रभ सुरीश्वरजी म सा
- 2 आचाय श्री देव सुरीश्वरजी म सा
- 3 आचाय श्री हेमचन्द्र सुरीश्वरजी म सा
- 4 आचाय श्री सुशील सुरीश्वरजी म सा
- 5 आचाय श्री प्रियवन् सुरीश्वरजी म सा
- 6 आचाय श्री सूर्योदय सुरीश्वरजी म सा
- 7 आचाय श्री महिमा प्रभ सुरीश्वरजी म सा
- 8 आचाय श्री प्रबोधचन्द्र सुरीश्वरजी म सा
- 9 आचाय श्री चन्द्रादय सुरीश्वरजी म सा
- 10 आचाय श्री जयचन्द्र सुरीश्वरजी म सा
- 11 आचाय श्री अशाव चन्द्र सुरीश्वरजी म सा
- 11 आचाय श्री विर्ती चन्द्र सुरीश्वरजी म सा
- 13 आचाय श्री नयप्रभ सुरीश्वरजी म सा
- 14 आचाय श्री विशाल मेन सुरीश्वरजी म सा (विगट)

कुल (14)

(3) आचाय श्री सागरानन्द सुरीश्वरजी म सा का समुदाय

- 1 गच्छाधिपति आचाय श्री दगन सागर सुरीश्वरजी म सा
- 2 आचाय श्री सूर्योदय सागर सुरीश्वरजी म सा
- 3 आचाय श्री नन्द सागर सुरीश्वरजी म सा
- 4 आचाय श्री दौलत सागर सुरीश्वरजी म सा
- 5 आचाय श्री यशाभद्र सागर सुरीश्वरजी म सा
- 6 आचाय श्री वनचन्द्र सागर सुरीश्वरजी म सा
- 7 आचाय श्री जितेन्द्र सागर सुरीश्वरजी म सा
- 8 आचाय श्री प्रभाद सागर सुरीश्वरजी म सा
- 9 आचार्य श्री लान सागर सुरीश्वरजी म सा
- 10 आचाय श्री नदिबन्धन सागर सुरीश्वरजी म सा
- 11 आचाय श्री नन्द सागर सुरीश्वरजी म सा
- 12 आचाय श्री नरदय सागर सुरीश्वरजी म सा
- 13 आचाय श्री नित्यादय सागर सुरीश्वरजी म सा

कुल योग (13)

(4) पन्दास श्री धमविजयजी म सा डेहलावाला का समुदाय

- 1 गच्छाधिपति आचाय श्री विजय गम सुरीश्वरजी म सा (डेहलावाले)
- 2 आचाय श्री विजय अमेय देव सुरीश्वरजी म सा
- 3 आचाय श्री विजय भद्रमा सुरीश्वरजी म सा
- 4 आचाय श्री विजय महानन्द सुरीश्वरजी म सा
- 5 आचाय श्री विजय यशोमद्र सुरीश्वरजी म सा

कुल (5)

(5) आचाय श्री विजयवल्लभ सुरीश्वरजी म सा का समुदाय

- 1 गच्छाधिपति आचाय श्री विजय चन्द्र दिन सुरीश्वरजी म सा
- 2 आचाय श्री विजय जनक चन्द्र सुरीश्वरजी म सा
- 3 आचाय श्री विजय जगच्चन्द्र सुरीश्वरजी म सा
- 4 आचाय श्री विजय रत्नकर सुरीश्वरजी म सा
- 5 आचाय श्री विजय नित्यानन्द सुरीश्वरजी म सा

कुल (5)

(6) आचाय श्री बुद्धिसागर सुरीश्वरजी म सा का समुदाय

- 1 गच्छाधिपति आचाय श्रीमद सुन्दो सागर सुरीश्वरजी म सा
- 2 आचाय श्री कुम्भ सागर सुरीश्वरजी म सा
- 3 आचाय श्री मनोहर वीरति सागर सुरीश्वरजी म सा
- 4 आचाय श्री नित्याण सागर सुरीश्वरजी म सा
- 5 आचाय श्री पदम सागर सुरीश्वरजी म सा
- 6 आचाय श्री भद्र सागर सुरीश्वरजी म सा

कुल (6)

(7) आचाय श्री विजय नितो सुरीश्वरजी म सा का समुदाय

- 1 गच्छाधिपति श्री विजय अरिश्त मिद्ध सुरीश्वरजी म सा
- 2 आचाय श्री विजय धम सुरीश्वरजी म सा
- 3 आचाय श्री विजय हम प्रभ सुरीश्वरजी म सा

कुल (3)

(8) आचार्य श्री विजय लब्धी सूरीश्वरजी म. सा. का समुदाय

1. आचार्य श्री विजय जिन भद्र सूरीश्वरजी म सा
2. आचार्य श्री विजय यशोवर्य सूरीश्वरजी म सा
3. आचार्य श्री विजय पुण्यानन्द सूरीश्वरजी म सा
4. आचार्य श्री विजय वीर सेन सूरीश्वरजी म सा
5. आचार्य श्री विजय अशोक रत्न सूरीश्वरजी म सा.
6. आचार्य श्री विजय अभय रत्न सूरीश्वरजी म सा.
7. आचार्य श्री विजय स्थूल भद्र सूरीश्वरजी म सा.
8. आचार्य श्री विजय राजयश सूरीश्वरजी म सा
9. आचार्य श्री विजय वारिषेण सूरीश्वरजी म. सा.
10. आचार्य श्री विजय हिरण्य प्रेम सूरीश्वरजी म सा.

कुल (10)

(9) मुनि श्री मोहनलालजी म. सा. का समुदाय

1. आचार्य श्री चिदानन्द सूरीश्वरजी म सा.

कुल (1)

(10) आचार्य श्री विजय मोहन सूरीश्वरजी म. सा. का समुदाय

1. आचार्य श्री विजय यशोदेव सूरीश्वरजी म सा.
2. आचार्य श्री विजय जयानन्द सूरीश्वरजी म सा.
3. आचार्य श्री विजय कनक रत्न सूरीश्वरजी म सा
4. आचार्य श्री विजय महानन्द सूरीश्वरजी म सा
5. आचार्य श्री विजय सूर्योदय सूरीश्वरजी म सा
6. आचार्य श्री विजय पूर्णानन्द सूरीश्वरजी म सा

"कुमार श्रवण"

कुल (6)

11. आचार्य श्री विजय भक्ति सूरीश्वरजी म. सा. का समुदाय

1. गच्छाधिपति आचार्य श्री विजय प्रेम सूरीश्वरजी म सा.
2. आचार्य श्री विजय रुचकचन्द्र सूरीश्वरजी म सा.
3. आचार्य श्री विजयलब्धि सूरीश्वरजी म. सा

4 आचार्य श्री विजय विनयचन्द्र सूरीश्वरजी म सा.

5 आचार्य श्री विजय कल्पजय सूरीश्वरजी म सा

कुल (5)

12. आचार्य श्री विजय कनक सूरीश्वरजी म. सा. का समुदाय

- 1 आचार्य श्री विजय कलापूर्ण सूरीश्वरजी म सा

कुल (1)

13. आचार्य श्री विजय सिद्धी सूरीश्वरजी म. सा. का समुदाय

- 1 आचार्य श्री विजय भद्रकर सूरीश्वरजी म. सा.
- 2 आचार्य श्री विजय अरविन्द सूरीश्वरजी म सा.
- 3 आचार्य श्री विजय यशो विजय सूरीश्वरजी म सा.

कुल (3)

14. आचार्य श्री विजय केशर सूरीश्वरजी म. सा. का समुदाय

- 1 गच्छाधिपति आचार्य श्री विजय हेमप्रभ सूरीश्वरजी म सा.
- 2 आचार्य श्री विजय यशोरत्न सूरीश्वरजी म सा.

कुल (2)

15. आचार्य श्री विजय हिमाचल सूरीश्वरजी म. सा. का समुदाय

- 1 गच्छाधिपति आचार्य श्री विजय लक्ष्मी सूरीश्वरजी म सा.

कुल (1)

16. आचार्य श्री विजय शांतिचन्द्र सूरीश्वरजी म. सा. का समुदाय

- 1 आचार्य श्री विजय भुवनशेखर सूरीश्वरजी म. सा
2. आचार्य श्री विजय राजेन्द्र सूरीश्वरजी म सा.

कुल (2)

2 अक्षलगच्छ समुदाय

- 1 आचाय श्री गुणाश्रय मागर सूरीश्वरजी म मा
- 2 आचाय श्री कलाप्रभ मागर सूरीश्वरजी म मा

कुल योग (2)

3 खरतरगच्छ समुदाय

- 1 गच्छाधिपति आचाय श्री जिन उदयमागर सूरीश्वरजी म मा

कुल योग (1)

4 त्रिस्तुतिक (तीन युद्ध) समुदाय

- 1 गच्छाधिपति आचाय श्री विजय हम्द्र सूरीश्वरजी म मा (भाग प्रथम)
- 2 गच्छाधिपति आचाय श्री विजय जयन्त सूरीश्वरजी म मा (भाग द्वितीय)
- 3 गच्छाधिपति आचाय श्री विजय तट्टि सूरीश्वरजी म मा (भाग तृतीय)

कुल योग (3)

5 अन्य समुदाय

- 1 आचाय श्री विजय जिन दघन सूरीश्वरजी म मा (स्वतन्त्र)
- 2 आचाय श्री विजय चित्तचद्र सूरीश्वरजी म मा (स्वतन्त्र)

कुल योग (2)

कुल योग 120

4 दिगम्बर सम्प्रदाय

- 1 आचाय श्री विद्यामागरजी म मा
- 2 आचाय श्री श्रुतमागरजी म मा
- 3 आचाय श्री विद्यालन्दजी म मा
- 4 आचाय श्री बधमान मागरजी म मा
- 5 आचाय श्री ममति मागरजी म मा
- 6 आचाय श्री मुघम मागरजी म मा
- 7 आचाय श्री निमन मागरजी म मा
- 8 आचाय रत्न श्री बाहुनलीजी म मा
- 9 आचाय श्री विमल मागरजी म मा
- 10 आचाय श्री मुमति सागरजी म मा
- 11 आचाय श्री मभव मागरजी म मा
- 12 गणप्रगचाय श्री वृषु मागरजी म मा
- 13 आचाय श्री गान भूषणजी म मा
- 14 आचाय श्री मीमघर मागरजी म मा
- 15 आचाय श्री वामु पूज्य सागरजी म मा
- 16 आचाय श्री वयण सागरजी म मा
- 17 आचाय श्री पुष्पदत्त सागरजी म मा
- 18 आचाय श्री अभिनन्दन सागरजी म मा
- 19 आचाय श्री मुदाहु मागरजी म मा
- 20 आचाय श्री विराय मागरजी म मा
- 21 आचाय श्री दशन मागरजी म मा
- 22 आचाय श्री नेमी मागरजी म मा
- 23 आचाय श्री दयामागरजी म मा
- 24 आचाय श्री जाति सागरजी म मा
- 25 आचाय श्री जायनदीजी म मा
- 26 आचाय श्री पार्श्व सागरजी म मा
- 27 आचाय श्री श्रेयाम मागरजी म मा
- 28 आचाय कल्प श्री समति सागरजी म मा
- 29 आचाय श्री शानि मागरजी म मा
- 30 आचाय श्री नमी मागरजी म मा (द्वितीय)
- 31 आचाय श्री क्षिमा मागरजी म मा
- 32 आचाय श्री जदिमागरजी म मा
- 33 आचाय श्री अजित सागरजी म मा
- 34 आचाय श्री मुदाहु सागरजी म मा
- 35 आचाय श्री निर्वाण सागरजी म मा

समग्र जैन सम्प्रदाय से कुल आचाय

| क्र | समुदाय | आचाय संख्या |
|---------|-------------------|-------------|
| 1 | श्वे म्यानवर्चामी | 9 |
| 2 | श्वे तैरापथी | 1 |
| 3 | मूर्तिपूजक | 120 |
| 4 | दिगम्बर समुदाय | 35 |
| कुल योग | | 165 |

हिंसा-निवारण और शाकाहार-प्रचार संस्थाएँ

1. अहिंसा इन्टरनेशनल
688, वावा खडकसिंह मार्ग
नई दिल्ली-110 001
2. भारतीय शाकाहार परिषद्
ई-6, रणजीतसिंह मार्ग
आदर्श नगर, नई दिल्ली-110 033
3. अहिंसा फाउण्डेशन
जैन भवन
12, शहीद भगतसिंह मार्ग
नई दिल्ली-110 001
4. नव जीव दया मण्डल
1443, गली छिपियों
मालीवाडा, चाँदनी चौक
नई दिल्ली-110 006
5. अ. भा. गौ संरक्षक परिषद्
सरस्वती साहित्य मन्दिर
स्थानीय बस स्टेण्ड के पास
पंजाबी बाग विस्तार
नई दिल्ली-110 025
6. जैन महासभा
6-ए, पॉकेट वी ब्लॉक, क्रमांक 9
अशोक विहार, फेज-8
दिल्ली-110 052
7. पशु बलि निषेध समिति
क्रय विक्रय सहकारी संघ के सामने
भवानीसिंह मार्ग, जयपुर-5 (राज)
8. राष्ट्रीय अहिंसा प्रतिष्ठान
446, महावीर स्ट्रीट
सरदारपुरा, प्रथम 'सी' रोड
जोधपुर-342 003
9. ऑल इण्डिया गौशाला फेडरेशन
द्वारा पशु पालन विभाग
पटना (बिहार)
10. एनिमल वेलफेयर बोर्ड
51, फर्स्ट मैन रोड
गाँधी नगर, मद्रास-600 020
11. इण्डियन वेजीटेरियन
"जी" ग्रुप, एल्डम्स रोड
मद्रास-600 018
12. व्यूटी विदाउट क्रूएल्टी
4, प्रिन्स ऑफ वेल्स ड्राईव
वनोवरो-पूना-411 040 (महा.)
13. बोम्बे ह्यूमेनेटरियन लीग
123-127, दया मन्दिर
मुवा देवी रोड, वम्बई-400 003
14. अ. भा. हिंसा निवारण संघ
32, मनीष सोसायटी, नारायणपुरा
अहमदाबाद-380 002 (गुजरात)
15. आन्ध्र प्रदेश जीव रक्षा सघ
गुटूर-522 003 (आंध्रप्रदेश)
16. भगवान महावीर अहिंसा प्रचार संघ
21, प्रिय नायकेन स्ट्रीट
मद्रास-600 079 (तमिलनाडू)
17. साउथ इण्डियन ह्यूमेनेटरियन्स लीग
21, पेरूमल मुडलीयार स्ट्रीट
मद्रास-600 079
18. जीव दया घर
35, पंचायत बाडी, दाऊजी गली
कवूतरखाने के पास, भूलेश्वर
वम्बई-400 002 (महा.)
19. श्री महावीर शुभ संदेश साधना ट्रस्ट
द्वारा-मुनि श्री रामचन्द्र विजयजी
(निशाल) डेहला उपाश्रय
दोषी बाडा की पोल
अहमदाबाद-380 001 (गुज.)

- 20 भारतीय जीव ज्ञानु दायण बा
60 चौरी नरी, जमिगमपुरम
मद्रास 600 018
- 21 जी जी जी जन
महामचिब
अहिमा पन राण जीर
मानव पापन विश्व परिपद
एन 15, श्रीन पाक एक्मटेरास
नई दिल्ली 110 016
- 22 राष्ट्रीय एफता अहिमा एन
ममाज कल्याण मण्डल
जैन मार्केट
नागौर (मैनपुरी)-205 262
(उत्तरप्रदेश)
- 23 हिमा विरायन मघ
अहिमा मवन
नवर सेठ वा बडा गिनीफ रोड
अहमदाबाद-380 001 (गुज)
- 24 अहिमा प्रचारन समिति
बजाज भवन, नगीमन पाइड
बम्बई 400 021
- 25 गुजरात मद्रास पात्ररापान
और योगादा संडरणा
द्वारा-दिना भाई जाह की बुजी
दरामर रा मुरा नगर (गुजरात)
- 26 मध्यप्रदेश अहिमा प्रचार मघ
ममम अणर एजेन्सीज
इन्वार्सन रायपुर (म प्र)
- 27 अहिमा प्रचार समिति
मौरी पार गिबनी (म प्र)
- 28 अग्नि भारतीय हृदय गा मरा मघ
गापुरी, धया (महाराष्ट्र)
- 29 बेजिटेरियन क्लब
पोस्ट-बगा (पंजाब)
- 30 जीव दया घन
जय हृद प्रेम के समीप
गजकट (नाराष्ट्र) 360001
- 31 मुड (मुद्र) प्रचार समिति
पाटण (उत्तर गजरात)
- 32 मौराष्ट्र प्राणी कल्याण मण्डल
राष्ट्रीय शाना प्राणण
राजराट (मौराष्ट्र) 360001
- 33 जीव दया मण्डल टम्ब
टागा मदन, मधपुरा टोर (राज)
- 34 ज रातस्थान अहिमा प्रचारक जैन मघ
अहिमा नगर, चित्तौडगट (राज)
- 35 पशु ररना निवाराण समिति
मेहना एण्ट व
2337, रामनानजी वा रास्ता
जौहरी राजार, जयपुर-302 003
- 36 तीर्थकर शाकाहार प्ररोध
हीग बैया प्रवागन
65, पत्रवार गौतानी
रनाटिया मा टन्नीर-452 001
- 37 अहिमा प्रचार समिति
पचपहाड गवानीमण्टी (राज)
- 38 शाकाहार मदाचार परिपद
धी रननरात मी रापना
मुनाप चीन, जतगाद -425 001
- 39 अहिमा मन्नी मण्डल
नमौराबाद (गजजरात)
- 40 र वि जन गिना
(अहिमा प्रचारन मघ)
गिवाट जिना-टात रा

नाम—इसके अन्तारा भी जय कई सम्पादक हैं। राजवार्थिया प्राण हाने ही जागामा अत्र म प्रचारित कर सके।

अ.भा. समग्र जैन सम्प्रदाय आचार्य षष्ठवर्षीय पद प्रदान सूची

(सन् 1988 से 1993 तक नये आचार्य बनने वालों की सूची)

| क्र.सं. | आचार्य का नाम | दिनांक | स्थान | समुदाय |
|-------------------|---|---------------|---------------|--|
| सन् 1988:- | | | | |
| 1. | आचार्य श्री विजय हेमचन्द्र सूरीजी म | फाल्गुन वदी 1 | भायकला-वम्बई | आचार्य श्री प्रेमसूरीजी समुदाय (भाग द्वितीय) |
| 2. | आचार्य श्री विजय गुण रत्न सूरीजी म. | 25-7-88 | पादरली | " " " |
| 3. | आचार्य श्री रेवतसागरजी म | फाल्गुन वदी 3 | डग (राज) | तपागच्छ समुदाय |
| 4. | आचार्य श्री विजय महानन्द सूरीजी म. | 12-11-87 | अंधेरी-वम्बई | आचार्य श्री वि धर्मसूरीजी सम. |
| 5. | आचार्य श्री विजय सूर्योदय सूरीजी म | 12-11-87 | अंधेरी-वम्बई | आचार्य श्री वि ध सूरीजी समु |
| 6. | आचार्य श्री कलाप्रभ सागर सूरीजी म | 12-2-88 | दाताणी तीर्थ | अचल गच्छ समुदाय |
| 7. | आचार्य कल्प श्री गुभचन्द्रजी म सा (गच्छाधिपति) | 1988 | राजस्थान मे | स्था श्री जयमलजी समुदाय |
| कुल (7) | | | | |
| सन् 1989:- | | | | |
| 9. | श्री नृसिंह मुनिजी म सा (गादीपति) | 1988 | लिम्बडी | लिम्बडी मोटा पक्ष |
| 10. | आचार्य श्री गुणोदय सागर सूरीजी म (गच्छाधिपति) | 1988 | 72 जिनालय | अचल गच्छ समुदाय |
| 11. | आचार्य श्री विजय अरविन्द सूरीजी म | 10-3-89 | वाव (गुजरात) | आचार्य श्री विजय सिद्धी सूरीजी समुदाय |
| 12. | आचार्य श्री विजय यशोविजय सूरीजी म | 10-3-89 | वाव (गुजरात) | आचार्य श्री सिद्धी सूरीजी समु |
| 13. | गच्छाधिपति श्री सरदार मुनिजी म | 15-2-89 | वरवाला | वरवाला समुदाय |
| 14. | आचार्य श्री विजय जिनचन्द्र सूरीजी म सा | 11-5-89 | सावत्थी तीर्थ | आचार्य श्री प्रेम सूरीजी समुदाय (भाग द्वितीय) |
| कुल (6) | | | | |
| सन् 1990:- | | | | |
| 15. | आचार्य श्री विजय यशोभद्र सूरीजी म | 3-12-89 | वम्बई | आचार्य श्री केशर सूरीजी समु |
| 16. | आचार्य श्री विजय प्रभाकर सूरीजी म | 7-3-90 | वोरसद | आचार्य श्री प्रेमसूरीजी समुदाय (भाग प्रथम) |
| 17. | आचार्य श्री विजय जयकुंजर सूरीजी म | 23-3-90 | वम्बई | उपाध्याय श्री अमर मुनिजी म समुदाय |
| 19. | आचार्य श्री विजय जिनचन्द्र सूरीजी म | 16-5-90 | भाभर-कच्छ | श्री शातिचन्द्र सूरीजी समुदाय |
| 20. | आचार्य श्री वर्धमान सागरजी म | 24-6-90 | पारसोली | दिगम्बर-समुदाय |
| 21. | आचार्य श्री श्रेयास सागरजी म | जून 1990 | वासवाडा | दिगम्बर समुदाय |
| 22. | आचार्य श्री वीर शेखर सूरीजी म | 7-3-90 | डोलिया | आचार्य श्री प्रेमसूरीजी समुदाय (प्रथम भाग) |
| कुल (8) | | | | |

| क्र | सत-सती का नाम | दिनांक | स्थान | समुदाय/निधा |
|-----------|---|---------|--------------|---|
| सन 1991 - | | | | |
| 23 | आचार्य श्री दशम सागर सूरीजी (गच्छाधिपति) | 3-2-91 | रम्बई | गागर समुदाय |
| 24 | आचार्य श्री विजय महाप्रल सूरीजी म सा | 19-5-91 | अहमदाबाद | आ श्री प्रेम सूरीजी म समुदाय (प्रथम भाग) |
| 25 | आचार्य श्री विजय पुण्डपाल सूरीजी म | 19-5-91 | अहमदाबाद | |
| 26 | आचार्य श्री विजय यशोव्य सूरीजी म | 19-5-91 | दादर-बम्बई | आ श्री लक्ष्मी सूरीजी म समुदाय |
| 27 | आचार्य श्री विजय पूणचन्द्र सूरीजी म | 19-5-91 | मुरत | आ श्री प्रेमसूरीजी म समुदाय (प्रथम भाग) |
| 28 | आचार्य श्री विजय मुक्तिप्रभ सूरीजी म | 19-5-91 | मुरत | |
| 29 | आचार्य श्री जितेन्द्र सागरजी म | 23-5-91 | उज्ज्वला | गागर समुदाय |
| 30 | आचार्य श्री यशभद्र सागर सूरीजी म | 24-5-91 | वडाद (म प्र) | गागर समुदाय |
| 31 | आचार्य श्री हीराचन्द्रजी म | 2-6-91 | जापुर | स्था रत्नवश समुदाय |
| 32 | आचार्य श्री विजय धनेश्वर सूरीजी म | 22-6-91 | मगमनर | आ श्री प्रेम सूरीजी (भाग 2) |
| 33 | आचार्य श्री विजय पूणानन्द सूरीजी म | 20-7-91 | राणी स्टेशन | आ श्री धर्म सूरीजी समुदाय |

कुल (11)

| | | | | |
|-----------|---|----------|--------------|---|
| सन 1992 - | | | | |
| 34 | आचार्य श्री जयसन्दीपजी म | 24-12-91 | रम्बई | त्रिगम्बर समुदाय |
| 35 | आचार्य श्री अभिनव सागरजी म | 8-3-92 | पामदाडा | दिगम्बर समुदाय |
| 36 | आचार्य श्री दत्त मुनिजी म | 7-5-92 | मोजेत गिटी | स्था ध्रमण सध मनुदाय |
| 37 | आचार्य श्री चन्दन मुनिजी म | मई 92 | गावातपुरा | ननेरा पथ मनुदाय |
| 38 | आचार्य श्री विजय महादय सूरीजी म (गच्छाधिपति) | 8-5-92 | शंभेश्वर तीव | आ श्री प्रेम सूरीजी समुदाय (भाग प्रथम) |

कुल (5)

| | | | | |
|-----------|--|----------|-----------|--------------------------------------|
| सन 1993 - | | | | |
| 39 | आचार्य श्री तद्वरुन सागर सूरीजीम | 30-11-93 | बम्बई | सागर समुदाय |
| 40 | आचार्य श्री वरुन सागर सूरीजी म | 30-11-92 | इन्दार | सागर समुदाय |
| 41 | आचार्य श्री विराग सागरजी म | 8-11-92 | द्राणगिरी | दिगम्बर समुदाय |
| 42 | आचार्य श्री रत्नावर सूरीजी म | 24-4-93 | पालीताणा | श्री वल्लभ सूरीजी म |
| 43 | आचार्य श्री जगच्चन्द्र सूरीजी म | 24-4-93 | पालीताणा | श्री वरुन सूरीजी म |
| 44 | आचार्य श्री नित्यानन्द सूरीजी म | 24-4-93 | पालीताणा | श्री वल्लभ सूरीजी म |
| 45 | आचार्य श्री नरद्व सागर सूरीजी म | 28-4-93 | उदयपुर | श्री सागर समुदाय |
| 46 | आचार्य श्री राघवजी म सा | 6-6-93 | उदात-रच्छ | श्री वच्छ अठ रोटी नानी पन |
| 47 | आचार्य श्री जयधोष सूरीजी म (गच्छाधिपति) | 9-5-93 | रम्बई | श्री प्रेम सूरीजी म (द्वितीय भाग) |

नाट - ध्रमण मधी आचार्य श्री दत्त, मुनिजी म सा का आचार्य पद ता गत वष 7-5-92 का साजत (राजस्थान) म हो प्रदान कर दिहा जा परत ह म वष 28-3-93 का उदयपुर म आचार्य चादर प्रदान की गयी।

कुल (9)

नाट - सुके जन्मि भी जय बई नय आचार्य पनाये गय हगे हमार पाम जितनी जानकारिया थी वे यहाँ प्रस्तुत की गयी ह। हमार दिवार 1986 मे 1993 की ज्यधि मे सम्पूर्ण जैन समाज मे जितन भी नय आचार्य वा ह उन सभी की सूचा यहा प्रस्तुत करन की थी, परंतु सम्पूर्ण जानकारियों के अभाव मे हम यहाँ प्रस्तुत करने मे असमथ ह। अप सभी पूज्य आचार्यों से नम्र निवेदन ह कि आप सभी अपना पूण विवरण हमें शीघ्र भेजन की कृपा करे ताकि भविष्य मे हम प्रकाशित कर सकें।

-सम्पादक

जैन विवाह सूचना केन्द्र, बम्बई

—समग्र जैन समाज हेतु—

आयोजक ।

श्री जैन सेवा संघ-श्री जैन श्वेताम्बर

खरतरगच्छ संघ, बम्बई

आप सभी को सूचित करते हुए परम हर्ष हो रहा है कि श्री शांतिप्रसाद जैन की सद्प्रेरणा मार्गदर्शन एव श्री जैन सेवा संघ, श्री जैन श्वेताम्बर खरतरगच्छ संघ बम्बई द्वारा आयोजित जैन विवाह सूचना केन्द्र बम्बई की स्थापना की गयी है जिसके अन्तर्गत सम्पूर्ण विश्व के समग्र जैन समाज में विवाह योग्य लड़के लड़कियों के विवाह संबंध स्थापित करने वास्तव सूचना एकत्रित कर सभी को सूचना प्रदान करने हेतु एक मासिक पत्रिका का भी प्रकाशन करने का निश्चय किया गया है। इस पत्रिका में सभी विवाह योग्य लड़के लड़कियों के फोटो परिचय एव अन्य विवरण जैसे पिताजी का नाम, गौत्र, समुदाय सम्पर्क सूत्र-व्यापार प्रतिष्ठान का विवरण, लड़के लड़कियों की उम्र, ऊँचाई, शिक्षा, योग्यता, व्यवसाय सर्विस में कार्यरत सेवा कार्य आय का विवरण आदि जानकारियाँ निशुल्क प्रकाशित की जायेगी एव पत्रिका भी सभी को निशुल्क प्रदान की जायेगी। इस सस्था का एकमात्र उद्देश्य यही है कि समग्र जैन समाज में विवाह योग्य जो लड़के लड़कियाँ हैं उनकी पूरी जानकारियाँ इच्छुक परिवारों महानुभावों एव समाज के हर वर्ग तक पहुँचाना है जिससे सभी लाभान्वित हो सके एव विवाहसवध का चयन सुगमता से हो सके। यह पत्रिका प्रारंभ में मासिक रूप में प्रकाशित की जायेगी। इसके संयोजक एव संपादक वावूलाल जैन 'उज्ज्वल' बम्बई नियुक्त किये गये हैं।

हमारे पास अभी तक लगभग 250 विवाह योग्य लड़के लड़कियों के परिचय फोटो आ चुके हैं।

अतः समग्र जैन समाज के सभी महानुभावों से नम्र निवेदन है कि आप भी अपने अपने परिवार, परिचित स्नेही जनो आस-पाम के रहनेवाले जैन समाज के वधुओं के विवाह योग्य लड़के लड़कियों की जानकारियाँ निम्नलिखित जगह एवं संपादक के पते पर शीघ्र से शीघ्र भिजवाने का कष्ट

करें ताकि यह समाज का यह महत्त्वपूर्ण कार्य शीघ्र प्रारंभ किया जा सके।

विनीत

वावूलाल जैन उज्ज्वल

वीनूभाई शाह

सम्पर्क सूत्रः—

1. श्री शांतिप्रसाद जैन

श्री जैन सेवा संघ बम्बई

16 मेकर आर्कोड, ग्राउड, प्लोर

कफ परेड, बम्बई-40005

फोन न 2181272, 2181413

2. वावूलाल जैन उज्ज्वल

105 तिरुपति अपार्टमेंट्स आकुर्ली क्रॉस

रोड न 1 कादिवली (पूर्व)

बम्बई-400101

फोन 8881278

जीवन की पूँजी

अगर आपसे कोई यह पूछे कि आपके पास जीवन की पूँजी कितनी है? तो शायद आप यही जवाब देंगे कि मेरे पास चार बगले हैं, दो तीनों कारे हैं, चार-पाँच विशाल दुकाने एव पचास लाख रुपये रोकड़ी आदि आदि हैं।

परन्तु देवानुप्रिय आत्मन्! आपकी उपरोक्त पूँजी तो क्षणभंगुर है, किसी न किसी की आत्मा को उत्पीडित करके एकत्रित की गयी यह पूँजी तुम्हारी असली पूँजी नहीं है जो तुम्हारे सग रहेगी।

श्रद्धा, सदाचार, सत्य, चारित्र्य, दान, त्याग, और तप आदि यही मानव जीवन की सच्ची पूँजी हैं जो मानव के सग हमेशा साथ में रहेगी हैं। जिस मानव के पास यह पूँजी है उस मानव को अपने जीवन में सुख और सदाचार मिलता है तो ही यह जीव जब इस धरती को अन्तिम नमस्कार करता है तब यही पूँजी उसके काम आती है। अन्य नहीं।

—जैनाचार्य श्री अजरामरजी स्वामी

हार्दिक शुभकामनाओं सहित ।

छरतर गच्छाधिपति सघ स्वविर परम पूज्य आचाय श्री 1008 थोमद्
जिन उदयमागर सूरेश्वरजी म सा के जानानुवर्ती

उपाख्यान प्रवर प्रवचन प्रभावक था महादयमागरजी म सा एउ मगुग्नापी मुनि श्री विवूपमागरजी म सा
आदि ठाणा 2 एउ छनीमोट रत्न गिरामणि शास्त्र दीपिका पम पूज्य माधवी श्री मनाह् श्रीजी म सा ,
पम पूज्य श्री मुनदा जीजा म न , परम पूज्य श्री प्रियक श्रीजी म सा एव पम पूज्य श्री
सधमिना श्रीजी म सा ठाणा 5 व पावन बर्षावाम जा छनीमात्र के ऐतिहासिक
नग दुग बो प्रान हुना है मं ज्ञान, दशन चग्नि एव तप मे अभिवृद्धि हा,
चानुर्माण मत्रक नि ए मग नमय हा। ऐनी मग नकामना करत है ।

श्री जैन श्वेताम्बर श्री संघ

दुर्ग-491001 (म प्र)

- चानुर्माण स्थल - (1) श्री आदिनाथ जन श्वेताम्बर मन्दिर, सदर बाजार, दुर्ग (म प्र)-491001
(2) श्री महावीर मवन, सदर बाजार, दुर्ग (म प्र)-491001

शुभेच्छुन

राकरलाल

अध्यक्ष

मिथीलाल लोडा, दुर्गोचद बनायट

उपाध्यक्ष

पृथ्वीराज पारख

मन्त्रा

राजेंद्र मारोटो, साराचद काकरिया

मन्त्रा

श्री जैन श्वेताम्बर श्री सघ, दुर्ग

मिश्रोलाल लोडा

मयात्रक

सोनबरण मारोटो

वापाध्यक्ष

मोहनलाल कोठारी

भोपन ममिनि मयोजक



श्री जैन चानुर्माण व्यवस्था समिति,
दुर्ग

स्थल - श्री आदिनाथ जैन श्वेताम्बर मन्दिर, सदर बाजार दुर्ग (म प्र)

जैन पत्र-पत्रिका-जैन एकता पुरस्कार 1993

आप सभी को सूचित करते हुए परम हर्ष हो रहा है कि अ. भा. समग्र जैन चातुर्मास सूची प्रकाशन परिपद् वम्बई के तत्वावधान एवं श्री शांतिप्रसाद जैन मैनेजिंग ट्रस्टी एवं श्री मूरजमल श्रीमाल मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा आयोजित सम्पूर्ण जैन समाज में वर्तमान में प्रकाशित जैन पत्र-पत्रिकाओं के श्रेष्ठ प्रकाशन कार्य एवं अन्य समाचार पत्रों का उत्साह वर्धन हेतु "जैन एकता पुरस्कार" प्रारंभ करने का निश्चय किया गया है।

योग्यता—समग्र जैन समाज के जैन पत्र-पत्रिकाओं के श्रेष्ठ प्रकाशन कार्य एकता, समन्वयता में योगदान, ज्ञानवर्धन, समाजोत्थान, नवचेतना, रचनात्मक लेख, नियमित प्रकाशन, सुन्दर कागज, छपाई, प्रसारण संख्या एवं अवधि आदि श्रेष्ठ कार्य। पत्र की श्रेष्ठता का चयन निर्णायक समिति करेगी।

प्रकाशन अवधि—1 जुलाई 1992 से 30 जून 1993 की अवधि का सर्वश्रेष्ठ अंक।

पुरस्कार राशि—

प्रथम पुरस्कार रु 1501/- द्वितीय पुरस्कार रु 1101/-
तृतीय पुरस्कार रु 751/- चतुर्थ एवं पंचम पुरस्कार
रु. 501/- प्रत्येक

अन्तिम तिथि—30-9-93

इस कार्यक्रम में पुरस्कार की राशि आयोजकों द्वारा प्रदान की जावेगी। एक विशेष सार्वजनिक कार्यक्रम में श्रेष्ठ पत्र-पत्रिकाओं को पुरस्कार राशि, प्रशस्ति पत्र, स्मृति चिन्ह,

श्रीफल, शाल एवं चन्दनहार से सार्वजनिक रूप से सम्मानित किये जाएँगे एवं समाचार पत्रों में सूचना दी जायेगी।

अतः सम्पूर्ण जैन समाज के सभी पत्र-पत्रिकाओं के माननीय सम्पादक महोदयों से नम्र निवेदन है कि अपने-अपने श्रेष्ठ प्रकाशन पत्र की प्रतियाँ परिपद् के पते पर अवश्य प्रेषित करें।

सम्पर्क सूत्र—

बाबूलाल जैन 'उज्ज्वल'

105, तिरुपति अपार्टमेंट्स, आकुर्ली क्रास रोड नं. 1,
काँदिवली (पूर्व), वम्बई-400101 (महा)
फोन 8881278

कार्यक्रम के आयोजक—

श्री शांतिप्रसाद जैन मैनेजिंग ट्रस्टी
श्री मूरजमल श्रीमाल मेमोरियल ट्रस्ट
4 एफ-2 (ए), कोर्ट चेम्बर्स
4 माला, 35, न्यू मरीन
लाईन्स, वम्बई-400002
फोन 299979, 2011067

विनीत—

दीपचन्दभाई गार्डी—अध्यक्ष
शांतिलाल छाजेड—महामंत्री
शांतिप्रसाद जैन—आयोजक
चंद्रनमल चाँद—परामर्शक

आचार्य सम्राट श्री आनंद ऋषिजी म मा की शत शत व दन करते हुए। आचार्य प्रवर श्री दवेन्द्र मुनिजी म सा आदि ठाणाओं के भीलवाडा (राज) में 1993 का चातुर्मास, ज्ञान, दशन, चारित्र एव तप की आराधनाओं में परिपूर्ण होने की मंगल कामना करते हुए।
हादिक शुभकामनाओं सहित।

फोन न 48

साई कृपा एम्पोरियम

एव

होटल श्री साई शंकर

टहने के लिए अति उत्तम व्यवस्था
मिर्ठी जिला अहमदनगर-423109

नोट—हमार यहां ५२ साई वारा की चाँदी, अगूठी, एक काइम, लॉबिट, फाटा आटिकल्स सभी प्रकार की वस्तुएँ भिन्नने का एक भाग स्थान।

—प्रो शिवचन्द्र डी पारख

श्रमण सघीय प्रवतक प रत्न श्री रूपेन्द्र मुनिजी म मा प्रवतक श्री उमेश मुनिजी म मा आदि ठाणा सिम्बडी (गुज) का 1993 का चातुर्मास ज्ञान, दशन, चारित्र एव तप की आराधनाओं में मगन, यशस्वी, ऐतिहासिक बने ऐसी मंगल कामना करते हुए।

हादिक शुभकामनाओं सहित।

❧ अरिहन्त फर्नीचर्स ❧

निर्माता एव विक्रेता—स्टील अलमारी, सोफा सेट, पलंग, बेअर, टेबल, रेस्त, सनमायका टाप, बुडन फर्नीचर आदि।

209, जवाहर माग, राजमोहल्ला, इन्दौर-452002
फोन (ऑ) 60331 (र) 68188

❧ सम्बन्धि फम ❧

❧ अरिहन्त इलेक्ट्रॉनिक्स ❧

डॉक्टर टी.बी. रडियो, टेप, फेन, कूलर, मिक्सर, गेस्टर, ट्यूब, इलेक्ट्रॉनिक्स एण्ड इन्फ्रिड्रव भागान के विक्रेता।

177/10, वैष्णव स्टेडियम, मार्केट,
जवाहर माग (राजमोहल्ला), इन्दौर (म.प्र.)

श्रमण सघीय प्रवतक प रत्न श्री उमेश मुनिजी म मा एव श्री रूपेन्द्र मुनिजी म मा की आज्ञानुवर्ती विदुषी महामती श्री भद्रबालाजी, म सा महामती श्री मुनिताजी म मा ठाणा 3 महिदपुर का 1993 का चातुर्मास की मगन कामनाएँ करते हुए।

हादिक शुभकामनाओं सहित।



सुन्दरम् विअर



रेडीमेड वस्त्रों के थोक एव खेरेबी व्यापारी
22, सुमाप चौक, इन्दौर (म.प्र.) 450002

❧ सहायगी-प्रतिष्ठान ❧

❧ अरिहन्त इन्टरप्राइजेस ❧
वेशर हीन मार्केट इमली बाजार, इन्दौर (म.प्र.)

॥ जय गुरु हस्ती ॥

आगमन प रत्न पूज्य आचार्य प्रवर श्री 1008 श्री हीराचन्द्रजी म सा ठाणा 5 के जयपुर (राज) के मंगलमय चातुर्मास के उपलक्ष में—

व

विवाकर मणि, कविरत्न पूज्य उपाध्याय प्रवर श्री केवलमुनिजी म सा ठाणा 3 के अलसूर (बंगलोर) के सवाये वर्षावास के उपलक्ष में।

एव

वक्षिण विजेता पूज्य प्रवर्तक श्री रूपचवड़ी म सा उपप्रवर्तक श्री सुकनमुनिजी म सा आदि ठाणा के सेहवाज (राज) चातुर्मास के उपलक्ष में—

— हमारी हादिक मंगल कामना —

वन्दनकर्ता

शा राजमल, गौतमचन्द्र, नवरतनचन्द्र अस्तबाल
वटारिया हाउस”

No 53 Hind Main Road, 4th Cross, Nagappa
Block, BANGALORE-560021

वर्तमान में समग्र जैन समाज के राष्ट्रसंत

वर्तमान में सम्पूर्ण जैन समाज में लगभग 165 जैन आचार्य एवं दस हजार से भी अधिक जैन साधु-साध्वियाँ जी विद्यमान हैं। कई पूज्य जैनाचार्यों-मुनिराजों को राष्ट्रसंत की पदवी से विभूषित भी किया है। उन सभी की जानकारियाँ यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं। अगर इनके अलावा भी कोई आचार्य-मुनिराज राष्ट्रसंत की पदवी से सम्मानित हों तो वह भी हमें शीघ्र सूचित करने का कष्ट करे ताकि समग्र जैन चातुर्मास सूची में उनको सम्मिलित किया जा सके। अगर निम्नलिखित नामों में किसी को राष्ट्रसंत की पदवी प्रदान नहीं की हो तो वह भी सूचित करे। यहाँ सिर्फ प्राप्त जानकारियों के अनुसार ही विवरण प्रस्तुत किया जा रहा है।

- (1) दिगम्बर समुदाय के आचार्य श्री विद्यानन्दजी महाराज
- (2) दिगम्बर समुदाय आचार्य श्री विद्यासागरजी महाराज
- (3) दिग. समुदाय के आचार्य श्री सुधर्मसागरजी महाराज
- (4) श्वेताम्बर तेरापथी समुदाय के आचार्य श्री तुलसी
- (5) श्वेताम्बर मूर्तिपूजक तपागच्छ के आचार्य श्री पद्म सागर सूरेश्वरजी म. सा
- (6) श्वेताम्बर मूर्तिपूजक त्रिस्तुतिक सघ के आचार्य श्री विजय जयतसेन सूरेश्वरजी म सा "मधुकर"
- (7) श्वेताम्बर स्थानकवासी श्रमण सघ के श्री कमल-मुनिजी म सा "कमलेश"
- (8) विदेशों में जैन धर्म-प्रचारक अन्तर्राष्ट्रीय सत आचार्य श्री सुशीलकुमारजी
- (9) पूर्व तेरापथी मुनिराज श्री नगराजजी डी. लिट (दिल्ली)

कुछ दिवंगत राष्ट्रसंत:—

- (1) श्वेताम्बर मूर्तिपूजक अचलगच्छ समुदाय के आचार्य श्री गुणसागर सूरेश्वरजी म. सा
- (2) श्वेताम्बर स्थानकवासी श्रमण सघ के आचार्य सम्राट श्री आनन्दऋषिजी म. सा
- (3) श्वेताम्बर स्थानकवासी समुदाय के उपाध्याय कवि श्री अमरमुनिजी म सा
- (4) श्वे मूर्ति समुदाय के आचार्य श्री विजय कीर्तिचन्द्र सूरिजी म. सा ।

मानव चिंतन

हे मानव, तू अपने मन को एकाग्र एवं शांत भाव से यह विचार कर कि तू कहाँ से आया है, यह तेरे को पता नहीं है कि तू पिछले भव में कौनसी गति में था तेरे अच्छे कर्मों के कारण ही तू मानव योनि में आया है। और तेरे को यह भी ज्ञात नहीं है कि तू आगे कहाँ जाने वाला है यानी इस मनुष्य गति के बाद इस देह को छोड़कर आगे कौन सी गति में जायेगा इस बात का भी तूझे पता नहीं है।

तो फिर इस दुर्लभ मानव जीवन को तू क्यों व्यर्थ गंवा रहा है तेरे पूर्व जन्म के पुण्य कर्मों के उदय से यह मानव जीवन मिला है, मानव जीवन में भी जैन धर्म जैसा उच्च कुल मिला है तो फिर इस संसार में बुरे-खोटे कर्म क्यों कर रहा है। आज तो तू हिंसा, खून-खरावा, वेईमानी, लड़ाई-झगड़े, मन-मुटाव, ईर्ष्या, अहम आदि के कार्य कर रहा है वह किसके लिए कर रहा है, क्या यह सब तेरा साथ देगा। यह संसार मतलब का है, सब यही रख रहा जावेगा, तेरे साथ इस मानव भव में तेरे द्वारा किये गये सतकर्म, भलाई, दया, दान आदि ही साथ जाने वाले हैं।

अतः अपने मन को शांत करके एकाग्र मन से चिंतन करो कि भविष्य में अच्छे कार्य ही करना है।

श्रमण संघीय तृतीय पट्टधर

आचार्य सम्राट श्री देवेन्द्रमुनिजी म. आदि ठाणा-7

परम विदुषी महासती श्री जसकुँवरजी म मा.—परम विदुषी महासती श्री पुष्पवतीजी म सा. महासती श्री प्रकाशवतीजी म सा महासतीजी श्री सुमित्राजी म सा

आदि ठाणा 30 (कुल ठाणा 37)

के भूपालगज भीलवाड़ा के 1993 के ऐतिहासिक चातुर्मास पर शत-शत वदन / अभिनन्दन !

श्री व. स्था. जैन श्रावक संघ,

भूपालगज (भीलवाड़ा)

(राजस्थान)-311001

अध्यक्ष,
तेजमल गांग

मंत्री
नवरतनमल चौधरी

श्री वर्द्धमान जैन ज्ञानपीठ

का

जीवन प्रेरक उत्साहवर्धक साहित्य

धार्मिक, दार्शनिक, सामाजिक उत्थान, सांस्कृतिक, रिवाजोत्तम, उत्कृष्ट, उन्नत साहित्य सूची

| आगम | | कहानी | |
|---|--------------|-----------------------------|-----------|
| ① निग्यायार्थिका मूत्र (मूत्र कथ विवेचन सहित) | 10-00 | ① आगम युग की कहानियाँ भाग-1 | 4-00 |
| व्याकरण | | ② आगम युग की कहानियाँ भाग-2 | 4 00 |
| ② कुमायपात्र चरित्तम् (द्वितीय महाकाव्य का सवप्रथम हिन्दी अनुवाद) | 30 00 | ③ आगम युग का कहानियाँ भाग-3 | 5-00 |
| जीवन-व्याख्यान | | ④ आगम युग की कहानियाँ भाग 4 | 5-00 |
| ③ जन दिवाकर तत्रतान की दिव्य किरणें उपन्यास | 3 00 | ⑤ कहानियाँ का गुनदस्ता | 10 00 |
| ④ जैन महाभारत भाग-1 प्रीत मेरी बनी छटे | 35-00 | ⑥ नटवा नाच झूमके | 5-00 |
| ⑤ जैन महाभारत भाग-2 बापू प्रेम की जमर बतरी | 40 00 | ⑦ चतवत शब्द महकन भाग | 11-00 |
| ⑥ जैन महाभारत भाग 3 विप बुद्धे वचन बाप | 50-00 | ⑧ स्वाथ व नजरिये, | 7-00 |
| ⑦ जय हात सवेरा | 5 00 | ⑨ जीवन तर रूप अतर | 3-00 |
| ⑧ नारा की गति | 5-00 | ⑩ कहानी आर कहाना | 7-00 |
| ⑨ नारी गति साहासर्णी | 5 00 | ⑪ प्रेरणा व प्रकाश स्म्भ | 4-50 |
| ⑩ शून आर फन | 4 50 | ⑫ प्रेरणा की अमिट रजाल | 3-50 |
| ⑪ चन्द्रदृष्ट | | ⑬ का कहानी मुना | 4 00 |
| ⑫ जैन रामायण भाग 1-2-3 शेर-छद | प्रतीक्षा तर | सगीत | |
| ⑬ बेटे डाले | 5 00 | ⑭ गानों की मजुर तान | 12-00 |
| | | विचार | |
| | | ⑮ अनुमति व शब्दशिल्प | 6 00 |
| | | ⑯ मिश्र पुण | 3 00 |
| | | ⑰ विचार मूत्र | 4-00 |
| | | ⑱ अनुभव के मुस्ताफन | 6-00 |
| | | ⑲ रिचारा की दृष्टियों | (प्रेम म) |

नाट-साचनाय, तापरेगी मस्थाला का 15 प्रतिशत बुकमनम का 20 प्रतिशत तथा व्यक्तिगत धरिदी पर 10 प्रतिशत वर्माण दन का प्रादमान ह। पत्रिक, डान व्यय नेता का बहन कर्ना हामा।

प्राप्ति स्थान

मन्त्री, श्री वर्द्धमान जैन ज्ञानपीठ

मु पो तिरपाल, बाया-नादेशमा

जिला-उदयपुर (राजस्थान)

अ. भा. समग्र जैन संस्था डायरेक्ट्री का प्रकाशन

भारत जैन महामण्डल के सहयोग, मार्गदर्शन द्वारा अखिल भारतवर्षीय स्तर पर सम्पूर्ण विश्व के समग्र जैन समाज में वर्तमान में कार्यरत सभी जैन संस्थाओं की डायरेक्ट्री का प्रकाशन करने का निश्चय किया गया है। इस डायरेक्ट्री में समग्र जैन समाज की सभी तरह की संस्थाओं के बारे में पूर्ण जानकारियाँ प्रस्तुत की जावेगी ताकि सम्पूर्ण जैन समाज की सभी संस्थाओं एवं गतिविधियों की सम्पूर्ण जानकारियाँ एक जगह आसानी से जान हो सके। यह डायरेक्ट्री भारत जैन महामण्डल के सहयोग, मार्गदर्शन से तैयार की जा रही है। भारत जैन महामण्डल ने इस कार्य को पूर्ण करने के लिए श्री शांतिप्रसादजी जैन को अध्यक्ष एवं श्री वावूलाल जैन उज्जवल को सयोजक नियुक्त किया है। इस कार्य को मुचारू रूप से पूर्ण करने हेतु एक समिति का भी गठन किया गया है जिसमें ग्यारह सदस्य नियुक्त किये जावेगे।

समाज की इस महत्वपूर्ण डायरेक्ट्री में निम्नलिखित जानकारियों का विवरण सम्मिलित किया जायेगा।

कार्य की रूपरेखा

1. धार्मिक - जैन मंदिर, स्थानक, दादावाडी स्मारक, दर्शनीय स्थल का पूर्ण विवरण।
2. सामाजिक - जैन सौख्यल संस्थाएँ, स्वयं सेवक संस्थाएँ, मित्र मण्डल, सेवा मण्डल आदि।
3. चिकित्सक - जैन अस्पताल, शिविरो, अस्पतालों में योग्यता।
4. जैक्षणिक - जैन कॉलेज, स्कूल, पाठशाला, धार्मिक अभ्यास की जैक्षणिक संस्थाएँ।
5. जीवदया - गीणाला, पाजरापोल, कबूतरखाना, वकराणाला आदि।
6. धर्मशालाएँ - जैन धर्मशालाएँ, सेनेटोरियम, सराय आदि।
7. भोजन शालाएँ - जैन भोजशालाएँ आदि का विवरण।
8. प्याऊ : जैन समाज द्वारा बनाई गई प्याऊ का विवरण।
9. संगीत मंडली - जैन संगीत मंडलियों का विवरण।
10. जैन पत्र-पत्रिकाएँ - समग्र जैन समाज की पत्र-पत्रिकाओं का विवरण।

11. जनगणना - (अ) हर क्षेत्र की जैन आवादी की जनगणना (अनुमानित)। (ब) हर क्षेत्र में जैन समुदाय वार परिवार की संख्या (अनुमानित)।
12. पदाधिकारीगण - हर संस्था के पदाधिकारीगण के सम्पर्क सूत्र, फोन नम्बर।
13. संस्थाओं के नाम - हर जैन संस्था का सम्पर्क सूत्र, फोन नम्बर आदि।
14. कार्यकर्तागण - प्रत्येक क्षेत्र में प्रमुख जानने-पहचाने कार्यकर्ताओं का विवरण।
15. पुस्तकालय वाचनालय : पुस्तकालय वाचनालय, लायब्रेरी आदि।
16. साहित्य संस्थाएँ - जैन साहित्य संस्थाएँ आदि।
17. ऐतिहासिक क्षेत्र - ऐतिहासिक क्षेत्रों का विवरण।
18. पदाधिकारीगण - प्रत्येक संस्थाओं के पदाधिकारी का नाम।

अतः आप में नम्र निवेदन है कि आप भी अपने-अपने क्षेत्रों की उपरोक्त जानकारियाँ निम्न स्थल पर भिजवाने की कृपा करें। भारत जैन महामण्डल एवं श्री वावूलाल जैन उज्जवल वम्बई के द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि भी आपकी सेवा में शीघ्र ही आने वाले हैं उनको भी आप उपरोक्त जानकारियाँ अवश्य प्रदान करने की कृपा करें। यह कार्य भी आपका अपना समाज का एक महत्वपूर्ण कार्य है।

इसी आशा के साथ—

विनीत

शांतीप्रसाद जैन—अध्यक्ष
चंदनमल 'चौद'—महामंत्री
वावूलाल जैन 'उज्जवल'
संयोजक

सम्पर्क सूत्र—

वावूलाल जैन 'उज्जवल'

105, तिरुपति अपार्टमेंटम्

आकृर्नी कोम रोड न 1, कादिवली (पूर्व),

वम्बई-400101 (महाराष्ट्र) फोन 8881278

॥ जय आनंद ॥

॥ जय महावीर ॥

॥ जय देवेन्द्र ॥

आचार्य सम्राट श्री आनंद ऋषिजी म मा का शत शत वरुन व a ह्य आचार्य प्रवर श्री देवेन्द्र मुनिजी
 म मा आदि ठाणाया का नीतवाडा (गज) मे एव श्रमण मर्घीय महाह्वार प ररुन श्री
 मूर्तचन्द्रजा ना ठाण उका निम्बुहडा म 1992 का चातुर्मास ग न ररुन, चारिण
 ए न तप का आगप्रनाया म परिपुण हल का मगत वाधना वरुन हूणे ।

हार्दिक शुभकामनाओ के साथ-

फोन नं दुबान 412116
 निवाम 112372

महेन्द्र सैव भण्डार

इन्दौर के जग प्रसिद्ध
 महेन्द्र के नमकीन

उत्तम सामग्री से निर्मित

विशेषतः—नींग की सब रतलार्मा, सब, खट्टा, माटा भिन्नवर हर घनिय युक्त चिबडा भिन्न का एकभद्र म्या ।

63 भातगज चौराहा जवाहर भाग इन्दौर (म प्र) 152002



सर्वाधिक प्रतिष्ठान

फोन नं-412372

✽ प्रकाश एण्ड कम्पनी ✽

स्टान, मिट्टी, मसूफेवच एण्ड मल-
 जवाहर टेकरी, 21 गड, इन्दौर (म प्र)



✽ महेन्द्र के नमकीन ✽

मना मगीता मनगड, टावर चौराहा, इन्दौर (म प्र)

—गुमेच्छुन—

गगाधर भवरलाल जैन,
 इन्दौर (म प्र)

साधु-साध्वी सिंघाडा (ग्रुप) परिवर्तन सूची

सम्पूर्ण जैन समाज में जितने भी पूज्य साधु-साध्वीयों हैं वे सभी अपने अपने सिंघाड़ों (ग्रुप) में हमेशा रहते हैं। वे हमेशा उसी ग्रुप के साधु-साध्वीयों के साथ विचरण करते हैं चातुर्मास करते हैं। उनमें जिस ग्रुप में जो बड़ा साधु-साध्वी हों उसी का अगर नाम लिया जाता है तो सभी समझ जाते हैं कि इनके साथ अमुक अमुक साधु-साध्वीयों हैं परन्तु श्वे. स्थानकवासी समुदाय में कई समुदाय ऐसी भी जिनके साधु-साध्वीयों हमेशा एक ग्रुप-सिंघाड़े में कभी नहीं रहते। इस वर्ष उनके साधु-साध्वीयों उस ग्रुप में मिलेंगे यह जरूरी नहीं कि आपको अगले वर्ष भी या हमेशा-हमेशा वे ही साधु-साध्वीयों उस ग्रुप में हों वे हमेशा साधु-साध्वीयों को एक दूसरे के साथ चयन करते मिलेंगे और उनके साधु-साध्वीयों बिना किसी एतराज परेशानी के चाहें जिस ग्रुप के साथ उसी तरह से रहते हैं जैसे उन्हें पता ही नहीं कि उनको एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में भेजा है और वे जिस ग्रुप में हैं, वह भी तो अस्थायी ग्रुप है। हो सकता है कल फिर किसी के सपास जाने का नम्बर आ जावे। वैसे तो मोटे तौर पर तो कई समुदायों में यह फेर बदल होता रहता है लेकिन जहाँ ऐसा करना आवश्यक होता है वे उन समुदायों का विवरण यहाँ दिया जा रहा है।

- (1) श्वे. स्थानकवासी ज्ञान गच्छाधिपति तपस्वी राज श्री चंपालालजी म. सा. का ज्ञान गच्छ समुदाय,
- (2) श्वे. स्थानकवासी समुदाय के प्रसिद्ध वक्ता श्री सुदर्शन-लालजी म. सा. का समुदाय,
- (3) श्वे. स्थानकवासी कच्छ आठ कोटी नानी पक्ष समुदाय।

इसके अलावा प्रायः कर सभी समुदायों के साधु-साध्वीयों का सिंघाडा ग्रुप हमेशा एक जैसा बना रहता है।

—सम्पादक

साधु-साध्वी जीवदया-शाकाहार का प्रचार करें

अगर महाराष्ट्र प्रान्त के जलगाव निवासी श्रीमान् रतनलालजी सी बाफना सर्राफ स्वयं के द्वारा खानदेश क्षेत्र के लगभग 50 हजार शरावियों मांसाहारियों को मांसाहार, शराव आदि का त्याग करवाकर उनके एवं उनके परिवारों को सुखी बनाकर कल्याण का कार्य स्वयं कर सकते हैं तो जैन समाज के 10 हजार साधु साध्वीयों उनसे कम नहीं है ये सभी 10 हजार साधु-साध्वीया अहिंसक एटम बम हैं अहिंसा के मार्ग से अहिंसा रूपी एटम बम से अगर देश आजाद हो गया तो अगर सभी 10 हजार साधु-साध्वीयों चाहें तो पूरे देश को अहिंसा रूपी एटम बम से कल्याण के मार्ग पर ले जा सकते हैं। सभी साधु-साध्वीयों से नम्र निवेदन है कि आज के युग में आपकी काफी आवश्यकता है आप एक नियम अवश्य बना लें कि अहिंसा, जीवदया, शाकाहार के लिए प्रतिदिन कुछ न कुछ कार्य अवश्य करेंगे। क्योंकि आप समाज के आधार स्तम्भ हैं आप जैसा उपदेश देते हैं समाज उसका अवश्य पालन करता है। और अगर अब भी आपने इस ओर ध्यान नहीं दिया तो फिर देखते जावों आगे क्या क्या हाल होने लगेगा। आज से 10 वर्ष पूर्व किसी गली रोड, स्टेशन आदि पर अंडों के ठेले आमलेट आदि के दृश्य दिखायी नहीं देते थे आज गाड़ी कहा तक आ पहुँची। उत्तर मध्यभारत की अपेक्षा दक्षिण भारत में पशु-पक्षियों की कितनी कमी आ गयी।

अतः सभी पूज्य धर्माचार्यों, मुनिराजों साध्वीयोंजी से नम्र निवेदन है कि आप जीवदया, शाकाहार का कार्य करने के लिए जोरदार अभियान छेड़ें। सफलता अवश्य प्राप्त होगी।

—सम्पादक

जैन एकता सन्देश पत्र में अपना साहित्य समीक्षार्थ
अवश्य भिजवावें

ममी पूज्य माधु-माध्वियों की कोटि-कोटि

कन्दन अभिन्दन ।

* हार्दिक शुभकामनाओ सहित -

रूपराज टेलर्स

235 जवाहर म ग, (मानगन),

इन्दौर (म प्र) 452002

विशेषताएँ - पेन्ट, कोट बुशर्ट, सफारी, कुर्ता

एव सूट स्पेशलिस्ट ।

शुभेच्छुक ।

सुरेशचन्द, कन्हैयालाल धरिया
(पोरवाल)

15, नर्मदह राजा, इन्दौर-452 002 (म प्र)

॥ जय महावीर ॥

जानाय सम्राट श्री जानन्द त्रिपिजी म मा की जत जत
वन्दन करन हूण, आचाय प्रवर श्री देवेन्द्र मुनिजी म मा
जादि ठाणा के भीरवाडा एव महामनी श्री वान के वजी
म मा के अतीवठ रामपुरा (राज) के 1993 ता
चातुर्मास म नान दशन, चाग्रि एव तप की आगप्रता
करने हूण यही शुभकामनाया महित—

हार्दिक शुभकामनाओ सहित:-

श्री सुपार्श्वनाथ सेंव भण्डार

ममी प्रकार के समकौन एव मिठाइयो के विक्रता

प्राग राट, त्रिना जयनाल के सामन,
इन्दौर-452002 (म प्र)

-प्रो हसराम पारसचन्द जैन

श्री महावीराम नम



श्री गणेशाय नम

आचाय सम्राट श्री जानन्द त्रिपिजी म मा की काटि-काटि कन्दन करन हूण आचाय प्रवर श्री देवेन्द्र मुनिजी म मा
जादि ठाणा ता भीरवाडा महाहवार प रन श्री मुनचदजी म मा जादि ठाणा निम्वाहेडा का
वय 1993 का चातुर्मास, नान दशन, चाग्रि एव तप की आगप्रता करन हूण भगवतमय हा, मेमी भगवतकामना
करने हूण ।

हार्दिक शुभकामनाओ के साथ



फोन दुकान- 412467,

फोन निवास- 410829

राजेश ट्रेडर्स ★ RAIESH TRADERS

घो, तेल, शक्कर एव शुद्ध खाद्य पदार्थों के विक्रेता

104, जान मण्डी, मन्दायन मेनरोड, इन्दौर (म प्र) 452002

प्रो राजेश जैन

॥ जय महावीर ॥

॥ जय-अजरामर ॥

महान क्रान्तिकारी शासनोद्धारक श्री अजरामरजी स्वामी जिनके सान्निध्य से सिंह भी शांत हो जाते थे एक संस्मरण

आचार्य श्री अजरामरजी स्वामी जितने जानी व प्रतिभा-सम्पन्न थे, उससे भी कहीं अधिक वे निडर व साहसिक थे। एक बार की बात है। विस 1845 में आप अपने शिष्य-वृन्द के साथ कच्छ से विहार कर झालावाड व लीम्बडी (फिल्हाल सुरेन्द्रनगर जिला) की ओर पधार रहे थे। थानगढ से चोरवीरा गाँव जाने के लिए विहार हो चुका था, उस समय इस एरिया में भयंकर जगल था, जिसमें सौराष्ट्र के प्रसिद्ध शेर-जैसे हिंसक वन्यप्राणी स्वच्छन्द रूप से विचरण करते थे।

यकायक उस जगल में किसी सिंह की गर्जना सुनकर स्वामीजी के साथ चल रहे शिष्य बुरी तरह से डर गये, तथा स्वामीजी को कहने लगे कि वे आगे की ओर विहार का विचार त्याग दे। शिष्य इतने डर गये कि वे बार-बार स्वामीजी को विहार के लिए मना कर रहे थे।

स्वामीजी ने महज भाव से विनम्रता से शिष्यों को उत्तर दिया कि आप लोगो को तनिक भी डरने की आवश्यकता नहीं है। वम महामन्त्र नवकार मन्त्र का जाप करते रहो तथा मेरे पीछे चले आओ। शिष्यगण डर तो रहे थे किन्तु स्वामीजी की आज्ञा को टाल भी नहीं सकते थे। अतः स्वामीजी के पीछे ही लिए।

अतः शिष्यों की बात सच ही निकली। घने पेड़ों के झुरमुट में एक विशालकाय शेर दहाडता हुआ स्वामीजी की ओर आगे बढ़ा। शिष्यगण बुरी तरह काँप रहे थे, लेकिन स्वामीजी निश्चल व निर्भीक रहे। स्वामीजी और शेर की आँखें चार हुईं, किन्तु स्वामीजी अणमात्र विचलित नहीं हुए। स्वामीजी की यह निडरता और उनकी आँखों में अगाध प्रेम व करुणा एव सौम्य-मुग्धविन्द देखकर शेर ने भी रास्ता छोड़ दिया। और स्वामीजी शिष्य समुदाय के साथ व शेर अलग दिशाओं में बढ़ने लगे।

इस प्रसंग में स्वामीजी में धीरज, निडरता व नवकार मन्त्र के प्रति श्रद्धा तथा आत्म-विश्वास और भी दृढ़ हो गया। उनका मानना था कि यदि हमारे मन में अहिंसक-भाव है तो कैसा भी हिंसक प्राणी क्यों न हो, उसकी हिंसक-भावना ही वदल जाएगी। “अहिंसा-प्रतिष्ठाया तत् सन्निधौ वैरत्यागः”—यह पातजल योगसूत्र का महाकाव्य चरितार्थ हो जाएगा।

अध्यक्ष : श्री सरदार सोसायटी स्थानकवासी जैन संघ, सुरेन्द्रनगर

सौजन्य : चामुण्डा कॉटन ट्रेडर्स

शाह हसमुखलाल मनसुखलाल (सियाणी वाले)

कॉटन मर्चेन्ट

मेहता मार्केट, सुरेन्द्रनगर-363001 (गुजरात)

फोन - ऑफिस-21243, 23074 निवास-22462

तारे ते तीर्थ

भारत का महान तीर्थ श्री आगामी तीर्थ पाश्र्वनगर

सम्पूर्ण भारत में एक मात्र अति भव्य एवं अमूर्ति मुद्र परमात्मा श्री शंखेश्वर पादबनाय भगवान का भव्यार्ति भव्य श्री समवसरण महामंदिर का मय निर्माण धर्म प्रभावक पूज्य आचार्य प्रवर श्रीमद विजय दक्ष मूर्तीश्वरजी मसा एव पचास प्रवर श्री प्रभाकर विजयजी मसा आदि पूज्यवरगो को मदप्रेरणा से सम्पन्न हुआ है।
विम 2046 (मार्गवाडी 2047) वैशाख मास 6 के पावन शुभ शिवम नाथा मन्ना की शुभ भावना के साथ 17 माह एवं हर्षोल्लास के साथ अजनानाका प्रतिष्ठा महान्त भी सम्पन्न किया गया था।

- * धमनाता उपश्रय, भातनाता मेनेटेरियम आदि की जाधुनिक मभी मुनिघाआ के साथ प्राण होने पर भव्य तीर्थ धाम में मायिक पद्म शाति का मुद्र अनुभव हाता है।
- * महाताय का भव्य निर्माण सम्पन्न हो चका है एवं विजय निर्माण बाय अभी भी चल रहा है।
- * शासन प्रेमी मज्जना का भय सागर पा उत्तरन के निर गेन महानोय का महान अरुन तेना वाशिंग।
- * ट्रस्ट की ओर से अर्थ मभी का मात्त आमन्त्रण है कि ऐसे मज्जनीय का यात्रा करन अवश्य पराने, आप मभी का हार्तिक स्वागत है।

श्री समवसरण महामंदिर पाश्र्वनगर,

चान पठ राट, आगामी तीर्थ बाया विरार (वेस्टन रेलवे) जिला ठाणा (महाराष्ट्र) 401301

-निवेदन-

श्री शंखेश्वर पादबनाय जन ट्रस्ट (आगामी तीर्थ) ट्रस्टी मण्डल

साहित्य सम्राट माडे जाठ इनाक प्रमाण नूतन साहित्य के महान मजक ब्याकरण वाचस्पति, पद्म पूज्य जैनाचार्य महाराज श्रीमद विजय लावण्य मूर्तीश्वरजी महाराज साह्य का सम्बृन व्याकरण विषयक तमाम साहित्य निम्न स्थान पर उपलब्ध मिलेगा।

सूची पर अवश्य मगाज।

हादिक शुभ कामनाओ सहिय

साहित्य सम्राट

साहित्य प्रचार केद्र

पाश्र्व नगर चान पठ राट

आगामी तीर्थ, बाया विरार (वेस्टन रेलवे)

जिला ठाणा (महाराष्ट्र)-401301

हादिक शुभ कामनाओं सहित

श्री दक्ष ज्योत

भारतीय संस्कृति के अदर्शों का पर पर मे र्जान के उद्वेग्य म प्रशंसित हाने वाता बाध्यतामिक भासिक जैत पर प्रेरक पन्थाम प्रवर श्री प्रभाकर विजयजी म

नश्री-श्री महान भाई एफ गेट

मपादक श्री मुखेश के शाह

श्री दक्ष ज्योत मन और जाना हाता का पुष्ट करता है।

आजीवन शुल्क 501/- रुपये

वार्षिक शुल्क 51 रुपये

दक्ष ज्योत कार्यालय

पाश्र्व नगर, चाल पठ राट,

आगामी तीर्थ, बाया विरार, (वेस्टन रेलवे)

जिला ठाणा (महाराष्ट्र)-401301

बनासकांठा जिला सहायक फण्ड ट्रस्ट

प्रधान कार्यालय: जीवन विहार, 2 माला, ऑफिस न 4, शेयर बाजार के सामने,
फोर्ट, बम्बई-400023 (महा) फोन 291310-3073686

शाखा कार्यालय: श्री पोपटलाल जोशी (कार्यालय मंत्री) सस्कार सोमायटी, सग्द्वारगज के पास,
पालनपुर-385001 (गुजरात) फोन न 2906

नोट:—यहाँ जो यह मेटर प्रकाशित हो रहा है, इसमें सभ्र है इसके हिंदी मुद्रण में कई तरह की अशुद्धियाँ रह गयी है। यह मेटर उन्होंने ही बम्बई से पेज बनाकर भेजे हैं। समयभात्र में ऐसा हो गया। पाठकगण भूल सुधारकर पढ़ें।

सपादक

* साडे छह दशकसे बनासकी खुशक धरा पर अेक सेवारत मुमुक्षने सेवाका यज्ञ शुरु कीया है। वे राहतप्रवृत्तिओके आद्यप्रणेता है। उन्होंने मानव, पशु, पक्षी अेवं श्वान सेवाक, प्रण लीया है। ५० सालोंसे निरंतर सालाना २५० प्याऊ का आयोजन करतें है। गर्मी के दिनमें जलाशय, प्याऊ ईत्यादि अमृत समान जलसे हजारों आत्माओ की क्षुधा तृप्त करते है। भारत वर्षमें बेनमून यह प्रवृत्ति ५ दायकोमे वटवृक्ष समान बन गई है। पिछले ६ सालोंमें पशुओके लिये ६५ जलाशय बनाकर गावोंको समर्पित कीये है। उसके निर्मलजल हजारों मूक पशुओंको पीने मिलते है। इस प्रवृत्तिके आत्मा समान है पालनपुर के श्री कनैयालाल दुर्लभराम भणसाली अैसा संगीन कार्य यद्यपि होता होगा धन्य है उस विरल सेवार्थी -परमार्थीको

—बाबूलाल जैन 'उज्ज्वल'

संकल्प और सिध्धी

६५ सालोंसे सेवाका यज्ञ शुरु है। ५१ सालोंसे प्रतिवर्ष दोसौ प्याऊका आयोजन होता है। भारतराष्ट्रमें सुप्रसिध्ध अंबाजी धाममें १० स्थायी प्याऊ और जैन महातीर्थ शंखेश्वरमें ४ वार्षिक प्याऊ चलती है। बनासकांठामें १२५ वार्षिक एवं ग्रीष्म कालीन प्याऊ चल रही है। हजारों लोगोको शितल जल मिलता है और रोजाना अंदाजित ६० हजार पशुओको स्वच्छ जल पिलाने हेतु ६ सालमें ट्रस्टकी निगरानीमें ६५ जलाशय बनाकर संबंधित गावों या पांजरापोलोको सोंपा गया है। उद्यपि १५ नये काम भी शुरु है।

७ सालसे दत्तक लिये गये चबूतरोंमें नित्यक्रम से ३० किलो अनाज डाला जाता है। अनगिनत पक्षी इसका लाभ उठाते है। दो सालसे श्वान - रोटीघर चालु कीया गया है। प्रत्येक श्वान - रोटीघरमें नजदीकी गाँवोंके ५० श्वानोंको भरपेट खाना दीया जाता है।

१११ पक्षी - चणघरके निर्माण हेतु मैंने वर्तमानमें संकल्प कीया है। प्लान मुताबिक ये पक्षी चणघर लोहेके बनाये जाते हैं और वह गुर्जयेश, राजस्थान तथा महाराष्ट्रके आवश्यक गावोंको स्थानिक संस्थानों द्वारा निःशुल्क दीये जाते हैं। इसका प्रतिभाव खास सराहनिय है। आजपर्यंत ५० चणघरोकी मांग आई है और ईस उत्तम कार्यके लिये जिवदया प्रेमी महानुभावों की ओरसे दो लाख रुपयोंकी धन राशि प्राप्त हुई है। अैसी विरल दानगंगा बहानेवाले ये सभी दाता विशिष्ट पुण्यके अधिकारी बने है। इतने सुन्दर प्रतिभाव के लिये बहोत बहोत धन्यवाद । आपका ये सहयोग चिरकालीन स्मृतिमें जीवंत रहेगा।

संगेमरमरसे सुशोभित २५ शीत-वारिगृहोका नवनिर्माणका संकल्प गत वर्षमें कीया था। अेक आर्कीटेक्ट और अेक इंजिनियरने इसका अंदाजित खर्च ३५ लाखका बताया है। समाजके भिन्न वर्गोंसे उदारचरित दाता अवश्य मिल जायेगे नजदीकके भविष्यमें पालनपुरके प्रधानदाता श्रीमान सुरेशचन्द्र रतनचन्द्रभाई (श्री ब. का. महेता) के सहयोगसे तीन कार्य शुरु हो जायेगे। ये संपन्न हो जाने से आयोजन आगे बढ़ेगा ।

मेरी तरफसे एक स्पष्टता आवश्यक है, जीवनबीमा क्षेत्रमे मेरा काफी योगदान है मेरी ३५ सालकी कारकीर्दिमे मैने कई अवेार्ड व सिधियाँ प्राप्त की है। आमदनीके द्रष्टिकोणसे यह क्षेत्र मुझे लाभपद सिध्य हुआ है। प्रतिवर्ष पाच लाख रुपयोकी मेरी नियत आमदनी है। और ज्यादा वक्त इस कार्य हेतु दूँ तो इन्कम और भी बढ जायँ किन्तु, भविष्यकी मुझे चिन्ता नहीं है। मैं स्वयको सुखी व प्रसन्न अनुभव करता हूँ।

१२ सालके वाल्यकाल से बिना किसी अपेक्षा 'नि स्वार्थ सेवा' ही मेरा जिवनमंत्र बना है। ईन सेवाकार्योमे मैं सदैव सुख और आनंद अनुभव करता रहूँगा।

लाखो आशीर्वादोसे इस उम्रमें मैं नितोगी हूँ, स्वस्थ हूँ सेवा-प्रवृत्तिओके लिये उत्सुक हूँ। जैन समाज और मूक पशु-पक्षीओके लिये जोश, धगश और निष्ठासे सर्वस्व करने के लिये युवावस्था जितना आज भी उज्जागर हूँ।

जिवनमें कुछ करना है और सबको उपयोगी सिध्य होना है इसी अभिप्साके साथ

-- कनैयालाल भणसाली

गौरवशाली गुजरात के लभ्यप्रतिष्ठ पुत्रालोने मनुष्यजिवन में अनेकविध क्षेत्रोमे इतिहास रचा है। जिवनबीमा क्षेत्रमें जैसे अेक बहमुखी प्रतिभावंत सितारोका नाम साढे तीन दशकोसे ख्यात है। जैसे बीमा उत्तारनेका कार्य कोश्रम मांगनेवाला है। यह कार्य उस प्रतिभाके हाथों अेक कुशल कारीगरकी भाति संपन्न होता है। उस प्रतिभाका नाम है श्री कनैयालाल दुर्लभराम भणसाली सन १९५७ से अपनी जिवनबीमाक्षेत्र की कारकीर्दिके प्रथम वर्षसे ही प्रगतिके चतुगु शृंग सर करते हुअे वे रेकार्ड की परंपरा बनाते आये हैं।

श्री भणसालीने अपनी ३५ सालकी उज्ज्वल बीमा कारकीर्दिमे करोडो रुपयोके बीमा उत्तार कर अनेक घरोंमे प्रकाश फैलाया है। उनके प्रिमियमके, कमीशनके लाखों रुपयें प्रतिवर्ष पिछडे इलाकोंमें पानी, मकान और बिजली जो कि तीन

जिवनावश्यक जगरतें है उसके लिये खर्च कीये जाते है। इस प्रकार देशके उत्पानके लिये गुर्जरिभयोके अेक पनोते पुत्र श्री कनैयालाल भणसालीके अखिरत परीश्रम के फलस्वरुप बीमाक्षेत्रसे प्राप्त लाखों रुपयोका यह विगिष्ट पदान है।

हिन्दी व्यापारी महामंडलने मुल्कमें बचतसेत्रमें अप्रतिम योगदान देनेके लिये भारतके अग्रगण्य बीमा अेजन्ट श्री भणसालीको दि २० २ ८२ को कलात्मक स्वार्जत शील्ड का अवेार्ड देका सम्मान कीया था। जैसा सर्वोच्च मान प्राप्त करनेवाले श्री भणसाली बीमा जगतमें प्रथम है।

सन १९८२ में अमेरिका की दो संस्थाओंने अप्रतिम समाज सेवा व बीमा क्षेत्र की उज्ज्वल कारकीर्दि के लिये श्री भणसालीको अवेार्डसू दीये है। सन १९८६, १९८७, १९८८ और १९८९ के सालोंमे उन्होंने प्राप्त की सफलताओंने नये राष्ट्रव्यापी कीर्तिमान बनाये है। भारत सरकारकी ओरसे ४ जुलै, १९८८ को पाटनगर दिल्लीमें उनका अभिवादन हुआ। नेशनल अवेार्ड मिला और सन १९८८ के वर्षकी श्रेष्ठ सिध्य के लिये भारत के नामको रोशन करते हुवातारक अभियन्ता जैसे श्री भणसालीका सम्मान १८ जूनके शुभ दिन केनेडा - टोरन्टो की विदेशभूमि पर हुआ। Million Doller Round Table (Chicago) बीमा अेजन्टोंकी वित्त कार्यकारिणीके प्रोत्साहित करती विश्वकी यह अेक अप्रतिम संस्था है। केनेडा की सफर से वापिस आनेपर उनकी 'बीमा कारकिर्दि' विषयक वार्तालाप ता ६ ९ ८९ के रोज आकाशवाणी बोम्बे 'अे' २८७ ४ मिटर्स से प्रसारित हुआ था।

सुप्रसिध्य बीमा अेजन्ट श्री भणसाली ७ बार "कोरोडपति" बनकर और लाखों बीमाअेजन्टों की अखिल हिन्द स्वर्णि ६ बार प्रथम आकर गुर्जरभैया का नाम प्रदीप्त कीया है। ३५ सालकी कारकीर्दिमें ३१ स्वर्ण चंद्रक, ५ नेशनल व अमेरीकन अवेार्ड और ४ १ लाख २० हजारके पारितोषिक जीतकर अेक अनुदा इतिहास उन्होंने रचा है। अेजन्टोंमें 'शिरोगणि' श्री भणसाली की ये सफलताओं हिन्दुस्तान की १२५ सालकी बीमा तवारिखमें मूयपि बेझाडे रही है। बनासकांठा की धातीकी शानको उजागर करते ईत नरपूंगव के लिये पालनपुर, बनासकांठा और समग्र गुजरात गौरवन्वित हो अैसी ये सफलताओं है।

धन्यताके कदम कदम

१) बम्बई के फोर्ट विस्तारमें स्थित जिवनबीमाकी शाखा नं. ९२१ में इस वर्षकी १९ वी अप्रैलको मैं बीमा संबन्धी कार्यमें रत था तब अेक बिलकुल अजनबी गृहस्थने आकर मेरे सन्मुख रुपयोंकी ढेर रख दी और चलने लगे। मैंने उन्हें रोकना चाहा पूछा तो उन्होंने उत्तर दिया 'मैं' अपना नाम देना नहीं चाहता। मैं आपके नामसे प्रभावित हूँ। ये मेरे पांच हजार रुपये सेवाके कार्यमें खर्च करना इतना कहकर वे चलने लगे। यह द्रश्य देखकर मेरे इर्द-गिर्द सब अचबे में पड़ गये।

दिलावरी का सबको दर्शन हुए

२) ३० अप्रैलको मेरे निवासस्थान पर फौन आया। रिसीवर उठाते ही सामने से आवाज़ आई आपको ११ हजार रुपये देना चाहता हूँ। रुपये आपको उधर मिल जायेगे। विगत चार वर्षोंसे ये सज्जन निरंतर रुपये ग्यारह हजार भेजते है।

धन्य दिल: धन्य जीवन

३) बम्बई की मूलजी जेढा मार्केट की गौरसगलीमे बैठते अहमदाबाद के श्री रमेशचन्द्र जयन्तिलाल की कंपनी का पत्र आया कि, 'आदमी को भेजकर चैक मंगा लेना। '१ ली मे के मजदूर दिनको उधर मैं गया तो उस व्यक्तिने कहा आईये! आपको कितने रुपये चाहिये? मेने कहा '४ चवूतरों और १ जलाशयकें लिये १५,५०० रुपयोकी आवश्यकता है। उन्होने चैक बनानेकी सूचना दी। इस दौरान मैं उनको राहत योजनाओं संबन्धमे विस्तृत परीचय दे रहा था। तत्काल वे बोल उठे। 'मैं आपको सालोंसे पहचानता है। बनासकांठा में आप जैसी निःस्वार्थ सेवा शायद ही कोई करता होगा। रुपयोंकी जरूरत हो तब अवश्य फिर आ जाना।

उदारचरित कदरदान व्यक्तिको सलाम

४) सालोसे एक ग्रीष्मकालीन प्याऊका खर्च देनेवाले एक सज्जनका पत्र आया। मैं उन्हे १४ मईके दिन मिला। मैंने इस वर्षके लिये रु. १,००१ की जरूरत बताई, तो उन्होने कहा, 'आप सुन्दर कार्य कर रहे हो। आपके कार्यसे हम प्रभावित है। मेरे

और मेरे स्वजनोंकी ओरसे आपको रु. १०,००१ की पहल पूर्ण करता हूँ। दाता श्री जगजीवनदास त्रिकमदास जरीवाला, जि. सुरत, सारोलीके वतनी है और तीन दशकसे बम्बई के ३ रा भोईवाड़ामें जरीका व्यापार करते हैं।

सरलदिलकी दिलावरीके लिये धन्यवाद

५) सन. १९८५ के वर्षका यह अेक प्रसंग है। अेक दोपहर मैं डाक देख रहा था। अेक लिफाफा खोलते ही उसमेंसे १०० रुपयोंकी २० नोटें निकली संलग्न पत्रमें लिखा था, आपकी सेवाअे प्रशंसनिय है। ये रुपये सेवाकार्यमे व्यय किजीयेगा।

धन्य घडी: धन्य दिलावरी

६) महावीर जयन्ति - २२ वी अप्रैल के दिन अहमदाबादके दैनिक 'प्रभात' की आफिसमें जाना हुआ। समाचार विभागके सम्पादक श्री रमेश लखलाणी को पहलीबार मिलना हुआ तो उन्होने कहा, कनीभाई, हम आपको सालोंसे पहचानते है। इस निडर अखबार के ख्यातिप्राप्त तंत्री स्व. कक्कलभाई कोठारी और उसके बाद उनके तेजस्वी पुत्र स्व. गुणवन्तभाईका आदेश था कि 'बनासकांठाके अनन्य सेवाभावी कार्यकर श्री भणसाली की प्रवृत्तिओके वृत्तांत बिना किसी संकोच प्रकाशित करते रहना आज सेवाकी भावना लुप्त हो गई है, तब अेशो-आराम की जिन्दगी गुजारते आप बनासकांठाके आँसू पोछने इस उमरमें रेगिस्तान जैसे प्रदेशमें जाकर भारी कष्ट उठाते हो यह देखकर हमारा मस्तक झुक जाता है।

* अकाल राहत परीपत्र नं. २,

दि. २१.५.१९८६ से उध्यृत।

महामानवोंकी द्रष्टिसे

* जूना पालनपुर राज्यके समर्थ वझीर व डेप्युटी पोलिटीकल एजेंट स्व. रावसाहेब श्री मणिलाल भाईचन्दभाई मेहता ने दि. २५.९.६७ के अेक पत्रमें लिखा है 'कनीभाई जो कार्य कर रहे है वे आजसे नहीं, बल्कि सालोंसे स्वयंप्रकाशित है। दिनदुःखी और भूखसे बिलखते गरीब लोग उन्हें कई आर्शीवाद देते है। वे अच्छा पुण्य उपार्जित करते है। अनेक शुभ राहतकी प्रवृत्तिओमे प्रवृत्त रहना और शक्यतः सभी सेवाओं देना यह उनकी प्रवृत्ति है।'

* श्री भणसाली की विशिष्ट प्रकार की कार्यशैली की प्रशंसा दि १३ ४ ६४ के मालाह वेल्फ़र ऐसोशिएशन पर के एक खतमें गुजरात राज्य के शाहीव मुख्य मंत्री श्री बलवन्तराय मेहता ने लिखा है, "श्री भणसालीने जो काम किया है उसके बारे में जितनी प्रशंसा की जायें उतनी कम है। उन्होंने जो सेवाएँ दी हैं, उस बदल उन्हें जितना सम्मान दीया जाये उतना कम है।"

* वित्तपाल्ल से 'गुर्जर साहित्य रत्न' स्व श्री अमृतलाल पाणिफने लिखा है, 'कर्मवीर और बीमारल के उपनामसे ख्यात बने श्री कनैयालाल भणसालीने जिवनबीमानिगम के लिये अपने कौशल और नि सीह परिश्रम से जो सफलता प्राप्त की है वह सिर्फ पालनपुरके लिये ही नहीं किन्तु, समस्त गुजरात के लिये गौरवान्वित घटना है। बीमा निगममें ३१ साल कार्य करते हुअे आजपर्यंत उन्हे ३१ स्वर्णचंद्रक प्राप्त हुअे वही उनकी अनुपम सिद्धिका प्रतिक है, और ८९ के वर्षमें MDRT केनेडाके लिये उन्होंने सम्पादित की हुई अनोखी सफलता भारतवर्षका गौरव बढाती है।

* कोबे से जापान जैन सपके प्रमुख और ज्ञान भोती मडल के अग्रणी सुरतनिवासी श्री फूलचन्दभाई चिमनलाल करानी लिखते हैं, जापानमें पर्युषणकी आराधना सुन्दर हुई व तपधर्या भी बहोत हुई। मेरे घरमें दो अर्घ्यायाँ हुई। ईस स्मृतिमें दो जलपान घाम बनाईयेगा। आपकी कार्य शक्ति ईस उन्नमें भी विशिष्ट है। गृहस्थोंसे धनका सद्ब्यय कराते हो। रुपये मिलते रहते हैं, किन्तु, भारतवर्षमें आप जैसे नि स्वार्थ, परमार्थी और सेवालक्ष्मी मनुष्य मिलना दुर्लभ है। आपकी उन्न शतायु हो।"

* हडाद के भूतपूर्व सरपच जमालभाई लिखतें हैं, 'बनासकांवा जिला सहायक फंड ट्रस्ट सुन्दर कार्य करता है। विशेषत हमारे दांता तालुका को अच्छा फायदा हुआ है। गरीबी रेखा से भी निम्न दशांमें जिन्दगी बीताते आदिवासी लोग के हजारों मूक पशुओंको निर्मल जल पिलाने वास्ते ४३ जितने जलाशय बनाये हैं। ईस महानकार्य की किन शब्दोंमें प्रशंसा करूँ? आपकी बहुमूल्य सेवाका लाभ मिलता रहे उसके लिये अल्लाह आपको आरोग्य प्रद दीर्घायु प्रदान करे।'

महानुभावोकी शुभकामनाएं

गुजरातके भूतपूर्व लोकप्रिय मुख्यमंत्री बाबुभाई जशूभाई पटेलने ता १४-१०-६७ को श्री कनैयालाल भणसाली संचालित श्री अभीरगढ विस्तार धान्य सहायक केन्द्र का उदघाटन करते हुअे कहा था कि, "बनासकांवामें जो राहतकार्य हो रहे हैं, वैसे राहत कार्य गुजरातमें कहीं भी नहीं हो रहे हैं, इसलिये गुजरात को बनास कांवा की राहमें चलना चाहिये।"

पू मुनिवर्य श्री स्व सत बालजीने शियालसे ता १४-१०-६७ के एक पत्रमें लिखा है, "ईतनी विस्तृत राहत-प्रवृत्तियाँ संतोष देय हैं। जहाँ कोई राहत - प्रवृत्तियाँ सुव्यवस्थित रूपसे करनेवाली न हो उधर श्रीमान भणसालीजी इतनी भावना के साथ करते रहे हैं, उन्हें तद् विशेष धन्यवाद देने चाहिये।"

भारतवर्षमें सुविख्यात बम्बई के बेताब बादशाह स्व श्री अंस के पाटिल ने लिखा है "श्री भणसाली की प्रवृत्तियोंमें जिन उत्साह, धगश और निष्कका दर्शन हो रहा है वह एक सबके लिये प्रेरणा दायक है।

टी अे आई, चैरमेन, जीविको ता ३०-६-७० का कथन है, "श्री भणसाली जैसे प्रतिभावंत अेजन्ट जीविकोमें जन्म नहीं लेते। वे स्वयं अपनी शक्तियोसे प्रकाशमें आते हैं और दूसरोको बोध देते हैं।"

पाटणसे ख्यातिप्राप्त डॉ अंबालालभाई पी शाह लिखतें हैं "आदरणीय भाईश्री कनैयालाल भणसाली को कौन नहीं पहचानता? उन्होंने प्रथम अपने कार्योंकी सुवास पाटणमें फैलाई और धन्यवादके अधिकारी बने। उनकी कार्यशैली, धगश और धैर्य देखते हमें शुरूमें लगता था कि श्री भणसाली

“वीमा क्षेत्रमे हीरो सिद्ध होंगे और आज उनका तेज निखर उठा है।”

सुरतसे पारसीवानू कोयला बेन हकीमीयान लकेच ने लिखा है, “इस अेटमयुगमे भी श्री कनैयालाल भणसाली जैसे परमार्थी मानव बसे है उससे यह प्रतित होता है कि निश्चय ही संसारमे आज भी सच्चे हीरे बिखरे पड़े है।”

वीरचंदभाई डी. पंचाल अेम. अे.; बी. अेड्, साहित्य भूषण, सी. अेस. अेस. सर्वोदय आश्रम, सणाली के ज्योतिर्धर लिखते है, “कर्मयोगी, कर्तव्यनिष्ठ, कृतनिश्चयी, विचारवत, शात, सरल निष्ठावंत बहुमुखी प्रतिभावंत और वीमा क्षेत्र के ‘जादुगर’ आदरणीय श्री कनैयालाल को न सिर्फ हिन्दुस्थान की धरा बल्कि विदेशकी धराये भी पहचानती है। पर्णाशाके तीर बसे प्रहलादपुर के निवासी इस नरयुवक नाम जीवन वीमाके इतिहासमे स्वर्णकित होगा।”

“वांड़ो कुअे व जलाशयका इतिहास भूतकालीन बन जाये इस पूर्व, मुरब्बी श्री कनीभाईने ‘जलप्रया गृहो’ का सुनिश्चित स्थान जमा दीया। बनासकाठाकी निरस सतप्तधारा पर अमृतवर्षा समान “जलपानगृह” के प्रणेता वही मान्यवर श्री कनीभाई कई निराधार विधवाओ, त्यक्ताओका आसरा “जलपानगृह” और उनका आधार वही श्री कनीभाई। ईन नि.सहायोंके अंतरके आशीर्वादोसे तो मान्यवर श्री कनीभाई दिन-ब-दिन नवयौवन प्राप्त करते हुअे सिध्दिया साफल्यकी बारिश करते जा रहे है। सेवा ही उनका जिवनमत्र एवं चालक बल है। बचपनमे देखे सेवाके स्वप्न आज साकार हुअे है। श्री कनीभाईका नाम ही निदोष, निर्भेळ, निडर, निखालस, निराडवर और निष्ठावान समाज सेवाका अहर्निश उत्साहका स्रोत, पारसमणि जैसी अद्वितीय शक्ति, विशुद्ध चरित्र निरामय स्वास्थ्य, दया और मानवता की प्रतिमूर्ति वही श्री कनीभाई। श्री कनीभाई केवल मनुष्य ही नही स्वय सजीव “कोम्यूटर” है। कनीभाई मानव नहीं “महामानव” है। अङ्ग दिलके स्वामीके संकल्पके सामने हिमालय भी मार्ग छोड़ देता है। जैसे ही श्री कनीभाई ने जिवनमे कभी हार

मानी नहीं है। उनका जिवन अपने सस्कार, सेवा, सदविचार, सद्भाव और सत्कार्यका सुभग समन्वय। वे भारतीय सस्कृतिके जिवनप्रणेता है। मान्यवर श्री कनीभाई ‘शतायु’ हो और बनासकांठाका नाम संसारमें रोशन करते रहे इसी अभ्यर्थना सहा।”

कच्छके ‘मेघाणी’ स्व. श्री दुलेराय काराणी ने लिखा है, “अेक व्यक्ति अपनी, महेनतसे कितनी प्रगति कर सकता है उसकी पूर्ण प्रतिमारूप है श्री कनैयालाल भणसाली।”

विश्वनाथ डोलरराय हाथी अेम. अे. निवृत्त निरीक्षक अधिकारी वित्तालय, द्विभाषी बम्बई राज्य, छोटा उदेपुर, दिनांक : २७-६-८६

उत्तर गुजरात की सीमाकी हदमे हमारे अविकसित बनासकांठामे आदरणीय कनीभाईकी सेवाकी सरगम सुविख्यात है। जिलेकी राहत प्रवृत्तियों के वह आद्यप्रणेता है। ६० सालोका “सेवा का स्रोत” वह उनके जिवन की मूल्यवान पूंजी है। भारतवर्षमे निराली अैसी निरंतर ४४ सालोसे चल रही बनासकांठाकी प्याऊ-प्रवृत्तिके वह “नीवके पत्थर” है। हर साल ३०० प्याऊका आयोजन करते है। बनासकांठा जिलेमे शुष्क प्रदेशमे पानी की सदा आवश्यकता रहती है। “पाणी” जो कि जिवनका “अमृत” है, उसे सूखे प्रदेशमें तृषातुर तक पहुँचाने मे “दैवकृपा” का परोक्ष कनीभाईके सत्कार्योमे देखने मिलता है। १२ सालकी आयुमे सेवाका यज्ञ जलानेका मनोरथ श्री कनीभाई ने कीया और आजपर्यंत वह इसी कार्यमे रत है। कुदरती विपत्तियोंके समय सालोसे वह मानव राहत कार्य करते आये है। सभी जीवोमे समानता, जेवो वैशिव यह उनके उमदा जिवनका प्रधान सूत्र है। सरल, विनम्र निखालस और सादगीसभर व्यक्तित्व वही कनीभाई। द्रुप्त वयमे भी निरतर कार्यरत कनीभाई कर्मयोगके अनन्य उपासक है। मनुष्य जिवन का अन्तिम ध्येय है “निजानंद” कनीभाई जिवन का आनन्द प्रवृत्तियोंके सातत्यमे से आ रहे है। उनके प्रत्येक आयोजनमे ‘सम्पूर्ण काबीलियत, दर्शन होता है। उनमे वैचारिकता, योजना, वारिकी निष्ठा अेवं प्रामाणिकता तो छिपे रहते ही

नहीं। धन्य है। कनाभाइ मेरे तेजस्वी छात्र थे। उनका जिवन निरामय और सर्वमगल प्रतिभासपन्न है। वह 'शतायु' हा औसती शुभ कामना घडी पर कृपालु जगतनियताको अतरसे प्रार्थना है।"

महाजनो की सुवास

आदीरणीय कनैयालालभाइ,

काफी अरसेसे बहोत सुदर कार्य कर रहे हो। दूर - सुदरसे भी उसकी भूरी अनुमोदना करता है। आप जो कार्य कर रहे हो, उसमे निर्देश करने की कोई आवश्यकता नहीं है औसा म सम्यता हूँ।

लि भवदीय श्रेणिकभाइ कस्तुरभाइके वदन (अहमदाबाद दिनाक २०-७-९२)

(श्रुतिवर्ष श्रेणिकभाइ शेट भारनवर्षमे फेली 'आणदजी कल्याणजी पदीयो के मेनेजिग ट्रस्टी है। और जैन समाजके सन्मानिय नगरशेट है। उनकी शुभकामनाजे सेवाकार्योमे नये ओजस फैलायेगी।)

सेवामूर्ति स्नही श्री कनैयालालभाइ,

आपकी विशालक्षेत्रीय सहायक प्रवृत्तिआस मै अत्यत प्रभावित हूँ। सिर्फ मनुष्य नहीं, किन्तु, मनुष्येतर जिव सुष्टि पर्यत आपकी प्रवृत्तियाँ विकसित है। इस जिलेको जैसे सेवक की आवश्यकता है वैसे आप अके हो यह नि सदेह है। जिलेके गरीबोको मिलती सहायमें भय्याचार आदरनेवाला की कमी नहीं, तब आम जैसे विरल मानव ही, नि स्वार्थभावसे स्वयकी धनराशिसे सेवा करते है और इतने विशाल फलक पर प्रवृत्तियाँ चला रहे है और कई सुखीसपन्न सज्जनों को इसमे जोड रहे है पर बहोतही सतोषदेय चीना है। मैं आपकी प्रशंसा नहीं करता हूँ। सत्यको प्रशंसाकी जरूरत ही नहीं। मेरे हृदयमे आपके लिये जो भाव उठते है, वही प्रदर्शित करता हूँ।

नटवरलाल याज्ञिकका स्नेहवदन

(अहमदाबाद, दिनाक २१-७-१९९२)

(सत्करामूर्ति श्री नटवरलाल याज्ञिक बनासकाठा आर्ट्स व मायन्स कालेजके भूतपूर्व प्रिन्सिपल है। वतन क प्रति

अप्युटप्रेम रखते है और प्रगति शील विचारोंके हिमायती है।)

प्रिय भाई भणसाली,

मैं आपकी सेवा प्रवृत्तियों से ज्ञात हूँ। आपका कार्य उमदा है। वीमा क्षेत्रमे अद्वितीय साफल्य के वावजूद समाजोपयोगी कार्योंमें भी समय और धनराशि खर्च करते हो। वह स्तुत्य है। ८२ वर्षकी आयु मे आप निरोगी हो और कार्यशील हो वह आपकी सेवाका फल इश्वर ने इसी जन्ममे ही आपको दिया है। गरीबोंकी सेवा ही असलमे प्रभुसेवा है।

शुभेच्छक

वलवन्त कापडीयाके वदन (श्री वलवन्त कापडीया जिवनवीमा निगमके भूतपूर्व अधिकारी है। उन्होने कईयोंमे उत्साहपूर्ति की है। जीविको के कामको सदा गतिमान रखते थे।)

कई स्व नामधन्य प्रसंग

ज्मानमे सुरत और बनासकाठा के तीस मोतीके व्यापारी व अक्सपोर्टर्स है। उसमे कोवे शहरमे बसते श्री फुलचन्दभाई चीमनलाल करानी का इसमे उल्लेख करते हुअे धन्यता अनुभव करते है। श्री करानी सुरत के वतनी है। जवान जैन सघ व मोती मडल के प्रमुख है। बनासकाठा ट्रस्टकी प्रवृत्तिओका भारी प्रशंसक है। सात जलपानधामो के प्रेरक है, दाता है। दो सुपुत्रीओ की अर्वाहृतप निमित्त दो प्याऊका निर्माण कराया। उनकी धर्मपत्नी श्रीमति रसीलावेनकी सुवर्ण जन्म जयन्ति (२० अप्रिल) के अवसर पर ७५०० रुपये मूक पशुओंके लिये जलपानधाम बनानेके लिये भेजे। तल्पश्चात् दूसरे अके विरल प्रसंगपर रु ७५०० भेजे। प्रसंग-निमित्त आते विशिष्ट दान प्रेरणात्मक होते है।

हिन्दमे १२००० से अधिक जैन सघ है। ट्रस्ट है। उनमे से अमुक हमारे ट्रस्ट को पैसे भेजते है। श्री सान्ताकुब्ज जैन तपागच्छ सघने सन, १९८८ मे पक्षीचण के लिये रु १०,००० की भव्य धनराशि दी थी। वर्तमानमें श्री गावालिया टेन्क जैन सघ, बम्बई ने रु १५००० की

अर्थपूर्ण रकम भेजी है। ट्रस्टी मंडल को धन्यवाद। बिना परीचय व बिना परीश्रम आते यह अनुदान 'शिरमोर' समान है।

भावनाशील युवान श्री पियुषभाई और श्री राजेशभाई

१४ मे, '९२ के रोज हमारी जिवन विहार की आफिसमे आये और बोले, "आपकी सेवाके यशोगान सूने हैं। हम आपको प्याऊ, जलपानधाम, श्वान-रोटीघर और पक्षीचण के लिये रु. २५००० देने आये है। नेकदिल श्री रमणीकलाल धनजीभाई शाह के इन्न सुपुत्रो को कोटिश. धन्यवाद। धानेराके निवासी बोरीवली स्थित उनका पचरत्न, ओपेरा हाऊस पर जवाहरात का व्यवसाय है। उदात्त भावना। सत्कार्यो के लिये इतनी उदार रकम देने बदल धन्यवाद।

"हमने अेक झवेरीके वहाँ आपका जलपानधाम विषयक चरिपत्र पढा। अंतरमे भावना जागी। मै आपको दो जलपानधाम के लिये रु. १५,००० देने आया हूँ।" हमारे पास आनेवाले श्रेष्ठिका नाम श्री शंकरलाल उगेश्वर रावला। पालनपुर तालुके के चंडीसरके वे ब्राह्मन है। जीविको, वम्बई शाखाके वह वीमादलाल है। यह 'उलटी गगा' बहानेवाले धन्यवाद के अधिकारी है। उनके नेकदिल विचारो मे अेक गरिमा है।

वम्बई के मेजेस्टीक शोपिंग सेन्टरमे स्थित हीरोकी पेढी पर पहली अप्रिल के दिन अवाजी प्याऊके रु. ३५०० लेने हेतु जाना हुआ। वहाँ उपस्थित हीरोके दलाल पांथावाडा के श्री मिश्रिमल मगनलाल खंडेलवाल (भायदर) की दिलकी.दिलावरी उभर आई। उन्होने कहा, "मेरे स्वर्गिय माता-पिताके आत्मश्रेयार्थ रु. ७५००० पशु-जलाशय के लिये और दूसरे रु. ५०००१ पक्षीचण के लिये देना चाहता हूँ।" धन्य है श्रीमान मिश्रिमलजी की दिलदारी को। इस साल भी अेक पक्षी चणघर के लिये रु ५००० दीये है।

१११ जलपानधाम : चिरंजीव स्मारक

प्रत्येक का रु. ८५००

संकल्प : १११ का, सर्जन (निर्माण) : ८० का

उ. आपके गाँवमें जलपानधामकी जरूरत है? लीखिये.

गुजरात के कई गाँवोंमें अबोल पशुओके पानी पीने हेतु जलाशय नहीं है। मुख्यत. आदीवासी विस्तारमें पशु पानी पिने इधर - उधर भटकते है। गुजरात, कच्छ और सौराष्ट्र मे ५०० जितनी पांजरापोल है। कई पांजरापोल मे भी पूरे जलाशय नहीं है। इस जलाशय प्रवृत्तिका हमने आरंभ ६ सालसे कीया है। ६५ जलपान धामो का कार्य सपन्न है; १५ के कार्य शुरु है। दांता तालुके के अतरीम आदी वासी विस्तारमे भी अथाग परीश्रम से ४३ जितने जलपानधाम बनाये है। स्थानिय, प्रमाणिक और उत्साही गृहस्थोकी अेक समिति बनाकर, उनकी निगरानीमे तैयार करा के, संबंधित गाँवकी पचायत को कायमी संस्थाको भावि सचालन के लिये सुपुर्द कीया गया है। स्वयं बनाये स्मारक की शिलालेखके साथ फोटो दाताको स्वयंकी खर्चसे मिल जायेगा।

सालो पर्यत टीकनेवाले सिमेन्ट, पथ्थर अेवं लोहोके यह जालपानधाम हमारे पालनपुरके प्रवृत्तिवाहक कार्यालय की देखरेखमे तैयार होते है। इसका वहीवट स्वच्छ है। हिसाब बराबर रखा जाता है। प्रत्येक दाता वह देख सकते है। हमारे बनाये गये जलपानधाम नित्य हजारो पशुओकी क्षुधा छीपाते है।

१११ के आंकको पहुँचनेका हमारा संकल्प है। यह पूर्ण करनेको हम कटीवध्य है। जिवनके अेक व अधिक प्रसगो को चिरजीव बनानेके लिये जलपानधामका निर्माण कराईये:

- १) सिर्द्धितप, अठ्ठाई, सोलह उपवास अेव मासक्षमण के कर्मनिर्जरा तपकी स्मृतिमे।
- २) जीवनयात्राके श्रेष्ठ अवसर को यादगार बनानेमे।
- ३) जन्मदिनकी खुशाली मे।
- ४) दाम्पत्यजिवन प्रवेशदिनकी खुशालीमे।
- ५) विवाहित जिवन . रजत जयन्ति वर्षकी स्मृतिमे।
- ६) व्यवसायिक क्षेत्रकी दशाब्दि, द्विशताब्दि व रौप्य महोत्सव शुभ अवसर पर।
- ७) स्नेही - सहोदर के जन्म, देहावसानकी स्मृतिमे।
- ८) देवी-देवताओकी स्मृति स्वरुपमें।

दिलावर दिल के दाता स्नेही जनकी यादमे हजारो -

लाखों रुपये देते हैं। ईधर रु ८५०१ में प्रासंगिक स्मारक हमेशा बना रहेगा। गुजराती लिपिमें बनाई गई तक्ती सुशोभन बघाती है। नगद, चैक अथवा ड्राफ्ट "बनासठकाठा जिला सहायक फंड ट्रस्ट" के नामसे भेजे जा सकते हैं।

जलपानधामा के स्थान

१) श्री शखेश्वर पार्श्वनाथाय श्रद्धा ट्रस्ट, शखेश्वर।

(जलपान धाम शखेश्वर के पास, जि महेशाणा)

२) श्री धटाकर्ण महावीर पेढी, पालिताणा।

(जलपानधाम उणोदरा, ता दाता, जि बनासकाठा)

३) श्री मुवई जैन स्वयसेवक मडल, गाडीजी चाल पायधुनी, वम्बई।

(जलाशय जैन तीर्थ माटा पाशीना, ता खेडब्रवा)

४) जलगाव (महाराष्ट्र) जैन श्वे मूर्ति सघ ट्रस्टीगण श्री दवीचदभाई जैन और जयचदभाई कोठारी।

(जलपानधाम गभीरपुर, ता दाव)

५) श्री अभिनन्दनस्वामी नम ।

(जलपानधाम आदीवासी प्रदेश, ता दाता)

६) सौजन्य हरिभक्ति चरीटेवल ट्रस्ट, अहमदाबाद।

स्व हरिभक्ति भगवादनदास स्मरणार्थ

(जलपानधाम माकणचपा, ता दाता)

७) गुडलास गेरोलेंक पन्टस् चैरीट्रस्ट, वम्बई।

(जलपानधाम फतेपुर, ता पालनपुर)

८) पू भाभादेवकी पुण्यस्मृतिमे वडवाण सिटीके धनीमा और सुरजवा परिवार की ओरसे सादा।

(जलपानधाम सामडीपरु)

९) पालनपुर क स्व दुलभराम लवजी भाई तथा स्व मातुश्री गजराबाई की पुण्यस्मृतिमे।

निवायाजलि सुपुत्र कनैयालाल भणसाली, वम्बई।

(जलपानधाम सनाली आश्रम, ता दाता,

१०) स्व जयादेव कनैयालाल भणसालीक आत्मश्रेयार्थ ।

जन्म ता ११४१९३१ पालनपुर

निधन ता २९३१९५१ पालनपुर

* जयादेव कनैयालाल भणसाली हृदय शल्य चिकित्सा

विभाग, सिविल हॉस्पिटल, पालनपुर।

शुभारम ता २४१८१ श्री कनैयालाल भणसाली और डॉ सदिप के भणसालीकी ओरसे सादा।

(जलपानधाम मोटा पोशीना जैन मन्दिर के पास,

ता खेडब्रवा, जि सावरकाठा)

११) कनैयालाल दुर्लभराम भणसाली वीमाक्षेत्रके नेत्रदीपक प्रसंगो की स्मृतिभेट

* ३१ सुवणचद्रक

* ३ नेशनल अेवार्ड

* ३ अमेरिकन अेवार्ड,

* रु १,३०,००० के पारितोषिकों के विजेता

(सन १९५८ से १९८९)

* हिन्दी व्यापारी महामंडली की ओरसे सुवर्ण रौप्य शील्ड प्रशस्तिपत्र। (सन १९८९)

* भारतीय वीमा निगम त्रिदशाब्दि वर्ष सुवर्ण चद्रक।

(सन १९८६)

* भारत सरकारका राष्ट्रिय सुवर्ण चद्रक। (सन १९८८)

* MDRT Court of the TABLE Unique Honour of at Toronto (Canada) on 18 6 1989

(जलपानधाम पावनतीर्थ अवाजी)

१२) वसुमतीवेन कनैयालाल भणसाली (तपश्चर्या की स्मृतिमे)

* उपधानतप (माला सरीयद, ता पाटण विस २०११)

* वर्षीतप धारणा हस्तीनापुर

* वर्षीतप धारणा पालीताणा

* अट्टाईतप पालनपुर

* अट्टाईतप मालाड

* ९ उपवास मुम्बई

कनैयालाल दुर्लभराम भणसालीकी ओरसे सादा।

(जलपानधाम महाजन डेला, पालनपुर)

१३) बालशिशु शिरीषके आत्मश्रेयार्थ। जन्म ता ६१०१९४३

देहात ता १०६१९४४

सौजन्य . माता प्रभावती ताराचन्द सुरजमलभाई मेहता, खार
(जलपानधाम: नवावासकांठ, ता. दांता,
१४) दो सुपुत्रों के जन्मदिन निमित्त।
सौजन्य: दादीमा प्रभावतीबेन ताराचंद मेहता, पालनपुर
(खार)
(जलपानधाम. महोबतगढ, ता. दांता)
१५) मातुश्री जमनाबाई, चन्दुलाल झवेरी (पालनपुर) के
स्मरणार्थ।
सौजन्य. सुपुत्री प्रभावतीबेन ताराचन्द मेहता, (पालनपुर)
खार।
(जलपानधाम. खटाव, ता. दाता)
१६) श्री महावीराय नम. शी माणिभद्र वीर नमः।
सौजन्य श्री रतिलाल लक्ष्मीचन्द भणसाली ट्रस्ट, मुंबई
(पालनपुर निवस्ती)
(जलपानधाम: आदिवासी प्रदेश, ता. दांता,
१७) पालनपुर निवासी स्व. पुनमचद अमृतलाल कोठारी
और उनके धर्मपत्नी चंपाबेन कोठारीके आत्मश्रेयार्थ।
अनंतयात्रा सायन . दिनांक २८ ४ ७१
सहप्रवास सायन . २९.४ ७१
सौजन्य . परिवार सदस्य बम्बई।
१८) श्री रतनचन्द्र कचराभाई मेहता, पालनपुर।
देहोत्सर्ग : बम्बई, दिनांक . ७.१२.७५
सौजन्य . सुपुत्र सुरेशचद्र रतनचद मेहता।
(जलपानधाम . खोखरीया वास, ता. दांता)
१९) घू जन्मदात्री चंपाबेन रतनचंद मेहता
अनंतयात्रा . दिनांक . २५.४.६४ पालनपुर
निवायाजलि रतनचद कचराभाई मेहता परिवार।
(जलपानधाम: वडा (महुडा), ता दांता)
२०) नमो अरीहंता।
सौजन्य. श्री महेन्द्रकुमार कुन्दनलाल मेहता, मुम्बई।
सौजन्य: श्री महेन्द्रकुमार कुन्दनलाल मेहता, मुम्बई।
जन्मभूमि: पालनपुर, दिनांक : ४.२.३१
(जलपानधाम. आदिवासी प्रदेश, ता. दांता)

२१) स्व. डोलीबेन माणेकचन्द चोकसी
(पालनपुर) के श्रेयार्थ
जन्म: धाखा। वि वर्ष: १९०८
देहांत: नवसारी। वि वर्ष १९८८
सुपुत्री शशीबेन महेन्द्रकुमार मेहता,
मुम्बई की ओरसे सादर।
(जलपानधाम: टेम्बा-बामणाज, ता. दाता)
२२) स्व. राजकारण हेमचंदभाई शाह के आत्मश्रेयार्थ।
देहांत. पालनपुर, दि, ६.७.७५ निवायांजलि. धर्मपत्नी
शांताबेन और पुत्रवधु चद्राबेन विनोदचद्र शाह, बम्बई।
(जलपानधाम.. रणोद, ता समीजि, मेहसाना)
२३) पालनपुर के चचलबेन मणिलाल हीरालाल शाह के
आत्मश्रेयार्थ।
सौजन्य: शाह मणिलाल हिरालाल परीवार की ओरसे सादर,
बम्बई।
२४) पालनपुरके स्व. कांतिलाल रतनचंदभाई मेहता के
श्रेयार्थ।
सौजन्य धर्मपत्नी सरस्वतीबेन मेहता, बम्बई।
(जलपानधाम. मंडाली, ता. दाता)
२५) पालनपुर के सरस्वतीबेन मंगलालभाई मेहता की
स्मृतिमे।
(जलपानधाम. गोठडा, ता. दाता)
२६) पालनपुरके स्व. हरीलाल मंधाचंदभाई मोदीके श्रेयार्थ।
सौजन्य: सुपुत्र ललितभाई हरीलाल मोदी बम्बई।
(जलपानधाम: रायणीया, ता. दांता)
२७) पालनपुर के स्व कालीदास जीवराजभाई शाह के
श्रेयार्थ।
निवापांजलि . सुपुत्र श्री कांतीलाल कालीदास शाह, विलेपार्ले।
(जलपानधाम: सासम, ता. पालनपुर)
२८) पालनपुरके स्व. रतिलाल कालीदास शाह और
स्व. जासुदबेन के आत्मश्रेयार्थ।
निवायांजलि: सुपुत्र श्री भरतकुमार शाह न्यूयॉर्क, अमेरीका।
(जलपानधाम: जसवंतपुरा, ता. दांता)

- २९) डीसाके श्री मणिलाल हसरामभाई शाह
(जलपानधाम सामढी, ता पालनपुर)
- ३०) श्री कातिलाल मणिलाल मेहता के सुपुत्र
स्व शरदभाई CONEY पत्रिका वालाके स्मरणार्थी
सौजन्य सी मेहता अेन्ड कुा अहमदावाद
(जलपानधाम ऊँझा पाजरापोल, जि मेहसाणा)
- ३१) स्व चिमनलाल जेचदभाई भायाणी के श्रेयार्थी
घिरविदाय पर्युषण प्रथमदिन, सायकाल ता २५ ८ ९२,
बम्बई।
सौजन्य जिवनसहचारिणी लीलावेन भायाणी।
(जलपानधाम जूना डीसा पाजरापोल)
- ३२) लीलाजन चीमलाल भायाणी, जूनाडीसा।
उपथानतप की माला मुम्बई, स १९७५ पाप सुद-१४।
सौजन्य भायाणी चिमनलाल जयचदभाई परिवार, जूविली
वाग, बम्बई-७
- ३३) शाह जेम्स, जयपुर (धानरानिवासी)
(जलपानधाम गराशिया राणपुर ता दाता)
- ३४) धानेरानिवासी श्री रमणीकलाल धन्नीभाई शाह आर
धमपत्नी जासूदवेन की पुण्यस्मृतिमे।
सौजन्य मे राजेश जेम्स, पधराल, बम्बई।
(जलपानधाम वीरमपुर ता पालनपुर)
- ३५) पायावाडा के श्री मगनलाल खडलवाल के श्रेयार्थी।
सौजन्य सुपुत्र मीशरीमल खडेलवाल, भाईन्द्रा।
(जलपानधाम खारीनाडी-राधपुर, ता दाता)
- ३६) धानेरके विमलावेन रतिकलाल मुलचन्द मेहता,
बेन्कोका।
(जलपानधाम आदिवासी प्रदेश, ता दाता)
- ३७) चडीसरके श्री शकरलाल उशेश्वर रावल ब्राह्मण।
(जलपानधाम जवारा, ता दाता)
- ३८) चडीसरके श्री शकरलाल उशेश्वर रावल, ब्राह्मण।
(जलपानधाम ता पालनपुरमे)
- ३९) गढ के स्व पुरुषात्तमदास भाईचदभाई शाहके
आत्मश्रेयार्थी।

- परिवार कातिभाई, निशात, राजमलभाई, पूर्ववेन, मद्रासा।
(जलपानधाम काढासीपपठ, वेगडीयावात, ता दाता)
- ४०) मणीवेन स्वरुपचन्द शाह (गढ) के श्रेयार्थी।
सौजन्य दिनेशभाई अेस शाह, मुम्बई
(जनपानधाम आदिवासी प्रदेश, ता दाता)
- ४१) कुभासण के स्व चदनवेन चुनीलाल शाह की स्मृतिमे।
निपायजति वादुभाई चुनीलाल शाह परिवार।
(जलपानधाम जीतपुर चौराहा, ता दाता)
- ४२) कुभासण के कमढावेन वादुभाई शाह की स्मृतिमे।
निवापजति श्री वादुभाई चुनीलाल शाह परिवार, मुम्बई।
(जलपानधाम सातपुर, ता दाना)
- ४३) भालणके स्व डाढालाल ककलचद शाह ओर उनके
सुपुत्र श्रीपाल की स्मृतिमे।
सौजन्य श्रीमति मीसनीवेन प्रकाश शाह, बम्बई।
(जलपानधाम साटोसी, ता दाता)
- ४४) मालणके स्व डाढालाल ककलचद शाहकी स्मृतिमे।
उनकी धमपत्नी जयावेन ओर सुपुत्र प्रकाशभाई की तरफते
सादर, मुम्बई।
(जलपानधाम राधनपुर खोडाढोर पाजरापोल)
- ४५) भुतेडी के स्व लीलावेन ओरवालात मानचद शाहनी
स्मृतिमे।
सौजन्य स्व जयतिलाल मणिलाल शेठ, मालाडा।
(जलपानधाम भुतेडीगाँव कुवे, ता पालनपुर)
- ४६) फीराजपुर, (ता वडगाम) के मर्हूम जनाव
गुलामरसुल इमरामी कोजर की स्मृतिमे।
सौजन्य शेठ श्री शमुदयाल चेरीटी मीत्क मार्केट ट्रस्ट,
मुम्बई।
(जलपानधाम ज्योतिपुरा धापी ता वडगाम)
- ४७) श्रीमति प्पुम्पेन वसतलाल शाह।
जन्मभूमि राधनपुर। उदय दि २५ ५ ३०
निवास सान्नाकुञ्ज।
(जलपानधाम गोधाणा, ता समी जि मेहसाणा)
(सचालन श्री राधनपुर खोडाढोर पाजरापोल)

- ४८) स्व. जासुदवेन कांतिलाल शाहके श्रेयार्थ।
जन्म: राधनपुर, वि. वर्ष - १९६४, महासुद - ६
अनतयात्रा . मुम्बई, वि. वर्ष - २०४८ विजयादशमी।
सौजन्य. श्री कांतिलाल जगजिवनदास शाह (परीवार -
सांताक्रुझ) की ओरसे सादर।
- ४९) सीतावेन धीरजलाल वकील (राधनपुरनिवासी) के
आत्मश्रेयार्थ।
- ५०) स्व. छोटालाल लल्लुभाई शाह (वाराही) के श्रेयार्थ।
अनतयात्रा. दि. १५.५.८२, मुम्बई।
निवायांजलि. राधनपुरके नयनावेन अश्विनभाई आखंड
(जलपानधाम. वाराही, ता सातलपुर)
- ५१) श्री शंखेश्वरदादा नमः।
पू मातापिता की स्मृतिमे।
सौजन्य. स्वजन स्नेही, मांगरोल (सोराष्ट्र)
- ५२) श्रीमति कातावेन लालभाई लकीस्पद मशरुवाला के
आत्मश्रेयार्थ।
वतन. अहमदाबाद, लुणसावाडा, कड़ीआ नाका
निवायांजलि: सुपुत्री अरविन्दावेन, अहमदाबाद
(जलपानधाम: आदिवासी विभाग, ता. दांता)
- ५३) श्रीमति मृदुलावेन ह. शाह, मणीनगर (ब जि.स. फंड
शुभकामनाअे) ट्रस्टको विविधलक्षी योजनाओके लिये
- ५४) कु. आकाशीबने चन्द्रकान्त शाह (जलपानधाम.
दलवाडा, ता. पालनपुर)
- (५५-५६-५७) सोरोली (सुरत) के अेस. जगजिवनदास
जरीवाला, मुम्बई के सौजन्य से।
(३ जलपानधाम: (१) घागीवास, ता. दांता (२) रायपुरा,
ता. दाता (३) वेसा, ता. वडगाम)
- ५८) श्री जयन्तिलाल चन्दुलाल शाह, की स्मृतिमे।
सौजन्य: मे. वी. अेच. शाह अेन्ड ब्रदर्स, दिल्ली।
(जलपानधाम: भाणपुर, ता. दांता, जि वनासकांठा)
- ५९) श्री मोहितकुमार वी. साहीता, भावनगर)
(जलपाधाम . केसरपुरा, ता. दांता)
- ६०) जोड़ीया (ता. जामनगर) के हमारे पू. मातुश्री जिवीवाई

- और पू. पिताश्री कल्याणजीभाई राघवजी उनडकर के श्रेयार्थ।
(जलपानधाम: अंधारीया, ता. वडगाम)
- ६१) स्व. जयन्तिलाल लक्ष्मीचंद झवेरी (गढ) के श्रेयार्थ।
जन्मदिन. दि. ३.७.१९२०, मुम्बई।
देहधिलय. दि. ३०.८.१९९०, न्युयोरक।
जिवनसगिनी जशवन्तीवेन, मुम्बई की ओरसे सादर।
(जलपानधाम: शंखेश्वर महातीर्थ)
- ६२) प्रिय सुपुत्री अ.सौ. सुशीला अेम. कोटक, विलेपार्ले।
(जलपानधाम: कंत्राल, ता खेड़ब्रह्मा, साबरकाठा)
- ६३) बगसरा, (जि. अमरेली) के स्व हडीचंदभाई नरभेराम
दोशी की स्नेहस्मृतिमे।
सौजन्य. नलीनभाई दोशी (विलेपार्ले)
(जलपानधाम. मचकोडा, ता. दांता)
- ६४) लाडोल (ता. विजापुर) के स्व. जिवीवेन ईश्वरभाई
पटेलके श्रेयार्थ
सौजन्य ईश्वरभाई जाईताराम पटेल परीवार, विलेपार्ले।
(जलपानधाम: उदावास, ता दाता)
- ६५) शेरडी (कच्छ-मांडवी) के स्व. बचुवेन वालजीभाई
वीसरीया की स्मृतिमे।
सौजन्य. श्री वालजी उमरशी और उनका परीवार (मुम्बई)
की ओरसे सादर।
(जलपानधाम रागपुरा, ता दांता)
- ६६) रुक्ष्मणीवेन (मुम्बई)
(जलपानधाम: तीर्थ अंबाजी)
- ६७) स्व. मोहनलाल हेमचंद शाहके श्रेयार्थ।
(जलपानधाम: आदिवासी विभाग, ता. दांता)
- जापानमें बसते दाता १३ (तेरह) जलपानधाम
धन्यवाद!**
- ६८) सौ. रमिलावेन फुलचंदभाई करानी
जन्मभूमि: सुरत
निवास: कोवे (जपान)
जन्मदिनाक : दि. २० ४.४२

- सुवर्णजयन्ति दि २०४९२
 सौजन्य श्री फुलचंदभाई चीमनलाल कराणी।
 (जलपानधाम राणी उमरी, ता दाता)
 ६९) सौ रमितावेन फुलचंदभाई कराणी, कोवे (जपान)
 व जि स फड ट्रस्ट को धन्यवाद।
 (जलपानधाम हडाद, ता दाता, जि वनासकाठा)
 ७०) पू जन्मदात्री पुष्पावती चीमनलाल छगनलाल कराणी
 के श्रेयार्थ।
 निवाधाजलि सुपुत्र फुलचंदभाई कराणी, कोवे (जपान)
 (जलपानधाम गनापीपती, ता दाता)
 ७१) सौ नीपावेन राजेनकुमार कराणी की अष्टाईतप निमित्त।
 सौजन्य श्वसूर फुलचंदभाई कराणी
 (जलपानधाम वाणाद्रा, ता दाता)
 ७२) पल्लवीवेन फुलचंद कराणी की अष्टाईतप निमित्त।
 (जलपानधाम मांटा पाशीना जैन तीर्थ)
 ७३) श्री महिला मडक, कोवे (जपान)
 सौजन्य अरुणावेन आर झवेरी उषावेन अनिलभाई झवेरी
 वीणावेन झवेरी और सदस्य
 (जलपानधाम रतनपुरा, ता पालनपुर)
 ७४) कुकावाच के कल्याणजीभाई राजपापटके श्रेयार्थ।
 निवाधाजलि सुपुत्र हसाराजभाई राजपापट, कोवे (जपान)
 (जलपानधाम मांटा वाभोद्रा, ता दाता)
 ७५) पू मातुश्री मदावेन कल्याणजीभाई राजपापट के
 स्मरणार्थ।
 मादर सुपुत्र हसाराजभाई राजपापट, कोवे (जपान)
 (जलपानधाम छाटा पीपाद्रा, ता दाता)
 ७६) सुरतक स्व वचुभाई फुलचंदभाई झवेरी के श्रेयार्थ।
 सौजन्य सुपुत्र कीर्तिभाई झवेरी, कोवे (जपान)
 (जलपानधाम दनपुरा आश्रम ता दाता)
 ७७-७८) पतावंदा के श्री नवीनचंद्र नागरदास शाह और
 श्रीमति पुष्पावन नवीनचंद्र शाह, मरुगा।
 (जलपानधाम (१) बगडीयावास (२) चौराणपठ
 ७९) श्री फुलचंदभाई चीमनलाल कराणी, कोवे (जपान)
 (जलपानधाम आदिवासी प्रदेश, ता दाता)
 (व जि स फड ट्रस्ट को हार्दिक बधाईयाँ)
 ८०) वि कुनाल राजन्द्र कराणी, कोवे (जपान)
 जन्म दि १७८९० चारण
 वतन सुरत
 (दिनाय सालगिरहकी रुशालीमे)
 सौजन्य पितामह श्री फुलचंदभाई चीमनलाल कराणी
 (जलपानधाम धामणवास, ता दाता)



श्री कनेयालाल भणसाली

શ્રેષ્ઠીવર્યોની અમી નજરે

આદરણીય કનૈયાલાલભાઈ,

ઘણા સમયથી ખૂબ સુંદર કામ કરી રહ્યા છો. તે હું સારી રીતે જાણું છું. દૂર દૂરથી પણ તેની ખૂબ અનુમોદના કરું છું. તમે જે સુંદર કામ કરી રહ્યા છો તેમાં સુચનો કરવાની કોઈ જરૂર જ નથી એમ હું માનું છું

અમદાવાદ, તા ૨૦-૭-૯૨

લી. શ્રેણીકભાઈ કસ્તુરભાઈના વંદન

(શ્રી શ્રેણીકભાઈ શેઠ ભારતભરમાં પથરાયેલી 'આણંદજી કલ્યાણજીની પેઢીઓના મેનેજીંગ ટ્રસ્ટી છે, અને ભારતના જૈન સમાજના નગરશેઠ છે, સન્માનીય છે. તેઓશ્રીની શુભકામનાઓ સેવાકાર્યોમાં નવાં તેજ પાથરશે.)

(* પાલણપુર સ્થાનકવાસી પ્રગતિશીલ જૈન સમાજના વર્ષો પર્યતના અગ્રણીય માર્ગદર્શક, ભૂતપૂર્વ પાલણપુર રાજ્યના નામાકિત ન્યાયાધીશ, અતિ તેજસ્વી કારકીર્દિ ધરાવતા એક સજજન માનવ, આજે વીલેપાર્લામાં નિવૃત્ત જીવન વીતાવતા શ્રી ગીરધરલાલ ફોજાલાલભાઈ ચોકસી એ તા. ૪-૨-૭૮ એ એક જાહેર સભામાં કરેલ પ્રવચન, જે એક બુક લેટમાં પ્રસિધ્ધ થયેલ છે તેમાંથી ઉધ્ધૃત.)

“શ્રી કનૈયાલાલ ભણસાલીને હું વર્ષોથી ઓળખું છું સાલસ સ્વભાવ, વિનયી વર્તાવ, સહન શક્તિ, ધીરજ, અજબ કાર્ય શક્તિ, પુરૂષાર્થ અને આત્મશ્રદ્ધા એ તેમના સફળ જીવનની ૭ મુખ્ય ચાવીઓ છે વીમા ક્ષેત્રે ભારત ભરમાં ખૂબ નામના તેમણે પ્રાપ્ત કરી છે.

શ્રી ભણસાલીને કદી નાનું કામ ગમતું નથી. તેમની દરેક પ્રવૃત્તિ 'હરણ ફાળ' જેવી હોય છે ગમે તે ક્ષેત્રે તેઓ પ્રથમ રહેવાનું જ હંમેશાં પસંદ કરે છે. તેઓ સેવાની અનેકવિધ પ્રવૃત્તિઓ વર્ષોથી કરે છે રાહત પ્રવૃત્તિઓના તેઓ 'પ્રાણ' સમાન છે. એકલા હાથે આ બધી પ્રવૃત્તિઓ જૈફ વયે તેઓ કઈ રીતે પાર પાડે છે તે, મને સમજાતું નથી.

તેમનામાં શક્તિઓનો ભંડાર છે. તેઓ ગજબની વ્યવસ્થા શક્તિ ધરાવે છે. તેમની સાહસિકતા અને સેવાની અગમ્ય ભાવના બદલ હું તેમને સાચેજ મુબારકબાદી આપું છું, અને તેમના પ્રવૃત્તિશીલ જીવન બદલ તેમને ખૂબ ધન્યવાદ આપું છું.

નિરાશા કે નિષ્ફળતા જેવો શબ્દ તેમના શબ્દ કોષમાં છે જ નહિ તેઓ સદા આશાવાદી અને ભારે મહત્વાકાંક્ષી છે, ને તે રીતે તેઓ જીવન જીવે છે તેમનામાં રહેલી વિશેષ એક

વિશિષ્ટ શક્તિઓ આ તકે ઉલ્લેખ કર્યા વિના હું રહી શકતો નથી તેમનામાં અજબની લેખન શક્તિ છે. તેમની કલમ પર હું મુગ્ધ છું. તેમની તેજસ્વી અને જોશીલી કલમથી પાલણપુરની પાંજરાપોળ માટે સને ૧૯૬૫ના વર્ષમાં તેઓએ લખી આપેલ એક વિજ્ઞપ્તી અમને ચાર લાખ રૂા. ના દાન મળ્યાં હતાં. તેમની આ વિરલ અને કુદરતી બક્ષીશ શક્તિઓને જનતા કેમ વિસરી શકે?”

(* નૂતન વિદ્યા મંદિર, કલકત્તાના મંત્રી, ધાનેરા તાલુકાના પ્રથમ હરોલના વિશિષ્ટ કાર્યકર અને મુન્શીના હુલામણા નામે પ્રસિધ્ધ સ્વ. શ્રી. કનૈયાલાલ માણેકચંદ શાહ એ તા. ૨૩-૧-૭૯ના દિને કલકત્તાથી એક પત્રમાં લખ્યું છે.:

‘સ્વાતંત્ર્યનું રણશીગું કુંકાયું ત્યારે મુરબ્બી શ્રી કનીભાઈ કોલેજમાં હતા. વેકેશનમાં ધાનેરામાં આવી અમો સૌને લોક સેવાના મંત્રો, વિદ્યાર્થી જીવનમાં કર્તવ્ય પાલન માતા પિતા પરિવાર સામેની ફરજો અને જીવન વ્યવહારના પાઠોનું અધ્યયન કરાવવાના વર્ગો ચલાવતા. અને ત્યારે સમાજ રૂઢિચુસ્ત અને અંધશ્રદ્ધાની શૃખલામાં જકડાયેલો હતો તેને જાગૃત કરવામાં પણ તેમનો ફાળો અનેરો હતો. તેમના જીવનમા સાહસિકતા, પુરૂષાર્થ અને કાર્ય કરવા માટે અપ્રતિમ ધગશ એટલી બધી વ્યાપક છે કે તેમના જીવનમાં નિરાશા મને કદાપિ જોવા મળી નથી. સતત પરિશ્રમ, પુરૂષાર્થ અને ઉર્ધ્વગામી મનોકામનાઓ વિજયની ચાવીઓ છે આ ચાવીઓથી સદા તેઓ વિજયની વરમાળા પહેરતા આવ્યા છે. તેઓશ્રી જે ક્ષેત્રમાં ઝંપલાવે છે તેમાં ‘સર્વ શ્રેષ્ઠનું’ બિરૂદ પ્રાપ્ત કરવાની તેમની હસ્તગત કળા છે. તેમના જીવનમાં મોટાઈ નથી, સાદગી છે. તેમની વાણીમાં ‘જાદુ’ ભરેલો છે. એ ઝેરને ‘અમૃત’ બનાવી શકે છે અને શોકમાં આનંદની હવા સર્જી શકે છે.

‘બોલવાનું ઓછું, છતાં કાર્ય કરવાનું વધુ’ એ એમનો જીવન મંત્ર છે. ઓછું બોલે અને વધારે કાર્ય કરે તે સેવક, અને વધારે બોલે અને ઓછું કાર્ય કરે તે નેતા એનો અર્થ એજ કે જેની જીભ નાની, તેનું કામ મોટું, અને જેની જીભ મોટી તેનું કામ નાનું. કનીભાઈ મુદ્દભાષી છે. કનીભાઈ વ્યવસાયને ગૌણ ગણે છે સેવાનું રટણ તેમની રગેરગમાં વ્યાપક છે તન, મન અને ધનથી સેવા કરવાનો ત્રિવેણી સંયોગ તેમના જીવનમાં પ્રજ્વલિત છે. જીવનનો મોટો ભાગ સેવાના ક્ષેત્રે સેવક બનીને પસાર કર્યો છે”

ટપાલના થેલામાથી મુખદ દુ ખદ તારણો

સતભરા વિદ્યાપીઠ
માતુપરા (જિ ડા 1 તા ૭-૩-૯૩

આદરણીય શ્રી કનુભાઈ,

રાધનપુર જૈન દર્શનનો જુનનો અક વાચ્યો. જીવ દયા, પાણીની પરબો આદિની પરોપકારી પ્રવૃત્તિઓ વિષે જાણીને પ્રભાવિત થઈ આપના સેવામય જીવનને બિરદાવુ છું

આપની ચબુતરા યોજના મને ઘણી ગમી છે અમારા કેમ્પના ઘણા પક્ષીઓ આવે છે ૪૦૮ આદિવાસી કન્યાઓ અમારા છાત્રાલયમા રહીને અમારી યાળામા ભણે છે ઉપરાત ૭ બાલવાડી, ૧૦ ઘોડીયાઘરો, ગોશાળા, ગૃહઉદ્યોગો, દવાખાનુ, ગામડાઓમા હેલ્થ સેન્ટરો ઈ ચાલે છે પ્રભુ કૃપાથી બધુ સરમ રીતે ચાલે છે અમોને એક ચબુતરો આપના તરફથી જોઈએ છે

લી. પૂર્ણિમા પકવાસા

(પૂર્ણિમાબેન મુબઈ દિવભાષી રાજ્યના ભૂતપૂર્વ રાજ્યવાલ સ્વ શ્રી મ ભદ્રાભાઈ પકવામાના સુપુત્રી છે સેવાની વિવિધ પ્રવૃત્તિઓમા તેમનુ નામ અને કામ મોખગનુ છે પૂર્ણિમાબેન સસ્યાના કાર્યવાહક ચેરમેન છે ટ્રસ્ટીમડળના બોર્ડમા પાલનપુરના શ્રીમત ઝવેરીઓ છે, અને અન્યત્રના મહાજનો છે બોર્ડના અધ્યક્ષ પદે શ્રી દીપચદ ભાઈ ગાર્ડી જેવા મહામાનવ છે આવી સરસ સસ્યા પોતાના આગણમા પક્ષી યણાધર ખંડુ કરે એ કેટલુ પ્રેરણાત્મક છે । -મે ટ્રટી)

૨) નદીગ્રામ ટ્રસ્ટ (જી વલસાડ)ના મેનેજીંગ ટ્રસ્ટી, લેખનકળામા નિપુણ કુન્ડનીકાબેન કાપડીયા લખે છે 'સુદર પક્ષી યણાધરની વાત વાચી ઘણી ખુશી થઈ અનોખા વિચાર માટે અભિનદન, અમે વિકમશીલા નામનુ બાળ સંસ્કારકેન્દ્ર બનાવ્યુ છે આ કેન્દ્ર માટે એક પખી ઘર મળે તો અમે ઘણા આભારી અને આનંદિત થઈશુ. પાલનપુરથી મગાવવાની વ્યવસ્થા અમે જરૂર કરીશુ'

૩) બાલારામ સંધન ક્ષેત્ર મમિતિ (ચિત્રાસણી)ના પ્રમુખ શ્રીમતી વિમળાબેન મહેતા લખે છે 'જનકલ્યાણની અનેકવિધ પ્રવૃત્તિઓમા આપે આ નવી પ્રવૃત્તિ ઉમેરી તે જાણી ઘણો આનંદ થયો ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ

૪) ભીમરાવ નગર સોસાયટી (પાલનપુર)ના પ્રમુખ

શ્રી દેવાભાઈ ધનાભાઈ પરમાર લખે છે 'જે ભગીરથ કાર્ય હાથ ધર્યું છે તે પ્રસન્નતાને પાત્ર છે જીવદયા માટે આપની સસ્યા યુગો સુધી જીવત રહો.'

૫) અભિનવ ભારતી (ઉબુ) વિદ્યાલય (વડા, તા કાકરેજ) ના આચાર્ય શ્રી છનાલાલભાઈ શાહ લખે છે 'રાધનપુર જૈન દર્શનના જુનના અકમા આપની પ્રવૃત્તિઓની ઝલક વાચી ખૂબજ પ્રભાવિત થયો છું મહાવીર પ્રભુએ બતાવેલા માર્ગે જવા માટે આ ખૂબજ યોગ્ય પ્રવૃત્તિઓ છે'

૬) ધાનેરા તાલુકા પ્રજા કલ્યાણ સેવા મડળ (એટા.) વતી હસરાજભાઈ તારાજી પ્રજાપતિ લખે છે 'અમારૂ મડળ સરકાર માન્ય છે અમે પશુપક્ષી તેમજ જન જાતિની સેવા કરીએ છીએ અમારૂ મડળ સમગ્ર ધાનેરા તાલુકામા સેવા કાર્યોમા ભાગ લે છે એટા ગામમા શ્રી ખેતરચાળ બાપજીનુ સ્થાન છે તે સ્થાને દૂરદૂરના હજારો માંગસો પગે લાગવા આવે છે યાત્રાળુઓ યજ્ઞ માટે પેસા અમે છે, પણ તળાવની પાસે ખુલ્લી જમીનમા નખાતા યજ્ઞને ગધેડા અને ઢોરો ખાઈ જાય છે વિશેષમા બિલાડી જેવા હિંસક પ્રાણીઓ પક્ષીઓને પકડી મારે છે, તે દયાજનક છે આપની પાસે અમે ત્રણ ચબુતરા એટા, વામણ અને ધરણોધર માટે માગીએ છીએ અમારૂ મડળ લઈ જવાનો ખર્ચ કરશે. (ત્રણ પક્ષી યણાધરો આપશુ -મે ટ્રસ્ટી)

૭) સહયોગકુષ્ટ પદા ટ્રસ્ટ (રાજેન્દ્રનગર) જી સાબરકાંઠા)ના મેનેજીંગ ટ્રસ્ટી શ્રી સુરેશભાઈ સોની લખે છે 'તા ૧૧-૩-૯૩ના સાબર સંદેશમા વાચ્યુ કે આપના તરફથી પક્ષી યણાધર મફત આપવાના છે રક્તપિતીયાઓ, ભિક્ષુકોના બાલકો તથા મદબુહિના બાલકોનુ આ પુનર્વસન કેન્દ્ર છે આમા ૨૮૨ માણસોને નવી જિંદગી મળી છે એવા સ્થાનમા પક્ષી યણાધરની પ્રવૃત્તિ આશીર્વાદ રૂપ બનશે. આપનો સહયોગ આ રીતે આપવા વિનતી (જરૂર આપશુ-મે ટ્રસ્ટી)

૮) શ્રીમતી ચૈની મેમોરીયલ ચેરી ટ્રસ્ટ (રાજકોટ)ના મેનેજીંગ ટ્રસ્ટી અને અચ્છા પત્રકાર શ્રી ખનકભાઈ પારેખ લખે છે 'અમે રાજકોટમા પક્ષી હોસ્પિટલ બાંધવાના છીએ. લોખંડનુ અદ્યતન ઢબનુ એક યણાધર, જરૂર ફાળવવા વિનતિ. ને રાજકોટ જિલ્લાના ગામડા માટે પદર જેટલા પક્ષી યણાધરો આપો તો અમે તે બધાની સારી રીતે વ્યવસ્થા કરશુ (પક્ષી હોસ્પિટલનો વિચાર અદ્યતન છે જરૂર આપશુ-મે ટ્રસ્ટી)

૯) શરદપૂનમ ગોંડલના તંત્રી અને જોમવંતા લોકસેવક શ્રી વિજયભાઈ ત્રિવેદી લખે છે: 'જન કલ્યાણની પ્રવૃત્તિઓમા આપની સંસ્થા તરફથી મળતા અહેવાલો બીજા ને પ્રેરણારૂપ બને તે માટે પ્રસિદ્ધ કરીએ છીએ તાજેતરમાં રાધનપુર જૈન દર્શનના જુનના અંકનો નિરાંતે અભ્યાસ કર્યો, સાચી લગનથી એક માણસ ધારે તો કેટલુ બધું સમાજોપયોગી કામ કરી શકે તેના તેમાં દર્શન થયાં ધન્યવાદ. છેલ્લા ૩૦ વર્ષથી અમે 'ગોંડલ સીટીઝન્સ કાઉન્સિલ નામની બિનરાજકીય સંસ્થા' ચલાવીએ છીએ. આ સંસ્થા કાયમી ધોરણે શિવામ્બુ કેન્દ્ર ચલાવે છે. શિબિરો યોજે છે. કુટુંબ નિયોજન, વિજળી બચત, બળતણની બચત, ગ્રાહક સુરક્ષા પ્રવૃત્તિ જેવી અનેકવિધ પ્રવૃત્તિઓ કરે છે. અમારી સંસ્થા પક્ષી ચણ પ્રવૃત્તિ કરવા ઈચ્છા ધરાવે છે, તો પક્ષી ચણ ઘર મળશે તો તેના કાયમી ધોરણે સંચાલન, નિભાવ અને ચણ તથા પાણીની વ્યવસ્થા અમે ગોઠવીશુ (સરસ પ્રવૃત્તિઓ છે. પક્ષી ચણઘર જરૂર મળશે. -મે. ટ્રસ્ટી)

૧૦) શ્રી સ્થા જૈન સંઘ (આણંદ)ના પ્રમુખ દલસુખભાઈ દેસાઈ લખે છે: 'યોજના ઘણી સુંદર છે. બે પક્ષી ચણઘરો મંજુર કરવા વિનંતિ છે. લઈ જવાની વ્યવસ્થા જરૂર કરશું. (બે આપશું - મે. ટ્રસ્ટી)

૧૧) રામનગર વિકાસ સમિતિ (ટાકરવાડા, તા પાલનપુર)ના કન્વીનર શ્રી ગોકળભાઈ પટેલ લખે છે: 'દસ વર્ષથી ૫૦ હિદુ કુટુંબોએ નવીન ગામે વસવાટ કરેલ છે ચબુતરો નથી આપશો તો જીવદયાનું ઉત્તમ કામ થશે' (ટાકરવાડાના દાતા પણ છે-મે. ટ્રસ્ટી)

૧૨) આકોલી પે. સેન્ટરશાળા (તા કાંકરેજ) ના આચાર્ય બાળચંદભાઈ શાહ લખે છે: 'હું હોઈશ ત્યાં સુધી કાળજી રાખીશ અને દરેકને જાગૃત રાખીશ, જૈનોનાં ૮ ઘર છે, દેરાસર, ઉપાશ્રય છે'. (આપશું - મે. ટ્રસ્ટી)

૧૩) જેતડા (તા થરાદ) થી પ્રજાજનો લખે છે: 'અત્રે ચામુંડા માતાનું ચમત્કારી દેવસ્થાન છે મહીમા ઘણો છે માતાજી સમક્ષ માનતા કરવા, દુઃખો દૂર કરવા, પુષ્કળ જનો આવે છે. અસંખ્ય પક્ષીઓ પણ રોજ આવે છે. ચણ માટે જાત્રાળુઓ પૈસા આપે છે. ૨૫૦૦ની વસ્તીના આ નાના ગામમા રોજ ૨૦ કિલો દાણા નંખાય છે ચબુતરો નથી ખાસ જરૂર છે. આપશો? તા ૨૩-૭-૯૩" (એ પાવન ભૂમિમાં પક્ષી ચણઘર અગણિત પક્ષીઓનો સથવારો બનશે. જરૂર આપશું - મે. ટ્રસ્ટી)

૧૪) ઉઝાથી કરસનભાઈ સોમાભાઈ પટેલ, જી.ઈ.બી. લાઈનમેન લખે છે: 'મુંગા પક્ષીઓની સેવાની કદર કોઈ ઓછી ન આકે. ભગવાનના દરબારમાં તો આ પ્રવૃત્તિનું મૂલ્યાંકન અવશ્ય થશે પાલનપુર જઈ, મેં પક્ષીઘર લોખંડનું મોડલ જોયું. ઘણું સુંદર અમને જરૂર આપશો રોડેશ્વર મહાદેવના મંદિરમાં અમારે તે ઉભું કરવાનું છે (આપશું - મે. ટ્રસ્ટી)

૧૫) કોલીવાડા (તા. સાંતલપુર) થી એક હરિજન બંધુ મેવાભાઈ પરમાર એક હૃદય સ્પર્શી પત્રમાં લખે છે: 'બનાસકાંઠા સ્ટાન્ડર્ડ દ્વારા જાણવા મળ્યું કે આપ ૧૧૧ ચણઘરોનું વિના મૂલ્યે વિતરણ કરવાના છો આપશ્રી પ્રાણીમાત્ર પ્રત્યે અનહદ દયા દાખવતા હો ત્યારે અમને પણ એમ થાય છે કે ચણઘર મંગાવી સવાર સાંજ ચણ નાખીયે તરસ્યાં પખીઓને પાણી પાઈયે, અને પુષ્પનું ભાથું બાંધીએ કેવું ઉત્તમ કામ તે મેળવવા માટેનું ફોર્મ તાત્કાલિક ધોરણે મોકલવા વિનંતિ (આપનો નંબર ૧૬૮મો છે. ધીરજ ધરશો તો મોડું પણ જરૂર મળશે. -મે. ટ્રસ્ટી)

૧૬) નવજીવન આશ્રમશાળાના સંચાલક શ્રી શંભુભાઈ યોગી, મણુંદથી લખે છે: 'આપનું કાર્ય ઉમદા પ્રકારનું અને ચિરંજીવ છે જીવનનું જે ધ્યેય છે, તે આપ હાંસલ કરી રહ્યા છો નહિ તો આ અબોલ જીવો તરફ કોણ ધ્યાન આપત? લોકોમાં જીવદયા ભારોભાર પડી છે, પણ તેનું સંકલન કરનાર પવિત્ર આત્માની જરૂર હતી આપને કોટિ કોટિ ધન્યવાદ.

દર્દભર્યા પત્રોમાંથી.....

૧૭) નવજીવન આશ્રમશાળાના સંચાલક શ્રી શંભુભાઈ યોગી (મણુંદ, તા પાટણ) લખે છે. 'અમારી શૈક્ષણિક સંસ્થા છે. જેમાં ગેરીબ, પછાત, ભટકતી જાતિનાં ૧૨૦ બાળકો, બાળાઓ ધોરણ ૧ થી ૭ નું શિક્ષણ લે છે. રહેવા, જમવાની, ભણવાની મફત સગવડ અપાય છે આ સંસ્થા આસપાસના ગામોથી બે કી મી દૂર વગડામાં છે.

આશ્રમને અડીને ચાણસમાં વીસનગરનો રસ્તો જાય છે. આટલામાં પીવાના પાણીનું કોઈ સાધન નથી રેલ્વે સ્ટેશન. ઉપર બે હેન્ડ પંપ મૂકેલા છે. તેનું પાણી તદ્દન ખારું છે. આવતા જતા સેંકડો લોકો પાણીનો પોકાર પાડતા હોય છે. બારે માસ પાણીની પરબની જરૂરત છે.

ને વગડાઉં પશુઓમાટે હવાડાની તાકીદે જરૂરત છે ઘણા

સમયથી દાતાની રાહ જોતો હતો થોડીક નિરાશા થઈ કે મારા જીવતા થુ નહિ થઈ શકે? હાલ કુ બિમાર છું, પણ ઝખના મોટી છે મરતા સુધી પ્રયત્નો કરતા રહેવું ઈશ્વર દયાળુ છે કોઈકને કોઠે દયા આવશે, અને શ્રી કનૈયાલાલ ભણસાલીજીમા, કોઠે દયા ભાવ જાગેલો જોયો ધન્યભાગ, કનૈયાલાલભાઈ

ચલુતરો તો ગામમા, શેરીમા જ એક પ્રમગની હકીકત છે પાચ વર્ષ પહેલાની આ વાત છે એક દિવસ એક બાળકે એક કબુતરને પથ્થર માર્યો પખી તરકડવા માડયુ બાળકો ભેગા થઈ ગયા તરકડતુ પખી જોવામા મજા પડવા લાગી આ ટોળું જોઈને શિસિકા બેનો અને કાર્યકરો આવા પખીન બચાવવાના પ્રયત્નો નિષ્ફળ નીવડયા એ દુ ખદ ઘટનામાથી સુખદ ઘટના ઘટી શિસિકાઓએ પખીના ગીતો ગાયા, ચિત્રો દોરાવા આપણને કોઈ પથ્થર મારે અને તેમાથી ન બચી શકીએ તો? આ પ્રશ્ન સસોના મનમા ચગડોળે ચડયો બાળકોમા તેની વેરી અસર થઈ કોઈ ઝાડનુ ઘડીયુ લાવ્યા, પતરા લાવ્યા અને ચલુતર માં બનાવ્યો તદન સાદો અર્ચ વિનાનો. આજે પણ શાળાના ચોકમા તે જજરિત દશામા ઉભો છે કોઈ અમૂલ્ય પળે ગાઠ વાળી કે આશ્રમમા પાકો ચલુતરો બનાવવોજ દાતાની રાહ જોતા હતા, ત્યા કનૈયાલાલ ભણસાલીનુ નામ સાંભળ્યુ અરજી કરી ચલુતરો આપવા હા પાડી કેવુ રૂડુ કામ રૂડા કામ અટકતા નથી ભગવાન દયાળુ છે ધન્ય ભાગ્ય

ચલુતરો તો અનિવાર્ય છે, પણ ચણચરમા સરયા સિં યા કોઈ ચણ નાખે તેવી વસ્તી નથી ગરીબ આશ્રમ વર્ષે ૫૦ મણ, અનાજ કાજલ ન પાડી શકે થુ કરવુ એ મુઠવણમા છીએ (કર્મધોગી શબ્દભાઈના પત્રોમા વિશાદની છાયા પથરાયેલી છે આશ્રમશાળાને ચલુતરો વાર્ષિક પરબ અને હવાડો (જળપાન ધામ) આપયુ ને ૩ વર્ષ સુધી, વર્ષે ૫૦ મણ અનાજ આપયુ - ચે ટ્રસ્ટી)

... ઘણા પત્રમિત્રોએ એનેજી ટ્રસ્ટી શ્રી કનૈયાલાલ ભણસાલીને પોતાની સરયાઓ જોવા નિમત્રણો આપ્યા છે કેટલાકે પોતાની સરયાઓના સાહિત્ય પણ મોકલ્યા છે આભાર

‘ શ્રી કનૈયાલાલ ભણસાલીની સેવા કકત વીમાસેરે જ મોખરે નથી પરંતુ તેઓ ઉત્તર ગુજરાત અને તેના ગ્રામ્યવિસ્તારોના ગરીબો અને દીન દુ ખીયાઓના ‘કમરાહી’ બની સેવા કરનાર એ એક ભેમધારી વિભૂતિ છે ’

તરી દેવચંદભાઈ પટેલ, વોઈસ એક મહેમાણા (તા. ૫-૯-૮૬)

પર્યુષણપર્વ: દયા પ્રેમનું મહાપર્વ

આ ભવ અને બીજા ભવનુ ઉચ્ચતર ભાથુ

દાનેશ્વરીઓ માનવ માટે લાખોના દાન દે છે છેલ્લા વર્ષમા પાલનપુરના એક સમૃદ્ધ માનવતાવાદીએ પરાના રૂણાલય માટે કરોડ આપ્યા એક ભાવનાગીલ શ્રીમતે પાલનપુરની એક હોસ્પીટલને ૪૨ લાખનુ દાન કર્યુ જિલ્લાના એક ઉર્મિશીલ ધનાઢયે પાલનપુરમા ૭ લાખ ખર્ચા, અને પોતાના વાન પ્રવેશના આ વર્ષમા એક કરોડ આબવાની ખ્યાહેય છે એક લક્ષ્મીનદનના નબીરાઓએ દુ ખીયારાના બેલીની, પોતાના શિરછત્રની સ્મૃતિ જાળવવા મુબઈમા લાખોની દેણગી કરી બીજા કેટલા નામો ગણાવુ? બે પાચ લાખના દાન દેનારા તો ઘણા છે સૌને ધન્યવાદ

વિચાર ઉદ્ભવે છે કે લાખો અને કરોડોના દાન કરનારા મુગા પશુ પક્ષીઓ માટે થુ છૂટા હાથે ન ખર્ચી શકે? જિંદગીના દુ ખીજીવોના કલ્યાણ માટે પોતાના દાનના કે નહિ તો બે પાચ ટકા પણ આપવામા સકોચ કેમ? કે પછી મુગા અને અશકત જીવો પાસે થુ આશા રખાય?

ગરીબ વિચારા એ અવાચ પ્રાણીઓના નિર્કર્ષને પ્રથમ પ્રાધાન્ય આપવુ જોઈએ- એ દુ ખીયા, ધોને સુખની છાયામા લઈ જવામા જ માનવતા ઝળમ, એમા દયા ભાવનો, અનુકંપા ધર્મનો પ્રાદુર્ભાવ પ્રગટે છે

માનવ ઉદ્ધમશીલ છે તેનામા વિચાર શકિત છે સાઈ નરસુ સમજી શકે છે, છતા તે માટેનુ દાન પણ ઉતમ છે પણ કરોની વેદના નીચે જે જીવે છે, તે અવાચ જીવોના સુખ કાજે થુ ન કરવુ જોઈએ? ભલે તેમા સામાજીક પ્રતિષ્ઠા ખૂબ ન વધતી હોય, પણ એ જીવોના લાખો આશિષો, અતરની મુચી દુવાઓ તો સદા ફળવાનીજ અબોલ દુ ખીયારાની વ્હારે ધાવુ, એટલે, પ્રભુ ભક્ષી ડગ માડવા

રાજકોટમા આજે પક્ષીઓની હોસ્પીટલના શ્રી ગણેશ મહાયા છે આપણા બનાસકાંઠાના શ્રીમતો કરોડપતિઓ, અબજોપતિઓ પણ વધુ કરી શકે ‘જીવદયા એ જ શ્રેષ્ઠ ધર્મ’, ‘અહિંસા પરમો ધર્મ’ ના સોનેરી સુત્રોને ન વિસરીયે ભલો, તેને જીવનમા આતપ્રોત કરી આ ભવ અને બીજા ભવનો, અમૂલ્ય ભાથુ બાધી જીવન સકળતાને વરીયે મુબઈ, દિનાક ૧૪-૮-૯૩

- કનૈયાલાલ ભણસાલી

ટ્રસ્ટ રજી નં બનાસકાંઠા ઈ/૧૪૩: કરમૂકત નં H QE 11P-33-21292-93 Valid upto 31-3-96

બનાસકાંઠા જિલ્લા સહાયક ઇંડ ટ્રસ્ટ

મેનેજીંગ ટ્રસ્ટી: કનૈયાલાલ દુર્લભરામ ભણસાલી


હેડ ઓફિસ : જીવન વિહાર, બીજે માળે, ઓફિસ નં. ૪, શેરબજાર સામે, ફોર્ટ, મુંબઈ-૨૩, ડાયલ ૨૬૬૫૩૧૦ રહે. ૩૦૭૩૯૯૫
પ્રવૃત્તિવાહક કાર્યાલય : પોપટલાલ જોષી, (કા મંત્રી) સંસ્કાર સોસાયટી, સરદારગંજ પાસે, પાલનપુર ૩૮૫૦૦૧ ફોન : ૨૯૦૬

અનુકંપા : શ્રેષ્ઠ ધર્મ : જીવન સફળ

ગુજરાત, મહારાષ્ટ્ર, રાજસ્થાનનાં ગામો માટે પક્ષીચણઘરો: એકના રૂા ૫૦૦૦

જરૂરિયાતવાળાઓને તે પાલનપુરથી વિના મૂલ્યે આપીએ છીએ.

(૨૪)



૧૬ ગોજના ઉંચી કિસમના પતરામાથી બનાવેલું આ પક્ષી ચણઘર ૧૫ ફુટ ઉંચું છે. અનાજ માટે થાળું ૫ ફુટનું રાખ્યું છે. નીસરણીના પગથીયાં પર હિસક પ્રાણીઓના પગો ઠેરશે નહિ. તેનું કુલ્લે વજન ૧૮૨.૭૦૦ કિલો છે.

૬૫ વર્ષથી જનહિતની વિવિધ પ્રવૃત્તિઓ કરીએ છીએ, અને વર્ષો પર્યંત એ કરવાની ખ્વાહેશ છે. એક દશકાથી મુંગાં પશુઓ તથા અવાક પક્ષીઓના લાભાર્થે થતાં આયોજનો સારાં જાય છે. ઢોરોને સ્વચ્છ જળ પાવા, ૭ વર્ષમાં ૮૦ ચિરસ્થાયી જળપાન ધામો (હવાડા)નાં સર્જન કરી તે, સંચાલન માટે ગુજરાતનાં ગામો તથા પાંજરાપોળોને અર્પણ કર્યાં છે. આજે તેનો લાભ એકાદ લાખ પશુઓને મળે છે. ૧૧૧ના આંકને આંબવાનો સંકલ્પ છે. એક જળપાનધામનો ખર્ચ રૂા. ૮,૫૦૦ છે. ને ૫૧ વર્ષથી વર્ષે બસો પરબોનું આયોજન થાય છે. શ્વાન રોટલા ઘરો ચલાવીએ છીએ. ને દત્તક ચબુતરે નિત્યે ૩ કિલો ચણ નાખવાની પુણ્યવાન યોજના ગતિમાં છે. હવે બીજી એક નૂતન પ્રવૃત્તિ ભણી ડગ માંડીએ છીએ.

સલોણા પક્ષીઓ સુરિતે ચણ પામે તે માટે ૧૧૧ પક્ષી ચણ ઘરો ગુજરાત, મહારાષ્ટ્ર અને રાજસ્થાનનાં ગામોને તદન મફત આપવાના છે આ ચણ ઘરો પાલનપુરમાં આંરાસુરી સ્ટીલ ટ્રેડર્સ બનાવે છે ૧૫ ફુટ ઉંચું છે. તેમાંથી ૨ ફુટ જમીનમાં જશે સૌથી ઉંચે પક્ષીનુ સીમ્બોલ છે તે નીચે છત્રી છે પાણી માટે બાજુમાં, બે ઠીબોની વ્યવસ્થા છે આ મજાનાં ચણઘરો રૂપેરી કે આસમાની રંગે રંગાય છે ને દરેક પક્ષી ચણઘર સાથે પ્રથમ દાતાનું નામ જોડાશે તકતીમા પ્રેરક અને જે તે ગામના સંચાલન કરનારનાં નામો લખાય છે.

દૂર દૂરથી માગણીઓ આવી છે ૧૫ મી ઓગસ્ટ પર્યંત ૧૯૧ માગ છે, અને જીવદયા પ્રેમીઓ તરફથી રૂા. ૨ લાખનો અર્થયોગ છે. પુણ્યના આ વિરલ કાર્યમાં જીવદયા પ્રેમીઓનો, ધાર્મિક સંસ્થાઓનો અર્થ યોગ ઈચ્છીએ છીએ એક પક્ષી ચણ ઘરનું ખર્ચ રૂા ૫ હજાર છે મને શ્રદ્ધા છે કે ૧૧૧ પક્ષી ચણઘરોનો અર્થયોગ મળી જશે

દરેકનો રૂા પ૦૦૦નો અર્થયોગ ધન્યવાદ પંખીઓની

લાખો દુવાઓ જીવન પથને અજવાળશે

- (૧) 'શ્રી બાબુ અમીચદ પનાલાલ આદેશ્વર જૈન ટેમ્પલ ટ્રસ્ટ (વાલકેશ્વર, મુબઈ) પક્ષી ચણવર
- (૨) શ્રી શખેશ્વર દાદા નમ પક્ષી ચણવર
પૂ માત પિતાની સ્મૃતિમા, સૌજન્ય, સ્વજનો, (માગરોળ)
- (૩) શ્રી મણિભદ્રવીર પક્ષી ચણવર
સૌજન્ય- કનેયાલાલ દુર્લભરામ ભણાસાલી પૌત્ર સૌરભ, દોહીત્ર સાગરની પ્રથમ સાલ ગીરા પ્રસંગે, મુબઈ
સ્થળ નવજીવન આશ્રમ યાળા, મણુદ, તા પાટણ
- (૪) ગજરાબાઈ દુર્લભરામ ભણાસાલી, (પાલનપુર) પક્ષીચણવર પુત્રવધુ વસુભેન કનેયાલાલ ભણાસાલી તરફથી સાદર
સ્થળ ઋતભરા વિદ્યાપીઠ, સાપુતરા, જિ ડાગ
- (૫) જયાબેન કનેયાલાલ ભણાસાલી (પાલનપુર) પક્ષી ચણવર
જન્મ પાલનપુર, દિનાક ૧૧-૪-૧૯૩૧
- (૬) સ્વર્ણકાન્ત સૌજન્ય કનેયાલાલ દુર્લભરામ ભણાસાલી સૌજન્ય કનેયાલાલ દુર્લભરામ ભણાસાલી સ્થળ જેતડા ચામુડા માતાના દેવસ્થાનના આગણે,
- (૬) પ્રભાબેન તારાચદ મહેતા (પાલનપુર) પક્ષી ચણવર
- (૭) તાગાચદ સુરજમલભાઈ મહેતા (પાલનપુર) પક્ષી ચણવર
- (૮) નમો અરિહત પક્ષી ચણવર
સૌજન્ય પાલનપુરના શ્રી મહેન્દ્રકુમાર કુદનલાલ મહેતા, મુબઈ - ૬, જન્મ ૪-૨-૧૯૩૧
- (૯) નમો ઉબ્બજયાશામ પક્ષી ચણવર
સૌજન્ય શ્રીમતી શશીબેન મહેન્દ્રકુમાર મહેતા, મુબઈ
જન્મ પાલનપુર, દિનાક - ૩૧-૮-૧૯૩૪
- (૧૦) સુમનલાલ ડાળીદાસ મહેતા પક્ષી ચણવર
જન્મ ભૂમિ પાલનપુર, દિનાક ૬-૧-૧૯૨૨
સ્વર્ગવાસ કાશ્મીર (પ્રવાસમા) દિ ૨-૫-૧૯૮૮
ધર્મપત્ની સુશીલાબેન મહેતા, મુબઈ તરફથી સાદર
- (૧૧) જયતિલાલ મોહનલાલ ભણાસાલી પક્ષી ચણવર
જન્મ ધણજ, દિનાક ૫-૪-૧૯૩૭
દેહોત્સર્ગ મુબઈ, દિ ૧૨-૭-૯૦
જીવન સહચારિણી ઈદીરાબેન તરફથી સાદર
- (૧૨) સેવતિલાલ ત્રિભોવનદાસજવેરી (ગઢ) પક્ષી ચણવર
જન્મ મુબઈ, દિનાક ૨૨-૯-૧૯૨૩
નિધન ગઢ, દિ ૨-૨-૧૯૯૦,
નિવાપાજલિ, જીવનસાથી વિમળાબે મુબઈ
- (૧૩) બાબુલાલ ચુનીલાલ શાહ (મડાણ) પક્ષી ચણવર
જન્મ મડાણગઢ, દિ ૩૧-૧-૨૪
સ્વર્ગવાસ. મુબઈ, દિ ૨૨-૩-૯૩
સૌજન્ય ભગિની વિમળાબેન સેવતિલાલ જવેરી, મુબઈ
- (૧૪) વિરાજબેન રજનીકાન્તે પટવા (પાલનપુર) પક્ષી ચણવર
ઉદય અમદાવાદ, દિનાક ૩-૬-૧૯૩૬
અસ્તેન્તે સંસારનજીવ, દિ ૨૯-૧૧-૯૧
નિવાપાજલિ સાસુ લક્ષ્મીબેન મગલજીભાઈ પટવા અને પરિવાર, અધેરી
- (૧૫) મજીબેન જીતેન્દ્ર કોઠારી પક્ષી ચણવર
૧૮-૭-૧૯૩૧ - ૧૦-૫-૧૯૯૩
- (૧૬) પુનમચદ અમૃતલાલ કોઠારી (પાલનપુર) પક્ષી ચણવર દેહવિલય સાયન, દિનાક ૨૮-૪-૭૧
સૌજન્ય કોઠારી પુનમચદ અમૃતલાલ પરિવાર, મુબઈ
- (૧૭) સુરેશચદ્ર નાથાલાલ પારી (પાલનપુર) પક્ષી ચણવર
નિવાપાજલિ જીવનસાથી કુસુમબેન પારી, મુબઈ-૨૭
- (૧૮) મણિબેન સ્વરૂપચદ શાહ (ગઢ) પક્ષી ચણવર
સૌજન્ય સુપુત્ર દિનેશભાઈ શાહ, મુબઈ
- (૧૯) લીલાબેન હરિલાલ શાહ (ટાકરવાડા) પક્ષી ચણવર
સૌજન્ય સુપુત્રો જીતુભાઈ, અભયભાઈ, જયકુમાર, સુભાષ,

ઓએ
વવા
વે

- (૨૦) પદમાબેન વસંતલાલ શાહ (રાધનપુર) પક્ષી ચણધર
સ્થળ: શ્રીમતી સૈની પક્ષી હોસ્પીટલ, રાજકોટ
- (૨૧) સ્વ સીતાબેન તથા સ્વ મહાસુખલાલ શાહ
(રાધનપુર) પક્ષી ચણધર
સૌજન્ય : શ્રી ચંપકલાલ આર મહેતા, નવસારી
- (૨૨) સુશીલાબેન જે જરીવાળા (સારોલી) પક્ષી ચણધર
સૌજન્ય: મે. એસ. જનજીવનદાસ જરીવાળા,
મુંબઈ
- (૨૩) શેઠ શાંતિલાલ ત્રિકમલાલ (લીંબડી) પક્ષી ચણધર
સૌજન્ય: જીવનસાથી ઝવેર બેન, મુંબઈ
- (૨૪) શ્રી વાડીલાલ યુનીલાલ ચેરી ટ્રસ્ટ (પાટણ) પક્ષી
ચણધર
- (૨૫) (૨૬-૨૭) પાલનપુરના દિનેશભાઈ
જોરાવરમલભાઈ મોદી (શેર બજાર, મુંબઈ - ૨૩)
તરફથી ત્રણ પક્ષી ચણધરો.
(૨૮-૨૯-૩૦) પાલનપુરનાં મધુબેન રસિકલાલ
છોટાલાલ મોદી, મુંબઈ
સૌજન્ય: સુપુત્ર પ્રફુલભાઈ મોદી, એન્ટવર્પ - ૩
પક્ષી ચણધરો.
(૩૧-૩૨-૩૩) પાલનપુરના શ્રી સુરેશભાઈ
મણિલાલ હીરાલાલ શાહ, મુંબઈ-૩ પક્ષી
ચણધરો
- ૧) મધુરીબેન સુરેશચંદ્ર શાહ (પાલનપુર) પક્ષી ચણધર
જન્મ: મુંબઈ, દિ ૨-૬-૨૪
દેહવિલય: મુંબઈ, દિ ૨૮-૭-૯૨
સ્થળ: સોયણી જૈન તીર્થ
- ૨) ચંપકલાલ ભોંગીલાલ હરડે (મહેસાણા) પક્ષી
ચણધર
જન્મ: મહેસાણા, દિ ૨૦-૩-૧૯૨૦
દેહવિલય: મુંબઈ, દિ ૮-૭-૧૯૯૨
સ્થળ : દાદાવાડી, મહેસાણા
- (૩૪) કાન્તીલાલ કકલભાઈ શાહ (પાલનપુર) પક્ષી
ચણધર
સ્વર્ગવાસ: મુંબઈ,
સૌજન્ય: ધર્મપત્ની મોતીબેન શાહ, મુંબઈ
- (૩૫) રામભરોસે (પાંધાવાડા) પક્ષીચણ ધર

પરબો મંડાવો : પુણ્ય કમાવો

બનાસકાંઠા એટલે અગન વેરતો રેતાળ વિસ્તાર, અને બનાસકાંઠા એટલે પાણીની કાંરમી અછતનો મુલ્ક. આવા પ્રદેશમાં પરબ એટલે અમૃત વીરડી. પાણી એટલે જીવન. નિત્યના હજારો પ્રવાસીઓની શીતળ જળથી પિપાસા સંતોષવા પ્રતિ વર્ષે બસો પરબોનું આયોજન થાય છે. તીર્થ સ્થાનો, નિશાળો, રૂઝાલયો. એસ. ટી સ્ટેન્ડો જ્યાં અસંખ્ય માણસોની અવરજવર થાય છે, ત્યાં પરબો જનસમાજ માટે અમૃત વીરડીઓ છે.

- ૧ જૈન મહાતીર્થ શંખેશ્વરમાં મીઠા પાણીની વાર્ષિક પરબ ચલાવવાના રૂ. ૫૦૦૦
- ૨ ભારતના પ્રસિધ્ધ યાત્રાધામ અંબાજીમાં વાર્ષિક પરબ ચલાવવાના રૂ. ૩૫૦૦ :
- ૩ મીઠા પાણીની વાર્ષિક પરબ ખારા યા રણ પ્રદેશમાં ચલાવવાના રૂ. ૨૫૦૦
- ૪ હોસ્પીટલ, સ્કુલ કે એસ ટી સ્ટેન્ડ પાસે વાર્ષિક પરબ ચલાવવાના રૂ. ૨૦૦૦
- ૫ ચાર માસ માટે ઉનાળુ પરબના રૂ. ૧૦૦૦
- ૬ દત્તક ચબૂતરે ૧૨ માસ, નિત્યનું ૩ કિલો ચણ નાખવા માટે રૂ. ૬૦૦૦, છ માસ ચણ નાખવાના ૩૦૦૦
- ૭ 'શ્વાન રોટલા ઘર' માં ગામના ૫૦ કે વધુ કુતરાઓને ૪ માસ રોટલા ખવડાવવાના રૂ. ૪૦૦૦ એક માસ માટે રૂ. ૧૦૦૦ છે.
- * દાતાએ પુરું સરનામું તથા ટેલીફોન નંબર લખવો.
- * પરબ કે અન્ય પ્રવૃત્તિ કોઈના આત્મ શ્રેયાર્થે કરવાની હોય તો સ્વર્ગસ્થનું પુરું નામ તથા વતન જણાવવું. ત્યાં બોર્ડ મૂકાય છે. સ્થળ અને પ્રવૃત્તિની દાતાને જાણ કરાય છે.
- * દાન કરમૂકત છે. પૈસા ચેક યા રોકડેથી પણ મોકલી શકાશે. બનાસકાંઠા જિલ્લા સહાયક ફંડ ટ્રસ્ટ એ નામનો ચેક લખવો.

પરબો, હવાડા, ચણા, રોટલાધરો દાનનો પ્રવાહ ધન્ય અમીરાત

આ ટ્રસ્ટમા દાનનો પ્રવાહ ભારતભરમાંથી વહે છે સૌને. દાતાઓને સતોષ થાય એ રીતે પૈમાનો સફુપયોગ થાય છે વિશિષ્ટતા એ છે કે તેના હિસાબ, દાતાઓના નામો અને થતી પ્રવૃત્તિઓ પ્રતિ વર્ષે પરિષદમાં પ્રકાશિત થાય છે ૧૯૯૦ના માર્ચ પર્યતના હિસાબો ઓડીટ થઈ ગયા છે, જે સતોષકારક છે પાલનપુરના પ્રવૃત્તિવાહક કાર્યાલયમાં તે જોઈ ચકાસ છે તે પછી તા ૧૫-૮-૧૯૯૩ પર્યત નોંધાયેલ રકમો પ્રસિધ્ધ કરીએ છીએ. રૂા ૧,૦૦૦થી ઓછુ દાન પ્રવૃત્તિ માટે ઉપયોગી નથી ને 'પક્ષી ચણાધરોના દાતાઓના નામો અન્યત્ર પ્રસિધ્ધ કર્યા છે

- ૮૦,૦૦૦ પાલનપુરના શ્રી સુરેશચંદ્ર રતનચંદભાઈ
(શ્રી બ કા મહેતા) શીત વારિગૃહ માટે જમે
૬,૦૦૦ પાલનપુરના શ્રી બ કા મહેતા, શખેશ્વર પરબ
૧૧,૫૦૦ પાલનપુરના પ્રભાવતીબેન તારાચંદ સુરજમલ
મહેતા, ખાર
૧૦,૫૦૦ પાલનપુરના સ્વ પુનમચંદ અમરતલાલ
કોઠારી, તથા તેમના જીવન સાથી ચંપાબેનના
શ્રેયાર્થે,
૭ કુટુંબીજનો, મુબઈ
૧૦,૦૦૦ પાલનપુરના સ્વ મોતીબેન શાંતિલાલ
મહેતાના શ્રેયાર્થે, સોજન્ય શ્રી શાંતિલાલ
મોતીલાલ મહેતા, મુબઈ - ૩૬
૧૦,૦૦૦ કેપુર જેમ્સ, હા પાલનપુરના વિનોદભાઈ
રાજકીરણ શાહ, મુબઈ - ૬
૧૦,૦૦૦ પાલનપુરના જૈન પરીખ કુટુંબના એક સન્નારી
(પરબો)
૨,૦૦૦ પાલનપુરના સ્વ સુરેશચંદ્ર નાથાલાલ
પરીખના શ્રેયાર્થે
સોજન્ય ધર્મપત્ની કુસુમબેન (રોટલા)
૮,૫૦૦ શ્રી રતિલાલ લક્ષ્મીચંદ ભગસાલાવી (પાલનપુર)
ફાઉન્ડેશન ટ્રસ્ટ) મુબઈ-૨૬ (જળપાનધામ)
૮,૫૦૦ સ્વ ચચળબેન મણિલાલ હીરાલાલ શાહ
(પાલનપુર)ના શ્રેયાર્થે, (જળપાનધામ)
સોજન્ય શાહ મણિલાલ હીરાલાલ પરિવાર,

- ૮,૫૦૦ ॥ નમો અરિહત ॥ (જળપાનધામ)
શ્રી મહેન્દ્રકુમાર કુદનલાલ મહેતા, મુબઈ - ૬
૭,૫૦૧ વસુમતીબેન કનૈયાલાલ ભગસાલાવી (હવાડો)
૪,૦૦૦ મેસર્સ નુરભાઈ કરીમભાઈ મુખી, કાણોદર
૧૫,૦૦૦ ધાનેરાના વિમળાબેન રસિકલાલ મુળચંદભાઈ
મહેતા, બેન્કોક
૭,૫૦૦ ધાનેરા મેટલવર્કયાય કોરપોરેશન, મુબઈ
૬,૦૦૦ ધાનેરાના ભીખાભાઈ મલાભાઈ ગાધી
પરિવાર, મુબઈ - ૬
૧૮,૦૦૦ જુના ડીસાના લીલાવતીબેન ચીમનલાલ
મેવાળી, જયુ બીલીબાગ, મુબઈ - ૮
૧૨,૫૦૦ પાયાવાડાના શ્રી મીચરીમલજી મગનલાલ
ખડેલવાલ, ભાપદર
૫,૦૦૦ નિખીલ કામચંડ (કુભામણ) મુબઈ - ૪
૩,૫૦૦ ચીતલ જેમ્સ (ખોડલા) મુબઈ (અબાજીપરબ)
૩,૫૦૦ ખીમતના સ્વ છગનલાલ જીતમલભાઈના
શ્રેયાર્થે સોજન્ય દલપતભાઈ દોશી, પાલ્લી
૧૧ ૦૦૦ રાધનપુરના શ્રીમતી પદમાબેન વમતલાલ શાહ
૧૧,૦૦૦ રાધનપુરના શ્રી વમતલાલ ધીરજલાલ વકીલ
૧૧,૫૦૦ રાધનપુરના જાસુદેવેન કાન્તીલાલ શાહના
શ્રેયાર્થે સાનાકુઝ
૧૨,૫૦૦ શ્રી અભિનંદન સ્વામી નમ (હવાડો રોટલા)
૧૧,૦૦૦ શ્રી શખેશ્વર દાદા નમ. (પૂ માતપિતાની સ્મૃતિમા
સોજન્ય. સ્વજનો, માગરોલ (સૌરાષ્ટ્ર)
૧૨,૭૦૦ અમદાવાદના મુદુલાબેન હ શાહ,
૮ ૫૦૦ લીબડીના સ્વ શાંતિલાલ ત્રિકમલાલ ચેઠના
શ્રેયાર્થે (જળપાનધામ)
સોજન્ય ધર્મ પત્ની ઝવેરીબેન ચેઠ
૮ ૫૦૦ સારોલી (તા સુરત)ના શ્રી એસ
જગજીવનદાસ જરીવાળા, મુબઈ ૩
૭,૫૦૦ મેસર્સ રંગીલદાસ ખાડવાળા એન્ડ સન્સ, સુરત
(પાય પરબો)
૩ ૫૦૦ મે તમાકુવાળા દિનેશકુમાર બિપિનચંદ્ર, સુરત
(અબાજી પરબ)
૩,૫૦૦ થાતાબેન છગનલાલ જરીવાલા (સારોલી,
મુબઈ-અબાજી પરબ

અમારે પક્ષી ચણધરો જોઈએ છે

૧૯૧

મહેસાણા જિલ્લો: (૧-૨) શ્રી ભોયણી જૈન તીર્થ
(૩) શ્રી મલ્લિ પાર્શ્વ પદમાવતી જૈન આરાધના ભવન,
ભોયણી (૪) જૈન દાદાવાડી, મહેસાણા (૫) નવજીવન
આશ્રમ શાળા, મણુંદ, તા. પાટણ (૬) રોડેશ્વર મહાદેવ મંદિર,
ઉઝા-મકતુપુર (૭) ગોપાલક યુવક વિકાસ મંડળ, તરભ
તા વીસનગર (૮) ડુલાણા, તા. ખેરાલુ (૯) મુડવાડી,
તા સિધ્ધપુર (૧૦-૧૧) લાંઘણજ વિકાસ મંડળ

સાબર કાંઠા જિલ્લો:

(૧) સહયોગ કૃષ્ણ યજ્ઞ ટ્રસ્ટ, રાજેન્દ્રનગર
(૨) બાયડ, નાગરિક સહકારી બેન્ક (૩) રાજપુર ગ્રામ સેવા
સમિતિ, તા મોડાસા (૪) મહાદેવ ગ્રુપ ગ્રામ પંચાયત
તા મોડાસા (૫) નવ જાગૃતિ યુવક કેન્દ્ર સંગઠન, ગાબટ,
તા બાયડ (૬) જોરાપુર દુધ ઉ સ મ લી (૭) આનંદપુરા
ખેડાવાડા દુધ ઉ સ મંડળી
(૬ થી ૧૧) ૬ પંચાયતો - રૂપનગર, બાદરપુરા, ભાઈપુરા,
ધરમડીચોટા, ગોંતાપુર, પ્રાંતવેલ (અરજીઓ તરત આવશે
તો મળશે - મે. ટ્રસ્ટી)

રાજકોટ જિલ્લો :

(૧) ગોંડલ સીટીઝન્સ કાઉન્સિલ (૨) શ્રીમતી શેની
મેમોરીયલ ચેરી ટ્રસ્ટના મે ટ્રસ્ટી શ્રી ખનકભાઈ પારેખ
(૩ થી ૧૭ ગામો માટે) ૧૫ પક્ષી ચણધરો જોઈએ છે
(અરજીઓ તરત મોકલશો તો તે, આપશું - મે. ટ્રસ્ટી)

ભાવનગર જિલ્લો: ગ્રામ સમાજ સેવા સઘ પીપરાલાના
પ્રમુખ શ્રી સુબોધભાઈ બારૈયા લખે છે પીપરલા, દેવલી,
નવીદેવલી, સધારા બપાડા, ઈસોરા, તખ્તગઢ, સમઢીયાળા
નવા પીપરલા, ગોરખી, વેળાવદર, બોડકી-આ ૧૨ ગામો
માટે પક્ષી ચણધરો જોઈએ છે આપશો? અમારી બીજી સ્થા
ગ્રામ વિકાસ, લોક શિક્ષણ, લોક જાગૃત્તિને લગતી પ્રવૃત્તિઓ
કરે છે

(અરજીઓ મળી નથી. તરત મોકલો. -મે. ટ્રસ્ટી)

વલસાડ જિલ્લો:

નદીગ્રામ ટ્રસ્ટ (મુંબઈની વ્યવસ્થા થઈ શકી નથી.
પાલનપુરથી મળશે - મે. ટ્રસ્ટી)

ખેડા જિલ્લો:

આણંદ સ્થા જૈન સંઘ, (બે અરજીપત્રકો મળેથી બે પક્ષી
ચણધરો આપશું - મે. ટ્રસ્ટી)

નડીયાદ: શ્રી સુનીલ ભટ્ટ (તરત અરજી ફોર્મ ભરો.)

ડાંગ જિલ્લો : ઋતંભર વિદ્યાપીઠ, સાપુતારા

પાલનપુર તાલુકો: (૧) ભીમરાવનગર સોસાયટી,
પાલનપુર (૨) સલેમપુરા દરવાજા અંદર, પાલનપુર (૩)
બાલારામ સઘનક્ષેત્ર સમિતિ (એક જેવી બે અરજીઓ
કેમ? - મે. ટ્રસ્ટી) (૪) ગણેશપટ્ટ (૫) આર. આર.
વિદ્યાલય, શ્રી અમીરગઢ (૬) આકેસણ (૭) ચંદ્ર મૌલેશ્વર
મહાદેવ ટ્રસ્ટ, વગદાં (૮) ધોળેશ્વર મહાદેવ ટ્રસ્ટ, ચડોતર
(૯) ગ્રામ વિકાસ મંડળ, દલવાડા તથા શિવશકિત મંડળ,
દલવાડા (વસ્તી જોતાં એકજ મળશે - મે. ટ્રસ્ટી) (૧૦)
ફતેપુર ગ્રામ પંચાયત કચેરી

(૧૧) ફલજીભાઈ જે પટેલ, ઢેલાણા (૧૨) જાળેશ્વર
મહાદેવપટ્ટ (૧૩) શિવરામભાઈ પંચાલ, મોટા (૧૪) નવ
ચેતન યુવક મંડળ, મલાણા ૧૫-પેડાગડા ગ્રામ પંચાયત,
જડીયાલ મોટી (૧૬) પેડાગડા ગ્રામ પંચાયત, જડીયાલ
નાની (૧૭) પેડા ગડા, પો માલણ (૧૮) શ્રી રામદેવ પીર
મડળ, માલણ (૧૯) રામનગર-ટાકરવાડા વિકાસ સમિતિ
(૨૦) વિનયમંદિર, સામઢી (૨૧) એસ બી પુરા (૨૨)
ભાખર મોટી અંબિકા મંડળ (૨૩) રૂપપુરા-જલોતરા (૨૪)
સિધ્ધાર્થ પ્રગતિ ટ્રસ્ટ, ચંડીસર (૨૫) વરસડાગ્રામ પંચાયત
(૨૬) બાવબચુડી ગ્રામ પંચાયત (૨૭) રામાપીર મદિર,
વેડયાં

દાંતા તાલુકો:

(૧) સર્વોદય આશ્રમ, સનાલી (૨) અરવિંદ આશ્રમ શાળા,
દલપુરા (૩) ભકિતજ્ઞાન આશ્રમ, મંડાલી (૪) ઉત્તર
બુનીયાદી વનવિહાર વિદ્યાલય, દલપુરા (૫) માકડી ગ્રુપ
ગ્રામ પંચાયત (૬) બારડ નવ યુવક મંડળ, મોટાસડા (૭)
નવા વાસ કાઠ (૮) દુધ ઉત્પાદક મંડળી, વિજલાસણ (૯)
પીરત વિદ્યાલય, ભચડીયા

વડગામ તાલુકો:

(૧) રૂપાલ માધ્યામિક શાળા (૨) રામપુરા પ્રાથમિક શાળા
(૩) શકિત મંડળના નોસણા (૪) પસવાદળ (૫) શ્રી
પુરુષોત્તમ મહારાજ નિરાંત આશ્રમ, માલોસણ ,

ડીસા તાલુકો

(૧-૩) રોટરી ગ્રામદળ, ભીલડી (૪) જલારામ યુવક મંડળ તાલેગઢ (૫) પ્રગતિ યુવક મંડળ, વિકોદર (૬) સેવા જાગૃતિ ટ્રસ્ટ, કુડા

ધાનેરા તાલુકો

(૧) ડૉ આબેડકર સેવા સમિતિ, બાપલા (૨) રતનપુર ગ્રામ પચાયત (૩) આમલેશ્વર મહાદેવ મંદિર, રાણીટુક પર્વત (૪) આબલીયાળ ગ્રુપ ગ્રામ પચાયત (૫-૬-૭) ધાનેરા તાલુકા પ્રજા કલ્યાણ સેવા મંડળ એટા, વાસણ, ધરબોધર (૮) ધાનેરી પ્રાથમિક શાળા (વચલોવાસ)

ધરાદ તાલુકો

(૧) પ્રજાજનો, જેતડા (૨) નારોલી પ્રાથમિક કેન્દ્ર શાળા (૩) શેણલ સેવા ટ્રસ્ટ મંડળ, માગરોળ (૪) નકળગ સેવા મંડળ, ઉદરાળા (૫) નકળગ સેવા સમિતિ, ડોડેગામ (૬) પટેલ કૃષિ કાર્મ ચાગવાડા (૭) મહાદેવ મંદિર ચોક, મડાલ (૮) પટેલ ગોળીયુ મડાલા (૯) જીવદયા સમિતિ, મલુપુર (૧૦) સર્વોદય સેવા મંડળ, ધરાદ (૧૧) માળી ધારણી મંડળ મડાલ (૧૨) કચનગ્રુપ ભજન મંડળ ભરડામર (૧૩) શિવાલય મંદિર માંદેલા તળાવ, ભોરોલ (૧૪) મોટા હનુમાન મંદિર, ભોરોલ (૧૫) શ્રીરામદેવપીર - હરીજન વામ, ભોરોલ (૧૬) નાગદેવ સેવા સમિતિ, ધરાદ (૧૭) ગાયત્રી એસાપટી, યગદ (૧૮) ભાચર

વાવ તાલુકો

(૧) સનાતન ધર્મ કાર્ય વાહક મંડળ, વાવ (૨) કપિલેશ્વર મહાદેવ પ્રાચીન મંદિર, વાવ (૩) રડકા ગ્રામ મંડળ (૪ થી ૭) કુભારખા, ભટાસણા, ચાખા તેતરવા (૮) વિષ્ણુ યજ્ઞ ધર્મશાળા ઢીમા (૯) પક્ષીધર સેવા સમિતિ આબેડકર નગર ઢીમા

રાધનપુર, સાતલપુર તાલુકા

(૧) લોટીયા ગ્રામ સેવા સમિતિ (૨) ચામુડા ટેનેરી ચર્ચ ઉદ્યોગ સમ લી નાનાપુગ (૩) ભારતીય ગ્રામ વિકાસ સમાજ સેવા મંડળ ઋષિ આશ્રમ, ગઢા (૪) બકુતરા ભકત મંડળ. દિયોદર - કાકરેજ તાલુકા

(૧) આકોલ જૈન સઘ (૨) કોરડા એજ્યુ ટ્રસ્ટ (૩) અહુલી યાવાસ - વડા (૪) ઈદભાણા

ભાપદર (જિ થાણા) ૧-૨

રાજસ્થાન સવાઈ માધોપુર, ટોંક, બુદી જિલા

(૧) મહાવીર ભવન, સવાઈ માધોપુર (૨) આદર્શનગર, સવાઈ માધોપુર (૩) રેલ્વે સ્ટેશન પાસે, સવાઈ માધોપુર (૪) હાઈસીંગ બોર્ડ કોલોની, સવાઈ માધોપુર (૫-૬) ગલીરા (૭) વ. સ્થા જૈન શ્રાવક સઘ, કુણેથા (૮) વ. સ્થા જૈન શ્રાવક સઘ, કુસ્તલા (૯) ચ્યામપુરા (૧૦) કુસ્તલા (૧૧-૧૨) ટોંક પચાલા તહસીલ ઉનીયારા, ચોર (૧૩) જિ બુદી જૈન શ્રાવક સઘ, બુદી (૧૪-૨૫) બીજા બાર આજુબાજુના ગામોના છે
૧૫ મી ઓગસ્ટ પર્યંત ૧૯૧ ગામો-મરચાઓની માગ છે, અને હજુ આવે જાય છે ૧૧૧ પક્ષી ચળવરોનો મેં સકલ્ય લીધો છે આવેલ અરજીઓમાથી અમુક તો લેવા ન પણ આવે, એટલે ઈચ્છિત જનોને લેલા મોડા અવશ્ય મળશે જરૂરિયાતવાળા સૌને મળે એ માટે અમે પ્રયત્નશીલ છીએ પણ આટલા બંધાનુ સર્જન કામ સારો સમય લેશે

- કનૈયાલાલ


ચબૂતરા દત્તક લો અનુક્રુપા ધર્મ બજાવો

આર્ય સંસ્કૃતિ અને જૈન પરંપરામા ચબૂતરાનુ સ્થાન, એનુ ભાવાત્મક સ્થાપત્ય અને અનુક્રુપાની ફીલસુફીના કારણે અગ્રીમ છે ૧૫ મી જાન્યુ ૧૮૮૭થી મેત્રાણા જૈન તીર્થનો ચબૂતરો 'દત્તક' લઈ પ્રવૃત્તિનો શુભારંભ કરેલો પચાશેક ચબૂતરાઓ ત્યારે 'દત્તક' લીધેલ ત્યાર પછી આ પ્રવૃત્તિએ સારો વેગ પકડ્યો છે પ્રત્યેક ચબૂતરે નિત્ય ૩ કિલો ચણ નાખવાની સુવ્યવસ્થા છે સ્થાનિક ૩ વ્યક્તિઓની સમિતિ દ્વારા આ કામ ચાલે છે


ભગવને શિધિ સિધિ આપી છે તેમાથી જે જીવદયાર્યે ખચાશે, તેનાથી માનવતાના, દયા ધર્મના મોઘેરા ફૂલો ખીલી ઉઠશે આજ પર્યંત ૩૧ ત્રણ લાખનુ ચણ નખાયુ છે

समाजसेवी शाकाहार क्रांति में समर्पित जीवन

श्री रतनलाल बाफना सराफ, जलगाँव



जलगाँव जिले के स्कूल में शैक्षणिक अधिकारी गाँव के मुखिया सरपंच प्रमुख गणमान्य व्यक्तियों के साथ श्री रतनलाल बाफना बच्चों को पुस्तकें व यूनिफॉर्म वितरित करते हुए।



जलगाँव जिले के ग्रामीण भागों में बच्चों एवं गरीबों को मासाहार का त्याग करवाने का आह्वान करते हुए श्री रतनलाल सी. बाफना।

समाजसेवा में समर्पित, धर्मपरायण, कर्मठ सेवाभावी, कर्मठ कार्यकर्ता, खानदेश क्षेत्र के सुप्रसिद्ध जौहरी श्री रतनलालजी सी बाफना सराफ जलगाँव समाजसेवा एव शाकाहार क्रांति के लिए अपना जीवन समर्पित कर रहे हैं। जलगाँव जिले में ही नहीं, परंतु संपूर्ण महाराष्ट्र, एव भारत में आपकी यज्ञगाथाओं, रचनात्मक कार्यों की सर्वत्र सराहनाएँ हो रही हैं। आप अपने व्यवसाय में तो प्रख्यात हैं ही, परंतु समाजसेवा एव शाकाहार के प्रति कार्य करने में भी आप काफी प्रख्यात हो रहे हैं। आप अच्छे

कवि, लेखक, गायक, प्रबुद्ध विचारक एव शाकाहार एव मासाहार त्याग के प्रचार-प्रसार की ओर अधिक ध्यान दे रहे हैं। आपने द्वारा की जा रही सेवाएँ एव रचनात्मक कार्यों का विवरण यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है —

- (1) जलगाँव में शीतल जल-गृह का निर्माण।
- (2) शाकाहार क्रांति का अद्भुत रिकॉर्ड कार्य।
- (3) महाराष्ट्र के जलगाँव जिले के प्रत्येक विद्यालय में सूचना पट्ट पर 'मासाहार से हानियाँ' के वाक्य लिखवाना।
- (4) आपके सद्प्रयासों से अनेक मासाहारी होटल शाकाहारी बनीं।
- (5) प्रतिदिन कर्मचारियों के समूह में प्रार्थना के पश्चात् व्यवसाय प्रारंभ करना।
- (6) स्वास्थ्य शिविरो का आयोजन करना।

आप हर वर्ष जुलाई माह में जलगाँव जिले के लगभग

300 गाँवों-कस्बों-शहरों के स्कूलों में जाकर गरीब बच्चों को पुस्तकें एव यूनिफॉर्म वितरित करते हैं। वहाँ स्कूलों में गाँव के गणमान्य व्यक्ति एव नेतागण कार्यक्रम में सम्मिलित होते हैं वहाँ पधारे हुए स्त्री-पुरुषों को मासाहार एव शराब एव उनके सेवन के दुष्परिणाम के बारे में समझाते हैं एव त्याग करवाने की प्रतिज्ञा करवाते हैं। पैसे खर्च करने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन पैसे का सही उपयोग कैसे करे एव एयर कंडीशन ऐंजो-आराम करने वाले एक धनपति स्वयं भूख-प्यास सहनकर यह कार्य करे ऐसा यह प्रथम एव अपने आप में एक अनूठा प्रयास है।

आपने महाराष्ट्र में अब तक लगभग 50 हजार लोगों को मासाहार एव शराब का त्याग करवा दिया है। जलगाँव शहर की गली-गली में शाकाहार के मुद्राक्य दीवारों पर लिखवा दिये हैं। शाकाहार के ऊपर आपने अनेक पुस्तकें मुद्रित भी करवायी हैं, जिन्हें लगभग 10 हजार स्कूली बच्चे पढ़ते हैं। शाकाहार रथ निकालने का भी आयोजन करने वाले हैं। कीर्तन मंडी में जो साधु या कीर्तन मंडलियाँ जहाँ भी कीर्तनों का कार्यक्रम होता है, आपके सद्प्रयासों में उन कीर्तन मंडलियों को शाकाहार प्रचार-प्रसार के लिए घोषणा, उपदेश देते हैं ताकि कीर्तन-भजन में आने वालों के मन पर शाकाहार का प्रभाव पड़े। मानवीय आहार शाकाहार नामक पुस्तक का आपने प्रकाशन करवाया है। वह पुस्तक सभी स्कूलों, वाचनालयों, शैक्षणिक मस्थानों, राजकीय कार्यालयों में भी निशुल्क भेंट की जावेगी।



श्री वर्धमान पशु सेवाश्रम एवं चिकित्सा केन्द्र प्रागपुर रोड, जक्शन, सून्द्रा-कच्छ (गुजरात)

PTR No E-12886-B

प्रबन्ध श्री जादवजी रवजी गगर (समाधोधा) वि स 2049

कार्यालय 3 गयना विन्डिंग, दत्तपाडा रोड बोरीवली (पूर्व) बम्बई- 400066 (महाराष्ट्र)

सहृदयी दान दाताओं,

अबोल प्राणीयो का अन्तर्नाद

बोल सकते नहीं बेचारे- समझावे कैसे

आसू टपकते अगणित अखि- चारो दिशाओ मे निहाले

हाथ फैला सकते नहीं- मागे तो किस तरह

कोई हमारा आंसू पूछो- कष्ट कोई तो मिटावो

मूगा अबोला प्राणियो के ऊपर- कोई तो दया करो

जीवन की चार गतियो मे से यह दुर्लभ मानव भ्रव है कि जहाँ दान की गंगा बहाकर पुण्योपाजन का पुष्प अर्जित किया जा सकता है। सभी दानो मे अभय गान ही सर्व श्रेष्ठ गान है। इस लिए तडफते हुए रोग ग्रस्त एवं अकाल ही बूढे ऐसे पशु जो हमारा जन जीवन के अनहद उपकारी है उनकी मराल करके उन्हें आर्य प्रदान करना यह भ्रम परमार्थ का कार्य है। अबोल जीवो की वेदना की जब अनुभूति होती है तब मनुष्य के अन्तर हृदय मे दया का दीप जल उठता है।

ऐसी सवेदना का उत्तम उपाय अर्थात्

श्री वर्धमान पशु सेवाश्रम एवं चिकित्सा केन्द्र

समाधोधा-कच्छ के वडिल प्रबन्ध श्री जादवजी भाई रवजी भाई गगर एवं मेवाभावी मित्रों के सहयोग मे इस सन्तुल की मध्य स्थापना हुई है। जो कच्छ प्रदेश के प्रेमो निवासियो के मगठन का अत्याधुनिक स्मारक बनेगा। इस मेवाश्रम की सक्रिय एवं प्राणवान बनाने के लिए अनेको उदाग दान दाताओ मे दान की गंगा बहाकर इस मर्या की नीव बाफ़ी मजबूत बनायी है कई दानदाताओ के सहयोग मे इस मेवाश्रम मे चतूतरा चार दिवारी एवं गट पानी की टकी पशुओ के लिए 3 मड, पशु चिकित्सालय डाक्टर रूम घास चारा का गोदाम स्टाफ रूम आदि का कार्य पूर्ण हो चुका है।

इसके अलावा भी इस मेवाश्रम मे अय कई विभागा के कार्य अभी भी बाकी बरने है जिनके दानदाताओ की प्रतीक्षा है।

पुण्य एवं मेवा के इस उत्कृष्ट कार्य के लिए सभी जीवदया प्रमी दानवीर महानुभाव सहकार प्रदान कर इसके निमाण की प्रत्येक इटो मे छोट वड सभी का नाम गुजता रह। छोटमे छोट व्यक्ति भी अपनी यथा शक्ति अनुसार अनुदान कर ऋण अदा कर सकता है। इस हेतु रुपए 1000/- की राशि का दान पत्र अवश्य करीए। इस राशि का डो निकाला जावेगा एवं भाग्यशाली दाताओ के नाम निम्न प्रकार मे प्रदान किय जावेगा।

(1) विन्डिंग मे मन नाम (2) चतूतरा के ऊपर नाम (3) पशुओ के मेड के ऊपर नाम (4) पहली मजिल पर व्योक्त न । के ऊपर नाम (5) स्टाफ रूम एवं अग्र जगह नाम

पशुधन बचाने के प्रचार का मुख्य केन्द्र

इस कार्य को पूर्ण बरने के लिए आग्रह सहकार की हम अत्यन्त आवश्यकता है। हमे पूर्ण विश्वास है कि आप इस और अवश्य ध्यात दण एवं मवा के कार्य मे सहभागी अवश्य बनेगे।

विनित

महेन्द्र आर सगोई (टोडा) प्रमुख
दहीमर 8934878

वानजी के महता उपप्रमुख
गोगगाव-8726010

हरी भाई वी धरोड (पत्री) मानदमत्री
बोरीवली 8060688

जयत पी गोगरी (भुजपुर) मानदमत्री
मनाड 8883759

हममुख आर गाला (प्रागपुर) बोधाध्यक्ष
मलाड 8822262

टी.टी.
अन्डरगारमैन्ट्स
अन्डरवियर • बनियान
ब्रा • पेन्टी • जुरावे • टी-शर्ट
आराम का दूसरा नाम (टी.टी.)

भाग-सप्तम्

विज्ञापन

GULSHAN

हार्दिक शुभकामनाओ सहित :

गुल्शन शुगर एण्ड केमिकल्स लिमिटेड

एव

सहयोगी कम्पनियां

उत्पादन प्लांटम

- * कैल्सियम कार्बोनेट
- * सोडियम हाइड्रोमलफाईट
- * फोरमिक एसिड प्लाट
- * सोडियम फॉर्मेट
- * क्राफ्ट पेपर

ऑफिस

- 1 धम्बई, 112-श्री बान्नाजी दसन तिलक भाग, फोन 6493749
- 2 मद्रास, 146-अन्नासलाई सदापठ, फोन 4192296
- 3 मुजफ्फरनगर, 45-बी, नई मण्डी, फोन 403655, 405578
- 4 मिवाटी, ए-595, इण्डस्ट्रीयल एरिया, फोन 220, 691, 692
- 5 नई दिल्ली, 121-मुण्देव बिहार, फोन 6839364, 6843822
जी-81, प्रीत बिहार, फोन 2214751, 2215802

चन्द्रकुमार जैन

डायरेक्टर

प्रदीपकुमार जैन

डायरेक्टर

सही समय पर योग्य सहयोग)

(जीवन के उत्सव का मानवीय अनुयोग

जीवन प्रकाश योजना

- * अ. भा. श्वे. स्थानकवासी जैन कान्फेन्स का रचनात्मक आयोजन
- * निम्न मध्यमवर्गीय भाई-बहनों के लिए उपयोगी सेवा योजना
- * किडनी, केन्सर, हार्ट आदि गम्भीर बीमारियों में तत्काल अर्थ सहयोग
- * प्रतिभाशाली छात्रों के उच्च अध्ययन में सहयोग

लाखों की अनुप्राप्ति, लाखों का अनुदान, अनेको लाभान्वित, अनेकों द्वारा प्रशमित. देनेवाले और पानेवाले दोनों का उपकार, समाज सेवा का पावन अनुष्ठान 'जीवन प्रकाश' योजना का लाभ जरूरतमंदों तक पहुंचाने में सहयोग दे 'जीवन प्रकाश' योजना में महयोग देकर अपनी उदारता का परिचय दे

जीवन प्रकाश योजना व्यय विवरण 1990-1993

| वर्ष | उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति (विदेश के लिए) | उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति (भारत में) | चिकित्सा सहायता | कुल रकम वितरित १ |
|----------------------------------|--|------------------------------------|-----------------|------------------|
| 1990-91 से 1992-93 (मार्च 93 तक) | 2,90,000/- | 8,16,555/- | 11,67,537/- | 22,74,092/- |

रजि. कार्यालय : - प्रेरक - जीवन प्रकाश योजना कार्यालय
 अ. भा. श्वे. स्था. जैन कान्फेन्स, स्व. श्री पुखराजजी लुंकड़ अ. भा. श्वे. स्था. जैन कान्फेन्स
 12, शाहीद भगतसिंह मार्ग, बम्बई 99, ओल्ड प्रभादेवी रोड,
 नई दिल्ली-110 001 वम्बई-400 025
 फोन 343729 फोन 4309536, 4306494

अनुरोधकर्ता

श्रीमती सुलोचना देवी लुंकड़

अध्यक्ष

⊗ जीवन प्रकाश योजना ⊗

PDR VIDEOTRONICS (I) Pvt. LTD.

99, Old Prabhadevi Road, BOMBAY-400 025
 Cable-SAGAREXPO-Telex 011-71214 PDR IN

श्रमण मर्षीय महाहोदार, अनुयाय प्रवक्ता, गणपत स्थानक पञ्चम पूज्य गुरुदेव श्री गणेशानन्दजी म मा
'गणपत', महाभागी श्री गणेश मुनिजी म मा, वागम मर्षीया श्री विश्वाम मुनिजी म मा आदि ठाण्णा
वा मदनाज विजनाइ म मन १९९३ वा चातुर्मास ता, दान, चरित्त एव वा
श्री गणेशानन्दजी म गणपत मर्षीया वनेन श्री मणवत वागमार्गे वरुण पूज—

हार्दिक शुभकामनाओ सहित :



श्री वर्धमान स्थानकवासी जैन श्रावक संघ

जन स्थानक, आययान महल्ला, मदनाज विजनाज
जिना जम्मेर (गस्थान) ३०५८०१

पारसमल वम्ब

अध्यय

फोन दुवान-३१५८

निवात-३२१२



पारसमल डोमी

मर्षी

॥ जय सोमाय ॥

॥ जय एपट्ट ॥

॥ जय महावीर ॥

॥ जय देवेन्द्र ॥

॥ जय पूज ॥

॥ जय उमेग ॥

श्रमण मर्षीय पूज्य गुरुदेव वरुणामूर्ति प रान थः एपट्ट मुनिजी म मा प्रवक्ता, पञ्चम पूज्य गुरुदेव
श्री उमेग मुनिजी म मा "जणु" आदि ठाणा ८ वा लामटो (पचमहान) (गुजरात) म मन
१९९३ वा चातुर्मास ता, दान, चरित्त एव वा ११ आगयता म आत प्रात वने,
मेरी पुम मणवतमनाथा व माय ।

धर्मशीला उदारमान वरुणोवेन, मागोलालजी दुग्गड

हमारै प्रतिठान

फोन-४६

शुभेच्छुवा-

(१) वर्धमान मेडिकल स्टोर

लीमटा (पचमहान) गजरात ३४९१४०

(२) वर्धमान प्लास्टिक

हनुमान बाजार, दाहोद (पचमहान)-३८९१५१

प्रकाशचन्द्र दुग्गड

हरेन्द्रकुमार दुग्गड

जयेशकुमार दुग्गड

श्रेयासकुमार दुग्गड



With best compliments from :

DUGAR FINANCE INDIA LIMITED

Regd. Office : "Dugar Towers", 123, Marshalls Road,
Post Box No 799, Egmore, MADRAS-600 008 (T.N.)

Phone : 8283535 (10 lines) Telex 041-6670 DUGRIN
Gram 'DUGFINANCE' Fax : 044-8281122

● HIRE PURCHASE

● LEASING

● PROPERTY DEVELOPMENT

● PUBLIC DEPOSITS

BRANCHES AT :

| | Phone No | | Phone No | | Phone No |
|---------------------|----------|------------|----------|--------------|----------|
| Adyar (Madras) | 412505 | Calicut | 63344 | Nellore | 27576 |
| Mount Road (Madras) | 831888 | Coimbatore | 37867 | Salem | 68769 |
| Mylapore (Madras) | | Ernakulam | 369515 | Secunderabad | 846006 |
| T. Nagar (Madras) | 441541 | Gudur | -830 | Tirupati | |
| Bangalore | 584422 | Madurai | 33663 | Visakapatnam | 46581 |

Dr. C. ANNA RAO

Chairman

N. TARACHAND DUGAR

Managing Director

॥ जय आत्म ॥

॥ जय आनन्द ॥

॥ जय देवेन्द्र ॥

॥ जय शिव ॥

श्रमण मधीय युवाचाय प्रवर्ग हा जिव मुनिजी म मा M A PHD, डी.एडि, श्री जितेंद्र मुनिजी म मा
श्री शंतेरा मुनिजी म मा, श्री गिरीप मुनिजी म मा जादि ठाण. 4 वा मस 1993 रय वा वेपेरी
मद्राम मे यजन्वी चातुर्मास ऐनिहामिन रूप म मपत्र होने री मगन कामना रने हुए वॉटी वॉटी वदन ।

हादिक शुभनामनाओ सहित ॥

श्री वर्धमान स्था जैन श्रावक संघ वेपेरी

21, ब्रिथापेट रोड, वेपेरी

मद्राम-600007 (तमिलनाडू)

फोन-585092

॥ जय आत्म ॥

॥ जय आनन्द ॥

॥ जय देवेन्द्र ॥

हादिक शुभनामनाओ सहित ।

श्री वर्धमान स्थानकवासी जैन श्रावक संघ

रूई कटला, श्री ह्धनाथ स्मृति भवन, पाली मारवाड 306401 (राजस्थान)

जन जन मे गजे यह नाग ।

श्रमण मध हो गवको प्यारा ॥

महामहिम राष्ट्रमत आषाय मस्राट 1008 श्री आनन्द ऋषिजी म मा की मुशिष्या मरविग शान बह्मचारिणी
पडिता महामतीनी श्री 105 श्री रामकुवर्गजी म मा जादि ठाण 5 वा पानी मारवाड मे विक्रम मदन
2050 वा (राजस्थान मे प्रथम) वपावाम धामिक, मासाजिन, रचनारमक कार्यों म ओत प्राप्त यनता
हुजा ज्ञान, ध्यान, जप-नप की आगप्रना मे मपत्र वने, यही मगन कामना करने हुए

बाबूलाल मेहता
अध्यक्ष



सायरचन्द्र गाधी
मन्त्री

॥ जय महावीर ॥

॥ जय अजरामर ॥

बृहद गुजरात के युगपुरुष शासनोद्धारक
जैनाचार्य श्री अजरामरजी स्वामी

—संक्षिप्त परिचय—

जन्म स्थली—पडाणा हालार, ता.—लालपुर, जिला—जामनगर(सौराष्ट्र), जन्म—वि.सं. 1809 जेठ सुद-9, माता—श्रीमति कंकुवाई, मातपक्ष का गौत्र—सुमरिया शाह, पिताजी—श्री माणकभाई खीयसी हरगण, गौत्र—मारु। चाचा—मेघाभाई खीयसी, बड़े भाई—वीरपालभाई जो नैनिहाल के गाँव मोटा लखिया जा कर बसे। फिलहाल भी उनका परिवार वहीं है, प्रपौत्रादि वम्बई व अफ्रीका में है। बड़ी बहनें—पुरी बहन, संतोक बहन, जीवी बहन वे अलग-अलग गाँव में व्याही गई। संसारी नाम—आणंदकुमार, दीक्षा—वि.सं. 1819 माघ शुक्ल-5, गोंडल (सौराष्ट्र), गुरुदेव—पूज्य श्री कानजी स्वामी, दादा गुरु—पू. श्री हीराजी स्वामी। विद्या गुरु—खरतरगच्छ के श्री पूज्य श्री गुलावचन्दजी एवं पूज्य श्री हुकमीचन्दजी महाराज की संप्रदाय के आगमसार वेत्ता पूज्य श्री दौलतरामजी महाराज (पूज्य श्री लालजी महाराज के पूर्वज)। कच्छ में चातुर्मास—8, विचरण—सौराष्ट्र, गुजरात-कच्छ, मारवाड, मालवा आदि। आचार्य पद—वि.सं. 1845 फाल्गुन शुक्ल-3, लीम्बड़ी (सौराष्ट्र), उत्तराधिकारी शिष्य—युवाचार्य श्री देवराजजी स्वामी, (जन्म स्थल—काडागरा-कच्छ), स्वर्गवास—वि.सं. 1870 श्रावण (भाद्र) कृष्ण-2, लीम्बड़ी (सौराष्ट्र)।

— सौजन्य —

समाजसेवी डी. टी. नीसर (भचाऊ वाले)

- मंत्री : अ.भा. समग्र जैन चातुर्मास सूची प्रकाशन परिषद्, वम्बई
प्रतिनिधि : जैनाचार्य अजरामरजी विद्याश्रम-भुज (कच्छ)
अध्यक्ष : श्रीयुत् मित्र मण्डल, भचाऊ, वम्बई संचालित विसामो
अध्यक्ष : अजरामर जैन युवा संघ, वम्बई

विसामो

(लेटेस्ट सुविधा पूर्ण जैन गेस्ट हाउस)

पो भचाऊ (कच्छ)—370140

卐 卐 卐

Tel : 3857755

KWALITY GARMENT

Family Shop for Readymade Garments

119-121, J. S. Road, Mantri Building

Opp Majestic Shopping Centre

BOMBAY - 400004

॥ जय आनंद

॥ नव महावीर ॥

॥ जय शिवे ॥

हादिक शुभकामनाओ सहित—

Pb 39168

श्री रमेश नमकीन भण्डार

नमकीन एव मिठाईयो के थोक एव खेरचो विक्रेता :

54, इमली बाजार, इंदौर (म प्र) 452 002

विशेषताएँ —

- * मावे री एव बगाली मिठाईया
- * शुद्ध देसी घी की सोटन पपड़ी, माहन हत्या
- * मलाई रोल एव बानू बत्तरी
- * शुद्ध मूगफली तेल स निमिन नमकान

शुभंभट्टक —

प्रो लक्ष्मीनारायण जैन

लक्ष्मीनारायण, रमेशचन्द्र, मुकेशकुमार

एव दिलीपकुमार

卐 खुश खबर 卐

आगमो के साराश

ममस्त जैन श्रीमया, सम्पात्रा एव पुस्तक भण्डारा क निय यह पुन गवर्न ई रि 32 आगमो के हिन्दी साराश को 32 पुस्तक आठ जिन्दा म नि मुक्त भेजा ता रहा २, पाण्ट एव आदि क निय 50/ र का मनीऑरटर भेजकर प्राप्त करें । आठ बुनिया की जिनम तारीख 30 नवम्बर 1993 है ।

सम्पक सूत्र — हनुमान लास

C/o श्री वधमान स्थानवचामो जैन श्रावक मघ

जैन स्थान, आनवानी सारात्रा, मदनगज-निगा तरा 305801

जिना अजमेर (राज)

श्री जैन दिवाकरजी म गा के मुनिष्प तपस्वी श्री वृद्धिचंदजी म गा प ग्गन श्री पद्मन मुनिजी म गा, बानवनि श्री सुभाष चन्नी म सा आदि ठापाना 3 का बजे मन्दरी (रा, स्थान) म मत् 1993या पानुर्माण मानन्द सम्पत्र हाने की मयन कामनाएँ करने हुए—

* सत साहित्य मंगवाईये *

* दिवाकर देन भाग 1 म 6 * दिवाकर पूव चिन्तन * मवक, * पराया, * गुलदस्ता, * स्वप्न जीर ममार
* एव आशाष पूज-नैन त्रिवाकर, * माग भाग, * सकल्प बार तिदि, * प्रीत की जैन, * राही रवा नहीं
* आदेश रामायण, * जैन मन्वन्ति पत्रित्व भाग 1 मे 15, * पयूपण व्याख्यान, * यद चरित्र * जैन आगम-(मुटवा माईज * महायन मनिवा चरित-

सम्पक सूत्र-मुनिताकुमार जैन (मप्रो) 卐 मुनि नायूसात जैन साहित्य विभाग

बाधरी मोहल्ला, मीमन मिठी (म प्र)

हादिक शुभकामनाओं सहित—

चाँदी के प्रजेंटेशन आर्टिकल्स का भव्य शोखूम

SILVER HOUSE

शुभ प्रसंगों के अवसर पर स्नेहीजनो को भेट स्वरूप देने के लिए एवं घर में बसाने के लिए 100% टच शुद्ध चाँदी के वर्तन—

सभी मंगल मुहूर्तों एवं मुप्रसंगों के लिए तथा लग्न प्रसंगों स्मरणार्थ, तपस्या, आदि के लिए शुद्ध चाँदी के सिक्के तथा लगड़ी 211, 5, 10, 15, 20, 25, 40, 50, 100, 150, 200, 250 ग्राम में मिलेगी।

शुद्ध चाँदी की 999 टच चाँदी की लगड़ियाँ, 211, 5, 10, 15, 20, 25, 50, 100, 200, 250 ग्राम में मिलेगी।

वैको, लिमिटेड कम्पनियों, संस्थाओं के ट्रेड मार्क के अनुसार चाँदी के सिक्के बनाकर दिये जाते हैं।

महावीर स्वामी, घंटाकर्ण महावीर, शखेश्वर पार्ष्वनाथ, नवपदजी, आदिनाथ भगवान, पद्मावती देवी, सिमंधर स्वामी, सरस्वती देवी, लक्ष्मीजी, गणपति, अम्बाजी, श्रीनाथजी, गायत्री देवी, स्वामीनारायण, जरथोम, मक्का, माईबाबा, संतोषी माता, दत्तात्रेय, त्रिमूर्ति, गणेश, लक्ष्मी, कृष्ण भगवान, शंकर भगवान, राधाकृष्ण, रामदरवार, ईशु क्रिष्च, आदि 55 भगवान देवी-देवताओं के सिक्के सही मूल्य पर मिलेंगे।

प्रजेंटेशन आर्टिकल्स चाँदी के कलात्मक नोवलेटीज, एवं अधतन अलंकारों के खरीदने का भरपूर मात्र स्थान !

फोन नं. दुकान { 3429459,
3420128

ANY THING & EVERY THING IN SILVER

प्रताप ब्रदर्स चाँदीवाला

235, जवेरी बाजार, बम्बई-400002 (महाराष्ट्र)

| | | | | |
|-----------------------|------------------|--|-----------------------|------------------|
| प्रतापभाई, निवास : | 3678516, 3521491 | | अनन्तराय भाई, निवास : | 4946717 |
| विजय भाई, निवास : | 3621960, 3616769 | | हंसमुखभाई निवास : | 3634128, 3616509 |
| प्राणलाल भाई, निवास : | 3621317, 3621904 | | | |

NO BRANCH

नोट—उद्घाटन शुभप्रसंगों के लिए चाँदी का ताला, चाबी, कैंची, क्रैसकैंट आदि सामान भी तैयार मिलता है।

॥ जय महावीर ॥

श्री मध्यप्रदेश जैन स्वाध्याय संघ

कार्यालय

महावीर भवन, इमली बाजार, इन्दौर (म प्र) 452002



उद्देश्य :

- (1) साधु-साध्वीजी महाराज के चातुर्मास लाभ म वचन धर्मों म पर्युषण पर्वाराधना हतु स्वाध्यायियों का भोजना।
- (2) आध्यात्मिक शिक्षण शिविरों का आयोजन करना।
- (3) विभिन्न क्षेत्रों म स्वाध्याय मध एव सामायिक मध की स्थापना करना।
- (4) विभिन्न क्षेत्रों म स्वाध्याय शालाओं की स्थापना करना।
- (5) नैतिक व धार्मिक भागृनि के लिए मासिक परिष्कार एव जय पत्रिकाओं का प्रकाशन करना।

विनम्र अनुरोध

- (1) यदि आपके यहां साधु-साध्वीजी मसा का चातुर्मास न हा ता, वृपया उपरोक्त पते पर एन माट पूव मध्यक कर, स्वाध्यायी जामशिन कीजिय।
- (2) यदि आप पर्युषण पर्वाराधन हेतु अपनी सेवाएँ प्रदान करना चाहत है ता, उपरोक्त पते पर सम्पर्क कीजिये।

सरक्षक फकीरचंद मेहता, श्रीमती मुबनरबरी देवी मण्डारी

नेमनाथ जन
अध्यक्षब्रह्मदत्त चौरडिया
कायाध्यक्षअशाक मण्डलिक
महामंत्रीगणेश बाबाना
प्रबंध मंत्रीमागरमल धोताला
कायाध्यक्षनगोल नारेसिया
तहकीकाध्यक्ष

स्व प्रबंधक मोहनलाल पोषाडा स्व

सभी पूज्य आचार्यों एवं साधु-साधवियों को कोटि-कोटि वन्दन !

हार्दिक शुभकामनाओं के साथ—

Phones : 3437323/3436072

NOBLE STORES

Manufacturers & Dealers of :

Air Pillows * Shoping Bags * Air Bags * School Bags
Ladies & Gents Money Purses * Plastic Raincoats &
Presentation Atricles

231/233 Janjekar Street, BOMBAY-400 002

卐

Tel : 3433544/3439214

TOHFA

Presentation Articles, Imitation Jewellery,
Ladies & Gents Money Purse & Plastic Raincoats

204/242, Janjekar Street,
Near Jumma Masjid, BOMBAY-400002

卐

शुभेच्छुक :

रमणिकलाल छाडवा

वम्बई

॥ जय आत्म ॥

॥ जय देवेन्द्र ॥

॥ जय आनंद ॥

समी पूज्य आचार्यों, उपाध्यायों, प्रबन्धकों, मुनिराजा गार्गीजा ममा के चम्पा म बाटि-नाटि पदर।
 आचार्य प्रवर श्री देवेन्द्रमुनिजी ममा श्री राजेन्द्र मुनिजी ममा, श्री हृषिकेश मुनिजी ममा श्री उमन मुनिजी ममा,
 श्री सोमनाथ मुनिजी ममा, श्री हृष मुनिजी ममा, मेराभायी श्री महल मुनिजी ममा, श्री रंजित मुनिजी
 ममा, डा श्रवणाजी ममा, श्री शांतिबुवाजी ममा, श्री चेतन मनिजी ममा श्री प्रराम मुनिजी ममा,
 श्री महेश मुनिजी ममा श्री प्रभाद मुनिजी ममा श्री महेश मुनिजी ममा 'रमल श्री पाग्य मुनिजी ममा,
 श्री विन्हा मुनिजी ममा, युवाचार्य डॉ शिवमुनिजी ममा श्री विमल मनिजी ममा इन सभी चारित्र्य आचार्यों
 का 1993 का चातुर्मास यज्ञश्री, स्मरणार्थ एक ऐतिहासिक बन लगी मणल कामना करत हूँ।

हादिक शुभकामनाओं सहित -

फोन ऑफिस-39649,
 निवा-61743

शांतिलाल कर्नावट ऋ श्रीमती इन्द्रा कर्नावट

कु ज्योति कर्नावट, कु चेतना कर्नावट, कु सपना कर्नावट

50 रंजित गांधी नगर प्लान-452009 (म प्र)



फोन निवा-67480

हस्तीमल विरेन्द्रकुमार कर्नावट

102 शिवम अपार्टमेंट विद्यामाली, इन्दौर 452002 (म प्र)



शुभेच्छुक :

समस्त कर्नावट परिवार, इन्दौर

॥ जय महावीर ॥

॥ जय अजरामर ॥

अजरामर-संघनायक की स्तुति

अजरामर जीवन ध्येय बनो, मुनि पुंगव प्रेरक प्राण बनो ।
अम अंतरदेव विधायक हो, अजरामर संघ सुनायक हो ।

पू. चित्तमुनि

स्व. पुण्यवंता आचार्य श्री रूपचन्द्रजी स्वामी के परम अंतेवासी, स्व. तत्त्वज्ञ कृपालु गुरुदेव श्री नवलचन्द्रजी स्वामी के सुशिष्य मुनिश्री भास्करजी स्वामी ठाणा 4 का यशस्वी चातुर्मास सर्वप्रथम हमें प्राप्त हुआ है। शासन प्रभावक पंडित रत्न श्री भावचन्द्रजी स्वामी के संगलमय शुभाशीष से सम्प्राप्त इस चातुर्मास में 9 (नव) तपस्वी भाई-बहन महान सिद्धि तप की आराधना में आगे बढ़ रहे हैं। धर्म प्रभावना विकासोन्मुख है।

इस चातुर्मास की हार्दिक शुभकामना करते हैं--

अवश्य मंगाइये

बड़े टाईप में लकड़ारी प्रकाशन

भक्तामर स्तोत्र (मूल पाठ)

कीमत-तीन रुपये मात्र

श्री सौराष्ट्र स्थानकवासी जैन संघ

घी कांटा, नगरसेठ वंडा

अहमदाबाद (गुजरात) 380 001

टेली 364234

बधाई

अध्यात्म साधिका, यागनिष्ठ, पूज्य श्री नूतन प्रभाजी म सा के परिवार में तीन पीढ़िया म मयम आराधना का पुनीत नम चल रहा है। आपकी ममार पत्नी नानीजा पूज्य श्री प्रीति मुधाजी म सा जिनका देवदावगमन 2 माच, 1973 का गिक्पुरी (म प्र) में हो चुका ह, अभी वतमान म आपकी सहवर्ती माध्विका म शासन प्रमादिका पूज्य श्री स्नेह प्रभाजी म प्रशान्त मूर्ति पूज्य श्री विमल प्रभाजी म एव मीतभापी पूज्यश्री गीतल प्रभाजी म नमम आपकी ममार पत्नी मीसीजी माताजी एव वहन है।

27 मई, 1989 का 14 वष की साधना प्रारंभ करने व मगन अवसर पर परमयोगिनी श्री शीतल प्रभाजी म का जेठ गुग् बहिन श्री स्नेह प्रभाजी म द्वारा प्रदन हादिक बधाई।

मुबारक, मुबारक, मुबारक
साधना प्रारंभ करने तुम्हें मुबारक,
छाटी उम्र में ही तुम
गुरुवर्या पूज्य श्री द्रव्युज्जी म व
चरणा म आई।
तुम मी प्रतिभावान गिप्या।
गुरु चरणा म अपित वर
नानी जी फूला न समाई।
पूज्य गुरुवर्या के सानिध्य म,
पढी लिखी जीवन त्रिभाषा
नानीजी म ने उचित देखभान वर
मम्कारित किया
वही उनकी महतत रग नाई
आज चादह वष की
बठिन साधना वा व्रत ल
तुमने सचमुच ही
जिनसासन की शान बनाई।
इसी हृष म जा म
द रही हैं
तुम्हें हादिक बधाई।
जरा, जरा करा प्रयत्न
निश्चयिन खूब जाम बमाई।

OFFICE

POPULAR TRADING CONear Jain Dharamshala
Ludhiana-141001 (Punjab)

FACTORY

POPULAR TRADING CONear Jain Sthanak Sunder Nagar,
Ludhiana 141008 (Punjab)

Ph (0161) 665794

मंगल आशीर्वाद

श्रमण सघ के वर्तमानाचार्य, तृतीय पट्टधर, साहित्य वाचस्पति, परम पूज्य श्री देवेन्द्र मुनिजी म.सा एव गुरु वर्या शास्त्र विगारदा, महासाध्वी पूज्य श्री इन्द्रकुंवरजी म सा. की आज्ञानुवर्तीनि मुशिष्या प्रतिभामृति, प्रखर वक्त्री, ध्यानयोगी पूज्य श्री नूतनप्रभाजी म. सा. को ववाह मे प्राप्त मंगल आशीर्वाद !

प्रिय वहिन साध्वी श्री नूतनप्रभाजी,

सादर सुखगान्ति ।

चौदह वर्ष के सुदीर्घकाल तक ध्यान साधना हेतु जो तुमने निगय लिया है, वह अच्छा है। मैं स्वयं चाहता हूँ हमारे श्रमण एव श्रमणियाँ ध्यान साधना में आगे बढ़े। जान और ध्यान साधना के दो ही लक्ष्य है। प्रसन्नता है, तुम्हारी रुचि ध्यान साधना की ओर है। ध्यान साधना में एक कीर्तिमान स्थापित करो तथा श्रमण मर्यादा विस्मृत न हो यह स्मरण रहे। जेप कुशल !

उपाचार्य श्री जी, की आज्ञा से

ओ.पी. जैन

आत्मप्रिय नूतनप्रभा के साधना के वारे में जानकर प्रसन्नता हुई। उसकी साधना के प्रति रही तीव्र लभन एव दृढ़ निश्चय उसे निश्चित ही पार लगायेगा। वह अपनी साधना में पूर्ण सफल हो, यही मेरा अन्तर आशीर्वाद है।

साध्वी इन्द्रकुमारी

मंगल कामना

हिमाचल की धरती है शान्त पावन,
करके वहाँ पर ध्यानार्थ निवास।
पूज्य श्री नूतन प्रभा जी महाराज,
बना रहे है एक नूतन इतिहास।

पूर्ण मौनव्रत के साथ आरम्भ की आप श्री की साधना के दो वर्ष की पूर्णता के अवसर पर हम आप श्री का हार्दिक अभिनन्दन कर आगामी साधना की सफलता हेतु हृदय से अनन्त-अनन्त मंगल कामनाएँ प्रकट करते हुए आपके पावन श्री चरणों में शत-शत वंदन करते हैं।

हार्दिक शुभकामनाओं सहित

सम्पर्क सूत्र—

जैन साधना केन्द्र

नूतन साधनालय

मु पो भून्तर-175125

जिला कुल्लू (हिमाचल प्रदेश)

बलवीरचंद जैन

मैसर्स ए. बी. रबर मिल्स,

गाँव संगल सोहल,

पोस्ट—मड, कपूरथला रोड, जालन्धर-144002

दूरभाष—ऑफिस : 79631 निवास . 74009

नोट.—परम श्रेष्ठ, साधनालीन पूज्य श्री नूतनप्रभाजी महाराज के मंगलमय पावन सुदर्शनों का लाभ सिर्फ प्रातः 10 से 11 बजे तक ही प्राप्त होता है।

श्रीमद् बुद्धिसागर सूरी जैन समाधि मन्दिर, वीजापुर द्वारा प्रकाशित साहित्य

आचार्य श्रीमद् सुबोध सागर भूरीश्वरजी म सा एव आचार्य
श्री मनोहर कौलि सागर सूरीश्वरजी म सा द्वारा सम्पादित
श्री चोबीस तीर्थकर चरित्र (गुजराती भाषा में)

| क्रमांक | पुस्तक का नाम | साहित्य | मूल्य |
|---------|--------------------------|------------------------------|-----------|
| 1 | धर्म बनी धरा | श्री कृष्णनाथ भगवान | 20-00 |
| 2 | आस्था ना जाऊंग | श्री अतिनाथ भगवान | 20-00 |
| | | श्री मधुनाथ भगवान | 20-00 |
| 3 | खुनें आध रत्न नाथ | श्री जमिन्दर भगवान | 20-00 |
| | | श्री सुमन्नाथ भगवान | 20-00 |
| 4 | ग्रथ खुनें ग्रथि टटे | श्री पद्म प्रभु स्वामी भगवान | 20-00 |
| 5 | लागे लगन वृक्ष अंगन | श्री सुपाशवनाथाय भगवान | 20-00 |
| 6 | आध नरम सपना गरम | श्री वेदप्रभ स्वामी भगवान | 30-00 |
| 7 | अंतर नी उजाम | श्री सुविंश नाथ भगवान | 30-00 |
| 8 | परमाथ ना पुष्पा | श्री मोतील ग्रथ भगवान | 30-00 |
| 9 | बिंदु एक मिनु अन्न | श्री ध्यान नाथ भगवान | 30-00 |
| 10 | तणखा झर मनखी फने | श्री धामुपूज्य स्वामी भगवान | 30-00 |
| 11 | बरे जतन मने रत्न | श्री विमलनाथ भगवान | 30-00 |
| 12 | टटे तार खुलें डार | श्री जननाथ भगवान | 30-00 |
| 13 | सूषा तन भीना मन | श्री धमनाथ भगवान | 30-00 |
| 14 | नात भीना जन्तरीधा | श्री गानिनाथ भगवान | 30-00 |
| 15 | दरिद्रि खुनें सुखि मित्र | श्री कुंभनाथ भगवान | 30-00 |
| | | श्री अरुनाथ भगवान | 30-00 |
| 16 | भीना जतर सुध समदर | श्री मन्मोहाय भगवान | 30-00 |
| 17 | उद्योगि जल्लये कर | श्री मनि सुजन स्वामी भगवान | 30-00 |
| 18 | मम्हनि ना स्वण स्वात | श्री रामादाय | 35-00 |
| 19 | भावभरे भव तर | श्री नमिनाथ भगवान | 30-00 |
| 20 | भीनाथ भाई उजाग | श्री नर्मिताय भगवान | प्रेस में |
| 21 | ज्वालि जने जिन्गी फन | श्री पाशवनाथ भगवान | प्रेस में |
| 22 | उछले उमि अतर मा | श्री महाजीय स्वामी भगवान | प्रेस में |

तरगवती 30/- सतना व्राजैव 20/- आभ उचरो आभापति 35/-

मुनिवर्य श्री उदयकौलि सागरजी म सा द्वारा सम्पादित साहित्य


| | | | | | |
|------------------|-------|----------------|------|----------------|-------|
| चिन्तगारी | 25-00 | युवानो को मदेग | 5-00 | पानमना बजवा ने | 10-00 |
| बहुत मई पाठी रही | 8-00 | जाणो जन माणो | 8-00 | प्रभर वनेंगु | 10-00 |
| जग घोमो | 5-00 | | | | |

सम्पर्क सूत्र - श्रीमद् बुद्धिसागर सूरी जैन समाधि मंदिर

स्टेशन रोड, मु पो वीजापुर जिला महेशाणा (गुजरात)-382 870

फोन न (एम टी डी 02763) 20209


परम श्रेष्ठेय उपाध्याय श्री केवल मुनिजी म मा आदि ठाणा बैंगलौर, प्रवर्तक श्री रमेश मुनिजी म मा
आदि ठाणा डूंगला एवं श्री सुरेश मुनिजी म मा अ दि ठाणा भायन्दर बम्बई में वर्ष 1993
का चातुर्मास ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य एवं तप की आराधना में परिपूर्ण होने की
मंगल कामना करते हुए !



परस्परेयगही जीवात्म,

हादिक शुभकामनाओं के साथ—

श्री मेवाड़ भूषण प्रताप मुनि श्रमण
सेवा समिति (रजिस्टर्ड)
उदयपुर (राज.)



कन्हैयालाल नागौरी **सुखलाल कोठारी** **इंद्रसिंह वाबेल**
अध्यक्ष कोषाध्यक्ष मंत्री

॥ जय महावीर ॥

॥ जय अजरामर ॥

जनशासन में गौरवशील 100 श्रमण श्रमिणाओ के धमसप के नायक

श्री स्थानकवासी छ. कोटि जैन लिम्बडी सम्प्रदाय के नवसस्कर्ता

शासनोद्धारक जैनाचार्य श्री अजरामरजी म की

कच्छी-हालारी बीसा-ओसवाल जैन महाजन-जाति का सक्षिप्त इतिहास

वि स 1213 मे मारवाड (राजस्थान) मे युगप्रधान आचायप्रवर श्री जयमित्तमुरीजी के उपदेश म बहुत मे क्षत्रिय गणना का जीवन परिवर्तन हुआ उन्होंने व्यसन-त्याग किया और नैतन्यम अंगीकार किया। उन सभी का आचायश्री ने उम वयस जा रीमा आमवान जैन ममाक था उमम गामिन किने।

वि स 1455 में 1462 तक मान वय का गरी जान पवन म बहुत म आमवाल परिवारी ने मारवाड छोडकर सिंधु नदी का प्रवेश मित्र प्रान्त म थरपारकर प्रदेश म काफी रयी तक बसावट किया।

बुछ वयी के बाद मित्र म हिन्दू-राजाका क वजाय मुनिम मतीवीगा की राजसत्ता आ जाने से अपना जैनधम बचाने के लिए वे मिथ प्रदेश छोडकर कच्छ प्रान्त का पूव विभाग जिमका "वागड" प्रदेश (रापर और मचाक तहसीली) कहा जाता ह, उमकी उत्तर दिशा म दिल्ली का देश पार करके अडीर (रण के बीच खेती के लायक टापू हैं) हासर वागड के प्राचीन रजवाडा कचकाट शहर मे बसावट किया। बुछ वय तक वही रहने के बाद एक दफे वहा के ठाडुर माहर के पुत्र धुवराज धुवर के गैर-धनीके के प्रावजूद मतमेद हो जाने मे स्वमान रक्षा-हत् वहा मे हिजगन कर दी। याद रह उम जमाने म उन आमवाना का मुख्य व्यवसाय श्रुपि एन पणुपालन ही था। दुधई-मडवा शहर क नन्दीव नदी म विश्रान्ति नैन के हेतु पडाव रखा था। इम मीके पर कचकाट ठाडुर आये। धमायाचना की। ठहर जाने की विनक्ति नैन के हेतु पडाव रखा था। इम मीके जानर उन्होंने वागड प्रान्त म 24 गाव वमाय। बुछ परिवार पश्चिम कच्छ म गय, उनमे मे वडी (मून्डा-माडवी समुद्र किनारा का विस्तार) म 52 गाव एव अन्डाना विस्तार म 42 गाव उमाय गय।

वि स 1565 म कच्छ छोडकर जाम रावन नाम के परानमी जाडेजा वगज राजा हालार म अपने राज्य की स्थापना कर रह मे। उनकी विनक्ति म बहुत म आमवान परिवार खेती (श्रुपि) व्यवसाय के लिए हालार मे आ गण। आगे जाकर भा कच्छ से रहन म परिवारा ना जागमन जारी रहा। इम मिलसिले म कच्छ ममागत इन जैन आमवाल का 52 गाव म बसवाट फेन गया। बुन मिताकर कच्छी जैन बीसा ओसवाला 4 विभाग म (1 वागड, 2 रडी, 3 जडामा और 4 हालार) बसवाट हुआ। 170 गाव मे बसे हुए इन चार विभाग के आमवालो मे आज 500 मान के बाद भी मामाय-मा फन बाद करके पूरी मानभाषा "कच्छी" है। एमदथ पूजनी अजरामरजी स्वामी की मानभाषा मीठी मधुर वानी "कच्छी" ही थी।

पूज्यश्री की हालारा बीसा-जागवाल जैन महाजन जाति की कुन जानगी जामनगर एव हालार के 52 गाव, कच्छई, लदन, अफीवा, मणोप-अमराना एव मारल के अयन शहरा म स्थित करीव 68 मे 70 हजार की मानी जती है। गौरवशील एम जाति म मन्प्रथम जैन भागवती दीता आज मे 230 वय पूव वि स 1819 माप शुक्र-5 का पुत्र अजरामरजी स्वामी एन माना कबुवाई महामनीजी न ही जगीकार की थी। इस गाँव के वे ही मन्प्रथम माधु और माधवी थे, और वे ही मन्प्रथम आचाय भगवत थे जो सिफ 35 वय की भ्रज जावन अवस्था म आचायपद जामीन हाकर जैनता की खन चमनाया था।

आज उनमे अनुगामी 400 सत-मतिवाजी म मा एव नाका आवन-श्राविकाजा क हृदय म भगवान महावीर के बाद द्वितीय नवर मे आराध्यदेव स्वल्प अरर स्थान ह तो उही का है। वे ही उनमे प्रेरणा सान व श्रद्धा के वे द्र हैं।

सशोधक — पुण्यपुत्र आचायश्री सचद्रजी स्वामी के परम अन्तेवासी तत्त्वज्ञ पंडित शृपाल गुरदव श्री नवलचद्रजी स्वामी के शिष्य सुलेखक, प रतन मुनिश्री भास्करजी-स्वामी म मा।

सौजय

0 सामायिक मूत्र (इतिसं लिपि) 0 भक्तामर स्तोत्र (बडे टाइप) अवसय मगाइये।

अजरामर जैन युवा सघ, बम्बई

फोन-3857755

अध्यक्ष डी.टी. नीसर के/ऑफ क्वालिटी गारमेन्स

119-121, जे एम

रोड, मत्री बिल्डिंग, मेजेस्टीक सिनेमा के सामने, गिरगाम, बम्बई 400004

॥ जय गुरु नाना ॥

जिन शासन प्रद्योतक, धर्मपाल प्रतिबोधक, समता दर्शन प्रणेता, समीक्षण ध्यान योगी, परम श्रद्धेय आचार्य श्री 1008 श्री नानालालजी म.सा. तपोनिष्ठ युवाचार्य श्री रामलालजी म.सा. आदि ठाणाओ का इस वर्ष देशनोक चातुर्मास मे ज्ञानदर्शन, चारित्र एव तप की अभिवृद्धि हो ऐसी मंगल कामना करने हुए !

नाना गुरु का है सन्देश,
समतामय हो सारा देश !

हार्दिक शुभकामनायें

श्वेतमल राणीदान बोथरा

बरतनों के थोक व्यापारी

शनीचरी बाजार, दुर्ग, (म. प्र.) 491001

—शुभेच्छुक—

शवलमल, धर्मपाल, प्रदीपकुमार बोथरा

शवल बोथरा

कोषाध्यक्ष,

वर्तन व्यापारी संघ, दुर्ग

राणीदान बोथरा

छत्तीसगढ़-दुर्ग शाखा संयोजक

अ.भा. समग्र जैन चातुर्मास सूची, प्रकाशन परिषद बम्बई

सभी पूज्य आचार्यों, साधु-साध्वियों को कोटि-कोटि वन्दन ।

हादिक शुभकामनाओं सहित :



URMILON

Urmilon Silk Mills

HIGH QUALITY SUITING, SHIRTING, SAREES &
DRESS MATERIAL MANUFACTURERS

453-E, Kalbadevi Road, Chukhal House, BOMBAY-400 002

☎ Office 2053214, 2052173, 2088740 Rest 2185002, 2187640

Gram-MALMAL KING



- शुभेच्छुक् -

जवाहरलाल बोकाडिया, बम्बई

શ્રી સુધર્મસ્વામિને નમઃ ॥ ૫૫ પ્રગટપ્રભાવિ શ્રી શંખેશ્વર પાર્શ્વનાથાય નમો નમઃ ॥ ૫૬ શ્રી રાજ રાજેશ્વરી શ્રી પદ્માવત્યે નમઃ ॥

॥ શાસન સમ્રાટ તપાગચ્છાધિપતિ શ્રી વિજય નેમિ-લાવણ્ય-દક્ષ સૂરીશ્વર સદ્ગુરુભ્યો નમઃ ॥

ભગવાન શ્રી મહાવીર પ્રભુની ૭૬મી પાઠેસ્થાપિત જિન શાસનના મહાન જ્યોતિર્ધર શાસ્ત્ર વિશારદ
પરમપૂજ્ય આચાર્ય શ્રીમદ્ વિજય દક્ષસૂરીશ્વરજી મહારાજ સાહેબના ચરણકમલમાં કોટી-કોટી વંદના...



ભારતમાં સર્વપ્રથમ શ્રી સમવસરાગ મહામંદિર અગાસીતીર્થ બંધઈ.

અમારા... પ્રાણ... આધાર... ઉપકારી હે! ગુરુદેવ. આપ જિન શાસનના રાજ... મહારાજ હતા, આપના સમાધિમય કાળધર્મી જિનશાસનમાં તુરંત તેવી જગ્યા ખોટી પડી છે.

- * આપના અમારા ઉપર અસંખ્ય... અગણિત ઉપકારો છે.
- * આપ અમારા નાથ હતા અમારા જીવન આધાર હતા.
- * સંધ... સમાજના અને પ્રાણીમાત્રના આપ હિતચિંતક હતા.
- * આપના સંયમ જીવનની સુવાસથી અમે આકર્ષિત થયા છીએ.
- * આપના તપ-ત્યાગ અને નિસ્પૃહતાથી પ્રભાવિત થયેલા અમે સમતાના સાગર... કરુણાના સિન્ધુ... આચાર્ય દના ઉદ્દેશ્યથી અલંકૃત આપને
- * દેવ-ગુરુ અને ધર્મના સિદ્ધાંતોની અમજીવનમાં સ્થાપના કરનારા આપને આપના ચરણમાં શ્રદ્ધાભરી વંદનાજલી અર્પિએ છીએ.
- * આપના આર્થીવાદના બળે આપના બતાવેલા રાહ પર અમે ચાલવાનો... સંકલ્પ કરીએ છીએ.
- * આપના પુણ્ય હસ્તે... આપની પવિત્ર પ્રેરણાના બળે ભારતભરમાં ક્યાંય નથી તેવા અદ્ભુત શ્રી સમવસરાગ મહામંદિર આદિ લાલ્ય સ્થાપત્યો ભાવિકજનોનું કલ્યાણ કરી રહ્યાં છે.
- * પૂ. ગુરુદેવશ્રીનો સમાધિમય કાળધર્મ ભીલંકી (આરાધના ભુવન) મુકામે તા. ૧૧-૩-૮૩ ગુરુવારે ૮-પથના થયો હતો. અગ્નિસંસ્કાર પાર્શ્વનગર અગાસી તીર્થ મુકામે તા. ૧૨-૩-૮૩ના રોજ હજારો... લાખો ભાવિકજનોની અશ્રુભરી આંખો વચ્ચે થયો હતો. લાલ્ય ગુરુમંદિરનું નિર્માણ થનાર છે થશે.

લિ. અમે છીએ.

આપના શિષ્યો... પ્રશિષ્યો... ટ્રસ્ટીઓ... ગુણાનુરાગી શ્રાવકો. ગૃહસ્થો... તથા ચતુર્વિધ શ્રી સંધ

ભાલભરી વંદના

લિ. શ્રી શંખેશ્વર પાર્શ્વનાથ જિન ટ્રસ્ટ તથા શ્રી પાર્શ્વનાથ ચેરટિભવ ટ્રસ્ટના ટ્રસ્ટીઓ શ્રી પાર્શ્વ પદ્માવતી કાઉન્સિલર પુવક સંધ અને ભારતભરના ગુરુભક્તો

મોજન્દ:- શ્રી અદ્યક્ષભાઈ એમ.શ્યામ પરિવાર. ક્વાસીક એક્ટીવિસન્સ શ્રી વસંતભાઈ જ્ઞેયચંદજી ભંડારી સાયોનારા હાઈકેશન ચેમ્બુર-૨. શ્રી સદ્વચંદજી મુનીલાલજી ચૌહાણ ખુશાવા રાજ. ગોરગામ.